

श्रीः ।

बृहन्निघण्टुरत्नाकरे

चतुर्थभागः ४.

(चिकित्साखण्डः)

मथुरानिवासिमाथुरचतुर्वेदिकृष्णलालतनय

पण्डित-दत्तरामविरचितः ।

Suc /
DAT

—
स च

खेमराज श्रीकृष्णदासेन

मुम्बय्यां

स्वकीये “श्रीवेङ्कटेश्वर” मुद्रणयन्त्रालये

मुद्रयित्वा प्रकाशितः ।

संवत् १९५५, शके १८२०.

इस पुस्तकका रजिस्ट्री सब हक “श्रीवेङ्कटेश्वर” यन्त्राधिकारी

ने स्वाधीन रक्खा है ।

प्रस्तावना.

धर्मार्थकाममोक्षानामारोग्यं साधनं मतम् ।

समस्त पीयूषपाणि भिषग्वरों को हम अत्यंत विनयपूर्वक बड़े उत्साहके साथ आज विदित करते हैं कि,—अहो समस्तभूमंडलनिवासिसद्वैद्यमहाशयो ! यद्यपि इस भूतलमें आयुर्वेदका प्रकाश प्रायः सर्वत्र सुप्रसिद्धही है तथापि जिसके प्रभावसे यावज्जीवमात्रोंके प्राणधारणादिक व्यापार यथावत् चल रहे हैं. जिससे इस क्षणभंगुर मानवीय शरीरमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं, उस आयुर्वेदके अनेक आचार्योंने अनेक संहिताग्रंथ बनाकर प्रसिद्ध किये हैं परंतु उन ग्रंथोंके अनेक मतोंके अनुरोधसे अनेक प्रकारके निदान, लक्षण, चिकित्सा आदिक प्रकरणोंका क्रमसे ज्ञान होना कठिनथा, इसलिये हमने पंडित दत्तरामजी चौबे मथुरा निवासीके द्वारा सर्व वैद्यकशास्त्रके संहिता ग्रंथोंको मंथन करके ऐसा एकग्रंथ बनवाया है कि, जिसमें शरीरचिकित्साके अनेक उपायोंको सर्व-भिज्ञानभिज्ञ वैद्य व सर्व साधारण जनभी अक्षरमात्रकी पहँचानसे वे प्रयास जान लें—जिस ग्रंथका नाम “बृहन्निघंटुरत्नाकर” रक्खा है, और जो इस सर्व भारतखंडमें सुप्रसिद्ध है, वर्तमान समयमें विद्याके अभावसे लुप्तप्राय होगयाथा उसका यह चतुर्थ भाग “चिकित्साखंड” जो चिकित्सा प्रकरणमें आदिसे अंततक सब प्रकारकी चिकित्साओंसे विलकुल परिपूर्ण है, सो यह आप महाशयोंके सेवन करनेके योग्य तैयार होकर प्रकाशितहुआ है. इसमें जो विषय हैं, उनमें अनेक २ उपायोंके साथ चिकित्सा कही है, जिनका बृहत् विस्तार अनुक्रमणिकासे आप महाशयोंके चित्तको प्रसन्न करेगा, ऐसी हम आशा करते हैं और उम्मेद रखते हैं कि,—इस सर्वोपयोगी अत्यंत उपकारी चिकित्साके ग्रंथ सरीखा दूसरा कोईभी वैद्यक ग्रंथ इस भूतलमें आज तक छपाभी नहीं होगा, इसलिये सर्व सुयोग्य महा-

शय इस ग्रंथका उदार आश्रय लेकर सर्व प्राणीमात्रके रोग नष्ट-
करके धर्म आदिक चतुर्विध पुरुषार्थको सिद्धकर अपने जन्मका
सार्थक करेंगे.

इस बृहत् ग्रन्थके आठ भाग हैं तिनमें १, २, ३, ४, ५, ६, ये
छःभाग मथुरानिवासि विज्ञ पंडित-दत्तरामजी द्वारा निर्माण हुये हैं.
और ७, ८ इन दोनों भागों को परमोदारचरित श्रीधन्वन्तरि शास्त्र
पारावार पारीण मुरादावाद निवासि श्रीलाला शालिग्रामजीने
बनाया है. जिनमें संपूर्ण औपधियोंके अनेक देश देशांतर (भापा)
प्रसिद्ध नाम और गुणदोषोंका सविस्तर वर्णनके अतिरिक्त इसमें
संपूर्ण औपधियोंके विज्ञानार्थ चित्रभीदिये हैं. जिसका नाम "शालि-
ग्रामनिघण्टुभूषण " रक्खाहै ऐसे १ से लेकर ८ भागोंमें यह "बृह-
न्निघण्टुरत्नाकर" ग्रन्थ सर्वाङ्ग सुन्दर परिपूर्ण हुआहै हमारी दृढ
आशा है कि, इन आठों भागों सहित "बृहन्निघण्टुरत्नाकर" ग्रंथको
संग्रह करनेसे फिर आयुर्वेदके कोई विषय जाननेकी आवश्यकता
न रहेगी, इसलिये संसारको बडाही उपकारक जान मैंने निज
"श्रीवेङ्कटेश्वर" छापाखानेमें मुद्रितकर प्रसिद्ध कियाहै.

अंतमें सर्व सज्जन महाशयोंको निवेदन है और आशाकरतेहैं
कि, इस संपूर्ण ग्रंथको संग्रह करके उपरोक्त दोनों विद्वानोंके परि-
श्रमसे संस्कृत सह भापाका अपार आनंद अनुभव कर जन्म पर्यंत
इस पुस्तक की पूर्ण शक्तिसे निरोग रहेंगे और हमारे हृदयोत्साह-
को बढावेंगे ॥

आपका कृपाभिलाषी-

खेमराज श्रीकृष्णदास,

"श्रीवेङ्कटेश्वर" सद्रणालयाध्यक्ष-मुंबई.

विषय.	पृष्ठांक.	विषय.	पृष्ठांक.
आगंतुकज्वरचिकित्साक्रम ...	१४२५	ओषधीगंधसेहोनेवालाज्वर...	१४३०
अभिचार ।		चिकित्सा
अभिचाराभिघातज्वरनिदान	॥	सर्वगंध ...	१४३१
अभिचारज्वरचिकित्सा	१४२६	कामज्वर ।	
अभिघातज्वरपरचिकित्सा	॥	कामज्वरनिदान	॥
सामान्यउपचार ...	॥	चिकित्सा ...	॥
व्यधादिकोंपर ...	॥	दूसराप्रकार	॥
मार्गश्रमजन्यज्वरपर	॥	तीसराप्रकार	१४३२
दूसराप्रकार	१४२७	चौथाप्रकार	॥
भूताभिपंगज्वर ।		पाचवाँप्रकार ...	॥
दूसराप्रकार ...	॥	छटाप्रकार	॥
सामान्य चिकित्सा ...	॥	सातवाँप्रकार ...	१४३३
त्रिकद्वादियोग	॥	भयशोककोपइनसेपैदाहुवाज्वर ।	
गंधकादियोग ...	॥	भयशोकज्वरनिदान ...	१४३३
अष्टमूर्तिस ...	१४२८	सामान्य उपचार....	॥
मधूकनस्य ...	॥	चिकित्सा	॥
व्योपादिनस्य ...	॥	कामज्वर वा क्रोधज्वरइसपर	
सहदेवीमूलिकाबंध ...	॥	सामान्य उपचार	१४३४
सूर्यावर्तबंध ..	॥	क्रोधज्वर चिकित्सा	॥
विजयाबंध	१४२९	विसर्पादिज्वरेघृतपान ...	॥
पुष्पार्कयोग	॥	विषमज्वर ।	
मृत्तिकातिलक ...	॥	विषमज्वरकीसंप्राप्ति ...	॥
मंत्र ...	॥	दूसराप्रकार	॥
अभिपंग ।		विषमज्वरके नाम	१४३५
अभिपंग ज्वरपर चिकित्सा	॥	संततादिकोंमें नियतद्रव्य	॥
अभिशाप ।		विषमज्वरचिकित्सा ...	॥
अभिशापज्वरपरचिकित्सा	१४३०	शोधन....	॥
दूसराप्रकार ...	॥	विषममें अन्न ...	१४३६
विषजन्यआगंतुकज्वर ...	॥	दूसरे प्रकारके अन्न ...	॥
		विषमज्वरपरसामान्यचिकित्सा	॥
		घृतपान	॥

विषय.	पृष्ठांक.	विषय.	पृष्ठांक.
वाताधिकविषमज्वर १४३६	भृंगराजचूर्ण १४४४
पित्ताधिकविषमकीचिकित्सा	.. ११	दीप्यादिचूर्ण ११
कफाधिकविषमचिकित्सा	... १४३७	पंचसार	... ११
मार्कंड्यादिपाचन	... ११	पद्मकादिसार ११
महौषधादिपाचन ११	लशुनादिकल्क ११
पाचन व रेचन ११	गुड्डीकल्क	... १४४५
द्राक्षादिपाचन	... ११	विषमपर महाज्वराकुशरस ११
कुमारीमूलादिवमन १४३८	दूसरारस	... ११
पटोलादिकाठा	... ११	मेघनाथरस	... १४४६
यष्ट्यादिकाठा	... ११	गोपीड्यादिघृत	... ११
मुस्तादिकाठा	... ११	पंचतिक्तकरस	... ११
महाबलादिकाठा	... ११	पट्टपलघृत	... १४४७
नागरादि दूसराकाठा ११	क्षीरपट्टपलघृत	... ११
पटोलादिकाठा	... १४३९	दूसराप्रकार	... ११
कुलकादिकाठा	... ११	अमृताद्यघृत	... १४४८
भाग्यादिकाठा	... ११	शुंठ्यादिघृत	... ११
दूसरा भाग्यादिकाठा ११	चंदनाद्यघृत	... ११
निशाद्यंजन १४४०	महाकल्याणघृत	... ११
नरकेश नस्य	... ११	कल्याणघृत	... १४४९
कणादिनस्य	... ११	कोलादिघृत	... ११
सैधवादिअंजन	... ११	अमृतपट्टपलघृत	... १४५०
लशुनादि अंजन	... ११	घृतपान	... ११
चतुःषष्टिककाठा	... १४४१	पदतक्रतैल	... ११
निवादिचूर्ण	... ११	लाक्षादितैल	... ११
जीरकादिचूर्ण	... १४४२	दूसराप्रकार	... १४५१
उ... व द्रौणपुष्पीस्वरस	... ११	पदचरणतैल	... ११
कुमारीमूलाकादियोग	... ११	अजादिधूप	... १४५२
वर्धमानपीपल	... ११	वचादिधूप	... ११
गुडजीरकयोग	... १४४३	मसुराधूप	... ११
हरडादिकोंकाचूर्ण	... ११	सहदेव्यादिधूप	... ११
वंदाकयोग	... ११	गुग्गुलादिधूप	... ११
निवादिचूर्ण	... ११	माहेश्वरधूप	... ११

विषय.	पृष्ठांक.	विषय.	पृष्ठांक.
सर्पत्वचादिधूप १४५३	दान १४५९
पलंकपादिधूप ११	तर्पण ११
माहेश्वरधूप ११	उलूक पक्ष बंध अन्येद्युष्कर	११
निवपत्रादिधूप ११	वासादि काढा ११
मार्जारविष्ठाधूप ११	पटोलादि काढा ११
सहदेवीमूलिकाबंध	... १४५४	अंजन १४६०
वैदिबंधन ११	एकाहिकादिकोंमें हिंयुल योग	११
उलूकपक्षबंध ११	तृतीयकज्वर ।	
गोपालिकामूलबंध	... ११	तृतीयक ज्वरनिदान	... ११
भूतकेशीमूलबंध ११	महौषधादि काढा	... ११
निर्गुडीबंध १४५५	शिशिरादि काढा	... ११
कह्लेरमूलिकाबंध	... ११	उशीरादि काढा १४६१
संततज्वर ।		शीत भंजीररस ११
संततज्वर निदान	... ११	अपामार्ग मूलिका बंध	... ११
पटोलादि काढा ११	वाराही मूलिका बंध	... ११
दूसराप्रकार १४५६	चातुर्थिकज्वर ।	
तिसराप्रकार ११	चातुर्थिक ज्वर निदान	... ११
चौथाप्रकार ११	विषमके सामान्य उपद्रव	... १४६२
आमलक्यादि काढा	... ११	सामान्य चिकित्सा	... ११
ज्वरभेद ११	दूसरा प्रकार ११
संतत वा अन्येद्युष्कादि निदान	१४५७	तिसरा प्रकार १४६३
त्रायंत्यादि काढा	... ११	वासादि काढा ११
पटोलादि. काढा ११	पथ्यादि काढा ११
द्राक्षादि काढा ११	देवदाव्यादि काढा	... ११
पटोलादि काढा ११	स्थिरादि काढा ११
ब्रह्मदंडी नस्य १४५८	दुस्पर्शादि काढा....	... १४६४
सर्पाक्षीमूलिका बंध	... ११	दाव्यादि काढा ११
एकाहिक ऊपर अपामार्ग	... ११	मुस्तादिकाढा ११
मूलिकाबंध ११	बेलफल चूर्ण १४६५
काकमाचीमूलिकाबंध	... ११	पुनर्नवा दुग्धा योग	... ११
सर्पाक्षीतिलक ११	वृषदंश पुरीषादि योग	... ११

विषय.	पृष्ठांक.	विषय.	पृष्ठांक.
शिरीषकल्क १४६५	देवता पूजन १४७१
हिगनस्य १४६५	दूसरा प्रकार १४७१
अगस्तिपर नस्य... १४६६	ज्वर पूजा १४७१
उलूकपक्षधूप १४६६	पद्मकादि तैल १४७१
अपामार्ग मूलिका बंध १४६६	माहेश्वर धूप १४७२
सहदेवी मूलिका बंध १४६६	गोजिह्वादि चूर्ण १४७२
काकजंघादि बंध... १४६७	जीरकादि चूर्ण १४७२
पंच पंचकपाय १४६७	त्रपुस भक्षण १४७३
धातुशोपकअतिकष्टसाध्य विषमज्वर ।		कायस्थादि धूपलेपन व तैल....	१४७३
तल्लक्षण १४६८	मृतकर्पटकका धूप १४७३
शीतपूर्वक दाहपूर्वक संततादि- विषमोंके लक्षण १४६८	जयामूलि बंध १४७३
विषमभेदवातबलासकज्वर ।		वांधा बंधन १४७३
स्वरूप १४६९	कांतालिगन १४७४
प्रलेपक ।		दूरीकरण १४७४
प्रलेपक लक्षण १४६९	रसोनकल्क १४७४
चिकित्सा १४६९	रास्नादि काढा १४७४
सीत दाह पूर्व विषम १४६९	भूतभैरव चूर्ण १४७५
दूसरा प्रकार १४६९	पथ्यादि चूर्ण १४७५
सामान्य चिकित्सा १४६९	हरिद्रादि चूर्ण १४७६
सीत नाशक क्रिया १४६९	आरोग्यादि रस १४७६
शुद्धादि काढा शीतपूर्वज्वरपर १४६९	शीतांकुश १४७६
शताह्वादि काढा... १४६९	तालकादि शीतारि रस १४७६
धनादि काढा १४७०	दूसरा प्रकार १४७७
भद्रादि काढा १४७०	तिसरा प्रकार १४७७
महाबलादि काढा १४७०	चौथा प्रकार १४७७
दाह पूर्व विषममें विभीतादि काढा,,	... १४७०	भूतभैरव रस १४७८
दूसरा महाबलादि काढा १४७०	दाहपूर्वपर शीतोपचार १४७८
व्याघ्रादि काढा १४७०	दाह ऊपर स्त्रीका आलिगन १४७८
		स्त्री दूरी करण १४७९
		शीतोपचार १४७९
		दाह पर पदतक तैल १४७९
		महाषट् तैल १४७९

विषय.	पृष्ठांक.	विषय.	पृष्ठांक.
अंगारतेल १४८०	श्वसकुठार १४८८
रसादिधातुगतज्वर		उदकमंजरीरस ११
इसकालक्षण ११	ज्वरधूमकेतुरस १४८९
रसरक्तगतज्वरचिकित्सा ११	वटिका ११
धातुगतज्वरचिकित्सा ११	दूसरीवटी ११
रक्तधातुगतज्वरलक्षण ११	ज्वरांकुश ११
गायत्र्यादिकाढा १४८१	नवज्वरेभांकुश १४९०
वराप्यजाजीकाढा ११	अमृतकलानिधि ११
वृषादिकाढा ११	पंचामृतरस ११
रक्तगतचिकित्साक्रम ११	जीर्णज्वरांकुश १४९१
मांसगतज्वरलक्षण ११	पच्यमानज्वरलक्षण ११
मांसगतज्वरचिकित्सा १४८२	निरामज्वरलक्षण ११
मैदोगतज्वरलक्षण ११	ग्रंथांतरोक्तजीर्णज्वरनिदान....	... ११
अस्थिगतज्वरलक्षण ११	सामान्यचिकित्साशास्त्रार्थ १४९२
चिकित्सा ११	लंघन ११
मज्जागतज्वरलक्षण ११	ज्वरक्षीणकोवांतिनिपेध ११
मज्जाशुक्रगतज्वर....	... १४८३	ज्वरफेर आनेका कारण ११
शुक्रगतज्वरलक्षण ११	वातजीर्णज्वर ११
रसादिधातुसंबंधसेसाध्यासाध्य		जीर्णज्वरमेंपकाशयाश्रि- तदोषचिकित्सा १४९३
प्राकृतवैकृतज्वर लक्षण ११	छिन्नादिकाढा ११
प्राकृतज्वरका उत्पत्ति क्रम....	... ११	त्रिकट्वादिकाढा ११
अन्तर्वेगज्वर लक्षण १४८४	गुडूचीकाढा ११
बहिर्वेगज्वर लक्षण ११	द्राक्षादिअष्टादशांगकाढा ११
आमाशयगतज्वर लक्षण ११	शुंठीकाढा १४९४
कटुकयादिकाढा १४८५	कणादिकाढा ११
सर्वेश्वररस ११	तिक्तादि काढा ११
त्रिपुरभैरवरस १४८६	कलिगादि काढा ११
रत्नगिरी ११	द्राक्षादि चूर्ण १४९५
नवज्वरेभसिंह १४८७	लंघगादि काढा ११
ज्वरघ्नीवटिका ११	तालीसादि चूर्ण ११
विश्वतापहरण १४८८	त्रिफलादिचूर्ण १४९६

विषय.	पृष्ठांक.	विषय.	पृष्ठांक.
कंदफलादिचूर्ण १४९६	हरीतकी पाक १५०५
त्रिवृच्चूर्ण ११	कीष्पुटघृत १५०६
दूसरा लवंगादि चूर्ण	... ११	वासाद्य घृत ११
पंचाजादि १४९७	पिप्पल्यादि घृत १५०७
लोभादिचूर्ण ११	क्षीरवृक्षादि तैल ११
वर्धमान पिप्पली योग	... ११	सेवती पाक ११
पिप्पली मोदक १४९८	पिप्पलीपाक १५०८
मधुपिप्पली योग	... ११	ज्वरमुक्त लक्षण १५०९
दुग्धयोग ११	साध्यज्वर लक्षण....	... ११
पंचमूलीक्षीर ११	असाध्यज्वर लक्षण	... ११
सितादिपेया १४९९	गंभीरज्वर लक्षण	... ११
विल्वादि काढा ११	असाध्य लक्षण ११
मधुकादि काढा ११	दूसराप्रकार १५१०
अमृतादिहिम ११	तीसराप्रकार ११
गुडयोग ११	चौथा प्रकार ११
वार्ताक भक्षण योग	... १५००	पांचवाप्रकार ११
गुडूची स्वरस ११	दूसरे प्रकारके असाध्य लक्षण	... ११
गुडापिप्पली योग	... ११	दूसराप्रकार १५११
वातकफात्मक ज्वरोपर	... ११	असाध्य लक्षण ज्वर	... १५१२
द्वि० वर्धमान पिप्पली	... ११	ज्वरमोक्षके पूर्वरूप	... ११
नस्य १५०१	ज्वरमुक्त लक्षण ११
द्वि० रक्त करवीरादि लेप	... ११	मधुरज्वर लक्षण ११
हिग्वादि नस्य ११	सुरसादियोग १५१३
जयंती मूलिका बंध	... ११	मुस्तादि काढा ११
वायसजंघा बंध १५०२	विष्मक्षिका काढा	... ११
मुक्ता पंचामृत ११	चंदनादि काढा ११
जीर्णज्वरांकुश ११	मक्षिकादियोग ११
धातुज्वरांकुश १५०३	कृष्णमधुरा लक्षण	... १५१४
कल्याणघृत ११	सहस्रवेध पापाणादियोग	... ११
चंदनादि तैल १५०४	भूनिवादि काढा ११
लाक्षादि तैल ११	वासाद्य काढा ११
दूसराचंदनादि तैल	... ११	मधुकादि काढा १५१५

विषय.	पृष्ठांक.	विषय.	पृष्ठांक.
दुर्जलजनितज्वरपर ।		भेडोक्त सुदर्शनचूर्ण १५२१
पटोलादिकाढा १५१५	सुदर्शनचूर्ण १५२२
किराततिकादिचूर्ण	लघु सुदर्शनचूर्ण १५२३
हरीतक्यादिचूर्ण	आमलक्यादिचूर्ण	... १५२४
शुब्धादि कल्क	केसरादि
आर्द्रकादि चूर्ण १५१६	विदार्यादि लेप
दुर्जलजेतारस	ज्वरघ्नी गुटिका
ज्ञानोदयरस	बलाघघृत १५२५
हारिद्रक घृक्षयोग....	मंजिष्ठाघघृत
मद्योद्भवज्वर १५१७	कुलिन्थाघघृत
फेर उलटकर ज्वरआया उसपरलंघन;	अमृताघघृत १५२६
रेचन	गुडूच्याघघृत
किरात तिकादि काढा	पंचतित्त रस १५२७
तिकादि काढा	द्वि० अमृताघघृत
अपथ्यज्वर लक्षण	महाषट्पलघृत
कटुक्यादि काढा १५१८	दूसरा प्रकार
आमलक्यादि चूर्ण	लघु लाक्षादि तैल १५२८
गुडूच्यादि काढा	लाक्षादि तैल
क्षुद्रादि काढा	मध्यम लाक्षादि तैल १५२९
नागरादि पाचन	षट्चक्रतैल
पीपलसेवाआदिकोंसे	स्वर्जिकाघतैल
ज्वरनाश १५१९	बलाघतैल
द्विरदनामस्मरण....	पटोलाघस्नेह १५३०
वेलाज्वर	चंदनाघनुवासन
मूलिका बंधन	पटोलाघनुवासन
पिप्पली चूर्ण ज्वर ऊपर	आरग्वधादिनिरूहवस्ति
धान्यादि चूर्ण / १५२०	तेलपाकविधि १५३१
गोरोचनादि चूर्ण....	मंदमध्य व तीक्ष्णस्नेहपाक
सितोपलादिचूर्ण	खरपाकलक्षण
भांग्यादिचूर्ण	खर व मृदु पाकका फल
अनंतादिचूर्ण १५२१	चंदनबलातैल १५३२
		अश्वगंधादितैल

विषय.	पृष्ठांक.	विषय.	पृष्ठांक.
बृहल्लाक्षादि तैल १५३३	ज्वरोपद्रवचिकित्सा १५४८
पंचम महालाक्षा तैल १५३४	सिंहादिकपाय १५४९
निरूहवस्ति द्रव्यमान १५३५	द्वात्रिंशंग काढा १५५०
चतुर्य लाक्षादितैल १५३६	मध्वाद्य काढा १५५१
घृत वा तैल पक्कहुयेकी परीक्षा ११	... १५३७	श्वासपर दाग १५५२
औषधि कितनेदिन उपयोगपडतीहे ११	... १५३८	आर्द्रकादिनस्य १५५३
दूसरा महाज्वरांकुश	... १५३९	शीताभसादियोग १५५४
ज्वरघ्नीवटिका १५४०	अरुचि चिकित्सा १५५५
दूसराज्वरमुरारि... ११	... १५४१	मातुलिंग काढा... ११	... १५५६
स्वर्णमालिनी वसंत १५४२	सैषवादियोग १५५७
लघुमालिनी वसंत १५४३	अश्वत्थक्षार १५५८
दाभ्यादिवटिका १५४४	शुष्क अश्वपुरीषयोग १५५९
दुताशनरस १५४५	यावकादिनस्य १५६०
दूसरा लघुमालिनी वसंत १५४६	ज्वरकीखांसीपर कणाद्यबलेह ११	... १५६१
अपूर्व मालिनी १५४७	पुष्करादिचटनी १५६२
दूसरा लघुमालिनी १५४८	विभीतकयोग १५६३
लघु सूचिकाभरणरस संनि- पातपर १५४९	लवंगादिवटी १५६४
जलबूडामणि १५५०	ज्वरदाह चिकित्सा १५६५
कनकसुंदररस संनिपातपर... ११	... १५५१	गुडूच्यादि काढा १५६६
संनिपातभैरव १५५२	दंतशठादि काढा १५६७
रसपर्वटी १५५३	जलादियोग १५६८
रविमुंदररस १५५४	ज्वरे अतिसार चिकित्सा १५६९
कजलीगुण १५५५	बत्सादन्यादि काढा १५७०
गदमुरारिरस १५५६	पाठादि काढा १५७१
बालाकरस १५५७	ज्वरमेंदस्तकेअवरोधकीचिकित्सा ११	... १५७२
ज्वरांकुश १५५८	पथ्यादि काढा १५७३
विश्वतापहरण १५५९	ज्वरपरपथ्य १५७४
संनिपातभैरव १५६०	तरुणज्वरपर अपथ्य १५७५
त्रिभुवनकीर्ति १५६१	मध्यमज्वरमें पथ्य १५७६
मृतप्राणदायी १५६२	सर्वज्वरमें पथ्य १५७७
ज्वरोपद्रव १५६३	जीर्णज्वरमें पथ्य १५७८

विषय.	पृष्ठांक.	विषय.	पृष्ठांक.
आगंतुक ज्वरपथ्य,	... १५५६	दूसरा प्रकार ११
विषम ऊपर १५५७	तीसरा प्रकार ११
सर्वज्वरपर अपथ्य	... ११	धान्यपंचक पाचन	... ११
मंत्र १५५८	धातक्यादिमोदक	... १५६६
पेय ११	कुटजाष्टक काढा ११
ज्वरनाशक यंत्रम्	... ११	वातातिसार ।	
लंकेश्वरोरस १५५९	वातातिसार निदान	... ११
दुग्धफेनगुणाः ११	पूतिकादि काढा ११
लाक्षारसविधि ११	पथ्यादि काढा १५६७
रोगमुक्तस्नानम् १५६०	वचादि काढा ११
ज्वरमुक्तिलक्षण ११	सुवर्चलादि काढा....	... ११
इति ज्वरप्रकरणम् ।		कपित्थाष्टक चूर्ण....	... ११
अतिसारः ।		लाई चूर्ण १५६८
अतिसारकर्मविपाक	... १५६१	कुटज चूर्ण ११
दूसराप्रकार ११	शुंठी चूर्ण १५६९
दानकामंत्र ११	बृहल्लवंगादि चूर्ण....	... ११
तीसरेप्रकारका कर्मविपाक	... १५६२	विजयायोग १५७०
रक्तातिसारका कर्मविपाक	... ११	कुटजावलेह ११
अतिसारनिदान ११	दूसरा कुटजावलेह	... ११
संप्राप्ति १५६३	कुटज पुटपाक १५७१
घट्टप्रकार ११	तंदुल जल ११
पूर्वरूप ११	मृतसंजीवन रस...	... ११
अतिसारके पूर्वरूपकी—		कारुण्य सागर रस	... १५७२
चिकित्सा ११	कुंकुमवटी १५७३
बित्वादि पडंग यूष	... १५६४	कपित्थादि पेया ११
यवाग् ११	पंचमूल बलादि पेया	... ११
औषधादि देना वर्ज्य	... ११	मसूराघ घृत १५७४
अतिसारपर लंघन	... ११	लोकनाथरस ११
यवान्यादि दीपन	... १५६५	महारस ११
अतिसारण क्रिया...	... ११	द्वितीय महारस १५७५
		वातातिसारपर शाक	... ११

विषय.	पृष्ठांक.	विषय.	पृष्ठांक.
पित्तातिसार ।		त्रिदोषातिसार ।	
पित्तातिसार निदान ।	१५७५	त्रिदोषातिसार निदान	१५८२
पित्तातिसार चिकित्सा क्रम-		कुटजावलेह	१५८२
व पेया	१५७६	समंगादि काढा	१५८३
पित्तातिसारपरपानी अन्न	१५७६	पंचमूली बलादि काढा	१५८३
मधुकादि योग	१५७६	पंचमूल योजना	१५८३
शुद्ध्यादि योग	१५७६	कुटज पुटपाक	१५८३
विल्वादि काढा	१५७७	सूतादिवटी	१५८४
कट्फलादि काढा	१५७७	चतुः समागुटी	१५८४
मधुयष्ट्यादि काढा	१५७७	तृप्तिसागर रस	१५८४
समंगादिचूर्ण	१५७७	आनंदभैरवी	१५८४
अतिविपादि योग	१५७८	शोकभयातिसार ।	
जंज्वलादिचूर्ण	१५७८	शोकभयातिसार निदान	१५८५
लोकेश्वररस	१५७८	चिकित्सा	१५८५
दूसराप्रकार	१५७८	पृश्निपण्यादि काढा	१५८५
वत्सकादिघृत	१५७८	आमातिसार ।	
कफातिसार ।		आमातिसार निदान	१५८६
कफातिसार निदान	१५७९	आमातिसार चिकित्साक्रम	१५८६
कफातिसार चिकित्सा क्रम	१५७९	धान्यादि काढा पाचन	१५८७
पथ्यादि काढा	१५७९	अभयाविरचन	१५८७
कृमिशिखादि काढा	१५७९	विडंगादिरेचन	१५८७
पूतिकादि कल्क	१५८०	क्षुधितका अतिसार ।	
गोर्कटकादि काढा	१५८०	द्वैवदाह जलपान	१५८८
चव्यादि चूर्ण	१५८०	चित्रकादि काढा	१५८८
कणादि चूर्ण	१५८०	विश्वादि योग	१५८८
हिंवादि चूर्ण	१५८०	पथ्यादि काढा	१५८८
बन्जुलादि चूर्ण	१५८१	एरंडादि रस	१५८९
पथ्यादि चूर्ण	१५८१	शुष्क्यादि चूर्ण	१५८९
अभयादि चूर्ण	१५८१	दूसरा हरीतक्यादि रस	१५८९
पथ्यादि चूर्ण	१५८१	शुंठीपुटपाक	१५८९
शुंठीपुटपाक	१५८१		

विषय.	पृष्ठांक.	विषय.	पृष्ठांक.
दूसरा शुंब्धादि चूर्ण ११	जातीफलादि योग १५९७
तीसरा शुंब्धादि चूर्ण १५९०	रक्तातिसार ।	
साखरुंड चूर्ण ११	रक्तातिसार निदान ११
यवान्यादि काढा ११	यष्ट्यादि काढा ११
कालिंगादि काढा ११	कुटजादि काढा ११
त्रिकंटादियव कांजी १५९१	वत्सकादि काढा १५९८
शोषपरहीवेरादि काढा ११	तंदुलजलादि योग ११
त्र्यूपणादि चूर्ण ११	दाढिमादि काढा ११
पाठादि चूर्ण ११	चंदनादि योग ११
पयमुस्ता योग ११	हीवेरादि काढा... ११
आमपक्कातिसार लक्षण १५९२	बिल्वादि योग १५९९
असाध्य लक्षण ११	कालिंगयव षट्क ११
दूसरा असाध्य लक्षण ११	कुटज क्षीर ११
अतिसारके उपद्रव १५९३	रसांजनादि चूर्ण.... १६००
असाध्य लक्षण ११	कुटजावलेह ११
लोभ्रादि चूर्ण ११	सल्लक्यादि स्वरस ११
पन्नादि चूर्ण ११	जम्बूवादिअंगरस ११
कुटजादि चूर्ण ११	गुडबिल्व योग ११
अंबष्ठादि गण १५९४	शतावरी कल्क १६०१
समंगादि चतुश्चूर्ण ११	तिलादि कल्क ११
कंचटादि चूर्ण ११	नवनीतावलेह ११
अंकोट कल्क ११	शाल्मली पुष्पयोग ११
मोचरसादि चूर्ण.... १५९५	गुदपाक १६०२
मुस्तादि चूर्ण ११	पटोलादि काढा गुदक्षालनार्थ ११
विश्वादिबटी ११	गुदक्षालनार्थ जल ११
वटप्ररोहयोग ११	चांगिरी घृत ११
कुटजावलेह १५९६	मूषकमांस स्वेद ११
रालयोग ११	गोधूमचूर्णस्वेद १६०३
नाभौक्षेपणीय ११	गुदान्तप्रवेशन ११
पाठादियोग ११		

विषय.	पृष्ठांक.	विषय.	पृष्ठांक.
चांगेरी घृत १६०३	वातकफातिसार ।	
कमलपत्र भक्षण ११	वातकफातिसार निदान ...	११
ज्वरातिसारचिकित्साक्रम ।		वातकफातिसारी अन्न ...	११
उत्पल षष्टिक १६०४	चित्रकादि काढा.... ११
दाडिभावलेह ११	उपचार क्रम ११
कणादि काढा १६०५	विल्वादि काढा ११
पाठादि काढा ११	मियंग्वादि काढा १६१२
कॉलिंगादि काढा ११	आघ्रादि काढा ११
गुडूच्यादि काढा... ११	मुद्ग कषाय ११
वत्सकादि दो काढा १६०६	पटोलादि काढा ११
उशीरादि काढा ११	जम्बूवादि काढा ११
विल्वादि काढा ११	पुरीषातिसारपर १६१३
पंचमूलादि काढा ११	पुरीपक्षय ऊपर ११
अरल्वादि काढा १६०७	दूसराप्रकार ११
उत्पलादि चूर्ण ११	शोफातिसार ।	
व्योषादि चूर्ण ११	देवदाव्यादिकाढा ११
इसबगोल योग ११	विडंगादि काढा ११
लाजमंड १६०८	किरातादि काढा.... १६१४
पृश्निपण्यादि योग ११	पाठादिकाढा ११
धातक्यादि पेया ११	शोथघ्न्यादि काढा ११
विजयायोग ११	भस्त्रातिसार ।	
पंचामृत पर्पटीरस ११	भस्त्रातिसार निदान ११
दरदादिपुटपाक.... १६०९	शाल्मलिचूर्ण ११
दुग्धयोग ११	हिंवादि जलयोग १६१५
कद्रफलादिचूर्ण १६१०	रोहिण्यादिपाचन ११
पित्तकफातिसार ।		न्हीवेरादि काढा ११
पित्तकफातिसारनिदान ११	धातक्यादि काढा	बालकोंके
मुस्तादि काढा ११	सर्वातिसारपर ११
समंगादि काढा ११	आनंदभैरवरस १६१६
		आनंदरस ११

विषय.	पृष्ठांक.	विषय.	पृष्ठांक.
दाडिमाष्टक	१६१६	गंगाधरो रसः	१६२८
लघुगंगाधर चूर्ण	१६१७	अतिसारमें लवणनिषेध ...	१६२८
वृद्धगंगाधरचूर्ण... ..	१६१८	प्रवाहिका ।	
अजमोदादि चूर्ण .	१६१८	प्रवाहिकासंप्राप्ति ...	१६२९
बृहद्दाडिमाष्टक ...:	१६१८	प्रवाहिका लक्षणादि	१६२९
धातक्यादि चूर्ण ...	१६१९	बालविल्वकल्क ...	१६३०
भल्लातादि चूर्ण ..	१६१९	मुद्गयूषादि	१६३०
लघुलाई चूर्ण	१६१९	बालविल्वादि योग	१६३०
यवान्यादि चूर्ण ...	१६२०	विल्वपत्र्यादि काठा	१६३०
वत्सकादिघृत	१६२०	धातक्यादि योग	१६३०
विल्वतैल ...	१६२०	मुस्तावत्सकादि योग	१६३०
शंखोदर रस	१६२१	तैलादि योग	१६३०
मूलिकाबंध ...	१६२१	यूषणादि घृत ...	१६३१
दाडिमीवटी	१६२२	मुस्तादि गुटी ...	१६३१
वन्बूलादि स्वरस	१६२२	पथ्य	१६३२
न्यग्रोधादि पुटपाक	१६२२	जल	१६३२
अहिफेनयोग	१६२३	अतिसारपर उपथ्य	१६३३
मुक्ताभस्मयोग ...	१६२३	ज्योतिःशास्त्राभिप्रायेणातिसार	१६३३
जातीफलादिवटी	१६२३	कारण	१६३३
मरीचादिवटी ...	१६२३	मृत्युयोग	१६३३
अंकोलकल्क	१६२४	संग्रहणी ।	
कपित्थकल्क ...	१६२४	ज्योतिःशास्त्राभिप्रायेण	१६३४
आर्द्रकुटजावलेह....	१६२४	ग्रहणीकर्ता योग .	१६३४
दाडिवपुटपाक ...	१६२५	ग्रहणीरोगका कर्म विपाक ...	१६३५
जातीफलादि पुटपाक .	१६२५	संग्रहणी रोगकी शांति	१६३५
मोचरसादि पुटपाक	१६२५	पद्मपुराणे गौतम ...	१६३५
लघ्वीमाई चूर्ण ...	१६२६	मंत्र ...	१६३७
दूसरी दाडिमीवटी	१६२६	ग्रहण्याःस्वरूपम्....	१६३७
शतपुष्पादि चूर्ण ...	१६२७	चरकमतम् ...	१६३७
लीलावती वटी	१६२७		
नृसिंहपोटलीरस ...	१६२७		

विषय.	पृष्ठांक.
अन्यत्र	१६३७
ग्रहणीका स्थान	१६३८
संग्रहणी निदान	११
ग्रहणी संप्राप्ति वा लक्षण	११
अन्यत्र	१६३९
ग्रहणीको पूर्वरूप	११

वातिकग्रहणी ।

वातिक ग्रहणीके कारण	१६४०
वातिक ग्रहणीके रूप	११
वातिक ग्रहणी चिकित्सा क्रम तत्र पाचन	११
यवान्यादि चूर्ण	१६४१
यंत्रिकादिकृततक्र	११
रामठादि चूर्ण	११
हिग्वादि चूर्ण योग	११
शुंठीघृत	१६४२
पंचमूल घृत	११
संग्रहणीका चिकित्सा क्रम	११
पक्षसंग्रहणीपर उपचार	१६४३
शालीपण्यादि काढा	११
मधुपक्वहरीतकी	११
सुद्रयूप	१६४४
कपित्थादि यवागू	११

पित्तसंग्रहणी ।

पित्त संग्रहणी निदान	११
पित्तसंग्रहणीकी चिकित्सा	१६४५
नलवेण्वादि काढा	११
द्राक्षादि क्षीर	११
तंडुलोदक	११
भूनिवादि चूर्ण	१६४६

विषय.	पृष्ठांक.
द्वितीय भूनिवाद्य चूर्ण	१६४६
पाठाद्य चूर्ण	११
कहुक्यादि पीसके लेना	१६४७
चंदनादि घृत	११
तित्कादि काढा	११
श्रीफलादि कल्क	१६४८
नागरादि चूर्ण	११
यवान्यादि चूर्ण	११
चंदनादि काढा	१६४९
रसांजनादि चूर्ण	११
निवादि पुटपाक	११
आम्रादि योग	११
आम्रादि पेया	१६५०

कफसंग्रहणी ।

कफ संग्रहणीकी उत्पत्ति	११
वमन और अभिवृद्धि	१६५१
चित्रकादिचूर्ण मद्य तक वा उष्णजलके साथ	११
हिग्वादिचूर्ण मद्य तक वा उष्णजलके साथ	११
अभयादिचूर्ण गरमजलके साथ	११
पलाशादिकाथ	११
पथ्यादिचूर्ण	१६५२
सव्यादिचूर्ण	११
रास्नादिचूर्ण	११
पथ्यादि तक्रयोग	१६५३
चतुर्भेदादिकाढा	११
कठिनमलकी त्रिचिन्ता	११
विडंगादियोग	११

विषय.	पृष्ठांक.	विषय.	पृष्ठांक.
वातश्लेष्मसंग्रहणी ।		सञ्जीवारादि योग १६६३
कुटजाद्यवलेहांदि ...	१६५३	पारदादिवटी ११
कर्चुरादिचूर्ण ...	१६५४	सुवर्णरस पर्पटी ११
तालीसादिवटी ...	११	पर्पटी.... १६६४
कफपित्त संग्रहणी ।		ग्रहणीगजकेसरी ११
रसादिवटीका	११	अमिसुत रस १६६५
सुसल्यादि योग	१६५५	ग्रहणी कपाटरस.... १६६६
वातपित्त संग्रहणी ।		सूतादि गुटी ११
सुब्धादि गुटिका... ..	११	कणादि लेह ११
संनिपात संग्रहणी ।		अभ्रकादिवटी १६६७
संनिपात ग्रहणी निदान	११	सूतराज ११
असाध्य लक्षण ...	१६६६	पूर्णचंद्र रसेंद्र ११
घटीयंत्र ग्रहणी लक्षण ।		दंभ (दाग) १६६८
अरिष्ट	११	दूसरा प्रकार ११
तच्चिकित्सा ...	११	सिंहनपुरी चूर्ण ११
शतावरी घृत ...	१६५७	द्वितीय सिंहनपुरी चूर्ण १६६९
अरुष्कर घृत ...	११	तृतीय सिंहनपुरी चूर्ण ११
तक्रसेवन ...	१६५८	लाई चूर्ण ११
तक्रसेवनम् (द्वितीय योग)	११	ज्वालामुख चूर्ण १६७०
दूसरा प्रकार	१६५९	नारायण चूर्ण ११
तक्रयोग्य गौ ...	११	चित्रांवर रस १६७१
पक् और अपक् तक्र गुण....	११	अगस्ति सूतराज रस ११
ज्वालालिंग रस ...	१६६०	कनक सुंदर रस.... १६७२
ग्रहणीकपाट रस ...	११	क्षारताम्र रस ११
दूसरा प्रकार ...	११	चित्रकादि गुटि ११
तिसराप्रकार ...	१६६१	शंभूक योग १६७३
वज्रकपाट रस ...	११	कांकायन गुटी ११
ग्रहणिका मदवारण सिंह	१६६२	महाकल्याण गुड ११
पारदादिवटी	११	कुम्भांड गुड १६७४
		कल्याण गुड १६७५

विषय.	पृष्ठांक.	विषय.	पृष्ठांक.
भूनिम्बादि चूर्ण १६७६	कपित्थाष्टक चूर्ण... १६८६
अतिविपादि काढा "	दूसरा लाही चूर्ण १६८७
नागरादि काढा १६७७	जातिफलादि चूर्ण	... "
पुनर्नवादि काढा "	बेलफलादि चूर्ण १६८८
शुंघ्यादि काढा "	जातिफलादि चूर्णकापाठान्तर	"
तालीसादि चूर्ण "	ग्रहणी रोगमें पथ्य	... "
व्योपादि चूर्ण १६७८	ग्रहणी रोगमें अपथ्य	... १६८९
बिल्वादि दुग्ध "	अर्श (ववासीर)	
दशमूलादि काढा....	... १६७९	ज्योतिःशास्त्रेण निदानम्	... १६९०
मसूरादि योग "	ववासीरका कर्मविपाक १६९१
कुटजावलह "	सामान्य ववासीरका निदान	"
द्राक्षासव १६८०	ववासीरकी संप्राप्ति और रूप	१६९२
बिल्वाभि घृत १६८१	ववासीरका पूर्वरूप	... "
चित्रक घृत	... "	चिकित्सा क्रम "
चाङ्गेरी घृत "	तथा दूसरा क्रम "
दाडिमाष्टक	... १६८२	तथा अन्य क्रम १६९३
दूसरा पाठ	... "	तथा "
लाई चूर्ण	... "	वातादि जन्य अर्शोका यत्र	"
मुस्तादि चूर्ण	... १६८३	वातार्शः ।	
लवङ्गादि चूर्ण "	वातकी ववासीरके लक्षण	... "
पाठादि चूर्ण "	वातार्शके लक्षण १६९४
तक्र सेवन १६८४	तथा "
महालङ्गादि तक्रयोग "	अर्क क्षार	... १६९५
चित्रकादि तक्रयोग	... "	विडङ्गादि तक्रयोग	... "
अन्य योग "	लवणादि चूर्ण "
शंखवटी १६८५	मरीचादि चूर्ण	... "
जातीफलादि तक्र	... "	सूरण मोदक	... १६९६
वार्ताकवटी "	बाहुशालनामको गुडः "
भल्लातक क्षार १६८६	पित्तार्शः ।	
चव्यादि चूर्ण	... "	पित्तकी ववासीरका कारण...	१६९७
रुचकादि चूर्ण	... "		

विषय.	पृष्ठांक.	विषय.	पृष्ठांक.
पित्तकी ववासीरके लक्षण	१६९७	रक्तार्शः ।	
तिलादि चूर्ण	१६९८	रक्तार्श निदान ...	१७०५
तथा अन्य प्रयोग	११	घातादियुक्त रक्तार्शके लक्षण ..	११
भल्लातामृत	११	सामान्य चिकित्सा	१७०६
धतूरादि चूर्ण ..	११	अश्वगंधादि धूप	११
भल्लातकादि मोदक	१६९९	अर्कमूलादि धूप...	११
बोलबद्ध रस ...	११	पिपीलिका तेल	११
लोहादि मोदक ...	११	विपमुष्टि चूर्ण ...	१७०७
तीक्ष्णमुख रस ...	११	नवनीतादि योग ...	११
कफार्शः ।		भल्लातकामृत	११
कफकी ववासीरका कारण	१७००	सिद्धघृत ...	१७०८
कफकी ववासीरके लक्षण	११	शिवरस	११
कफार्श चिकित्सा	१७०१	अपामार्ग बीजादिचूर्ण ...	१७०९
सामान्य चिकित्सा ...	११	लोहामृत रस	११
अशौभेद (ललित)		विम्बीपत्रादि लेप	११
ललितका लक्षण	११	ज्योतिष्कबीज लेप	११
बंदाल लेप	१७०२	गुञ्जाकूष्मांड लेप ...	१७१०
कांचनी लेप	११	कनकार्णव रस ...	११
सूरणादि लेप	११	योगराज गूगल	१७११
कटुतुंब्यादि लेप...	११	राल योग	११
पीलु तैलवर्ती	११	कर्पूर धूप	११
दंत्यासव	१७०३	पयसादि यूप ...	११
पथ्यादि गुड	११	कालकलांतक वर्दा ...	१७१२
भल्लातकहरीतकी....	११	अपामार्गादि कल्क	११
लाङ्गल्यादिमोदक	१७०४	पद्मकेशरयोग ...	११
पथ्यादिमोदक ...	११	समंगादि धूप ...	१७१३
यवान्यादि मोदक ...	११	सुती ववासीरपर काथ ...	११
भल्लातकादि लेप	१७०५	द्राक्षादि योग ...	११
शृंगवेर काथ ...	११	त्रिकट्वादि योग ...	११

विषय.	पृष्ठांक.	विषय	पृष्ठांक.
विद्बन्ध १७१४	कदुतुम्ब्यादि लेप	... १७२२
रक्तस्त्राव ११	देवदाली बीज लेप	... ११
प्रकारांतर ११	चव्यादि घृत १७२३
सक्तुपिंडी बंधन ११	शुंठी घृत ११
नासाश चिकित्सा	... ११	लघु चव्यादि घृत	... ११
रजनीचूर्ण १७१५	हीबेरघृत १७२४
चामखील ११	रोहितारिष्ट ११
दुग्धिकादिघृत ११	मधुपक्क हरीतकी...	... १७२५
व्योपादि मोदक	... ११	गोजिह्वादि काठा	... ११
गुड चतुष्क ११	कल्याण लवण १७२६
कार्पासमज्जागुटी....	... १७१६	तक्रादि योग ११
त्रिफलादि गुटिका	... ११	प्रकारांतर ११
गुग्गुलादि वटी १७१७	अरलुत्वक १७२७
चंद्रप्रभावटी ११	शर्करासव ११
सूरणपुटपाक १७१८	द्राक्षासव	... १७२८
चित्रकादि दधि ११	संनिपाताश धप १७२९
कांचन्यादि विषयोग	... ११	हपुपादितकारिष्ट	... ११
वृद्धदारु मोदक ११	भर्जितहरीतकी ११
सूरण वटक १७१९	पाठमूलयोग ११
वृहत्सूरण वटक ११	सूरणचूर्ण १७३०
कोशातकी घर्षण	... १७२०	वैक्रांताख्यरस ११
निशादि लेप ११	पर्पट्यादियोजना....	... १७३१
तथा निशादि और अर्क	... ११	कुटजावलेह ११
मूलादि लेप ११	कुष्मांडावलेह १७३२
निम्बादि लेप ११	भल्लातकावलेह ११
एरण्ड मूलादि लेप	... ११	स्तुहीक्षीरलेप १७३३
स्तुह्यादि लेप १७२१	कोकंबादि चूर्ण ११
कृष्ण शिरीषादि लेप	... ११	समशर्कर योग ११
अर्कादि लेप ११	व्योपादि चूर्ण १७३४
गुआसूरण लेप ११	करंजादि चूर्ण ११
गौरापाषाण लेप....	... ११	विजया चूर्ण ११
न्यग्रोध पत्र लेप....	... १७२२	देवदाल्यादि योग	... १७३५

विषय.	पृष्ठांक.	विषय.	पृष्ठांक.
मरिचादि मोदक	... १७३५	कुसुंभ पत्र भक्षण.... १७४५
प्राणप्रद मोदक	पथ्यादि चूर्ण
कांकापनीवटी १७३६	चतुःसम मोदक
सूरणमोदक	हरिशंकरलोहम्
लघुमूरण मोदक... १७३७	लोहविकारकी शान्ति १७४९
अशंकुठाररस	लोहपरिपाकके लक्षण
कभ्रकहरीतकी	लोहाजीर्णकायल.... १७५०
बवासीर मंत्र १७३८	कीटकी शान्ति
दूसरा मंत्र	लोहव्यापत्कायत्र
भूरणपुटपाक	सिद्धसारकाचूर्ण
काशीसादितैल	पारदभस्म
सूनीबवासीरका सामान्ययत्र	१७३९	बवासीरकेसाध्य लक्षण १७५१
चन्दनादिदाव्यादिकाथ	कुच्छ्रसाध्य लक्षण
प्रयोगान्तर १७४०	असाध्य लक्षण
महानिम्बबीज प्रयोग	याप्य लक्षण १७५२
पेया	अन्य असाध्य लक्षण
लाजापेया	अन्य असाध्य लक्षण
अपामार्ग बीज योग	चर्मकीलकी संप्राप्ति
कुशमूलादिपान १७४१	चर्मकीलमें वातादि लक्षण १७५३
कुटजपृतम्	द्वन्द्वज बवासीरके कारण
कुटजादिदुग्ध	त्रिदोषकी बवासीरके कारण
अशोरिमण्डूर	याप्य लक्षण
कुटजादिकल्क १७४२	असाध्य लक्षण
यवानीचूर्ण	अशरोगपर पथ्य १७५४
शिरीषादिकल्क	अशरोगमें अपथ्य १७५५
उपायान्तर १७४३	रक्ताश और चर्मकीलपर
निम्बबीजादि योग	अकवर वादशाहके अनुभव
रसाजनादिवटी	सिद्ध फारसी प्रयोग
मरिचादिवटी	इति बृहन्निघण्टुरत्नाकर चतुर्थभाग
शूरणशोधनम् १७४४	विषयानुक्रमणिका समाप्ता.
करजादिचूर्ण १७४५		

श्रीः ।

बृहन्निघण्टुरत्नाकरे—चतुर्थोभागः ।

जलधरादिकाढा ।

जलधरदशमूलंवारिशुंठीसमेतंमलयजकृतमालंवासकंपर्पटंच ॥

समधरणघृतांशःकाथएप्रभातेशमयतिसमुदीर्णपीतमात्रःप्रलापम् ॥

अर्थ—नागरमोथा, दशमूल, नेत्रवाल, सोंठ, चंदन, अमलतासका गूदा, अडूसा, और पित्तपापडा, ए प्रत्येक पाव तोला लेय, इसका काढा लेनेसे शीघ्र प्रलापक दूर हो ॥

दूसरातगरादिकाढा

सतगरवरतित्तारेवतांभोदतित्तानलदतुरगगंधाभारतीहार-

हूराः॥ मलयजदशमूलीशंखपुष्प्यःसुपक्काःप्रलपनमवहन्युः-

पानतोनातिदूरात् ॥

अर्थ—तगर, पाठ, अमलतासका गूदा, नगरमोथा, कुटकी, जटामांसी, असगंध, ब्राह्मी, दाख, चंदन, दशमूल, और शंखाहली, इनका काढा पीवेतो प्रलापक सन्निपातको, तत्काल हरणकरे ॥

उपचार ।

सांत्वनैरंजनैर्नस्यैस्तीक्ष्णैस्तीमिरसेवनैः ॥

सर्वतोविकृतंचित्तमस्यप्रकृतिमानयेत् ॥

अर्थ—शांतिपूर्वकं बोलना, अंजन, तीक्ष्ण नस्य, अंधकारका नाश, इन उपा-
ओंसे विकृत हुए चित्तको प्रकृतिपर लाना चाहिये ॥

मृतोत्थापनरस ।

शुद्धसूतंद्रिधागंधंशिलाचविर्हिगुलौ ॥ मृतकांताभ्रताम्राय-
स्तालकंमाक्षिकंसमं ॥ अम्लवेतसजंवरिचांगिरीनागरेणच ॥

निर्गुब्धाहस्तमुंघ्याश्चरसैर्मर्द्यैर्दिनद्वयं ॥ रुध्वाथभूधरेपक्त्वा
दिनांतेतत्समुद्धरेत् ॥ चित्रकस्यकपायेणमर्दयेत्प्रहरद्वयं ॥
मापमात्रंप्रदातव्योहिंशुश्रूपाद्र्कद्रवैः ॥ सकर्पूरानुपानैःस्या-
न्मृतोत्थापनकोरसः ॥ पीडितःसन्निपातेनगतोवापियमाल-
यं ॥ तत्क्षणाज्जीवदःसत्यंपथ्यंक्षीरंप्रयोजयेत् ॥

अर्थ—शुद्धपारा १ भाग, गंधकरभाग, मनसिल, विष, हिंगलू, कांतलोहकीभ-
स्म, अभ्रक भस्म, ताम्रभस्म, हरतालभस्म, और माक्षिक भस्म, ए एकरभाग
ले सबको एकत्र कर अमलवेत, जंभीरी, चूका, अदरख, सह्यातू, इन प्रत्येकके
रसमें एकरदिन खरलकरे और मुंडीके रसमें दोदिन खरल कर शराव संपुटमें
धर कपड मिट्टी चढाय भूधरयंत्रमें चार प्रहर पचावे सायंकालको निकाल ची-
तेके काढेसे दो प्रहर खरल करे तो (मृतोत्थापन) रस बने इसमेंसे १मासे अ-
दरखके रसमें हींग, त्रिकुटा, और कपूर डालके देय तो संनिपात कर्के मृतप्राय
हुआभी तत्क्षण सावधान होय इसके ऊपर दूधभात पथ्य देवे ॥

जिह्वकसन्निपातनिदान ।

श्वसनकासपरितापविह्वलःकठिनकंठकवृतोजिह्वकः ॥

वधिरमूकबलहीनलक्षणोभवातिकष्टतरसाध्यजीवकः ॥

अर्थ—धास, खाँसी, संताप, और विह्वल, कठिन और कौंटेपुक्त जिह्वा-
बहरेपना, गूंगा और बलहानि इन लक्षण करके युक्त ऐसा जिह्वकसन्निपात
कष्टसाध्य है ॥

उग्रादिकाढा ।

उग्रासिंहीयासरास्त्रामृताब्हाशुंठीतिक्ताभृंगिकापौष्कराणां ॥

ब्राह्मीभांगीतिक्तवासासठीनांकाथोहन्यांजिह्वकंसंनिपातं ॥

अर्थ—वच, कंठीरी, घमासा, रास्त्रा, गिलोय, सोंठ, कुटकी, काकडासिंगी,
पुहकरमूल, ब्राह्मी, भारंगी, चिरायता, अडूसा, और कचूर इनका काढा जिह्व-
क संनिपातको दूर करे ॥

क्षुद्रादिकाढा ।

क्षुद्रानागरपुष्करामृतलताब्राह्मीवचासुव्रताभांगीवासकयासतो-
यसुरसाकाथोजयेजिह्वकं ॥ विश्वाचर्मविभावरौयुगवरावत्सा-
दनीवारिदव्याघ्रीनिवपटोलपुष्करजटारुगदारुभिर्वाकृतः ॥

अर्थ—कटेरी, सोठ, पुहकरमूल, गिलोय, ब्राह्मी, वच, कपूरकचरी, भारंगी, अडूसा, धमासा, नेत्रवाला, तुलसी, इनका अथवा सोठ, पित्तपापडा, हलदी, दारुहलदी, त्रिफलां, नागरमोथा, कटेरी, नीमकी छाल, पटोलपत्र, पुहकर मूल, कूठ और देवदारु इनका काढा देय तो जिह्वक संनिपातको जीते ॥

सिंहादिकाढा ।

सिंहीनागरपुष्करैःसकटुकैरास्नागुडूचीयुतैर्भागीककटशृंगिका-
सठिसमैर्दुःस्पर्शवासाधनैः ॥ पीतंजिह्वकहारिवारिभवतिब्रा-
ह्मीवचामिथितैःप्रोक्तंवैद्यवरेणवंद्यमुनिभिर्भूनिवमिश्रंशृतं ॥

अर्थ—कटेरी, सोठ, पुहकरमूल, कुटकी, रास्ना, गिलोय, भारंगी, काकडा-
सिगी, कचूर, धमासा, अडूसा, नागरमोथा, ब्राह्मी, वच, और चिरायता इनका
काढा जिह्वक संनिपातको हरण करे ॥

देवदार्वादिकाढा ।

सुरतरुकटुनिवैरूक्षपथ्यापटोलीरजनियुगुलविश्वासिंहिकापु-
ष्कराव्हैः ॥ सलिलधरगुडूचीवासकःसर्वमेभिःप्रशमयतिक-
पायोजिह्वकंकष्टसाध्यं ॥

अर्थ—देवदारु, नीमकी छाल, बहेडा, हरड, पटोलपत्र, हलदी, दारुहलदी,
सोठ, कटेरी, पुहकरमूल, नागरमोथा, गिलोय, और अडूसा, इनका काढा
कष्टसाध्य ऐसा जिह्वकका नाशक है ॥

किरातकवल ।

किराततित्ताकुलकृत्कलिजकचूरकृष्णाकटुतैलयुक्तः ॥
अम्लद्रवःसंशमयेद्रसज्ञादोपांस्तुतोदाशरथिर्यथाध्वं ॥

अर्थ—चिरायता, अकरकरा, कुलीजन, कचूर, और पीपल, इनका चूर्ण सर-
सोके तेल और विजोरेके रससे एकत्रकर मुखमें रखे तो जिह्वका दोष शमन
करे जैसे रामचंद्रकी स्तुति करनेसे पाप शमन होते है ॥

शालूरपर्ण्यादिअवलेह ।

शालूरपर्णामालूरमृलामयमधुप्लुता ॥

शंखुकपुष्पीसहितासेव्यावाचांविशुद्धये ॥

अर्थ—कमलकंद (भसीडे) पिठवन, कूठ, और शंखपुष्पी इनका चूर्ण शहत
मिलायके चाटे तो वाणी शुद्ध होय ॥

त्रिपुरभैरवरस ।

विश्वाभर्मविभावरीयुगवरावत्सादनीवारिदव्याघ्रीनिवपटोलपु-
ष्करजदारुगदारुभिर्वाकृतः ॥ विषमहौषधमागधिकोपणाद्यु-
मणिरक्तकमार्द्रकमर्दितं ॥ क्रमविवर्धितमुद्गलितंज्वरत्रिपुरभै-
रवस्वरसोवरः ॥

अर्थ-सोंठ, सुवर्णभस्म, हलदी, दारुहलदी, त्रिफला, गिलोय, नागरमोंथा, कटेरी, नीमकी छाल, पटोलपत्र, पुहकरमूल, कूठ, और देवदार, इनका काठा देय तो जिन्हक संनिपात दूरहोय ॥ अथवा विष, सोंठ, पीपर, गजपीपर, आक और लाल अंडौआ ये औषध क्रमसे बढती लेये (जैसे विष १ भाग, सोंठ २ भाग, पीपर ३ भाग,) इसप्रकार ले अदरखके रसमें खरल करे तो इसे त्रिपुर-भैरव रस कहते है इसको चाटनेसे जिन्हक सन्निपात दूर होय ॥

सामान्यउपचार ।

गुंजैकंमधुनाप्यत्रदेयोह्यानंदभैरवः ॥

दध्यन्नंदापयेत्पथ्यंत्रिनेत्राख्योरसोहितः ॥

अर्थ-आनंदभैरव रस शहत से चाटे और दहीभात पथ्य देवे अथवा त्रिने-त्राख्य रस देय तो जिन्हक संनिपात नाश होय ॥

अभिन्याससन्निपातनिदान ।

दोषत्रयस्त्रिगुणसुखत्वनिद्रावैकल्यनिश्चेष्टनकष्टवाग्मा ॥

बलप्रणाशःश्वसनादिनिग्रहोभिन्यासउक्तोनुमृत्युकल्पः ॥

अर्थ-दोषत्रयोके कोष करके मुखपर चिकनाई, निद्रा, अंगोंमें विकलता, निश्चेष्टता, बडे कठिनतासे बोलना, बलनाश, दमपा चटना ए लक्षण अभि-न्यास सन्निपातमें होते है यह केवल मृत्युही है ॥

औषधोंकीअवधि ।

यावच्चश्वसतेजीवोयावत्कामतिभेपजं ॥

तावात्क्रियाप्रकर्तव्यादेवस्यकुटिलागतिः ॥

अर्थ-यावत्पर्यंत यह मार्ग शासनाज्ञास लेता है और औषध पडमें उत-रती है, तबतक औषधके विषयमें उपेक्षा न करे; अर्थात् तावत्काल पर्यंत औषध दीये जाय व्यों कि देवकी गति विचित्र है कदाचित् रोगी बचजावे ॥

इसमेंदृष्टांत ।

दुर्गभसियथामज्जन्भाजनन्त्वरयाबुधः ॥ गृण्णीयात्तलमप्राप्तं
तथाभिन्व्यासपीडितं ॥ निद्रोपेतमभिन्व्यासंक्षिप्रंविद्याद्धतौजसं ॥

अर्थ—जैसे अथाह जलमें बरतन गिरे हुएको तलमें न पहुँचने पावे उससे प्रथमही पकडले उसीप्रकार अभिन्व्यास संनिपात पीडित रोगीका बहुतही शीघ्र यत्न करना चाहिये अभिन्व्यासमें निद्रा आतेही हतवीर्य जानना ॥

सामान्यउपचार ।

सन्निपातांतकंचात्रमापैकंदापयेद्रसं ॥

पथ्यपूर्वोदितंदेयंरसोद्धानंदभैरवः ॥

अर्थ—अभिन्व्यास संनिपातमें एक मासे संनिपातांतक रस देवे किंवा आनंदभैरव रस देय और पूर्वोक्त पथ्य देवे ॥

सिंह्यादिकाढा ।

सिंहिव्याघ्रीमृताद्राक्षाअजाजीसकटुत्रिकं ॥ भृंगीविडंगंचस-
मंपक्काविश्वांव्यसाधयेत् ॥ घृताक्तैस्तंडुलैर्भ्रष्टैः पेयामुष्णां
ज्वरीपिवेत् ॥ हिक्काश्वासीचकासीचतथाभिन्व्यासपीडितः ॥
विवद्धवातविण्मूत्रोपानमस्मिन्प्रयोजयेत् ॥

अर्थ—कटेरी, बडी कटेरी, गिलोय, दाख, जीरा, सोंठ, मिरच, पीपर, काक-
डासिंगी, वायविडंग, इनका काढा कर उस काढेमें चावल घीमें भून उनकी पेया करावे उस पेयाको गरमागरम ज्वरवालेको देय तो हिचकी, श्वास, खाँसी, अभिन्व्यास संनिपात और वायु मलमूत्र इनका अवरोध ये दूर होय ॥

कंटकार्यादिकाढा ।

बृहतीपौष्करंभार्गीसठीशृंगीदुरालभा ॥

पक्कापानंप्रशंसंतिश्लेष्मातेनोपशाम्यति ॥

अर्थ—कटेरी, पोहकरमूल, भारंगी, कचूर और धमासा इनका काढा देय तो इससे कफशांति होय ॥

त्रिवृतादिकाढा ।

त्रिवृद्विशालात्रिफलाकटुकारग्वधैःकृतः ॥

सक्षारोभेदनः काथोज्ञेयःसर्वज्वरापहः ॥

अर्थ-निसोय, इन्द्रायनकी जड़, त्रिफला, कुटकी और अमलतासका गूदा, इनके काठमें जवासार डालके देय तो रूचक और सर्व ज्वरनाशक है ॥

त्रायंत्यादिकाढा ।

त्रायंतीदशमूलपुष्करजटावातारिभिःकारवीभांगीस्यादमृता-
टरूपकशटीगोमूत्रसंयोजितैः ॥ शृंगीव्योपपुनर्नवाभिरचिरादु-
ष्णःकपायोहरेत्साभिन्वासगदंकफज्वरहरानिःसंशयंपाययेत् ॥

अर्थ-त्रायमाण, दशमूल, पुहकरमूल, अंडकी जड़, सोंफ, भारंगी, गिल्लोय, अडूसा, कचूर, काकडासिंगी, सोंठ, मिरच, पीपल, पुनर्नवा इनका गोमूत्रमें काढा कर किंचित् उष्ण पिवावे तो अभिन्यास संनिपात कफज्वरको नाश करे ॥

सुरभ्यादिकाढा ।

सुरभिसलिलयुक्तःसिंहिकाश्रीफलाभ्यांप्रवरलवणया-
सोविश्वपापाणभेदैः ॥ पवनरिपुजटाभिःसंयुतःकाथ
एषांप्रतिदिनमपिपीतोहंत्यभिन्वासशूलं ॥

अर्थ-कटेरी, बेलगिरी, सैधानिमक, धमासा, सोंठ, पाखानभेद, अंडकीजड़, जटामांसी इनका काढा करके गोमूत्रके साथ देवे तो अभिन्यास सन्निपात और शूल इनको नाश करे ॥

शृंग्यादिकाढा ।

शृंगीभांग्यभथाजाजीकणाभूनिवर्पणैः ॥ देवदारुवचाकुष्ठ-
यासकद्रफलनागरैः ॥ मुस्तधान्यकतिकेन्द्रयवपाठाहरेणुभिः ॥
हस्तिपिप्पल्यपामार्गपिप्पलीमूलचित्रकैः ॥ विशालारग्व-
धारिष्टशठीवाकूचिकाफलैः ॥ विडंगरजनीदार्वीयवानीद्रियसं-
युतैः ॥ समांशैर्विहितःकाथोहिंश्वार्द्रकरसान्वितः ॥ अभिन्या-
सज्वरंधोरंहंतितंद्रांचतत्क्षणात् ॥ प्रमोहंकर्णमूलंचसन्निपा-
तांस्त्रयोदश ॥ हिक्कांश्वासंचकासंचतथासर्वानुपद्रवान् ॥

अर्थ-काकडासिंगी, भारंगी, हरड, जीरा, पीपल, चिरायता, पित्तपापडा, देवदारु, वच, कूट, धमासा, कायफल, सोंठ, नागरमोथा, धनिया, कुटकी, इन्द्रजौ, पाड, रेशुकाद्रव्य, गजपीपर, आंगा, पीपरामूल, चोंतेकी छाल, इन्द्रायनकी जड़, अमलतासका गूदा, नीमकी छाल, कचूर, वायनी, वाय-

विडंग, हलदी, दारुहलदी, अजमायन, अजमोज ये औषध सब समान भाग ले काढा करके उसमें हींग और अदरकका रस डालके पीवे तो अभिन्यास सन्निपात, ज्वर, तंद्रा, मोह, कर्णमूल, तेरह प्रकारके सन्निपात, हिचकी, श्वास, सांसी और ज्वरके सर्व उपद्रव इनको नाश करे ॥

शृंग्यादिकाढा ।

शृंगीधन्वयवासपुष्करजटाभांगीशठीसिंहिका-

क्वाथःपानविधानतःकफहरोभिन्यासविध्वंसकः ॥

अर्थ—कांकडासिगी, लालधमासा, पुहकरमूल, भारंगी, कचूर, कटेरी, इनका काढा पीवे तो कफ, और अभिन्यास सन्निपात इनका नाश करे ॥

तिक्तादिकाढा ।

तिक्ताभयावृहदंतीत्रायंतीराजवृक्षकः ॥

क्षाराद्यःसैधवोपेतःक्वाथोभेदीज्वरापहः ॥

अर्थ—कुटकी, हरड, बडी दंती, त्रायमाण, और अमलतासका गूदा, इनका काढा जवाखार और सैधानिमक डालके देय तो भेदी और ज्वरनाशक होय ॥

व्याध्यादिकाढा ।

व्याघ्रीदुरालभाभांगीसठीशृंगीसपौष्करं ॥

पक्वांबुश्लेष्महृदयमभिन्यासप्रशांतये ॥

अर्थ—कटेरी, धमासा, भारंगी, कचूर, कांकडासिगी, और पुहकरमूल, इन औषधोंका काढा करके पीवे तो कफ, पेटका दूखना, और अभिन्यास सन्निपात शांति होय ॥

भांग्यादिकाढा ।

भांगीपुष्करमूलंचरास्त्राविल्वंसमुस्तकं ॥ नागरंदशमूलंचपि-

प्पल्याविश्वसाधितं ॥ हिंवाद्रेकरसोपेतंपिप्पलीचूर्णसंयुतं ॥

सन्निपातज्वरंधोरमभिन्यासंचदारुणं ॥ हृत्पार्श्वशूलमात्रा-

हंसद्यःपीतंनियच्छति ॥

अर्थ—भारंगी, पुहकरमूल, रास्ना, वेलगिरी, नागरमोथा, सोंठ, दशमूल, पीपल, अतीस इन औषधोंका काढा करके उसमें हींग और अदरकका रस तथा पीपलका चूर्ण मिलायके देवे तो सन्निपातज्वर, अभिन्यास, हृदय और पार्श्व इनका शूल इनको नाश करे ॥

बीजपूरादिकाढा ।

बीजपूरकविल्वाश्मभेदकंवृहतीद्वयं ॥ सकार्पिकंतथै
रंडंजलेचापृगुणेशृतं ॥ पक्वगोमूत्रसंयुक्तंविडसौवर्चला-
न्पितं ॥ हृद्रस्तिशूलेसानाहेअभिन्यासेज्वरेहितं ॥

अर्थ—विजोर, वेलगिरी, पापाणभेद, कटेरी बडी, कटेरी छोटी, प्रत्येक एक
२ तोले ले, इसमें अंडकी जड आठ तोले डालके अठगुने जलमें काढा करे,
इसमें गोमूत्र, विडलोन, और संचरनोन डालके पीवे तो हृदय और बस्ती
इनके शूलको मलबद्धता और अभिन्यास ज्वर इनपर हितकारक है ॥

मातुलंगादिकाढा ।

मातुलंगाश्मभिद्रिल्वव्याधीपाठाऋवूकजः ॥
क्वाथोलवणमूत्राढ्योभिन्यासानाहशूलनुत् ॥

अर्थ—विजोरेकी केशर, पापाणभेद, वेलगिरी, कटेरी, पाढ, और अंडकी
जड इनके काठमें निमक और गोमूत्र मिलापके पीवे तो अभिन्यास संनिपात
अफरा और शूल दूर हो ॥

कारव्यादिकाढा ।

कारवीपौष्करैरंडत्रायंतीनागरामृता ॥ दशमूलसठीगृगीवा-
लाभांगीपुनर्नवा ॥ तुल्यामूत्रेणनिःक्वाथ्यपीताःस्रोतोविशोधि
नी ॥ अभिन्यासज्वरायासमाशुघ्नंतिसमुद्धतं ॥

अर्थ—कलौजी, पुहकरमूल, त्रायमाण, सोठ, गिलोय, दशमूल, कचूर, कों-
कडासिंगी, अडूसा, भारंगी, और साँठकी जड सब समान ले गोमूत्रमें काढा
करके पीवे तो नाडियोंके मार्गको शुद्ध करे और अभिन्यास ज्वर परिश्रम इन
सबको तत्काल दूर करे ॥

पटोलादिक्वाथ ।

पटोलपत्रंवृहतीसुपवीकंटकारिका ॥ मरीचंपिप्पली
विल्वंचिरिविल्वंसचित्रकं ॥ करंजवीजंमंजिष्ठात्रायं-
तीविश्वभेषजं ॥ गलप्रबोधनंश्रेष्ठमभिन्यासज्वरापहं ॥

अर्थ—पटोलपत्र, कटेरी बड़ी, कलोजी, छोटी कटेरी, कालीमिरच, पीपल, बेलगिरी, फंजेकी छाळ, चीता, फंजेके बीज, भँजीठ, त्रायमाण, और सोंठ, इनका काटा करके पीवे तो कंठको शुद्ध करे, और अभिन्यास ज्वर दूर हो ॥

जयमंगलरस ।

मृतसूताभ्रकनिवंक्षारंमरिचमुंडकं ॥ तालकंमाक्षिकंव्योपं
विपटंकणचित्रकं ॥ समांशंमर्दयेत्खल्वेपाठानिर्गुडिविल्व-
जैः ॥ द्रवैर्यष्ट्यादिनैकंतुरुध्वापाच्यंतुभूधरे ॥ पुटैकेनभवे-
त्सिद्धोरसोयंजयमंगलः ॥ दशमूलकपायेणमापैकःसंनिपा-
तजित् ॥ अंजनेवाथवानस्येअभिन्यासांतकोभवेत् ॥

अर्थ—पारद, अभ्रक, इनकी भस्म, नीम, जवाखार, मिरच, मुंडलोहकी भस्म, हरताल, सुवर्ण माक्षिक, त्रिकुटा, विप, मुहागा, और चीतेकी छाळ सब बराबर ले सबको पाठ निर्गुडी और बेल इनके रसमें एकदिन खरल करे, एक दिन मुलहटाके रसमें खरलकर भूधर यंत्रमें धरके पचावे तो एकही पुटमें यह (जयमंगलरस) सिद्ध होय ॥ १ मासे दशमूलके काटेमें सेवन करे तो संनिपात जीते इसके अंजन करनेसे अथवा नास लेनेसे अभिन्यासको दूर करे ॥

स्वच्छंदनामकरस ।

शुद्धसूतंद्रिधागंधंसूतांशंमृतहेमकं ॥ मृतरौप्यंचताम्रंचसूततु-
ल्यंपृथक्पृथक् ॥ सूर्यावर्तस्यनिर्गुड्यास्तुल्यंचार्द्रार्द्रकद्रवैः ॥
भृंगोन्मत्ताखुकर्णानामग्निकर्ण्याग्निमंथयोः ॥ तिलपर्णीचित्र-
कयोःकाकमाच्यारसैःसह ॥ मर्दयेत्त्रिदिनंखल्वेशुष्कंपित्तैर्वि-
भावयेत् ॥ मत्स्यमाहिपवाराहछागमायूरजैर्दिनं ॥ अंधमूपा
गतंपाच्यंवालुकायंत्रगौर्दिनं ॥ आदायचूर्णितंखादेन्मापैकं ॥
चार्द्रकद्रवैः ॥ निर्गुड्यादशमूलानांकपायंमरिचंपिवेत् ॥ अ-
भिन्यासंनिहंत्याशुरसःस्वच्छंदनामकः ॥ पथ्यंस्यान्सुद्वयूपे
णक्षीरैर्वाज्यैर्विधापयेत् ॥

अर्थ—शुद्ध पारा तौलेभर, गंधकर तौले, सुवर्णभस्म ३मासे, रूपरस, ताम्र-
भस्म दोनों तौले तौले भर ले सबको एकत्र कर डुलडुल, निर्गुडी, अदरख

भांगरो, धतूरो, मुसाकर्णी, अभिकर्णी, अरनी, तिलपर्णी, चीता और मकोय, इनके रसमें ३दिन खरल करे जब मूख जाय तब रोहू मछली, भैंसा, सूअर, बकरा, और मोर इनके पित्तेकी भावना देय फिर शीशीमें भर वालुकायंत्रमें अघमूपामें १दिन पचावे, फिर निकाल चूर्णकर १मासे अदरखके रससे खाय ऊपरसे निर्गुंडी, दशमूल, मिरच इनका काढा पीवे तो यह (स्वच्छंदरस) अभिन्यास सन्निपातको दूर करे इसके ऊपर मूंगका यूप, दूध, और घी देवे ॥

मातुलुंग्यादिरस ।

मातुलुंगरसंतस्य हिंशुंठीयुतं मुखे ॥

दद्यात्प्रथमं नतीक्ष्णं कटुतीक्ष्णोपसंहितं ॥

अर्थ—विजोरेके रसमें हींग और साँठ, मिलायके मुखमें रक्खे और तीखी तथा चरपरी औषध नेत्र तथा नाक कानमें फूँके तो सन्निपातकी वेहोसी दूर हो ॥

आर्द्रकादि नस्य ।

आर्द्रकं स्वरसोपेतं सिंधूत्थं सकटुत्रिकं ॥

प्रबोधाय मुखे दद्यान्नस्यं वामरिचेन च ॥

अर्थ—अदरखके रसमें त्रिकूटा और सैंधानिमक इनका चूर्ण मिलाय मुखमें धरनेको देय और अदरखके रसमें मिरच मिलाय नास देवे तो सन्निपातवाला रोगी सावधान होय ॥

रामठादि नस्य ।

रामठनागरसहितं भृंगरसाम्लं तुलेहतः प्रातः ॥

अथ कटुतिक्तोपयुतं भवति सुखप्रबोधनं नस्यं ॥

अर्थ—हींग, और साँठ इन औषधोंको भांगरेके और नीचूके रसमें मिलाय चाटे अथवा तीक्ष्ण और कटुई औषधोंकी नस्य देवे तो रोगी सावधान होय ॥

मरीचादि नस्य ।

मरिचलवणकृष्णाभूतकेशीमधूकैः कटुफलमृदुकृत्वा

कोष्पनीरेण नस्यं ॥ प्रकटयति विकीर्णश्चाष्टभिर्वाच-

तुभिः सकलकरणबोधं विदुभिर्दीयमानं ॥

अर्थ—कालीमिरच, सैंधानिमक, पीपल, निर्गुंडी, महुआके फूल, और काय-

फल, इन औषधोंका चूर्ण कर गरम जलमें डाल उसके आठ अथवा चार बूदकी नास लेय तो सन्निपातका रोगी चैतन्य होय ॥

लशुनादिअंजन ।

लशुनमरिचकृष्णामाणिमंथोग्रगंधाशुकतरुफलवीजै-
विश्वगोमूत्रपिष्टैः ॥ कफपवनविकारेरक्तपित्तप्रभेदेग-
दितमगदविद्धिनेत्रयोरंजनंस्यात् ॥

अर्थ—लहसन, कालीमिरच, पीपल, सैधानिमक, वच, सिरसका फूल और सोंठ, इन औषधोंका चूर्ण गोमूत्रमें खरल कर अंजन करे तो कफ, वायु, और रक्तपित्त, इनको दूर करे ॥

जात्यादिअंजन ।

जातीपुष्पप्रवालंचमरिचरोहिणीवचां ॥

सैधवंवस्तमूत्रेणतंद्रानाशनमुत्तमं ॥

अर्थ—चमेलीके फूलोंका रस, काली मिरच, फुटकी, वच, और सैधानिमक, इनका चूर्ण कर उसको बकरीके मूत्रमें घिसकर अंजन करे तो तंद्रा दूरहोय ॥

शिरीषबीजादिअंजन ।

शिरीषबीजंमरिचंवस्तमूत्रेणतत्समं ॥

अंजनंतदभिन्यासेसंज्ञाबोधनमिष्यते ॥

अर्थ—सिरसके बीज और मिरच ये समान भाग ले बकराके मूत्रमें पीस अंजन करे तो अभिन्यास सन्निपातमें उत्तम संज्ञा प्रबोध करे ॥

दंभ अथवा दाग ।

संज्ञायस्यनजायतेचरणयोर्द्वंद्वंसमादह्यते ॥

भालेलोहशलाकयासतिकृतेसर्वक्रियाकर्मणि ॥

अर्थ—सन्निपातमें जिसकी संज्ञा जाती रहे उसके दोनों पैर और कपाल इनमें लोहकी सलाईसे दाग देवे ॥

दागदेनेकेनंतरउपाय ।

एवंविधेस्मिन्विहितेविधानेनयातिसंज्ञायदियश्चजंतुः ॥

तंपादमूलेभृकुटौलालटेशलाकयालोहजयादहेत्तु ॥

अर्थ—इस प्रकार दाग देने पर भी जिसको होसन होवे उसके तरवा, भौंह और ललाट, इनमें लोहकी सलाईसे दाग देना चाहिये ॥

हारिद्रकसंनिपातनिदान ।

हारिद्रदेहनखनेत्रकरांघ्रितापनिष्ठीवनादिकसनैरूपल-
क्षितोयः ॥ हारिद्रकःसकथितःकिलसंनिपातःसाध्योन-
चैपभिपजांज्वरकालरूपः ॥

अर्थ—देह, नख, नेत्र, हाथ, पैर, ये हलदीके समान पीले हो जाय, ज्वर, थूकना, और खांसी ये लक्षण जिस संनिपातमें होय उसको (हारिद्रक) सन्नि-
पातज्वर जानना यह कालरूप है अर्थात् वेद्यसे साध्य नहीं हो सकता यह
तेरह संनिपातोंसे पृथक् है ॥

सन्निपातकीमर्यादा ।

सद्यस्त्रिपंचसप्ताहादशाहाद्वादशादपि ॥

एकविंशद्दिनैः शुद्धः सन्निपातीसुजीवति ॥

अर्थ—सन्निपात प्रगट होनेके नंतर तत्काल अथवा तीन, पांच, सात, दश
और चारह दिन व्यतीत होनेपर २१ दिन जब होजावे तब संनिपातसे मुक्त
हुआ रोगी अच्छे प्रकार बचता है ॥

त्रिदोषज्वरोंकीसाधारणमर्यादा ।

सप्तमीद्विगुणायवन्नवम्येकादशीतथा ॥ एपात्रिदोषमर्यादा

मोक्षायचवधायच ॥ पित्तकफानिलबृद्ध्यादशदिवसद्वादशा-

हसप्ताहात् ॥ हंतिविमुंचतिपुरुषंत्रिदोषतोधातुमलपाकात् ॥

अर्थ—त्रिदोष होनेसे वह रोगी ७, १४, ९, १८, ११, २२, इतने दिनमें कि
तो मर जावे, अथवा इतने दिनके पश्चात् बचनेसे ज्वरमुक्त होय तिनमें सात,
नौ, और ग्यारह, ये तीन मर्यादा वाताधिक, पित्ताधिक, और कफाधिक, इस
क्रमसे है, इस मर्यादामें त्रिदोषज्वरमें धातुपाक होनेसे रोगी मरे और
मलपाक होनेसे रोगी सन्निपातसे छूटे धातुपाक और मलपाकका होना ईश्वरके
आधीन है ॥

धातुपाकलक्षण ।

निद्रानाशोहृदिस्तंभोविष्टंभोगौरवारुची ॥

अरतिर्वलहानिश्चधातूनांपाकलक्षणं ॥

अर्थ—निद्राका नाश, हृदयका स्तम्भित होना, मलमूत्रका रुकना, शरीर भारी, अरुचि, मनका न लगना, बलक्षीणता, ये धातुपाकके लक्षण हैं ॥

मलपाक ।

दोषप्रकृतिवैकृत्यंलघुताज्वरदेहयोः ॥

इन्द्रियाणांचवैमल्यंदोषाणांपाकलक्षणं ॥

अर्थ—पूर्वदोषोंका पलटना, ज्वर और देहमें हलकापना, इन्द्रियोंकी शुद्धता ये मलपाकके लक्षण हैं ॥

सन्निपातके असाध्यलक्षण ।

दोषेविवद्धेनष्टेऽग्नौसर्वसंपूर्णलक्षणः ॥

सन्निपातज्वरोऽसाध्यःकृच्छ्रसाध्यस्ततोऽन्यथा ॥

अर्थ—मलादि और पित्तादि दोष बद्ध होनेसे तथा अग्नि शांत होनेसे वातादि सर्व दोषोंके संपूर्ण लक्षण होकर सन्निपातज्वर असाध्य होता है, और इसके विपरीत अर्थात् दोषोंकी प्रवृत्ति होकर अग्नि थोड़ीसी दीप्त हो, सबके लक्षण थोड़े २ होय तो सन्निपातज्वर कष्टसाध्य होता है ॥

आगंतुकज्वर ।

अभिचाराभिघाताभ्यामभिपंगाभिशापतः ॥

आगंतुर्जायतेदोषैर्यथास्वंतंविभावयेत् ॥

अर्थ—मारणादि प्रयोग, ताड़न, भूतप्रेत वाधा, तथा ब्राह्मण, गुरु, वृद्ध, इनके कोपसे और शाप इन कारणोंसे वातादि दोष कुपित हो आगंतुक ज्वरको उत्पन्न करते हैं वो ज्वर वात, पित्त, और कफ इन भेदोंसे तीन प्रकारका है ॥

आगंतुकज्वरचिकित्साक्रम ।

आगंतुकज्वरेनैव नरःकुर्वीतलंघनं ॥

शुद्धवातक्षयागंतुर्जाणंज्वरिपुलंघनं ॥

अर्थ—आगंतुक ज्वरमें मनुष्यको लंघन नहीं कराने, केवल शुद्ध वात क्षय दोषजन्य आगंतुक ज्वर और अजीर्ण ज्वर इनपर लंघन करावे ॥

अभिचाराभिघातज्वरनिदान ।

अभिचाराभिघाताभ्यामोहस्तृष्णाचजायते ॥

अर्थ-अभिचार और अभिघात इनसे प्रगट हुए ज्वरमें मोह होता है और प्यास लगती है ॥

अभिचारज्वरपरचिकित्सा ।

अभिचाराभिशापोत्थौज्वरौहोमादिनाजयेत् ॥

देहंस्वस्त्ययनैस्तीर्थैरुत्पातग्रहपूजनैः ॥

अर्थ-अभिचार और अभिघात इनसे उत्पन्न हुए ज्वरको होम, देवपूजा, तथा, देहमें मंगलकारी मणि आदिका धारण, तीर्थस्नान, और जिससे पीडा हो उस ग्रहका पूजन इत्यादि यत्नोंसे जीते ॥

अभिघातज्वरपर चिकित्सा ।

अभिघातज्वरेयुंज्यात्क्रियामुष्णविवर्जितां ॥

कपायंमधुरंस्निग्धंयथादोषमथापिवा ॥

अर्थ-अभिघात ज्वरपर उष्णवर्जित और कषली, मधुर, स्निग्ध ऐसी अथवा जो दोष होय उसपर जो चिकित्सा लिखी है वो करनी चाहिये ॥

सामान्यउपचार ।

अभिघातज्वरोनश्येत्पानाभ्यंगेनसर्पिपः ॥

रक्तावसेकैर्मध्येश्चतथामांसरसोदनैः ॥

अर्थ-अभिघात ज्वरपर घृतका पान, तथा देहमें घीकी मालिस, रुधिर निकलवाना, शैक देना, ये उपचार करके पथ्यमें मांसरस और भात देवे ॥

व्यधादिकोंपर ।

व्यधबंधश्रमात्यध्वभंगभ्रंशसमुद्भवान् ॥

ज्वरानुपचरेत्पूर्वक्षीरमांसरसोदनैः ॥

अर्थ-वेध, बंधन, श्रम, बहुत मार्ग चलना, गिरना इन कारणोंसे उत्पन्न ज्वरपर प्रथम दूध, मांसरस, और भात देवे ॥

मार्गश्रमजन्यज्वरपर ।

अध्वश्रान्तेषुचाभ्यंगंदिवानिद्रांचकारयेत् ॥

अर्थ-बहुत चलनेसे जो थकगया हो इस कारणसे जो ज्वर आया हो उसका मालिस कर दिनमें सुलाना चाहिये ॥

दूसराप्रकार ।

व्यधबंधसमावेशभग्नप्रसमुद्भवाच्च ॥

ज्वरानुपाचरेत्पूर्वमदिराक्षीरभोजनैः ॥

अर्थ—वेध,बंध, भूतवाधा,चोट लगनेसे और प्रिय वस्तुके नाश होनेसे जिसको ज्वर आया हो उसको प्रथम मद्य और दूध पिलाना चाहिये ॥

भूताभिपंगज्वरनिदान ।

कामशोकभयाद्वायुःक्रोधात्पित्तत्रयोमलाः ॥

भूताभिपंगात्कुप्यंतिभूतसामान्यलक्षणं ॥

अर्थ—काम शोक और भय इनसे वात कुपित होताहै क्रोधसे पित्त कुपित होताहै और भूताभिपंगसे तीनों दोष कुपित होतेहैं इसमें औरभी लक्षण होतेहैं अर्थात् उन्माद निदानमें जिसजिस देवग्रहोंके लक्षण (हास्यरोदनकंपादिक) कहेहैं वो लक्षण होतेहैं ॥

दूसराप्रकार ।

भूताभिपंगादुद्वेगोहास्यरोदनकंपनं ॥

अर्थ—भूतवाधा करके ज्वर आनेसे चित्तमें उद्वेग हो,हँसे,रोवे,और काँपताहै॥

सामान्यचिकित्सा ।

शीतभंजीरसोवात्रह्यनुपानेद्विगुंजकः ॥

अर्थ—भूतज्वरपर शीतभंजीर नामकरस यथायोग्यअनुपानसे दोरती देवे॥

त्रिकटादियोग ।

गंधकंत्रिकटुंसाज्यंपिवेद्भूतज्वरापहं ॥

अर्थ—गंधक और त्रिकुटा इनके चूर्णको घीमें मिलायके देवे तो भूतज्वरदूरहो॥

गंधकादियोग ।

गंधकेनसमाधात्रीभुक्तासाभूतजंज्वरं ॥

कर्पमात्रंप्रदातव्यंसर्वभूतज्वरहेहितं ॥

अर्थ—गंधक और आमले इनके समभाग चूर्ण को १० मासे पर्यंत देवे यह सर्वभूतज्वरोंपर हितकारक है ॥

अष्टमूर्तिरस ।

हेमरूप्यंताम्रनागंमृतंगंधकमाक्षिकं ॥ विमलाचशिलाशुद्धा
सर्वांशुशुद्धसूतकं ॥ अम्लेनमर्दयेद्यामंपुटेकुंभधरेपचेत् ॥ अ-
ष्टमूर्तिरसोनामगुंजैकंभूतिकेज्वरे ॥ देयश्चातुर्थिकंत्र्याहंद्र्या
हिकंचविनाशयेत् ॥

अर्थ—सुवर्ण, चांदी, तामा, और शीशा इनकी भस्म, गंधक, विमला, मनसि-
ल ए शुद्ध करी हुई समान भाग ले, इन सबकी बराबर शुद्धपारा ले, सबको एकत्र
कर नाचूके रसमें एक प्रहर घोटके फिर कुंभपुट देवे यह (अष्टमूर्ती रस) शरत्ती
ज्वरवालेको देय तो भूतज्वर, चातुर्थिक, त्र्याहिक, व्याहिक, इनको दूर करे ॥

मधुकनस्य ।

मधुकसारमरिचंसैधवांपिप्पलीवचा ॥

संज्ञाप्रबोधननस्यंदेयंभूतज्वरेसदा ॥

अर्थ—महुआका गोंद कालीमिरच, सैधानिमक पीपल, और वच इनकी नस्य
भूतज्वरमें सदैव देवे ॥

व्योपादिनस्य ।

कुर्याद्भूतज्वरेनस्यंव्योपाष्टतुलसीदलैः ॥

अर्थ—सोंठ, मिरच, पीपल, और तुलसीके आठ पत्र, इनके रसकी नस्य देवे
तो भूतज्वर दूर होय ॥

सहदेवीमूलिकाबंध ।

सहदेवायामूलंविधिनाकंठेनिबद्धमपहरति ॥

एकद्वित्रिचतुर्भिर्दिवसैर्भूतज्वरंपुंसाम् ॥

अर्थ—सहदेईकी जड़को विधियुक्त कंठमें बाँधे तो एक, दो, तीन चार दिनमें
भूतज्वर दूर हो ॥

सूर्यावर्तबंध ।

सूर्यावर्तस्यमूलंचकणैर्भूतज्वरापहं ॥

अर्थ—हुलहुलकी जड़को कानमें बाँधे तो भूतज्वर दूर हो ॥

विजयाबंध ।

सायंकालेभिमन्त्र्यैवविजयांप्रातरुद्धरेत् ॥

बद्धाशिरसितन्मूलंभूतज्वरहरंपरम् ॥

अर्थ-भांगके घृक्षको सायंकालमें निमंत्रणकर आवे प्रातःकाल उखाड उसकी जडको मस्तकमें बाँधे तो भूतज्वरको नाश करे ॥

पुष्यार्कयोग ।

पुष्यार्केकाकतुंड्याश्वमूलंभूतज्वरापहं ॥

बंधयेद्रक्तसूत्रेणबाहौशिरसिवागले ॥

अर्थ-पुष्यार्कमें काकडोडीकीजडको लावे उसको लालसूतसे भुजामें अथवा मस्तकमें वा गलेमें बाँधे तो भूतज्वरको दूर करे ॥

मृत्तिकातिलक ।

कर्कटस्यविलोद्भूतमृदातुतिलकेकृते ॥

अर्थ-केकडेके विलेकी मिट्टीका तिलक करनेसे भूतज्वर दूर हो ॥

मंत्र ।

गोमयमंडलंकृत्वापुष्पगंधाक्षतादिभिः ॥ अर्चयेन्मंत्रवित्स-

म्यक्स्वहस्तमंडलोपरि ॥ स्थापयित्वाजपेन्मंत्रस्पृशेत्सा-

ध्यस्यमस्तकम् ॥ स्पृष्ट्वातत्रजपेन्मंत्रयावदष्टोत्तरंशतम् ॥

अथमंत्रः॥कालकालमहाकालकालदंडनमोस्तुते ॥ कालदं-

डनिपातेनभूम्यंतर्निहितंज्वरम् ॥ त्रिदिनंकारयेदेवहन्याद्भूता

दिकाञ्ज्वरान् ॥

अर्थ-गौके गोबरका चौका देकर उसकी गंधाक्षतसे पूजनकर उसके ऊपर हात धरके "काल काल महा काल" इस मंत्रको १०८ वार जपके उस हाथको रोगीके मस्तकपर धरके फिर १०८ वार मंत्रको जपे इसप्रकार तीन दिन करे तो भूतज्वरादिक दूरहो ॥

अभिपंगज्वरपरचिकित्सा ।

भूतविद्यासमुद्दिष्टैर्वधावेशनताडनैः ॥

जयेद्भूताभिपंगोत्थंअनुशांत्यादिभिर्ज्वरम् ॥

अर्थ—भूतविद्यामें कहे जो गाडना, देहमें भराना, और मारना इत्यादि प्रयोग इनसे अथवा शांति आदि करके भूतवाधा जनित ज्वरको जीते ॥

अभिशापज्वरपरचिकित्सा ।

लंघनंहितंकामशोकचिंताप्रहारजे ॥ भयभूतश्रमक्रोधलं-
घनैश्चकृतेज्वरे ॥ किंतुदीप्ताग्नेतत्रदद्यान्मांसरसौदनम् ॥

अर्थ—काम, शोक, चिंता, प्रहार, भय, भूतवाधा, श्रम, क्रोध, और लंघन इनसे उत्पन्नज्वरवालोंको लंघन हितकारी नहीं है इसका यह कारण है कि, रोगीकी जठराग्नि प्रदीप्त होती है इसवास्ते उसको मांसरस तथा भात पथ्यमें देवे ॥

दूसराप्रकार ।

अभिचाराभिशापोत्थोज्वरौहोमादिभिर्जयेत् ॥

दानस्वस्त्ययनातिथ्यैरुत्पातग्रहदूषितौ ॥

अर्थ—अभिचार (घात मूढ आदि) अभिशाप, उत्पात और दुष्टग्रह-इनसे प्रगट-हुए ज्वरको होम, दान, पुण्याहवाचन, तथा आतिथ्य इन उप-चारोंसे जीते ॥

विपजन्यआगंतुकज्वर ।

शावास्यताविपकृतेदाहोतीसारएवच ॥

भक्त्तारुचिःपिपासाचतोदश्वसहमूर्च्छया ॥

अर्थ—विपके संबंधसे उत्पन्न हुए ज्वरमें मुखकाला, दाह, अतिसार, अरुचि, तृषा, चोटनी और मोह ये लक्षण होते हैं, इसकी चिकित्सा विपनिदानमें कही है ॥

औषधीगंधसेहोनेवालेज्वर ।

औषधीगंधजेमूर्च्छाशिरोरुग्मथुःक्षवः ॥

अर्थ—दुष्टविषैल औषध सूंघनेसे जो ज्वर होता है उसमें मूर्च्छा, मस्तक शूल, वीति, हल्लास और छींक ये लक्षण होते हैं ॥

चिकित्सा ।

औषधीगंधविपजौविपपित्तप्रवाधनैः ॥

जयेत्कपायैर्मतिमान्सर्वगंधकृतैर्भिपक् ॥

अर्थ—औषधिगंध और विप इनसे प्रगट हुए ज्वरमें विप और पित्तनाशक औषध इन करके अथवा सर्व गंधादिगणके काय इत्यादि करके जीते ॥

अव सर्वगंधकहते हैं ।

चातुर्जातंककपूरंकंकोलागरुकुंकुमम् ॥

लवंगसहितंचैवसर्वगंधंविनिर्दिशेत् ॥

अर्थ—इलायची, दालचीनी, तालीसपत्र, नागकेशर, कपूर, कंकोल, काली अगर, केशर और लौंग ये एकत्र करनेसे इसको सर्व गंध कहते है ॥

कामज्वरनिदान ।

कामजेचित्तविभ्रंशस्तंद्रालस्यमभोजनम् ॥

हृदयेवेदनाचास्यगात्रंचपरिशुष्यति ॥

अर्थ—चित्तका डामाडोल होना, तंद्रा, आलस्य, भोजनमें अरुचि, हृदयमें और देहमें शुष्कता ये लक्षण कामज्वरमें होते हैं ॥

चिकित्सा ।

श्रीखंडमंडितकलेवरवल्लरीणामुक्ताफलाकुलितलोलकुचस्य
लीनाम् ॥ वैदग्ध्यमुग्धवचसांसुविलासिनीनामालिंगनंसकल
दाहमपाकरोति ॥

अर्थ—चंदन करके चर्चित देह मोतियोंके हार जिसके स्तनोंपर गिरे हुए तथा शृंगार रस भरित मिष्टभाषण करनेमें चतुर और रूप लावण्य संपन्न ऐसी प्यारी स्त्रियोंके आलिंगन करनेसे कामज्वर और पित्तज्वर शांत होता है ॥

दूसराप्रकार ।

शय्यापल्लवपद्मपत्ररचितावासोवयस्यैः समंकांतारेकुसुमस्फुर
त्तरुवेवापीर्जलालोकनम् ॥ आलापाश्चशुकालिकोकिलकृ-
ताःकांताश्चकांताःकथावाताश्चामलवालकव्यजनजादाघंनि
राकुर्वते ॥

अर्थ—वृक्षकी नवीन कोमल, उलहाती पातोंसे अथवा कमलके पत्रोंकी सेज बिछाकर उसपर निद्रा लेना, मित्रोंके साथ रहना, वागोंमें डोलना, वावड़ी अथवा सरोवरके किनारे बैठकर पवनलेना, सुंदर स्वर युक्त गान, तथा तोता मैना इनके मंजुल शब्द सुनना, परस्पर हाँसी ठठोरीकी वार्ता करना, तथा खसके पंखोंसे पवनका करना ये उपचार कामज्वरकीशांति करते हैं ॥

१. मुक्ताफलाकुलविशालकुचस्पलीनाम् इतिमुख्यपाठः ।

२. वीणान्वितंगायनम् इतिमुख्यपाठः ।

तीसराप्रकार ।

अयिनितंविनिगायनलालसेमधुरचारिणिकाममदालसे ॥

वपुपिदाहवतांविहितंहितंहिमहिमांशुजलैरनुलेपनम् ॥

अर्थ—हे नितंविनि ! चंदन, कपूर और खस; इनके जलका लेप करना दाहको दूर करता है ॥

चौथाप्रकार ।

शुभ्राभ्रविभ्रमधरेशशांककरसुंदरे ॥

चंदनैश्चचितेहर्म्येस्वापस्तापमपोहति ॥

अर्थ—मेपके समान शुभ्र, तथा चंद्रकिरणों करके सुंदर और चंदनसे पुता-
हुआ ऐसे घरमें शयन करनेसे ताप शमन होता है ॥

पाचवाँप्रकार ।

यदिपय्युपितंधान्यसलिलंसितयासह ॥

प्रभातसमयेपीतमंतर्दाहंविनाशयेत् ॥

अर्थ—सायंकालमें धनियेंको कोरे कुल्हड़ेमें भिगो देवे दूसरे दिन प्रातःकाल
दाहोंसे मसलकर कपड़ेमें छान ले फिर इसमें मिश्री मिलायके पीवे तो
दाह दूर हो ॥

छठवाँप्रकार ।

पित्तज्वरेकिंरसफांटलेपैः किंवाकपायैरमृतनकिंवा ॥ पेयंप्रिया

यामुखमेकमेवलोलिवराजेनसदानुभूतम् ॥ प्राणप्रेयसिमापिवं

तुपुरुषाः पित्तज्वरव्याकुलानानावालिजलं विलंबितफलंपाने

विपादप्रदम् ॥ तैस्तैः किंक्रियतांचिकित्सकपतेमुग्धेसुखं

सेव्यतांसद्यस्तापहरः सुधाधिकतरः कांताधरः केवलम् ॥

अर्थ—हे प्रिये ! पित्तज्वरपर अर्थात् कामज्वरपर रस, फांट, लेप, किंवा
कांटे अथवा अमृत देनेसे भी क्या उपयोग है, कुल नहीं ? किंतु उस रोगीको
प्यारी मृगनयनीके सुखका चुंबन करनाही इस रोगकी उत्तम औषध है,
लोलिवराज अपनी स्त्रीसे कहते हैं कि यह प्रयोग मेरा अनुभव करा हुआ
है । हे प्राणप्यारी ! कामज्वरपीडित पुरुषोंको बहुत कालमें गुणकर्ता ऐसे
अनेक प्रकार की वेलोंकारस, तथा कडुए कांटे दुखदाई नहीं पीने चाहियें किंतु

उस रोगीको तत्काल ताप हरण कर्ता और अमृतसे भी अधिक मिष्ट तथा सुखसे सेवन करा जाय ऐसा अपनी प्यारीका अधरोष्ठ चुंबन करना चाहिये ॥

सातवाँ प्रकार ।

कांताकटाक्षदग्धानां वदवैद्यकिमौपधम् ॥

दृढमालिंगनं पथ्यं काथश्चाधरचुंबनम् ॥

अर्थ—स्त्रीके कटाक्ष अमिसे झुरते हुएनको यही औपध हितकारी है कि सुंदर स्त्रीका अधर चुंबन यह काठा और आलिंगन करना यह पथ्य ॥

भयशोककोपइन्सेपैदाहुवाज्वरकानिदान ।

भयात्प्रलापः शोकाच्च भवेत्कोपाच्च वेपथुः ॥

अर्थ—भय, और शोकसे प्रगट ज्वरमें रोगी बकवादकरे और क्रोधसे उत्पन्न ज्वरमें देह काँपता है ॥

सामान्य उपचार ।

व्याघ्रचित्तकवातार्थस्थापयेज्जलमध्यगम् ॥

अनयाशीतक्रियया भयरोगः प्रशाम्यति ॥

अर्थ—व्याघ्रादिकोंकी भय चित्तसे दूर करनेकेलिये रोगीको जलमें खडाकरे इस शीतल क्रियाके करनेसे भय दूर होय ॥

चिकित्सा ।

हर्षणैश्च समंयांतिकामशोकभयज्वराः ॥

कामैरथो मनोज्ञैश्च पित्तघ्नैश्चाप्युपक्रमैः ॥

अर्थ—काम, शोक और भय, इनसे उत्पन्न हुए ज्वर हर्षोत्पादक पदार्थ करके अथवा मित्रमंडलीमें बैठनेसे दूर होता है, अथवा मनवांछित पदार्थके मिलनेसे अथवा पित्तनाशक यत्र करनेसे शांत होय ॥

आश्वासनेष्टलाभेन वायोः प्रशमनेन च ॥

हर्षणे च शमंयांतिकामशोकभयज्वराः ॥

अर्थ—धीरज वैधाना, इष्टवस्तुका लाभ, वायुका नाश करनेवाले और आनंददायक पदार्थ इन करके काम, शोक, और भयसे उत्पन्न ज्वर शांत होते हैं ॥

कामज्वर वा क्रोधज्वरइसपरसामान्यउपचार ।

कामात्क्रोधज्वरोनश्येत्क्रोधात्कामज्वरस्तथा ॥

यांतिताभ्यामुभाभ्यांचकामक्रोधज्वराःक्षयम् ॥

अर्थ—क्रोधज्वर कामोत्पत्तिसे दूर होय और कामज्वर क्रोध उत्पन्न होनेसे नाश होय, इस प्रकार ये दोनों परस्पर एक दूसरेकी उत्पत्तिसे नाश होते हैं॥

क्रोधज्वरचिकित्सा ।

क्रोधजेपित्तजित्कार्यानार्याःसद्वाक्यमेवच ॥

आश्वासेनेष्टलाभेनवायोःप्रशमनेनच ॥

अर्थ—क्रोध करके उत्पन्न ज्वरमें पित्तनाशक उपाय, सुंदर स्त्रियोंका भाषण उत्तम गोष्ठी, आश्वासन (दिलासा देना) तथा इष्टपदार्थका लाभ और वायुके नाश करनेवाले उपचार इत्यादि करने चाहियें ॥

विसर्पादिज्वरेघृतपान ।

विसर्पेणज्वरोयश्चयश्चविस्फोटकज्वरः ॥

तत्रादौसर्पिंपानंकफपित्तोत्तरेभवेत् ॥

अर्थ—विसर्पसे किंवा विस्फोटक (फोड़ा) होनेसे जो ज्वर होय ऐसे कफ-पित्ताधिक ज्वर इन पर प्रथम घृतपान करावे ॥

विषमज्वरकीसंप्राप्ति ।

आतंकमुक्तेःकृशताश्रयाणांविमुक्तपथ्याद्युचितक्रियाणाम् ॥

अल्पोपिदोषोविषमंविदध्याज्वरंविबृद्धंप्रतिपक्षरुद्धम् ॥

अर्थ—रोगसे मुक्ति होनेके पश्चात् कृशता करके अथवा कुपथ्य करनेसे अल्पभी रहे हुए दोष विरुद्ध होकर विषमज्वरको उत्पन्न करते हैं ॥

दूसराप्रकार ।

दोषोल्पोहितसंभूतोज्वरोत्सृष्टस्यवापुनः ॥

धातुमन्यतमंप्राप्यकरोतिविषमज्वरम् ॥

अर्थ—जिसमनुष्यको ज्वर औषधादि सेवन करनेसे शांत होगया हो और आरंभसे २१ दिन व्यतीत होनेपर तथा जीर्णवस्था होनेपर अपथ्य करनेसे वातपित्तादिक दोष फिर थोड़े २ कुपित हो रसरक्तादि धातुओंमेंसे किसी एक धातुमें प्राप्त हो उसको दूषित कर विषमज्वर (तिजारी चातुर्यकादि ज्वर) को उत्पन्न करे, वा शब्दकरके प्रथमहींसे विषमज्वरहोता है ये सूचना

करी जैसे (आरंभाद्विपमोपरतु) अल्पशब्दसे यह दिखाया कि उक्त दोष बलहीन होनेके कारण कालांतरमे वलिष्ठ हो ज्वरको करै है और जो दोष बलीहै वो सदैव ज्वर करते है विपमज्वरके लक्षण (भालुकीने) इस प्रकार कहे है (यःस्यादनियतात्कालाच्छीतोष्णाभ्यांप्रवर्तते) अर्थात् जो शीत किंवा उष्ण इन करके अनियतकालमे ज्वर आवे उसको विपम ज्वर कहते हैं- दूसरे लक्षण ये है कि (मुक्तानुबंधित्वं विपमत्वम्) अर्थात् ज्वर चलाजाय और फिर आय जावे उसको विपम ज्वर कहते है ॥

विपमज्वरकेनाम ।

संततःसततोन्येद्युस्तृतीयकचतुर्थकौ ॥

अर्थ-संतत, सतत, अन्येद्युष्क, तृतीयक और चतुर्थक, ऐसे विपमज्वरके पांच भेद है ॥

संततादिकोंमें नियतदूष्य ।

संततोरसधातुस्थः सततोरक्तधातुगः ॥ भिपजासचविज्ञेयः
सोन्येद्युःपिशिताश्रितः ॥ मेदोगतस्त्वृतीयेह्निअस्थिमज्जाग-
तःपुनः ॥ कुर्याच्चातुर्थिकंघोरमंतकरोगसंकरम् ॥

अर्थ-रसधातुगत दोष सतत ज्वरको उत्पन्न करे है तथा रक्तधातुगतदोष संतत ज्वरको उत्पन्न करे वहीदोष मासाश्रित होनेसे अन्येद्युष्क (व्याहिक) ज्वरको उत्पन्न करे, और मेदोगत दोष होनेसे व्याहिक (तिजारी) ज्वरको और अस्थि तथा मज्जागत दोष होकर मृत्युके समान तथा रोगोंमें संकर ऐसा घोर चातुर्थिक (चौथेया) ज्वरको उत्पन्न करे है ॥

विपमज्वरचिकित्सा ।

विपमाश्चज्वराःसर्वेसन्निपातसमुद्भवाः ॥

अथोत्वणस्यदोषस्यतेपुकार्यचिकित्सितम् ॥

अर्थ-संपूर्ण विपमज्वर संनिपातसे होते हैं परंतु उनमें अधिक दोषपर चिकित्सा करनी चाहिये ॥

शोधन ।

विपमेष्वथकर्तव्यमूर्ध्वचाधश्चशोधनं ॥

स्निग्धोष्णैरन्नपानैश्चशमयेद्विपमज्वरं ॥

अर्थ-विपमज्वरमें ऊर्ध्वशोधन घांती आदि और अधःशोधन रेचनादि देवे और स्निग्ध तथा उष्ण ऐसे अन्न तथा पान करके विपमज्वर शमन करना चाहिये ॥

विषममें अन्न कहते हैं ।

तक्रंमांसंपयोमांसंदधिमांसमथापिवा ॥

मापमांसंतुभुंजानोमुच्यतेविषमज्वरात् ॥

• अर्थ—छाँछ, तथा मांसरस, किंवा दूधमांस, अथवा दहीमांस, तथा मापमांस, इनका भोजन करनेसे विषमज्वर दूरहोय ॥

दूसरे प्रकारके अन्न ।

सुरासमंडापानायभोजनेचरणायुधाः ॥

तित्तिराविष्करापथ्याःकुङ्कुटाविषमज्वरे ॥

• अर्थ—मद्य और मंड इनका पीना तथा मुरगा, तीतर, विष्कर जीव इनका मांस भोजनको देवे ये विषम ज्वरपर पथ्यकारक है ॥

विषमज्वरपर सामान्य चिकित्सा ।

सततंविषमंवापिक्षीणस्यसुचिरोत्थितं ॥

ज्वरंसंभोजनैःपथ्यैर्ज्वरत्रैःसमुपाचरेत् ॥

अर्थ—क्षीणरोगीका बहुत दिनमें आनेवाला संतत अथवा विषमज्वर पथ्यकारक भोजन तथा ज्वरत्र औषध इन करके शमन करे ॥

घृतपान ।

ज्वरःकपायैर्विधिधैलैपनैर्लघुभोजनैः ॥

रूक्षस्येतनशाम्यंतिसर्पिस्तेपांभिपद्मतं ॥

अर्थ—रूक्षरोगीका ज्वर अनेक प्रकारके काटे अनेक प्रकारके लेप तथा लघु भोजन करके शांति नहीं होता इस वास्ते उस रोगीको वैद्यके संमतिसे घृतपान करावे ॥

वाताधिकविषमज्वर ।

विषमज्वरनाशायचिकित्सावक्ष्यतेधुना ॥

वातप्रधानंसर्पिर्भिर्वास्तिभिःसानुवासनैः ॥

अर्थ—विषमज्वरके नाशार्थ चिकित्सा कहते हैं वातप्रधान विषमज्वरको घृत पान अथवा अनुवासन वास्ति करके जीते ॥

पित्ताधिकविषमकी चिकित्सा ।

विरेचनंचपयसासर्पिपासंस्कृतेनच ॥

विषमंतिक्तशैतैश्चज्वरंपित्तोत्तरंजयेत् ॥

अर्थ-पित्ताधिक विषमज्वरको ओंटे हुए दूधमें घृत मिलायके रेचनार्थ देवे तथा कटुशीतल ऐसे उपचारों करके जाते ॥

कफाधिकविषमचिकित्सा ।

वमनंपाचनंरूक्षमन्नपानंचलंपनं ॥

कपायोष्णंचविषमेज्वरेश्स्तंकफोत्तरे ॥

अर्थ-कफाधिक विषमज्वरमें वमन, पाचन, तथा रूक्ष ऐसे अन्न तथा पान लंपन, तथा कपेले और गरम ऐसे औषध इत्यादि उपचार करावे ॥

मार्कंड्यादिपाचन ।

मार्कंडीवालपथ्याचमृद्धीकास्थूलजीरकं ॥

पाचनंस्मृतमेतेपांदेयंचविषमज्वरे ॥

अर्थ-आहुली, छोटी हरड, कालीदास और कलौजी, इनका काठा विषम ज्वरमें पाचनार्थ देवे ॥

महौषधादिपाचन ।

महौषधाग्रंथिकतालपर्णीमार्कंडिकारग्वधवालपथ्या ॥

सक्षारमेपांविषमज्वरेच हितंशृतंपाचनरेचनंच ॥

अर्थ-सोंठ, पीपरामूल, बडीसोंफ, आहुली, किरवारेकी गिरी, और छोटी हरड इनका काठा संधानिमक डालके पिवावे यह विषमज्वरमें पाचन और रेचन है ॥

पाचनवरेचन ।

नलिकावालपथ्यानांचूर्णंचसितयासह ॥

पाचनंरेचनंचोष्णसलिलैश्चगुडैःसमं ॥

अर्थ-नलिका (यवारी) और छोटीहरड इनका चूर्ण मिश्री अथवा गुड-मिलाय गरमकर पानीके साथ देय यह पाचक और रेचक है ॥

द्राक्षादिपाचन ।

गोस्तनीत्रिफलाविश्वधान्यकैःपाचनंमत्तं ॥

द्रावकंभेषजतमंयोजयेत्सर्वकर्मणि ॥

अर्थ-कालीदास, त्रिफला, सोंठ और धनिया, इनका काठा पाचन और द्रावक ऐसा है यह औषध सर्व कर्मोंमें देना चाहिये ॥

कुमारिमूलादिवमन ।

कुमारिमूलंकर्पकंपीत्वाकोष्णजलैर्वमेत् ॥

विपमंतुज्वरंहतिवमनेनचिरंतनं ॥

अर्थ—वीगुवारका कंद १० मासे लेकर गरम जलसे देय और वमन करे तो पुराना विपमज्वर दूर हो ॥

पटोलादिकाढा ।

पटोलयष्टीमधुतिक्तरोहिणीधनाभयाभिर्विपमज्वरघ्नम् ॥

कृतः कपायस्त्रिफलामृतावृषैः पृथक्पृथक्वाविपमज्वरापहः ॥

अर्थ—पटोलपत्र, सुलहटी, चिरायता, कुटकी, नागरमोथा, और हरड इनका अथवा त्रिफला, गिलोय, अडूसा, इनका काढा विपमज्वर नाशकरे ये दोनों काढोंको एकत्रकर देवे अथवा पृथक् ० देवे ॥

यष्ट्यादिकाढा ।

यष्टीदुरालभावासान्निफलावालकामृता ॥

मुस्ताकाथः सितायुक्तोविपमज्वरनाशनः ॥

अर्थ—सुलहटी, धमासा, अडूसा, त्रिफला, नेत्रवाला, गिलोय और नागर-मोथा, इनका काढा मिश्री मिलायके देवे तो विपमज्वर दूर हो ॥

मुस्तादिकाढा ।

मुस्ताशुद्रामृताशुंठीधात्रीकाथः समाक्षिकः ॥

पिप्पलीचूर्णसंयुक्तोविपमज्वरनाशनः ॥

अर्थ—नागरमोथा, कट्टरीका पंचांग, गिलोय, सोठ, आमले इनके काढेमे शहत और पीपलका चूर्ण मिलायके पीये तो विपमज्वर दूर हो ॥

महाबलादिकाढा ।

महाबलामूलमहौषधाभ्यांकाथोनिह्न्याद्विपमज्वरंहि ॥

शीतसकंपपरिदाहयुक्तंविनाशयेद्द्वित्रिदिनप्रयोगात् ॥

अर्थ—सहदेईकीजड़, और सोठ, इनका काढा शीत, कंप और दाह इन फरके युक्त ऐसे विपमज्वरपर दो अथवा तीन दिन लेनेसे ज्वरनाश होय ॥

नागरादिदूसराकाढा ।

सनागरायाःसपयोधरायाःससिंहिकायाःसगुडूचिकायाः ॥

धात्र्याःकपायोमधुनाविमिश्रःकणाविमिश्रोविषमज्वरघ्नः ॥

अर्थ—सोंठ, नागरमोथा, कटेरीका पंचांग, गिलोय और आमले इन औषधोंका काढा शहत और पीपलका चूर्ण मिलायके देवे तो विषमज्वरका नाश करे ॥

पटोलादिकाढा ।

स्वकांतिजितरोचनेचपललोचनेमालतिप्रसूननिकरस्फुरत्क-
वरिपंचवक्रोदरि ॥ पटोलकटुरोहिणीमधुकचेतकीमुस्तक-
प्रकल्पितकपायकोविषममाशुजेजीयते ॥

अर्थ—हे स्वकांतिजितरोचने ! हे चपललोचने ! पटोलपत्र, कुटकी, मुल-हदी, हरड और नागरमोथा इनका काढा करके देनेसे विषमज्वरको शीघ्र दूर करे ॥

कुलकादिकाढा ।

किमुभ्रमयसिप्रियेकुवल्यंकराभ्यामिदंमदीयवचनंसुधारसस-
मंसमाकर्णय ॥ पुराणविषमज्वरेकुलकनिवासिंहिंद्रजामृताकु-
तकपायकोमधुयुतोवरीवर्तति ॥

अर्थ—पटोलपत्र, नीमकीछाल, कटेरीका पंचांग, इन्द्रजौ, और गिलोय इनका काढा करके शहत ढालके लेयतो पुराना विषमज्वर नाश होय ॥

भांग्यादिकाढा ।

भांगीपर्पटविश्ववासककणाभूनिवनिवामृतामुस्ताधन्वकभे-
पजैश्वदशभिनिघ्नतिसर्वज्वरान् ॥ जीर्णान्धातुगतांस्तथाच-
विषमान्सोपद्रवान्दारुणान्काथोयंयदियुग्मवासरमिदं दद्या-
द्यमाद्रक्षिता ॥

अर्थ—भारंगी, पित्तपापडा, सोंठ, अड़सा, पीपल, चिरायता, निमकीछाल गिलोय, नागरमोथा और धमासा इनका काढा जीर्णज्वर धातुगतज्वर उपद्रव सहित विषमज्वर तथा सर्वज्वर इनको नाश करे यह दो दिन सेवन करनेसे यमराज सेभी बचजावे ॥

भांग्यादिकाढा ।

भांग्येदपर्पटकधन्वयवासविश्वभूनिवकुष्ठकणासिंहामृ-

ताकपायः ॥ जीर्णज्वरंसततसंततकौनिहन्यादन्येद्युकंसहत्-
तीयचतुर्थकंच ॥

अर्थ—भारंगी, नागरमोथा, पित्तपापडा, धमासा, सोंठ, चिरायता, कूठ, पीपल, कटेरी, और गिलोय, इनका काठा जीर्णज्वर, संततज्वर, अन्येद्युष्क ज्वर, तृतीय ज्वर, और चातुर्थिक इनका नाश करे ॥

निशाद्यंजन ।

ज्वरंजननिशातैलकृष्णामरिचसैंधवैः ॥

अर्थ—हलदी, तिलका तेल, पीपल, कालीमिरच और सैंधानिमक इनका अंजन विषमज्वरको दूर करे ॥

नरकेशनस्य ।

नरकेशोत्थितेतैलेकाकचंचुंविषर्पयेत् ॥

नस्यंसर्वज्वरहरंनात्रकार्याविचारणा ॥

अर्थ—मनुष्यके बालोंके तेलमें फौरकी चोंच घिसके नस्य देवे तो ज्वर नाशहोय इसमें संदेह नहीं है ॥

कणादिनस्य ।

कृष्णामलकसरामठदावींविचाराजसर्पपरसोनैः ॥

छागमूत्रमृष्टैर्नस्यंचैकाहिकादिहरं ॥

अर्थ—पीपल, आमले, हांग, दारुहलदी, वच, सपेदसरसो, और लहसन इन औषधोंको बकरके मूत्रमें पीसकर नस्य देय तो एकाहिकादि विषमज्वर नाश होय ॥

सैंधवादिअंजन ।

सैंधवंपिप्पलीनांचतंडुलाःसमनःशिलाः ॥

नेत्रांजनतैलपिष्टंशस्यतेविषमज्वरे ॥

अर्थ—सैंधानिमक, पीपलकेबीज, और मनसिल इनको तेलमें पीस नेत्रोंमें लगावे तो विषमज्वर दूर होय ॥

लशुनादिअंजन ।

लशुनंपिप्पलीराजीवचाकुष्ठंसमांशतः ॥

एतच्चूर्णजलेपिष्टंचक्षुष्यंज्वरनाशनं ॥

अर्थ—लहसन, पीपल, राई, वच और कूठ इनका समान भाग चूर्ण पानीमें पीस अंजन करनेसे विषमज्वर नष्ट होय ॥

चतुःषष्टिककाढा ।

शृंगीरामठरामसेनरजनीरुक्मरेणुकारोहिणीरास्नैरंडरसोनदारु-
रुजनीराजद्रुराजीफलैः ॥ त्रायंतीत्रिवृताहुताशनलतानंता-
मृतासुद्रितादंतीतुंबरुचित्रतंडुलत्रुटित्वक्कृत्तित्तनक्तंचरैः ॥
वासावत्सकवीजवासवसुरावल्यावरीवेष्टजंब्राह्मीत्राह्मणयाष्टि-
वारणकणाविश्ववयस्थावृषैः ॥ मूर्वामालविकासमूलमगधा-
मुस्ताजमोदाद्वयैर्मिश्रेयागरुचंदनेद्रचविकास्फोटावचाकट्फ-
लैः ॥ इत्येतैर्दशमूलयुग्निगदितःक्वाथश्चतुषष्टिकःशृंग्यादि-
र्मदनागसिंहभिपजासर्वामयोन्मूलने ॥ पुंसामष्टविधज्वरा-
र्तिशमनेवाताग्निसंधुक्षणेसर्वांगेचसमीरणद्विपवटेशार्दूलवि-
क्रीडितम् ॥

अर्थ—काफडासिंगी, हींग, कायफल, हलदी, कूठ, रेणुका, कुटकी, रास्ना, अंडकी जड, हलसन, दारुहलदी, अमलतालका गूदा, पटोलपत्र, त्रायमाण, निसोथ, चित्रक, मूर्वा, धमासा, गिलोय, खरेदी, दंती, तुंबरु, वायविडंग, छोटी इलायचीके बीज, दालचीनी, चिरायता, गूगल, अडूसा, इन्द्रजी कालीमूंग, क्षीरफाकोली, बला, शतावर, मिरच, ब्रह्मी, भारंगी, गजपीपल, सोंठ, हरड, फालसे, मूर्वा, काली निसोथ, पीपरामूल, नागरमोथा, अजमोद, अजमायन, सौंफ, कालीअगर, लालचंदन, कूडेकी छाल, चव्य, सारिवासपेद, वच, कायफल, और दशमूल, इनको एकत्रित करे, यह चतुःषष्टिक काढाहै इसको शृंगादि अथवा मदनादि कहते हैं, यह रोगरूपी हाथोंको मारनेमें सिहके समान है यह आठ प्रकारकी ज्वर पीडाका शामक है और अग्निको बढ़ाने-वाला तथा सर्व वातके रोगोंको नाश कर्ता है ॥

निंवादिचूर्ण ।

भूनिंवपथ्याघनकंटकारीत्रायंतिकानागरयासतित्तः ॥ वाड्या-
लकर्चूरकणापटोलीक्षुद्राजलग्रंथिकपर्पटाश्च ॥ एपांततोपोड
शकांगचूर्णज्वरान्समस्तान्विषमान्निहति ॥

अर्थ-चिरायता, हरड, नागरमोथा, कटेरी, त्रायमाण, सोंठ, छुटकी, कटेरी, कचूर, पीपल, पटोलपत्र, छोटी कटेरी, नेत्रवाला, पीपरामूल, और पित्तपापडा, इन सोलह औषधोंका चूर्ण सर्व विषमज्वरोंको नाश करे ॥

जीरकादिचूर्ण ।

कालाजाजीतुसगुडाविषमज्वरनाशिनी ॥

मधुनाचाभयालीढाहंत्याशुविषमज्वरं ॥

अर्थ-कालेजीरका चूर्ण गुडके साथ, अथवा छोटी हरडका चूर्ण शहतके साथ, खानेसे विषमज्वर नाश होय ॥

तुलसी व द्रोणपुष्पीस्वरस ।

पीतोमरीचचूर्णेनतुलसीपत्रजोरसः ॥

द्रोणपुष्पीभवोवापिनिहंतिविषमज्वरान् ॥

अर्थ-तुलसीके पत्तोंके रसमें काली मिरचका चूर्ण मिलायके अथवा गोमाके रसमें काली मिरचका चूर्ण मिलायके पीवे तो विषमज्वर दूर होय ॥

कुमारीमूलकादियोग ।

कुमारिमूलकपैकंपीत्वाकोष्णजलैर्वमेत् ॥

विषमंतुज्वरंहंतिवातश्लेष्मगदानपि ॥

अर्थ-वीगुवारकीजड तौले भरलेकर गरम जलसे देय तो वमन होकर विषमज्वर वातरोग इनका नाश होय ॥

वर्धमानपीपल ।

क्षीरेणपंचवृद्ध्यावाद्गुग्धान्नाशीकणांपिवेत् ॥ यावत्पूर्णशतंत
त्स्यात्तांतथैवापकर्षयेत् ॥ वातास्रस्तापपांडुशौगुल्मशोफो-
दुरापहं ॥ विषमेपुजतदृष्यंपिप्पलीवर्धमानकम् ॥

अर्थ-दूधसे पांच पांचकी वृद्धि करके पीपल पीसके पिवावे, इस प्रकार सो पीपल पर्यंत करे फिर उसी पांच पांचके क्रमसे घटाता हुआ चला आवे, और दूधभात भोजनको देवे तो वातरक्त, दाह, पांडु, घवासीर, गोला, सूजन उदर और विषमज्वर इनका नाश होय, ये वृष्य है इसको वर्धमान पीपल कहते हैं ॥

गुडजीरकयोग ।

जीरकगुडसंयुक्तं विपमज्वरनाशनं ॥

अग्निमांद्यं जयेच्छीतं वातरोगहरं परं ॥

अर्थ—जीरा गुडके साथ खानेसे विपमज्वर मंदाग्नि, शीत और वातके रोग को दूर करे ॥

हरडादिकोंका चूर्ण ।

भवति विपमहंत्रीचेतकीक्षौद्रयुक्ता भवति विपमहंत्रीपिप्पली-
वर्धमाना ॥ विपरुजमजाजीहंतियुक्ता गुडेन प्रशमयति तथा-
ग्न्यासेव्यमाना गुडेन ॥

अर्थ—छोटी हरडका चूर्ण शहतपे चाटे, अथवा जीरा और गुड मिलायके खाय, एवं त्रिफलेका चूर्ण गुडमें मिलायके खाय ए चारयोग पृथक् विपमज्वर नाशक जानने ॥

वंदाकयोग ।

वंदाकं विपजातंचतक्रेण विपमज्वरे ॥

सर्पिपादधिमंडेन हिं गुनाच प्रयोजितं ॥

अर्थ—विपमज्वरके ऊपरका वंदा छाछ, घृत, देहोकार्माह, अथवा हींगसे सेवन करे तो विपमज्वर दूर हो ॥

निंवादिचूर्ण ।

निंवाच्छदोदशपलं त्र्यूपणंचपलत्रयं ॥ त्रिपलं त्रिफलाचैव-
त्रिपलं लवणत्रयं ॥ द्वौक्षारौ द्विपलं चैव यवानीपलपंचकं ॥ स-
र्वमेकीकृतं चूर्णं प्रत्यूषं भक्षयेन्नरः ॥ एकाहिकं द्व्याहिकं च तथा-
त्रिदिवसं ज्वरं ॥ चातुर्थिकं महाघोरं शमयेत्सततज्वरं ॥

अर्थ—नीमकी पत्ती ४० तोले, सोंठ, मिरच, पीपल, १२ तोले, त्रिफला १२ तोले, तीनों नोन १२ तोले, दोनों क्षार ८ तोले और अजमायन २० तोले इन सबका चूर्ण कर प्रातःकालमें देवे तो इकतरा, संतत, तिजारी चौथेया और सतत ज्वरको शांति करे ॥

भृंगराजचूर्णं ।

समूलंभृंगराजंचछायाशुष्कंविचूर्णयेत् ॥ तत्समंत्रिफलाचूर्णं
सर्वतुल्यासिताभवेत् ॥ एकीकृत्यपलैकैकंभक्षयेच्चानुपानतः
अग्निमाद्यंचविट्बंधपाडुतांहरतेध्रुवं ॥

अर्थ—जडसुद्धा भांगरेको छायामें सुखाय उसका चूर्ण और इतनाही त्रि-
फलेका चूर्ण तथा सबकी बराबर मिश्री मिलायके इसमेंसे ४ तोले योग्य
अनुपानके साथ देवे तो मंदाग्नि, विट्बंध, और पांडुरोग इनको हरण करे ॥

दीप्यादिचूर्णं ।

दीप्याजयारामठवाह्निविश्वाक्षारद्वयंजीरकयुग्मकृष्णा ॥

फलत्रयसंचलसैधवंच कृतंहिचूर्णंविपमज्वरघ्नं ॥

अर्थ—अजमोद, हरड, हॉंग, चित्रक, सोंठ, जवाखार, सजीखार, काला
जीरा, पीपल, त्रिफला, संचरनोन, और सैधानोन इनका चूर्ण विपमज्वर
नाशक है ॥

पंचसार ।

सर्पिः क्षौद्रंसिताक्षीरंपिप्पल्यः सितशर्करा ॥ पिवेत्खजेनमथि
तंपंचसारमिदंस्मृतम् ॥ विपमज्वरहृद्रोगकासश्वासक्षयापहं ॥

अर्थ—घृत, सहत, पीपल, दूध, सपेद खांड इन पांचोंको एकत्र मिलायके-
पीवे तो यह पंचसार विपमज्वर, हृद्रोग, खांसी, श्वास, और क्षय इनको
दूर करे ॥

पद्मकादिसार ।

पद्मकंबिल्वजंपेयंसर्पिषामथितेनवा ॥

विपमज्वरनाशायक्षीरंवागोमयान्वितं ॥

अर्थ—पद्मास, वेलगिरी इनके चूर्णको घृत अथवा मट्ठा इनमें मिलायके पी-
वेतो विपमज्वर दूर होय ॥

लशुनादिकल्क ।

तिलतैललवणयुक्तःकल्कोलशुनस्यसेवितःप्रातः ॥

विपमज्वरमपहरतेवातव्याधीनशेषांश्च ॥

अर्थ—लहसनके कल्कमें तिलकातेल और निमक मिलायके प्रातःकाल से-
वन करे तो विपमज्वर, और संपूर्ण वातव्याधियोंको हरण करे ॥

गुडूचीकल्क ।

अमृतायाःशृतंचूर्णवाससापरिशोधितं ॥ पृथक्पोडशभागाः
स्युर्गुडमाक्षिकसर्पिपां॥यथाग्निभक्षयेदेतन्नरोहितमिताशनः ॥
नास्यकश्चिद्भवेद्द्व्याधिर्नजरापलितंनच ॥ नज्वराविपमानै-
वमेहाश्चानिलरक्तकं ॥ नचनेत्रगतारोगाःपरमेतद्रसायनं ॥
मेधाकरंत्रिदोषघ्नप्रयोगादस्यबुद्धिमान् ॥ जीवेद्वर्षशतंसाग्रं
यथैवादितिजस्तथा ॥

अर्थ-गिलोयका चूर्ण कपडछान १०० तोले तथा गुड, शहत, घी ये
त्येक सोलह २ तोले लेकर मिलावे, इसको अमिका बल देखकर भक्षण करे
तथा हितकारी और परिमाणका ऐसा अन्न भक्षण करे तो किसीप्रकारकी
व्याधि तथा पृद्धावस्था वालोंकी सपेदी, ज्वर, विपमज्वर, प्रमेह, वातरक्त,
और नेत्ररोग कदाचित् नहीं हो, यह उत्कृष्ट रसायन बुद्धि देनेवाली त्रिदोष
नाशक है, इसके सेवनसे महत्प्य १०० वर्षजीवे तथा देवताओंके समान
बली होय ॥

विपमपरमहाज्वरांकुशरस ।

शुद्धसूतंविपंगंधधूर्तवीजंत्रिभिःसमं ॥ चतुर्णांद्विगुणंव्योषंचू-
र्णगुंजाद्वयंहितं ॥ जंवीरकस्यमज्जाभिरार्द्रकस्यद्रवैर्युतं ॥ म-
हाज्वरांकुशोनामज्वराणामंतकोभवेत् ॥ एकाहिकंद्वाहिकं-
वात्र्याहिकंवाचतुर्थकं॥विपमंवात्रिदोषोत्थंनाशयेद्याममात्रतः ॥

अर्थ-शुद्धपारा, विप, गंधक, सब समान भाग लेय और इन तीनोंके
बराबर धतूरेके बीज ले और सबसे दूनी सोंठ, मिरच और पीपलका चूर्ण
ले इन सबको नींबू और अदरसके रसमें खरलकर दो रत्तीकी गोली बनावे
यह महाज्वरांकुश सर्व ज्वरोंको कालरूप है और एकाहिक, द्वाहिक,
त्र्याहिक, चातुर्थिक, विपम अथवा संनिपातज्वर, इनको एक प्रहरमें
नाश करे ॥

दसरारस ।

रसस्यद्विगुणोगंधोगंधतुल्यश्चटकणः ॥ रसतुल्यंविपंयोज्यं
मरीचंपंचधाभिपक्व ॥ कट्फलंदंतिवीजंचक्षिणोतिज्वरमुत्क-

टं ॥ क्वचिद्गत्रौदिवाक्वापिद्वितीयंन्याहिकंक्वचित् ॥ चलचा-
तुर्थिकंचापिविपमज्वरलक्षणं ॥

अर्थ-पारा १ भाग, गंधक २ भाग, सुहागा २ भाग, विप १ भाग काली
मिरच ५ भाग और कायफल तथा जमालगोटा एक एक भाग सबका चूर्ण
कर अदरखके रसमें गोली बनाय ले इसके सेवन करनेसे दिन रात्रिमें आने-
वाला ज्वर द्व्याहिक, त्र्याहिक, चलज्वर और चातुर्थिक ज्वर ऐसे विपमज्व-
रोंको शांत करे ॥

मेघनादरस ।

आरंकांस्यंमृतंताप्रांत्रिभिस्तुल्यंतुगंधकं ॥ काथेनमेघनादस्य
पिष्ट्वारुध्वापुटेपचेत् ॥ पञ्चभिस्तुजायतेसिद्धोमेघनादोमहार-
सः ॥ पर्णखंडेनमापैकोविपमज्वरनाशनः ॥

अर्थ-लोहा, काँसा और तामा इनको भस्म बराबर लेवे सबकी बराबर
गंधक लेय, सबको खरलमें डाल चौलाईके रसमें खरलकर संपुटमें फूक देवे
इस प्रकार छ पुट चौलाईके देवे तो यह मेघनाद महारस सिद्ध होवे एक मासा
पानके टुकड़ेमें खाय तो विपमज्वर दूर होवे ॥

गोपीड्यादिघृत ।

गोपीड्यामलकीस्थिरामगधजातित्तापयःपालिनी द्राक्षाश्री-
फलधावनीहिमविपामुस्तेंद्रजैःसाधितं ॥ स्यादाज्यंविपमज्वर-
क्षयशिरःपार्श्वव्यथारोचकच्छर्दीशोपहलीमकप्रशमनंलीलाल-
तामंजरी ॥

अर्थ-सारिवा, भूयआमला, आमला, सालपर्णी, पीपल, कुटकी, नेत्रवाला,
मुनक्का, दाख, बेलगिरी, चंदन, लालचंदन, अतीस, नागरमोथा और इन्द्रजौ
इनका फाटा कर उसमें घृत मिलाय घृतको सिद्ध करे इसके पीनेसे विपम-
ज्वर, क्षय, मस्तकशूल, पेंसवाडेकी पीडा, अरुचि, वमन, शोष, हलीमक,
इनको तत्काल शांत करे ॥

पंचतित्तकघृत ।

वृषनिवामृताव्याघ्रीपटोलानांश्रितेनच ॥ कल्केनपक्वंसर्पिस्तु
निहन्याद्विपमज्वरान् ॥ पांडुंकुण्डलिसर्पचक्रीनशांसिनाशयेत् ॥

अर्थ- अड़सा, नीमकी छाल, गिलोय, कटेरी, पटोलपत्र इनको कल्ककी विधिसे पककर पीवे तौ विषमज्वर, पांडुरोग, कोढ़, विसर्प, कृमि और बवासीर इनको दूर करे ॥

षट्पलघृतम् ।

शुंठीकणाचित्रकंचचव्यग्रंथिकमेवच ॥ कुर्यात्पंचपलान्भागाने
कैकस्यचकुट्टितान् ॥ जलद्रोणेविपक्तव्यंयावत्पादावशेषितं ॥
एतैस्तुपलिकःकल्कैःसैंधवेनसमन्वितैः ॥ षट्पलं नामविरव्यातं
विषमज्वरनाशनं ॥ कासश्वासातिदौर्वल्यंप्रतिश्यायित्वमेवच ॥
प्लीहोर्ध्वातश्चयथुपांडुरोगांश्चनाशयेत् ॥

अर्थ-सोंठ, पीपल, चित्रक, चव्य और पीपरामूल, इनको २० बीस तोले लेय, सबको कूटपीस १०२४ तोले जल डाल चतुर्थांश शेष काढा करे, फिर इसकाढेका जल और सैधानिमक डालके घृत तयार करावे यह षट्पल घृत विषमज्वर, कास, श्वास, दुर्बलता, पीनस, प्लीहा, ऊर्ध्वात, सूजन और पांडुरोग इनको नाश करे ॥

क्षीरषट्पलघृत ।

पंचकोलैःससिंधूत्थैःपालिकैःपयसासमं ॥
सर्पिःप्रस्थंघृतंप्लीहविषमज्वरनाशनं ॥

अर्थ-पीपल, पीपरामूल, चव्य, चित्रक, सोंठ, तथा सैधानिमक ये सब औषध चार तोले ले, कूटके काढाकरे तथा काढेके बराबर दूध और घी से भर डालके पचावे जब सिद्ध हो जाय तब उतारके धर रखे इसके सेवन करनेसे प्लीह और विषमज्वर दूर होय ॥

दूसराप्रकार ।

दशमूलरसेसर्पिःसक्षीरेपंचकोलकैः ॥ पक्वनिहंतिसत्पीतंज्वर
कासाग्निमार्दवं ॥ वातपित्तज्वरव्याधिप्लीहानंचापिपांडुतां ॥

अर्थ-दशमूल, और पंचकोल इनका काढा कर उसमें काढेके समान दूध तथा घी डालके सिद्धकरे, इसके सेवन करनेसे ज्वर, खांसी, मंदाग्नि, वातपित्तज्वर, प्लीहा और पांडुरोग इनको नाश करे ॥

टं ॥ क्वचिद्रात्रौदिवाक्वापिद्वितीयंत्र्याहिकंक्वचित् ॥ चलचा-
तुर्थिकंचापिविपमज्वरलक्षणं ॥

अर्थ-पारा १ भाग, गंधक २ भाग, सुहागा २ भाग, विप १ भाग काली
मिरच ५ भाग और कायफल तथा जमालगोटा एक एक भाग सबका चूर्ण
कर अदरखके रसमें गोली बनाय ले इसके सेवन करनेसे दिन रात्रिमें आने-
वाला ज्वर द्व्याहिक, त्र्याहिक, चलज्वर और चातुर्थिक ज्वर ऐसे विपमज्व-
रोंको शांत करे ॥

मेघनादरस ।

आरंकांस्यंमृतंताम्रांत्रिभिस्तुल्यंतुगंधकं ॥ क्वाथेनमेघनादस्य
पिड्वारुध्वापुटेपचेत् ॥ पइभिस्तुजायतेसिद्धोमेघनादोमहार-
सः ॥ पर्णखंडेनमापैकोविपमज्वरनाशनः ॥

अर्थ-लोहा, काँसा और तामा इनकी भस्म बराबर लेवे सबकी बराबर
गंधक लेय, सबको खरलमें डाल चौलाईके रसमें खरलकर संपुटमें फूंक देवे
इस प्रकार छःपुट चौलाईके देवे तो यह मेघनाद महारस सिद्ध होवे एक मासा
पानके टुकड़ेमें खाय तो विपमज्वर दूर होवे ॥

गोपीड्यादिघृत ।

गोपीड्यामलकीस्थिरामगधजातित्तापयःपालिनी द्राक्षाश्री-
फलधावनीहिंमविषामुस्तेंद्रजैःसाधितं ॥ स्यादाज्यंविपमज्वर-
क्षयशिरःपार्श्वव्यथारोचकच्छर्दीशोपहंलीमकप्रशमनलीलाल-
तामंजरी ॥

अर्थ-सारिवा, भूयआमला, आमला, सालपर्णी, पीपल, कुटकी, नेत्रवाला,
मुनक्का, दाख, बेलगिरी, चंदन, लालचंदन, अतीस, नागरमोथा और इन्द्रजौ
इनका काढा कर उसमें घृत मिलाय घृतको सिद्ध करे इसके पीनेसे विपम-
ज्वर, क्षय, मस्तकशूल, पैसवाडेकी पीडा, अरुचि, वमन, शोष, हलीमक,
इनको तत्काल शांत करे ॥

पंचतित्तकघृत ।

वृपनिंवामृताव्याघ्रीपटोलानांश्रितेनच ॥ कल्केनपक्वंसर्पिस्तु
निहन्याद्विपमज्वरान् ॥ पांडुंकुण्डंविषयैचकृमीनर्शासिनाशयेत् ॥

अर्थ- अड़सा, नीमकी छाल, गिलोय, कटेरी, पटोलपत्र इनको फल्ककी विधिसे पककर पीवे तो विषमज्वर, पांडुरोग, फोड, विसर्प, कृमि और ववासीर इनको दूर करे ॥

पट्टपलघृतम् ।

शुंठीकणाचित्रकंचचव्यग्रंथिकमेवच ॥ कुर्यात्पंचपलान्भागाने
कैकस्यचकुट्टितान् ॥ जलद्रोणेविपक्तव्यंयावत्पादावशेषितं ॥
एतैस्तुपलिकःकल्कैःसैंधवेनसमन्वितैः ॥ पट्टपलं नामविख्यातं
विषमज्वरनाशनं ॥ कासश्वासातिदौर्बल्यंप्रतिश्यायित्वमेवच ॥
प्लीहोर्ध्वातश्चयथुपांडुरोगांश्चनाशयेत् ॥

अर्थ-सोंठ, पीपल, चित्रक, चव्य और पीपरामूल, इनको २० बीस तोले लेय, सबको फूटपीस १०२४ तोले जल डाल चतुर्याश शेष काटा करे, फिर इसकाढेका जल और सैधानिमक डालके घृत तयार करावे यह पट्टपल घृत विषमज्वर, कास, श्वास, दुर्बलता, पीनस, प्लीहा, ऊर्ध्वात, मूजन और पांडुरोग इनको नाश करे ॥

क्षीरपट्टपलघृत ।

पंचकोलैःससिंधूत्यैःपालिकैःपयसासमं ॥
सर्पिःप्रस्थंघृतंप्लीहविषमज्वरनाशनं ॥

अर्थ-पीपल, पीपरामूल, चव्य, चित्रक, सोंठ, तथा सैधानिमक ये सब औषध चार तोले ले, फूटके काटाकरे तथा काढेके घराघर दूध और पी सेरभर डालके पचावे जब सिद्ध हो जाय तब उतारके धर रखे इसके सेवन करनेसे प्लीह और विषमज्वर दूर होय ॥

दूसराप्रकार ।

दशमूलरसेसर्पिः सक्षीरेपंचकोलैः ॥ पक्कनिहंतिसत्पीतंज्व-
रकासाग्निमार्दवं ॥ वातपित्तज्वरव्याधिंप्लीहानंचापिपांडुतां ॥

अर्थ-दशमूल, और पंचकोल इनका काटा कर उसमें काढेके समान दूध तथा पी डालके सिद्धकरे, इसके सेवन करनेसे ज्वर, खांसी, मंदाग्नि, वातपित्तज्वर, प्लीहा और पांडुरोग इनको नाश करे ॥

अमृताद्यघृत ।

अमृतात्रिफलापटोलयासैःसंपक्वंविधिवदूघृतेविपक्वं ॥

विपमज्वरनाशनंप्रधानंक्षयगुल्मारुचिकामलापहारि ॥

अर्थ—गिलोय, त्रिफला, पटोलपत्र और धमासा, इनका काढा और घृत डालके पचावे, जब घृत सिद्ध हो जावे तब उतारले इसके सेवन करनेसे विपमज्वर, क्षय, गोला, अरुचि और कामला इनको दूर करे ॥

शुंठ्यादिघृत ।

शुंठीकणाग्रंथिकचव्यवह्निक्षाराःपृथक्त्वेकपलप्रमाणाः ॥

प्रस्थंघृतंनागरवारिमस्तुप्रस्थद्वयंतद्विपचेत्कषाये ॥

संसिद्धमाज्यंविपमज्वरेपुजीर्णज्वरेवर्षभवेपिशस्तं ॥

अर्थ—सोंठ, पीपर, पीपरानूल, चव्य, चित्रक, जवाखार, प्रत्येक चार २ तोले लेवे इनका काढा करके इस काढेमें सेरभर घी और अदरकका रस तथा दहीका जल दोसेर मिलाके फिर अभिपर चढायके घृत सिद्धकर यह विपमज्वर, जीर्णज्वर, एक वर्षका ज्वर इनको नष्ट करे ॥

चंदनाद्यघृत ।

चंदनंचित्रकंसिहीवत्सकंमुस्तनागरैः ॥ कटुकात्रायमाणाच

धात्र्यूशीरेद्विसारिवे ॥ द्रव्यार्धपलमात्राणिसौम्यवारेपुसंहरेत् ॥

क्षीराढकसमायुक्तांसर्पिपोर्धतुलांपचेत् ॥ चातुर्थिकंहरेत्पीतं

उन्मादंविपमज्वरं ॥ त्र्याहिकंश्वासकासौचसर्वापस्मारमेवच ॥

अर्थ—चंदन, चित्रक, कटेरीकी जड़, इन्द्रजौ, नागरमोथा, सोंठ, कुटकी, त्रायमाण, आमले, नेत्रवाला, तथा दोनों प्रकारकी सारिवा इन औषधोंका काढा करके उसमें दूध चार सेर घृत सेरभर डालके सिद्ध करे जब घृतमात्र बाकी रहे तब उतार लेवे यह चातुर्थिक, उन्माद, विपमज्वर, श्वास, खाँसी, और मृगीरोगको नाश करे, इसको चंदनादि घृत कहते हैं ॥

महाकल्याणघृत ।

एतदेवहविःपक्वंजीवनीयोपसंसृतं ॥ द्विपंचमूलकाथेनशता

वर्यारसेनच ॥ चतुर्गुणेनपयसामहाकल्याणमिष्यते ॥ अप-

स्मारज्वरंशोषंक्लेश्व्यंकार्शमर्यवीजतः ॥ घृतमेतन्निहंत्याशुये-
चापिविपमज्वराः ॥ जीवनीयगणत्वेनकाकोल्यादिगणग्रहः ॥
महाकल्याणकेकार्योच्यतेतुदशकार्पिकः ॥

अर्थ—अब महाकल्याण घृतको कहते हैं—कल्याण घृतकी औषध और जीव-
नीय गण दशतोले, काकोल्यादिगण १० तोले, तथा दशमूल, इन औषधोंका
फाटा लेकर उसमें शतावरका रस डालके सबसे चौगुणा दूध डाले और सेर
मात्र घृत डालके सिद्धकरे इस घृतके सेवन करनेसे मृगी, ज्वर, तृषा, इनको
नष्ट करे तथा कंभारीके फलका चूर्ण डालके लेय तो नपुंसकता और विपम-
ज्वर इनका नाश करे ॥

कल्याणघृत ।

विडंगमुस्तत्रिफलामंजिष्ठादाडिमोत्पलैः ॥ श्यामैलवालुकै-
लानिचंदनागरुदारुभिः ॥ वर्हिष्ठकुष्ठरजनीपर्णिनीसारिवाह्व-
यैः ॥ हरेणुत्रिवृतादंतीवचातालीसपत्रकैः ॥ बलाविशाला-
बृहतीमालतीपृष्टिपर्णिभिः ॥ एतैश्चकार्पिकैःकल्कैर्घृतप्रस्थं
विपाचयेत् ॥ चतुर्गुणेनपयसाद्विगुणेनजलेनच ॥ एतत्कल्या-
णकंनामसर्पिःपक्षेत्रिदोपनुत् ॥ विपमज्वरश्वासकासगुल्मो-
न्मादज्वरापहम् ॥

अर्थ—अब कल्याण घृत कहते हैं. धायविडंग, नागरमोथा, त्रिफला, मँजीठ
अनारदाना, नीलकमल, पीपल, नेत्रवाला, चंदन, काली अगर, देवदारु, सुगं
धवाला, फूट, हलदी, दौनों सारिवा, पित्तपापडा, निसोय, दंती, वच, ताली-
सपत्र, खैरेटी, इन्द्रायणकागूदा, बडोकटेरी, मालती, पृष्टपर्णी, ये प्रत्येक
औषध तोले २ भरले इनका फल्कर इसमें सेरभर घृत और चारसेर दूध
डाले, तथा दुगुना जल डालके सिद्ध करे जब घृत मात्र शेषरहे तब उतार
लेंवे इसकल्याण घृतके सेवन करनेसे त्रिदोष, विपमज्वर, श्वास, खाँसी, गोला,
उन्माद और ज्वर इन रोगोंको नाश करे ॥

कोलादिघृत ।

कोलाग्निमंथत्रिफलाक्षाथोदभाचूतैःपिबेत् ॥
तिल्वकाचूर्णमेतद्विपमज्वरनाशनम् ॥

अर्थ—बेर, अरनी और त्रिफला, इनके काठेमें दही और घृत तथा हिंगो-टका चूर्ण डालके घृत सिद्ध करे यह विषमज्वरको दूर करता है ॥

अमृतपट्टपलघृत ।

नागरंचविकाक्षारः पिप्पलीमूलचित्रकं ॥ कृष्णाचपलिकान्भा

गान्धृतप्रस्थेविपाचयेत् ॥ शृंगवेररसंप्रस्थंमधुप्रस्थंतथैवच ॥

एकाहिकंद्र्याहिकंचत्र्याहिकंचचतुर्थकं ॥ एतान्सर्वज्वरान्हं-

तिस्थूलंचकुरुतेभृशम् ॥ दुर्नामश्वासकासग्रंवलवर्णाग्निवर्धनम् ॥

अर्थ—सोंठ, चव्य, जवाखार, पीपरामूल, चित्रक, पीपर, ये प्रत्येक औषध तोले २ लेकर काठा अथवा कल्क करे, उसमें सेरभर घृत और सेरभर अदर-खका रस तथा सेरभर शहत डालके सिद्ध करे जब घृतमात्र बाकी रहे तब उतारले इसके सेवन करनेसे एकाहिक, द्र्याहिक, त्र्याहिक, चार्त्वार्यिक इत्यादि सर्वज्वरोंका नाशकरे और देहको स्थूल करे एवं बवासीर, श्वास, खांसीको नष्ट करे और बल वर्ण तथा अग्निको बढावे ॥

घृतपान ।

सर्पिर्दद्यात्कफेमंदेवातपित्तोत्तरेज्वरे ॥

पक्केपुदोपेष्वमृतंतद्विपोपममन्यथा ॥

अर्थ—मंदकफ और वातपित्तोत्त्वण ऐसे ज्वरवालेको घृत पान करावे, ये पक्केदोषोंमें अमृतके समान तथा अपक्के दोषोंमें विषके समान दुष्टगुण करता है ॥

पट्टकृतैल ।

सुवचिकानागरकुष्टमूर्वलाक्षानिशालोहितयाष्टिकाभिः ॥ तैलं

ज्वरेपद्गुणकाथसिद्धमभ्यंजनाच्छीतविदाहनुत्स्यात् ॥ द-

भासंसारकंतत्स्यात्पट्टकृतैलमुत्तमम् ॥

अर्थ—पट्टकृत तैल कहते हैं—तैल १ भाग, तथा सजीखार, सोंठ, कूठ, मूर्वा, लाख, हलदी और मंजीठ इनका काठा छः भाग तथा दही एक भाग लेकर तैल सिद्ध करे इस पट्टकृत तैलकी देहमे मालिस करनेसे दाहकी शांत करे यह विषमज्वरपर अति उत्तम है ॥

लाक्षादितैल ।

पद्मकोत्पलकह्वारमृणालविषपौष्करैः ॥ कुमुदोशीरमंजिष्ठा

त्रेयगैरिककट्फलैः । सारिवाद्रयलोधाब्दक्षीरीखर्जूरसुस्तकैः ॥
धात्रीशतावरीयुक्तैःकाथकल्पैःप्रयोजितैः ॥ लाक्षारसपयस्त-
क्रमस्तुभिः सहकांजिकैः॥पक्वतैलमिदंत्वच्यंदाहज्वरहरंपरं ॥

अर्थ-पन्नाख, कूठ, लालकमलका कंद, अतीस, पुहकरमूल, कमोदनी, खस, मँजीठ, चित्रक, गेरू, कायफल, दोनों सारिवा, लोध, मोथा, क्षिरिका-कोली, खजूर, नागरमोथा, आमले और सतावर, इनका काठा और कल्क, तथा लाखका सीरा, दहीका तोर और कांजी इन सबको मिलाय तेल सिद्ध करे ये त्वचाको हितकारक तथा दाह, पूर्वज्वरका नाशक है ॥

दूसराप्रकार ।

लाक्षारसाढकेप्रस्थंतैलस्यविषचेद्भिपक् ॥ मस्त्वाढकसमायु-
क्तंपिद्वाचान्नविनिःक्षिपेत् ॥ शतपुष्पांहरिद्रांचमूर्वाकुप्टंहे-
णुकं ॥ कटुकंमधुकंरास्त्राअश्वगंधाचदारुच ॥ मुस्तकंचंदनं-
चैवपृथगक्षंसमांशकैः ॥ द्रव्यैरेतैस्तुसंसिद्धमभ्यंगान्मारुता-
पहं ॥ विषमारुत्यान्ज्वरान्सर्वानाश्वेवप्रशमनयेत् ॥ कासं-
श्वासंप्रतिश्यायंकंडूदौर्गच्यमेववा ॥ त्रिकपृष्टग्रहंशूलंगान्ना-
णांकुट्टनंतथा ॥ पापालक्ष्मीप्रशमनंसर्वग्रहनिवारणं ॥ अ-
श्विभ्यांनिर्मितंसम्यक्तैलंलाक्षादिकंत्विदं ॥

अर्थ-२५६ तोले लाखका काठा, ६४ तोले तेल, दहीका तोर २५६ तोले ये सब एकत्र कर उसमें सौंफ, हलदी, मूर्वा, कूठ, पित्तपापडा, कुटकी, महु-आके फूल, रास्त्रा, असगंध, देवदारु, मोथा और चंदन ये प्रत्येक तोले तोले भर लेय, सबका कल्ककर पूर्वोक्त लाखके काठे आदिमें मिलाय तेल सिद्ध करे यह तेल वादी, विषमज्वर, खाँसी, श्वास, पीनस, खुजली, अंगकी दुर्गंधी तथा त्रिकस्थान, पीठ, इनका शूल, देहका फड़फना, पाप, दुष्टचेष्टा-सर्वं ग्रहदोष इनको नाश करे यह लाक्षादितैल अश्विनीकुमारने निमार्ण करा ऐसा जानना ॥

पट्चरणतैल ।

लाक्षामधुकमंजिष्ठासूर्वाचंदनसारिवाः ॥
तैलंपट्चरणं नाम अभ्यंगज्वरनाशनं ॥

अर्थ—लाख, महुआ, मँजीठ, मूवा, चंदन और सारिवा इनके काष्ठमें तेल को सिद्ध करे तो यह षट् चरण तैल मालिस करनेसे सर्वज्वरोंको नाश करे ॥

अजादिधूप ।

अजायाश्वर्मरोमाणिवचाकुष्ठंपलंकपा ॥

निवपत्राणिमधुचधूपनंज्वरनाशनं ॥

अर्थ—बकरीकी चाम और बाल, वच, कूठ, गूगल, नीमके पत्ते और शहत इनकी धूनी देनेसे सर्वज्वर नाश होय ॥

वचादिधूप ।

वचाहरीतकीसर्पिर्धूपःस्याद्विपमज्वरे ॥

अर्थ—वच, हरड और घी इनकी धूनी विपमज्वर नाशक है ॥

मसुराधूप ।

मसुरातूपकैर्धूपःसर्वज्वरगदापहः ॥

अर्थ—मसूरकी भूसीकी धूनी देनेसे सर्व ज्वर दूर हो ॥

सहदेव्यादिधूप ।

सहदेवीवचाभद्रानाकुलीभिः प्रधूपनं ॥

प्रदेहोद्धर्तनंकर्यादेभिर्वाज्वरशांतये ॥

अर्थ—सहदेई, वच, हलदी और रास्ना, इनकी धूनी देना, अथवा देहमें उ-वटना करनेसे सर्वज्वर दूर हो ॥

गुग्गुलादिधूप ।

पुरध्यामवचासर्जान्वाकार्गुरुदारुभिः ॥

सर्वज्वरहरोधूपः श्रेष्ठोयमपराजितः ॥

अर्थ—गूगल, रोहिसटण, वच, राल, नीमके पत्ते, आकके पत्ते, अगर और दारु हलदी, इनकी धूनी सर्वज्वरोंको नष्ट करेहै इसे अपराजित धूप कहतेहै ॥

माहेश्वरधूप ।

रुद्रजटागोशृंगविडालविष्टोस्यनिर्मोकः ॥ मदनफलभूत

केशैर्विशत्वकरुद्रनिर्माल्यं ॥ घृतयवमधुरंचंद्रकलाद्यागलरो

माणिसर्पपाःसवचाः ॥ हिंयुगवाक्षमिरिचाःसमभागाश्छागम्

त्रसंपिष्टाः ॥ धूपनविधिनाशमयंत्येतेसर्वज्वरान्नियतं ॥ ग्रह
शाकिनीपिशाचप्रेतविकारानयंधूपः ॥

अर्थ-शिवलिङ्गी, गौकासींग, विलावकी विष्टा, सांपकी काँचली, मैनफल
जटामांसी, वाँसकीछाल, शिवनिर्माल्य, घृत, जौ, गुड, वावची, बकरीके-
वाल, सपेदसरसों, वच, हींग, इन्द्रायण और कालीमिरच, ये समान भाग
लेकरके मूत्रमें पीस धूनी देवे तो सर्वज्वर, शाकिनी, पिशाच और प्रेतविकार
इनको दूर करे इसे (माहेश्वर धूप) कहते हैं ॥

सर्पत्वचादिधूप ।

सर्पत्वचासर्पपहिंयुनिवपत्रोण्यमीपांसमचूर्णधूपः ॥

विनिग्रहंराक्षसडाकिनीनां करोतिरक्षांविषमज्वरस्य ॥

अर्थ-साँपकी काँचली, सरसों, हींग, नीमकेपत्ते इनका समान भाग चूर्ण
कर धूनी देय तो राक्षस, डाकिनी और विषमज्वरको दूर करे ॥

पलंकपादिधूप ।

पलंकपानिवपत्रं वचाकुण्डहरीतकी ॥

सर्पपाःसयवासर्पिर्धूपनंज्वरनाशनं ॥

अर्थ-लास, नीमकेपत्ते, वच, फूठ, हरड, सरसों, जौ और घृत इनकी
धूनी ज्वरको नाश करे ॥

माहेश्वरधूप ।

कार्पासास्थिमयूरपिच्छबृहतीनिर्माल्यपिंडीतकत्वड्मांसी-
विपदंशविड्मखवचाकेशाहिनिमौचनैः ॥ वागेन्द्रद्विजशृंगाहेगु-
मरिचैस्तुल्यंकृतंधूपनंस्कंदोन्मादापिशाचराक्षससुरावेशज्वर-
घ्नपरं ॥

अर्थ-विनोले, मोरपंख, फटेरी, लजालु, मैनलफ, दालचीनी, जटामांसी,
विलावकी विष्टा, नखसुगंध द्रव्य, वच, मनुष्यके वाल, साँपकी काँचली,
हापीदौत, शींग, हींग और कालीमिरच ये समान भाग लेकर फूट पीस
धूनी देवे तो स्कंदमहोन्माद, पिशाच, यक्ष, राक्षस और देवताओंका देहमें
आना इनको नाश करे ॥

निंबपत्रादिधूप ।

निंबपत्रं वचाकुष्ठं पथ्यासिद्धार्थकं घृतं ॥
विषमज्वरनाशाय गुग्गुलुश्चेति धूपनं ॥

अर्थ—नीमकेपत्ते, वच, कूठ, हरड, सपेदसरसों, घृत और गुग्गुलु इनकी धूनी विषमज्वरको दूर करती है ॥

मार्जारविष्टाधूप ।

वैडालं वा शकृद्योज्यं वैपमानस्य धूपने ॥

अर्थ—जिसको ज्वरके कारण सरदी लगनेसे कौपता हो उसको विलावके विष्टाकी धूनी देवे ॥

सहदेवीमूलिकाबंध ।

श्मशानसहदेव्यावा दूर्वायावाथमूलिका ॥
सूत्रेण वेष्टिता वद्धाहस्ते सर्वज्वरापहा ॥

अर्थ—श्मशानमें उत्पन्न हुई सहदेई अथवा दूर्वाकी जड़को सूतमें लपेट कर हाथमें बाँधे तो सर्वप्रकारके ज्वर दूर हो ॥

बाँदेबंधन ।

आम्रबंदं विशेषोयं करे वध्वाज्वरं जयेत् ॥ आहरेदनुराधायां क
रवीरस्य बंदकं ॥ ब्रह्मवृक्षस्य बंदं वा ऋक्षे उत्तरभाद्रके ॥ करे
बद्धं ज्वरं हंति सर्वमेतत्पृथक्पृथक् ॥

अर्थ—अनुराधा नक्षत्र, अथवा उत्तरभाद्रपदा नक्षत्रमें आमका अथवा कन्हेर तथा ढाकका बाँदा लायकर हाथमें बाँधे तो सर्वप्रकारके ज्वरोंको दूर करे ॥

उलूकपक्षबंध ।

उलूकदक्षिणपक्षं सितसूत्रेण वेष्टयेत् ॥
बद्धं वा वामकर्णोत्तुहरत्यैकाहिकं ज्वर ॥

अर्थ—उलू (घुघू) का दहना पंख सपेद सूतमें लपेट कर बाँए कानमें बाँधे तो एकाहिकज्वर दूरहोय ॥

गोपालिकामूलबंध ।

गोपालपत्रिकामूलं सहदेवीवलाथवा ॥
गोजिह्वाविजयामूलं गले बद्धं ज्वरापहम् ॥

अर्थ—गोपालककडी, सहदेई, खरेटी, गोभी और भांग इनमेंसे किसीएक की जड़की गलेमें बांधनेसे ज्वर दूर होय ॥

भूतकेशीमूलबंध ।

भूतकेश्याश्चमूलंवासतखंडानिकारयेत् ॥

बंधयेद्रक्तमूत्रेणहस्तेचज्वरनाशनम् ॥

अर्थ—भूतकेशीकी जड़के सांत टुकड़े कर उनको लाल मूतमें बांधके हाथमें बांधे तो ज्वर दूर होय ॥

निर्गुंडिबंध ।

निर्गुंड्याःसहदेव्यश्चकटौवद्धंजटाद्रयं ॥

प्रातरादित्यवारेचसर्वज्वरविनाशकृत् ॥

अर्थ—रविवारकी निर्गुंडी और सहदेई की जड़की प्रातःकाल कमरमें बांधे तो सब ज्वरोंको दूर करे ॥

कण्हेरमूलिकाबंध ।

कर्णवद्धारवौश्वेततुंगरिपुमूलिका ॥

सर्वज्वरहराश्वेतमंदारस्यचमूलिका ॥

अर्थ—रविवारमें सपेद कनेरकी अथवा सपेद मंदारकी जड़की कानमें बांधे तो सर्वज्वरका नाश करे ॥

संततज्वरनिदान ।

सप्ताहंवादशाहंवाद्वादशाहमथापिवा ॥

संतत्यायोविसर्गीस्यात्संततःसनिगद्यते ॥

अर्थ—७-१०-अथवा १२-दिन पर्यंत एकसा ज्वर रहें उसको संतत ज्वर कहते हैं । सात, दश और बारह ये जो विकल्प कहा वो अनुक्रम फेरके वात, पित्त और कफ, इनके उत्त्वन फरके कहा है । यह संततज्वर त्रिदोषज है, वातादिदोषसे ३, सप्तधातु ७, मूत्र ११, पुरीष (मल) १२ ये बारह वस्तु दुष्ट होनेसे इनसे कोप करके मलका आकर्षण होकर संतत ज्वर होता है यह चरकका मत है ॥

पटोलादिकाढा ।

पटोलैद्रयवादारुगुडूचीनिवपल्लवाः ॥

हंतिक्वाथोनिपीतोयंसंततंविपमज्वरम् ॥

अर्थ—पटोलपत्र, इन्द्रजौ, देवदारु, गिलोय, नीमके पत्ते, इन सबका काथ पीनेसे संतत नाम विपमज्वर दूर होय ॥

दूसराप्रकार ।

पटोलेंद्रयवादारुत्रिफलासुस्तगोस्तनैः ॥ मधुकामृतत्रासानां
क्वाथंक्षौद्रयुतंपिबेत् ॥ संततेसततेचैवद्वितीयकतृतीयके ॥
एकाहिकेवाविपमेदाहपूर्वनवज्वरे ॥

अर्थ—पटोलपत्र, इन्द्रजौ- देवदारु, त्रिफला, नागरमोथा, दाख, मुलहठी, गिलोय और अडूसा, इनका काढा शहतके साथ पीवे तो संतत, सतत, द्वितीयक, तृतीयक, एकाहिक, तथा दाह पूर्वक नवीन ज्वरको दूर करे ॥

तीसराप्रकाश ।

पटोलाब्दवृपातिकासारिवाभिःशृतंजलं ॥

संततारव्येज्वरेदेयंवातादीनानिवृत्तये ॥

अर्थ—पटोलपत्र, नागरमोथा, अडूसा, कुटकी, सारिवा, इनको, जलमें रात-को भिगो देवे प्रातःकाल छानके पीवे तो संततादि ज्वर वातादि दूर होंवे ॥

चौथाप्रकार ।

पटोलेंद्रयवानंतापथ्यरिष्टामृताजलं ॥

क्वथितंजलंपीतंज्वरंसंततकंजयेत् ॥

अर्थ—पटोलपत्र, इन्द्रजौ, धमासा, हरड, नीमकी छाल, गिलोय, नेत्र वाला, इनके काढेको पीवे तो संतत ज्वर दूर होवे ॥

आमलक्यादिकाढा ।

आमलकीघननागरसंहिच्छिन्नलताविहितश्चकपायः ॥

माक्षिकमागधिकापरिमिश्रोहंत्यनिशंसंततज्वरमाशु ॥

अर्थ—आमला, नागरमोथा, कटेरी, गिलोय, इनके काढेमें शहत और पीप-लका चूर्ण डालके पीवे तो अत्यंत निद्रा और संततज्वर दूर होंवे ॥

ज्वरभेद ।

एकद्वित्रिचतुर्थःस्याद्विपमोन्यस्तुजीर्णकः ॥

एतेपंचज्वराःपीडयंत्येववहुवासरं ॥

अर्थ—एकाहिक, इकतरा, तिजारी और चौथैया ये चार विषमज्वर और दूसरा जीर्णज्वर ऐसे ये पांचज्वर बहुतदिनतकपीडा देते हैं ॥

सततवाअन्येद्युष्कादिकोंकेलक्षणनिदान ।

अहोरात्रेसततकौद्रौकालावनुवर्तते ॥ अन्येद्युष्कस्त्वहोरा-
त्रंएककालंप्रवर्तते ॥ तृतीयकस्तृतीयेह्निचतुर्थेह्निचतुर्थकः ॥
केचिद्भूताभिपंगोत्थंवदंतिविषमज्वरम् ॥

अर्थ—सततज्वर दिनरात्रिमें दोबार आता है, अन्येद्युष्कज्वर दिनरात्रिमें एकबार आता है, तृतीयक (तिजारी) ज्वर आये दिनसे फिर तीसरे दिन आता है और चतुर्थिक ज्वर जिसदिन आता है उसके चौथेदिन आता है और कोई आचार्य इस विषमज्वरको भूताभिपंगोत्थ अर्थात् भूतवाधा जनित कहते हैं ॥

त्रायंत्यादिकाढा ।

त्रायंतीकटुकानंतासारिवाभिःशृतंजलं ॥

सतताख्येज्वरेदेयंवातादीनांनिवृत्तये ॥

अर्थ—त्रायमाण, कुटकी, जवासो, सारिवा, इनके फाँटको शीतल करके पीनेसे संतत ज्वर दूर होय तथा वातादिरोग दूर हो ॥

पटोलादिकाढा ।

पटोलपथ्यापिचुमंदशक्रीजामृतायासकृतःकपायः ॥

निपीतमात्रःशमयत्युदीर्णकासादियुक्तंसततंज्वरंहि ॥

अर्थ—पटोलपत्र, हरड, नीमकीछाल, इन्द्रजौ, गिलोय, जवासो, इनका फाँटा पीतेही खाँसीयुक्त सतत ज्वर दूर होय ॥

द्राक्षादिकाढा ।

द्राक्षापटोलनिवाच्दाशक्राह्वात्रिफलाशृतं ॥

जलंजंतुःपिवेच्छीघ्रमन्येद्युष्वरंशांतये ॥

अर्थ—मुनक्कादास, पटोलपत्र, नीमकीछाल, नागरमोषा, इन्द्रजौ, त्रिफला इनका फाँटा अन्येद्युष्क (इकतरा) ज्वरको शांतिकरे ॥

पटोलादिकाढा ।

पटोलत्रिफलानिवद्राक्षाशम्याकवासकैः ॥

काथःसितामधुयुतो जयेदेकाहिकंज्वरं ॥

अर्थ—पटोलपत्र, त्रिफला, नीमकीछाल, दास, अमलतासका गूदा और अदू-सा इन आठ औषधोंका काठा शहत मिश्रीमिलायके पीवे तो नित्य आनेवाले ज्वरको दूर करे ॥

ब्रह्मदंडीनस्य ।

एकाहिकंज्वरंहंतिनस्याद्वागिरिकर्णिका ॥

ब्रह्मदंडीतिविरुष्याता अधःपुष्पीतुनामतः ॥

अर्थ—गिरिकर्णिकाके अथवा ब्रह्मदंडी जिसको अधःपुष्पी कहते हैं उसके रसकी नस्य देनेसे एकाहिक ज्वर नाश होय ॥

सर्पाक्षीमूलिकाबंध ।

सोमग्रहणवेलायांसर्पाक्षीमभिमंत्रयेत् ॥ शिफांहिकृष्णसूत्रेण

वामकर्णेनिबंधयेत् ॥ एकाहिकंज्वरंहंतिद्र्याहिकंदक्षकर्णके ॥

अर्थ—चंद्रग्रहणके समय सरफोकाकी अभिमंत्रणकर, विधीसे उखाड उसकी जडको फाले मूतसे बाँध कानमें बाँधे तो एकाहिक ज्वर जाय, यदि द्र्याहिक ज्वर होय तो दहने कानमें बाँधे तो द्र्याहिकभी दूर हो ॥

एकाहिकऊपरअपामार्गमूलिकाबंधन ।

कन्याकार्तितसूत्रेणवद्धापामार्गमूलिका ॥

एकाहिकंज्वरंहंतिशिखायामतिवेगतः ॥

अर्थ—कन्याके हाथसे कते मूतमें आँगोकी जड लपेट चुटियामें बाँधनेसे एकाहिक ज्वर दूर हो ॥

काकमाचीमूलिकाबंधन ।

काकमाच्याश्चमूलंतुकर्णेवद्धंनिशिज्वरन् ॥

अर्थ—जिसको रात्रिमें ज्वर आता होय उसके मकोयकी जडको कन्याके कते हुए मूतसे बाँधे तो आराम होय ॥

सर्पाक्षीतिलक ।

श्मशानजातसर्पाक्ष्यारवौमूलंसमुद्धरेत् ॥

घृतैर्धृत्वाललाटेतुतिलकःस्याद्धितत्प्रणुत् ॥

अर्थ—श्मशानमें उत्पन्न हुई सरफोकेकी जड़को रविवारके दिन उखाड़ कर उसे धीमें सानके ललाटमें तिलक करनेसे एकाहिक ज्वर दूर होय ॥

दान ।

अंगवंगकालिंगेपुसौराष्ट्रमगधेषुच ॥

वाराणस्यांचयदत्तंतत्तदैकाहिकेस्मरेत् ॥

अर्थ—अंग, वंग, कालिंग, सौराष्ट्र, मगध और काशीक्षेत्रमें एकाहिक ज्वरका स्मरण कर दान देवे तो एकाहिक ज्वर दूर हो ॥

तर्पण ।

योसौसरस्वतीतीरेअपुत्रस्तापसोमृतः ॥

तस्मैतिलोदकंदद्यान्मुंचेदैकाहिकोज्वरः ॥

अर्थ—जो सरस्वतीके किनारे अपुत्र तपस्वी मरा, उसके अर्थ तिलांजली देनेसे एकाहिक ज्वर दूर हो ॥

उलूकपक्षबंधअन्येषुष्कपर

उलूकस्योत्तरंपक्षरक्तसूत्रेणवेष्टयेत् ॥

वद्धंतुदक्षिणेकर्णेद्र्याहिकंवाज्वरंजयेत् ॥

अर्थ—उलूकके वामपंखको लाल मूतमें लपेट दहने कानमें बांधे तो अन्येषुष्क तथा ब्याहिक ज्वरको दूर करे ॥

वासादिकाढा ।

वासापटोलत्रिफलाद्राक्षाशम्याकनिंबजः ॥

समधुःससितःकाथोहन्याद्वैब्याहिकज्वरं ॥

अर्थ—अडूसा, पटोलपत्र, त्रिफला, मुनकादास, अमलतासका गूदा और नीमकी छाल, इनके काठमें शहत और मिश्री मिलायके पीनेसे ब्याहिक ज्वर दूर होय ॥

पटोलादिकाढा ।

पटोलारिष्टमृद्धीकाशम्याकस्त्रिफलावृषं ॥

काथएकहिकंहंतिशर्करामधुसंयुतः ॥

अर्थ—पटोलपत्र, नीमकीछाल, दाख, अमलतासका गूदा, त्रिफला और अडूसा इनके काठेमें मिश्री शहत मिलायके पीवे तो एकाहिक ज्वर दूरहो ॥

अंजन ।

ऊर्णनाभिस्थजालेनवर्तिकृत्वाप्रयत्नतः ॥ ज्वालयेत्तिलतैलेन
कज्जलंग्राहयेच्छनैः ॥ अंजयेत्त्रेत्रयुगलंब्याहिकंतुज्वरंजयेत् ॥

अर्थ—मकड़ीके जालकी बत्ती बनाय तिलके तेलमें गर काजल पाडे, उस काजलको दोनोंनेत्रोंमें लगावे तो द्वयाहिक ज्वर (इकतरा) दूर हो ॥

एकाहिकादिकोमेंहिंङ्गुलयोग ।

म्लेच्छंसमंविपंपिङ्गाप्रदद्याद्द्रिकासमं ॥ एकाहिकंद्वयाहिकं
वातृतीयंचचतुर्थकं ॥ निहन्यान्नात्रसंदेहोयथासूर्योदयेतमः ॥

अर्थ—हींगलू और सिंगिया विष ये समान ले एकत्र खरल कर १ रत्ती देय तो एकाहिक, द्वयाहिक, त्रयाहिक और चतुर्थिक ज्वरोंको नाश करे ॥

तृतीयकज्वरनिदान ।

कफपित्तात्रिकग्राहीपृष्ठाद्रातकफात्मकः ॥

वातपित्ताच्छिरोग्राहीत्रिविधः स्यात्तृतीयकः ॥

अर्थ—कफपित्तात्मक जो तृतीयक ज्वर वो कमर तथा पीठके बांसकी संधिमें उत्पन्न होकर फिर शरीरमें प्रवेशकरे हे और जो वातकफात्मक तृतीयक ज्वर है वो पीठमें उत्पन्न होता है, उसीप्रकार वातपित्तजन्य जो तृतीयज्वर है वो मस्तक में उत्पन्न हो फिर सब देहमें फैलैहे इस प्रकार तीनप्रकारका तृतीयकज्वर है ॥

महोपधादिकाढा ।

मुस्तामहोपधामृताचंदनोशीरधान्यकैः ॥

काथस्तृतीयकंहंतिशर्करामधुयोजितः ॥

अर्थ—सोंठ, गिलोय, नागरमोथा, लालचंदन, खस और धनिया इनके काठेमें मिश्री और शहत मिलायके देवे तो तृतीयक(तिजारी)ज्वर दूर होय ॥

शिशिरादिकाढा ।

सशिशिरः सघनः समहौषधः सनलदः सकणः सपयोधरः ॥

समधुशर्करएकपायकोजयतिवालमृगाक्षितृतीयकं ॥

अर्थ—हे बालमृगाक्षि ! लालचंदन, धनिया, सोंठ, नेत्रवाला, पीपर और नागरमोथा इन औषधोंका काढा करके उसमें शहत और मिश्री मिलायके देवे तो तृतीयक ज्वर दूर हो ॥

उशीरादिकाढा ।

उशीरंचंदनमुस्तंगुडूचीधान्यनागरं ॥ अंभसाक्वथितंपेयंश
कर्णामधुयोजितं ॥ ज्वरेतृतीयकेपुंसातृष्णादाहसमन्विते ॥

अर्थ—खस, लालचंदन, नागरमोथा, गिलोय, धनिया और सोंठ इनका काढा करके उसमें शहत और मिश्री मिलायके रोगीको देय तो तृतीयक ज्वर तथा दाहयुक्त ज्वर इनका नाश होय ॥

शीतभंजीरस ।

शीतभंजरिसोप्यत्रसानुपानोद्विगुंजकः ॥
मुसलीमारनालेनपीत्वाहंतितृतीयकं ॥

अर्थ—इस तिजारीके ऊपर (शीतभंजीररस) दो रत्ती अनुपानके साथ देवे अथवा मूसलीको पीस काँजीके साथ देय तो तृतीयकज्वर नाश होय ॥

अपामार्गमूलिकाबंध ।

अपामार्गजटाकट्यांलोहितैःसप्ततंतुभिः ॥
वद्धावारेरवेस्तूर्णज्वरंहंतितृतीयकं ॥

अर्थ—ओंगेकी जड, सात लाल डोरेमें लपेट रविवारके दिन कमरमें बाँधे तो तृतीयकज्वर शीघ्र शांत होय ॥

वाराहीमूलिकाबंध ।

वाराहीशिशिकामूलकणवद्धंतृतीयकं ॥ ज्वरंहंत्यथवाहुस्थो
पक्षस्तूलूकसंभवः ॥ वेष्टयेत्पंचरंगेणसूत्रेणाबंधयेद्गले ॥

अर्थ—विलारी कंद गाँठ अथवा जडको अथवा टलूककी पाँखको पंचरंगी डोरेमें कसके गलेमें अथवा भुजामें बाँधे तो तिजारी जाती रहे ॥

चातुर्थिकज्वरनिदान ।

चातुर्थिकोदर्शयतिप्रभावंद्विविधंज्वरः ॥ जंचाभ्यांश्लेष्मिकः

पूर्वाशिरसोनिलसंभवः ॥ विपमज्वरएवान्यश्चातुर्थिकविपर्य-
यः ॥ समध्येज्वरयत्यह्निआदावंतेचमुंचति ॥

अर्थ—चातुर्थिक (चौथैया) ज्वर अपनी सामर्थ्य दोप्रकारकी दिखाता है जो कफजन्य चातुर्थिक है वो प्रथम पैरोंकी पीडरीनसे देहमें फैले है और जो वातजन्य है वो मस्तकमें प्रथम उत्पन्न हो फिर सब देहमें संचार करे हैं और एक चातुर्थिकका भेद यह है कि आदिअंतके दोदिन छोडके बीचके दोदिनोंमें रोगीको चढे ॥

विपमकेसामान्यउपद्रव ।

विपमज्वरस्यतेस्युःपंचसाध्याउपद्रवाः ॥ अधिशेतेयथाभूमिं
बीजंकालेप्ररोहति ॥ अधिशेतेतथाधातौदोषःकालेप्रकुप्यति ॥

अर्थ—विपमज्वरके पूर्व कहे हुए पांच उपद्रव औषधादिकसे साध्य जानने जैसे पृथ्वीमें पडे हुए बीज अपने २ समय पर उत्पन्न होते हैं । उसीप्रकार धातुमें वातादिक दोष मूक्ष्मरूपसे रहते हैं, जब काल आता है तब कुपित होते हैं ॥

वेगेतुसमातिक्रान्तिगतोयमितिलक्ष्यते ॥

धात्वंतरेपुलीनत्वात्सौक्ष्म्यान्नैवोपलक्ष्यते ॥

अर्थ—ज्वरका वेग शांति होनेपर ज्वर गयासा प्रतीत होता है, परंतु वह ज्वर अन्य धातुके प्रति पहुँच कर मूक्ष्म रूपसे रहता है अत एव दीखता नहीं है ॥

सामान्यचिकित्सा ।

कर्मसाधारणंत्यक्त्वातृतीयकचतुर्थकौ ॥

भिपजाप्रतिकर्तव्यौविशेषोक्तचिकित्सितैः ॥

अर्थ—तृतीय और चतुर्थक ज्वरोंकी साधारण क्रिया त्याग कर जो विशेष क्रिया कही है उस क्रियाकी करनी चाहिये ॥

दूसराप्रकार ।

ज्वरस्यवेगकालंचंचितयन्ज्वर्यतेतुयः ॥

तस्येष्टैरद्भुतैर्वापिविपर्यैर्नाशयेत्स्मृतिं ॥

अर्थ—जिस रोगीकी ज्वरके भयसे (अर्थात् आज मेरी ज्वर आनेकी पाली है सो मुझको ज्वर आवेगा इस कारण) ज्वर आता है उसको इष्टसाधन

अर्थात् जिस कस्तुरी रोगी इच्छा करे वो देना, अथवा कोई अद्भुत साधन करके उसकी उस चितवनको दूर करे तो ज्वर अवश्य नाश होय ॥

तीसराप्रकार ।

संततंविषमंवापिक्षीणस्यसुचिरोत्थितं ॥

ज्वरंसंभोजनैःपथ्यैर्ज्वरघ्नैःसमुपाचरेत् ॥

अर्थ—संतत, अथवा विषमज्वर क्षीण पुरुषको बहुत दिन आता है उसको उत्तम भोजन, पथ्य ऐसे ज्वर नाशक यत्नोंके उपाय करे ॥

वासादिकाढा ।

वासाधात्रीस्थिरादारुधान्यानागरसाधितं ॥

सितामधुयुतंकुर्याच्चातुर्थिकनिवारणं ॥

अर्थ—अडूसा, आमले, सालपर्णी, देवदारु, धनिया, और सोंठ, इनका काढा शहत और मिश्री मिलायके पीवे तो चातुर्थिक ज्वर दूर होय ॥

पथ्यादिकाढा ।

पथ्यास्थिरानागरदेवदारुधात्रीवृषैरुत्कथितः कपायः ॥

सितोपलामाक्षिकसंप्रयुक्तश्चातुर्थिकंहंत्यचिरेणपीतः ॥

अर्थ—हरड, सालपर्णी, सोंठ, देवदारु, आमले और अडूसा इनके काढेको मिश्री और शहत मिलायके पीवे तो शीघ्र चातुर्थिक ज्वरको दूर करे ॥

देवदाव्यादिकाढा ।

देवदारुशिवावासाशालिपर्णीमहौषधैः ॥ धात्रीयुतंशृतंशी

तंदद्यान्मधुसितायुतं ॥ चातुर्थिकज्वरेश्वासेकासेमंदानलेतथा ॥

अर्थ—देवदारु, छोटीहरड, अडूसा, सालपर्णी, सोंठ और आमले, इन छः औषधोंका काढा शीतल होनेपर उसमें शहत और खांड मिलायके पीवे तो चातुर्थिक ज्वर, श्वास, खाँसी, और मंदाधिको नाश करे ॥

स्थिरादिकाढा ॥

स्थिरासामलकादारुश्रीवेष्टकमहौषधैः ॥ शृतंशीतंजलंदद्या

त्सितामधुविमिश्रितं ॥ चातुर्थिकेज्वरेतीव्रेमंदेचैवाथपावके ॥

अर्थ—सालपर्णी, आमले, देवदारु, सरलवृक्ष और सोंठ, इनका काढा

करके शीतल होनेपर शहत मिश्री मिलायके पीवे तो तीव्र चातुर्थिकज्वर और मंदाधिको दूर करे ॥

दुःस्पर्शादिकाढा ।

दुःस्पर्शांशीरसिंहीयनमधुकशिवावाजिविश्वाटरूपच्छिन्नारे
शूकपायः समधुमगधकोवापितश्चाष्टमांशं ॥ दाहंस्वेदं च शोषं
कृमिमथरुधिरं शैत्यमुद्भ्रान्तचित्तं श्वासं शूलं च तृष्णां दिननिशि
विपमं हन्ति चातुर्थिकाद्यम् ॥

अर्थ—कटेरीका पंचांग, खस, छोटी कटेरी, महुआ, हरड, असगंध, सोंठ, अडूसा, गिलोय और पित्तपापडा, इन औषधोंके काठेमें शहत और पीपलका चूर्ण डालके देवे तो दाह, पसीने, प्यास, कृमिरोग, रुधिरविकार, शीत लगना, भ्रान्ति, श्वास, शूल, शोष, दिनका ज्वर, रात्रिज्वर और चातुर्थिक आदि ज्वर दूर हो ॥

दाव्यादिकाढा ।

दावींदारुकालंगलोहितलताशम्याकपाठाशठीशौंडीविश्वकि
रातवारणकणात्रायंतिकापद्मकैः ॥ उग्राधान्यकनागराद्दसर
लैः शिशुत्वगं वूशिवाव्याघ्रीपर्पटदर्भमूलकटुकानंतामृतापौ
ष्करैः ॥ धातुस्थं विपमं त्रिदोषजनितं चैकाहिकं द्वाहिकं काथो
हंति तृतीयकं ज्वरभयं चातुर्थिकं भूतजं ॥

अर्थ—दारुहलद, देवदारु, इन्द्रजी, मजीठ, अमलतासका गुदा, पाठ, फचूर, पीपल, सोंठ, चिरामता, गजपीपल, त्रायमाण, पद्मास, वच, धनिया, अदरस, नागरमोथा, सहेंजना, दालचीनी, नेत्रवाला, हरड, कटेरी, पित्तपापडा, कुशाकी जड, कुटकी, घमासा, गिलोय और पुहकरमूल, इन औषधोंका काढा करके देवे तो धातुगत ज्वर, विपमज्वर, त्रिदोषज्वर, ऐकाहिक, द्वाहिक, ज्याहिक और चातुर्थिक ज्वरको नाश करे ॥

मुस्तादिकाढा ।

मुस्तापाठाशिवाकाथश्चातुर्थिकज्वरापहः ॥
दुग्धेन त्रिफलापीताहंति चातुर्थिकं ज्वरं ॥

अर्थ—नागरमोया, पाठ और आमले इनका काठा अथवा त्रिफलेका चूर्ण दूधसे पीवे तो चातुर्थिक ज्वर दूर होय ॥

बेलफलचूर्ण ।

शैलूपमंडनरजोवयसानुरूपशुभ्रांगवत्ससुरभीपयसानिपीतं ॥

आदित्यवारभवपालिदिनेनरेणचातुर्थिकंसुचिरजंजयतिक्षणेन ॥

अर्थ—बेलगिरी और मधुमाधवी इनके चूर्णको तरुण और सपेद बछरे-वाली गौके दूधसे रविवारके दिन पीवे या जिस दिनकी पाली हो उस दिन पीवे तो बहुत दिनका भी चातुर्थिक ज्वर क्षणमात्रमें दूर होय ॥

पुनर्नवाद्गुग्धयोग ।

सितवर्षाभवोमूलंपयसापीतंचपैत्तिकंहरति ॥

चातुर्थिकंसुचिरजंतांबूलेनैवभक्षणादथवा ॥

अर्थ—सपेद पुनर्नवाकी जड़को दूधके साथ पीवे अथवा बीड़ीमें धरके खाय तो पुरानाभी चातुर्थिक ज्वर दूर होय ॥

वृषदंशपुरीषादियोग ।

वृषदंशपुरीषंचपयसालोड्यपाययेत् ॥

चातुर्थिकस्यागमनेनियतंनभविष्यति ॥

अर्थ—बिल्लीकी विष्टाको दूधमें मिलायके चातुर्थिक आनेके समय पीवे तो निश्चय चातुर्थिक ज्वर दूर हो ॥

शिरीषकल्क ।

कल्कः शिरीषपुष्पस्यरजनीद्वयसंयुतः ॥

तस्यसर्पिः समाग्रागाज्ज्वरंचातुर्थिकंजयेत् ॥

अर्थ—सिरसके फूल, हलदी और दारुहलदी, इनको एकत्र पीस कर कल्क करके उसमें घृत मिलायके देवे तो चातुर्थिक (चौथैया) ज्वरको नष्ट करे ॥

हिंगुनस्य ।

चातुर्थिकोगच्छतिरामठस्यघृतेनजीर्णैर्नयुतस्यनस्यात् ॥

लीलावतीनांनवयौवनानांमुखावलोकादिवसाधुभावः ॥

अर्थ—पुराने घृतमें हींग और टायके उस घीकी नस्य देवे उससे चातुर्थिक

ज्वर नाश होय । इसमें दृष्टांत है, जैसे तरुण नवपौवना स्त्रीके मुख देखते ही साधुता नष्ट होती है ॥

अगस्तिपत्रनस्य ।

अखंडितशरत्कालकलानिधिसमानने ॥

चातुर्थिकहरंनस्यंमुनिद्रुमदलांबुना ॥

अर्थ—हे पूर्णशरदकालीनचंद्रानने ! अगस्तियाके पत्तोंका रस निकालके उसकी नस्य लेनेसे चातुर्थिक ज्वर दूर होय ॥

उलूकपक्षधूप ।

कृष्णांबरेदृढवद्धोगुग्गुलूलूकपक्षकः ॥

धूपश्चातुर्थिकंहन्यात्तमः सूर्यइवोदितः ॥

अर्थ—काले कपडेमें गुगल और उलूकी पंख लपेटके धूनी देवे तो जैसे सूर्योदय होतेही अंधकार नष्ट होता है उस प्रकार चातुर्थिक ज्वर नष्ट होय ॥

अपामार्गमूलिकाबंध ।

कन्याकर्तितसूत्रेणअपामार्गस्यमूलिका ॥

रवौवध्वाज्वरंहंतितृतीयकचतुर्थकम् ॥

अर्थ—कारी कन्याके काते हुए सूतसे आंगाकी अड बाँधके रविवारके दिन ज्वरवालेके हाथमें बाँधनेसे तिजारी और चौथिया ज्वर दूर हो ॥

सहदेवीमूलबंध ।

विवस्त्रेणधृतादेवीमूलिकाकर्णबंधनात् ॥

चातुर्थिकंज्वरंहंतिद्रोणपुष्पीरसांजनात् ॥

अर्थ—नंगा होकर सहदेईकी जडको उखाड कानमें बांध तो चातुर्थिक ज्वर दूर हो । तथा गोमाके रसका अंजन करनेसे चातुर्थिक ज्वर दूर हो ॥

काकजंघादिवंध ।

काकजंघावलाश्यामाभृंगराजापमार्गकाः ॥

एकैकंपुष्ययोगेनवध्वाचातुर्थिकंहरेत् ॥

अर्थ—काकजंघा, खरेटी, पीपल, भांगरा और आंगा, इनमेंसे किसी एककी जड़ मूलनक्षत्रमें उखाडके हाथमें बांध तो चातुर्थिक ज्वर नष्ट होय ॥

पंचपंचकपाय ।

कालिंगकःपटोलस्यपत्रंचकटुरोहिणी ॥ पटोलंसारिवासुस्तंपा
ठाकटुकरोहिणी ॥ निंबःपटोलंत्रिफलामृद्धीकामुस्तवासकौ ॥
किरातत्तित्तोद्दमृताचंदनंविश्वभेषजं ॥ गुडूच्यामलकंमुस्त
मर्धश्लोकसमापनाः ॥ कपायाःशमयंत्याशुपंचपंचविधंज्वरं ॥

अर्थ—(१) कूडाकी छाल, पटोलपत्र, और कुटकी इनका (२) पटोल-
पत्र, सारिवा, नागरमोथा, पाठ और कुटकी इनका (३) नीमकी छाल, पटो-
लपत्र, त्रिफला, दाख, नागरमोथा, और अडूसा, इनका अथवा (४) चिरा-
यता, गिलोय, लालचंदन, और सोंठ, इनका अथवा (५) गिलोय,
आमले, नागरमोथा, इनमेंसे किसीएक काठेको पीवे तोपांच प्रकारके ज्वरदूर करे॥

धातुको शोषणकरनेवाला अत्यंत कष्टसाध्य

ऐसा विषमज्वर कहते हैं ।

विदग्धेऽन्नरसेदेहेश्लेष्मपित्तेव्यवस्थिते ॥

तेनार्धशीतलदेहमर्धमुष्णंचजायते ॥

अर्थ—शरीरमें अन्न रस दुष्ट होनेसे तथा कफ और पित्त कुपित होनेसे
शरीरका अर्ध भाग (कमरके नीचेका भाग अथवा ऊपरका भाग अथवा
दहना बांया) कफसे शीतल रहता है और आधा भाग पित्तसे गरम रहता है ॥

कायेदुष्टंयदापित्तंश्लेष्माचांतेव्यवस्थितः ॥

तेनोष्णत्वंशरीरस्यशीतत्वंहस्तपादयोः ॥

अर्थ—जिस समय कोंठेके भीतर पित्त दुष्ट होता है और कफ हाथ पैर
आदि शाखागत होता है उस समय देह ज्वरसे गरम रहती है और हाथ
पैर शीतल होते हैं ॥

कायेश्लेष्मायदादुष्टःपित्तंचांतेव्यवस्थितं ॥

शीतत्वंतेनगात्राणामुष्णत्वंहस्तपादयोः ॥

अर्थ—जिस समय कोंठेके भीतर कफ दुष्ट होय और पित्त हाथ पैरमें
प्राप्त हुआ होउस समय ज्वर आनेसे देह शीतल रहताहै और हाथ पैर गरमहोतेहैं ॥

ऋतेनिलान्नविषमोज्वरःसमुपजायते ॥

कफपित्तेहिनप्रेचेच्चेष्टयत्यनिलःसदा ॥

अर्थ-बादीके विना विपमज्वर नहीं होता और कफ तथा पित्त ये नष्ट होनेपर वायु विशेष करके शरीरमें संचार करता है ॥

**शीतपूर्वक वा दाहपूर्वक संततादि
विपमोंके स्वरूप कहतेहैं ।**

त्वक्स्थौश्लेष्मानिलौशीतमादौजनयतोज्वरं ॥
तयोः प्रशांतयोः पित्तमंतेदाहंकरोतिच ॥

अर्थ-त्वचामें अर्थात् रस धातुमें कफ और वात ये रहकर शीत ज्वरको उत्पन्न करे हैं जब कफ वात शांति होजाते हैं तत्पश्चात् पित्त दाहकोकरता है ॥

विपमभेदवातवलासकज्वर ।

नित्यमंदज्वरोरूक्षः शुनः कृच्छ्रेणसिध्यति ॥
स्तब्धांगः श्लेष्मभूयिष्ठोनरोवातवलासकी ॥

अर्थ-जिस रोगीके अल्पज्वर, रूक्षता, मूजन, देहका भारीपना, और अति कफाधिक्य ये लक्षण सर्वकाल हो उसको वातवलासक ज्वर कहते हैं यह कृच्छ्रसाध्य है ॥

प्रलेपकलक्षण ।

प्रलिपत्रिवगात्राणिश्लेष्मणागौरवेणच ॥
मंदज्वरोविलेपीचसंशीतः स्यात्प्रलेपकः ॥

अर्थ-जिस ज्वरमें देह पसीनोंसे सर्वकाल पुता हुआसा रहे, तथा भारी हो इसी योगसे ज्वर मंद होय, शीत लगे यह ज्वर कफपित्तजन्य है यह राज-यक्ष्मा रोगमें होता है इसे प्रलेपक ज्वर कहते हैं ॥

चिकित्सा ।

प्रालेपकेप्रयुंजीतश्लेष्मज्वरहरींक्रियां ॥

अर्थ-प्रलेपक ज्वरपर कफज्वर नाशक यत्न करना चाहिये तो इसकीशांतिहोय ॥

शीतदाहपूर्वविपम ।

करोत्यादौतथापित्तत्वक्स्थंदाहमतीवच ॥
तस्मिन्प्रशांतेत्वितरौकुरुतः शीतमंततः ॥

अर्थ-त्वचामें कहिये रक्तधातुमें पित्त स्थित होकर अत्यंत दाह पूर्वक ज्वर उत्पन्न करे जबपित्त शांति हो जावे तब कफ और बादी शीत उत्पन्नकरतेहैं ॥

दूसराप्रकार ।

द्रावितौदाहशीतादिज्वरौसंसर्गजौस्मृतौ ॥

दाहपूर्वस्तयोः कष्टः कृच्छ्रसाध्यस्तथेतरः ॥

अर्थ—ये दोनों शीत पूर्वक और दाह पूर्वक ज्वर त्रिदोष संसर्गज मुनियोंने कहे हैं तिनमें दाहपूर्वक ज्वर अत्यंत दुःसाध्य है और शीतपूर्वक ज्वर कृच्छ्र साध्य जानना ॥

सामान्यचिकित्सा ।

शीताभिभूतेपुरुषेकुर्याच्छीतहरांक्रियां ॥

दाहाभिभूतेतुविधिविदध्यादाहनाशनं ॥

अर्थ—शीतज्वर करके रोगीके व्याकुल होनेपर शीत नाशक यत्न करे तथा दाह होनेपर दाह नाशक यत्न वैद्यको करना चाहिये ॥

शीतनाशकक्रिया ।

आच्छादनैर्बहुतरैर्गुरुभिःकंबलादिभिः ॥

तूलवत्यामहाशीतंशीतादिज्वरिणोहरेत् ॥

अर्थ—शरदी लगनेवाले ज्वररोगीको बहुत उठाना, बिछाना, तथा भारी कंबल, रजाई तोपक इत्यादि करके शीतका निवारण करे ॥

क्षुद्रादिकाढाशीतपूर्वज्वरपर ।

क्षुद्रानागरमुस्तपर्पटधनाभूनिवनिवामृताभांर्गीचंदनपुष्करा

व्हकुलकैस्तिक्ताटरूपान्वितैः ॥ पद्मास्थेन्द्रयवान्वितैश्चरचितः

काथोनिपीतःप्रगेशीताद्यंज्वरमुत्थितंतुविषमंत्रिद्वयेकधस्रोद्धवं ॥

अर्थ—कटेरी, सोंठ, नागरमोथा, पित्तपापड़ा, धनिया, चिरायता, नीमकी छाल, गिलोय, भारंगी, लालचंदन, पुहकरमूल, पटोलपत्र, कुटकी, अडूसा, मजीठ, और इन्द्रजौ, इनका काढा प्रातःकाल देवे तो शीतज्वर, विषमज्वर, एकाहिक, द्वाहाहिक, और त्र्याहिक, इत्यादि ज्वरोंको नाश करे ॥

शक्राह्वादिकाढा ।

शक्राह्वदद्रुघ्नवृषामृतानानिर्गुण्डिकाभृंगमहौषधानां ॥

क्षुद्रायवानीसाहितः कपायः शीतज्वरारण्यहिरण्यरेताः ॥

अर्थ—कूडाकी छाल, पमारकी जड़ अडूसा, गिलोय, निर्गुंडी, भाँगरा, सोंठ, कटेरी और अजमायन, इनका काढा शीतज्वररूप वनके नाश करनेको दावानल रूप है ॥

घनादिकाढा ।

घननिवमहौपधामृताकटुवार्ताकिपटोलवत्सजैः ॥

विहितमधुनायुतंपिषेत्किलशीतज्वरशांतयेशृतं ॥

अर्थ—नागरमोथा, नीमकी छाल, सोंठ, गिलोय, कटेरी, पटोलपत्र, और इन्द्रजौ इनका काढा शहत डालके देवे तो शीतज्वर नाश होय ॥

भद्रादिकाढा ।

भद्राधान्याकशुंठीभिर्गुंडूचिमुस्तपद्मकैः ॥ रक्तचंदनभूनिवपटो

लवृषपौष्करैः ॥ कटुकैर्द्रयवारिष्टभांगीर्पपटुकैः समं ॥ काथः

प्रातर्निषेवेतसर्वशीतज्वरापहं ॥

अर्थ—थूहर, धनिया, सोंठ, गिलोय, नागरमोथा, पद्मास्र, लालचंदन, विरायता, पटोलपत्र, अडूसा, पुहकरमूल, कुटकी, इन्द्रजौ, नीमकी छाल, भारंगी और पित्तपापडा ये समानभाग लेकर काढा कर प्रातःकाल देनेसे सर्व शीतज्वर दूर हो ॥

दाहपूर्वविषमपेविभीतादिकाढा ।

विभीतोव्याधियातश्चकटुकीत्रिवृताभया ॥

काथोद्वयंतृपादाहविषमज्वरनाशकृत् ॥

अर्थ—बहेडा, अमलतासका गूदा, कुटकी, निसोय और हरड, इनका काढा तृपा, दाह, और विषमज्वर को नाश करे ॥

महावलादिकाढा ।

महावलामूलमहौपधाभ्यांकाथोनिहन्याद्विषमज्वरंहि ॥

शीतंसकंपपरिदाहयुक्तंविनाशयेद्विदिनप्रयोगात् ॥

अर्थ—खरेटीकी जड़, और सोंठ, इनका काढा शीत, कंप, और दाहयुक्त ज्वरको दो तीन दिनमें नाश करे ॥

व्याघ्र्यादिकाढा ।

व्याघ्रीविश्ववितृप्नुष्कररजोभूनिववासामृताभांगीनिवपटोल

पद्मकधनैस्तिक्ताकर्लिंगैःकृतः ॥ काथोहंतिसचंदनः कफमरु-
त्पित्तंसदाहंतृपांकासंपंचविधंज्वरंकृमिरुजंपांडुर्वामिकामलाम् ॥

अर्थ-कटेरी, सोंठ, गुडतजी, पुहकरमूल, पित्तपापडा, चिरायता, अडूसा, लोय, भारंगी, नीमकी छाल, पटोलपत्र, नागरमोथा, कुटकी, इन्द्रजौ और त्रलचंदन, इनका काढा कफ, वात, पित्त, दाह, प्यास, पांचप्रकारकी खांसी, वर, कृमि, पांडुरोग, वमन और कामला इनको नाश करे ॥

देवतापूजन ।

सोमंसानुचरं देवं समातृगणमीश्वरं ।

पूजयन्प्रयतः शीघ्रं मुच्यते विषमज्वरात् ॥

अर्थ-पार्वती, तथा पार्वतीके गण मातृगण और प्रमथादि गण इनके साथ शिवकी भक्ति करके पूजा करनेसे रोगी विषमज्वरसे शीघ्र मुक्त हो ॥

दूसरा प्रकार ।

विष्णुं सहस्रमूर्धानं चराचरपातिं विभुम् ॥

स्तुवन्नामसहस्रेण ज्वरान्सर्वान्व्यपोहति ॥

अर्थ-जो अनंतशिरा, तथा चराचरका स्वामी, ऐसे विष्णुभगवानके सहस्र नाम पाठ करनेसे सर्व ज्वर दूर हो ॥

ज्वरपूजा ।

तीर्थाध्ययनदेवाग्निगुरुबृद्धोपसर्पणैः ॥

श्रद्धया पूजनैश्चापि सहाशाम्यति ज्वरः ॥

अर्थ-तीर्थसेवन, वेदपाठ, देव, अग्नि, गुरु, वृद्ध इनकी सेवा भक्ती और पूजन करनेसे विषमज्वर दूर होय ॥

पद्मकादितैल ।

पद्मकोत्पलकहारमृणालविसपौष्करैः ॥ कुमुदोशीरमंजि-
ष्ठापद्मगौरिककट्फलैः ॥ सारिवाद्द्वयलोध्रान्दक्षीरीखर्जूरमुस्त-
कैः ॥ धात्रीशतावरीयुक्तैः काथेकल्के प्रयोजितैः ॥ द्वाक्षारसप-
यः शुक्लामस्तुभिः सह कांजिकैः ॥ पक्वतैलमिदं पाच्यं दाहज्व-
रहरं परम् ॥

अर्थ-कूट, कमलका कंद, लाल कमलका कंद, खस, पुहकरमूल, कमादनी-

नेत्रवाला, मँजीठ, पन्नाख, गेरू, कायफल, दोनो सारिवा, लोध, मोथ मोखावृक्षकी छाल, खजूर, नागरमोथा, आमले और शतावर, इनका का कर इसमें इन्हीं औषधोंका कल्क मिलाय और लाखका सीरा, दूध, विदारि कंदका रस, दहीका तौड और काँजी ये प्रत्येक तेलके समान ढालके तै सिद्ध करे इसको देहमें मालिस करनेसे दाह ज्वरका नाश करे ॥

माहेश्वरधूप ।

जटाधरीगोशृंगविडालविष्टोरगस्यनिर्मोकः ॥ मदनफलभूत
केशीवंशत्वष्ट्रुद्रनिर्माल्यं ॥ घृतयवमयूरचंद्रच्छगलकलोमानि
सर्पपाःसवचाः ॥ हिंगुगवास्थिमरीचासमभागाश्छागमूत्रसं
पिष्टाः ॥ धूपनविधिनाशमयंत्येतेसर्वान्ज्वरान्नियतं ॥

ग्रहडाकिनीपिशाचप्रेतविकारानयंधूपः ॥

अर्थ—ईश्वरी गौका साँग, विलावकी विष्टा, सोंपकी काँचली, मेनफल, भूतकेशी, वांसकी छाल, शिवनिर्माल्य, घी, जौ, मोरकी चंद्रिका, बकरीके बाल, सपेद सरसों, वच, हींग, गौका हाड और काली मिरच, सब समान भाग लेकर बकरीके मूत्रसे पीसे इसकी घूनी देनेसे यह सर्व ज्वरोंको ग्रहपीडाको, डाकिनी, पिशाच और प्रेतवाधा, इन सबको दूर करे ॥

गोजिह्वादिचूर्ण ।

गोजिह्वाचजयामूलंपिष्ट्वातंडुलवारिणा ॥

पीतंशीतज्वरंहंतिपाठाद्भिर्मरिचानिच ॥

अर्थ—गोभी और जयाकी जड़, इनको चावलके पानीसे पीस कर पीवे अथवा पाठके काटेमें कालीमिरच ढालके पीवे तो शीतज्वर नष्ट होय ॥

जीरकादिचूर्ण ।

जीरकंलशुनंव्योपंपाठापिष्ट्वोष्णवारिणा ॥

शीतज्वरस्यागमनेपिवेद्गुडयुतेनच

अर्थ—जीरा, लहसन, त्रिकुटा, पाठ और गुड इनको गरम जलके साथ पीवे तो शीतज्वर दूर हो प्रथम इन औषधोंको पीसके कल्क कर लेंवे फिर गुड मिलावे ॥

त्रपुसभक्षण ।

पुसंभक्षयित्वाप्रेतक्रमम्लंपिवेदनु ॥ ततोहुताशसेवेतप्रावृतो

वातपेस्फुटम् ॥ ततःप्रस्विद्यसर्वांग्यातिशीतज्वरःक्षयं ॥

अर्थ-खीरा खायकर ऊपरसे खड़ी छाल पीवे फिर अग्निसे तापे अथवा धूपमें ओंठ कर बैठे तो सर्व देहमें पसीने आनकर शीतज्वर दूर होय ॥

कायस्थादिधूपलेपन व तैल ।

कायस्थानाकुलीतित्तावयस्थापुरचोरकैः ॥ सहदेवीवचाकुष्ठैः
शीतधैर्धूपलेपनैः ॥ एतैरौषधैःपिष्टैर्लवणक्षारसंयुतैः ॥ सा-
म्लैर्विपाचितंतैलमभ्यंगाच्छीतनाशनम् ॥

अर्थ-तुलसी, रास्ना, कुटकी, दारुहलदी, गूगल, गठोना, सहदेवी, वच और कूठ, इनकी धूनी अथवा लेप करे अथवा इस औषधोंका कल्क और संधा निमक, जवाखार और नांबका रसडालके तेल सिद्ध करे इसकी मालिस करनेसे शीतज्वर दूर हो ॥

मृतकर्पटककाधूप ।

मृतकर्पटधूपेनसद्यःशीतज्वरंजयेत् ॥

अर्थ-मुरदेके कपडेकी धूनी देनेसे शीतज्वर तत्काल दूर होय ॥

जयामूलीबंध ।

जयामूलंशीरोवद्वाहंतिशीतज्वरंध्रुवं ॥ किंवागुंडफलामूलं
कर्णवद्धंनिशिज्वरं ॥ शीतज्वरंहरेत्तूर्णमथवाप्रस्थमूलकं ॥
शिखायांचकरेवद्धंतिचोष्णज्वरंद्रुतं ॥

अर्थ-अरनोकी जडको मस्तकमें बांधनेसे निश्चय शीतज्वर दूरहो, अथवा बंदालकी जडको कानमें बांधे तो रात्रिमें आनेवाला ज्वर नाश होय तथा आमकी जडको चोटीमें अथवा हाथमें बांधे तो उष्णज्वरका तत्कालनाश होय ॥

वांदाबंधनम् ।

ऋक्षेपुनर्वसौग्राह्यमंदारस्यतुवृंदकं ॥

तदक्षिणकरेवद्धंशीतज्वरविनाशनं ॥

अर्थ-पुनर्वसु नक्षत्रमें मंदारका बंदा लायके दहने हाथमें बांधेतो शीतज्वर अवश्य नष्ट होय ॥

कांतालिंगन ।

चेतोमुपांपीनपयोधराणांकस्तूरिकाचंदनचर्चितानां ॥

शीतज्वरेशस्तमथांगनानामालिंगनंचारुहिमावधिस्यात् ॥

अर्थ—चित्तको हर्ष देनेवाली, पुष्टस्तनी, तरुण और कस्तूरी देहमें लगी हुई ऐसी स्त्रियोंका आलिंगन जबतक शीत दूर न होय तबतक करे ॥

दूरीकरण ।

कांतांगसंगसंजातात्तस्यशीतेनिवारिते ॥

प्रल्हादंचास्यविज्ञायपृथक्तांकारयेत्स्त्रियम् ॥

अर्थ—स्त्रीके आलिंगन करनेसे जब शीत चलाजाय और जब जाने कि रोगीको आनंद हुआ अब मैथुन करेगा तभी स्त्रीको दूर करदेवे अन्यथा मैथुन करनेसे विषमज्वर होजाता है ॥

रसोनकल्क ।

रसोनकल्कंतैलेनसर्पिपावातिलैरपि ॥

सेवितंविषमंहंतिवातश्लेष्मगदानपि ॥

अर्थ—लहसनका तथा तिलोंका कल्क घृतसे अथवा तेलसे सेवन करे तो विषमज्वर और वातश्लेष्म संबंधि ज्वरनाश होय ॥

रास्नादिकाढा ।

रास्नानागरकृष्णांचकल्कमुष्णांबुनापिवेत् ॥

श्वासकासाग्निमाद्यंचज्वरंशीतंविनाशयेत् ॥

अर्थ—रास्ना, सोंठ और पीपल, इनका कल्क करके गरम जलसे देय तो खांसी, श्वास, मंदाग्नि और शीतज्वर, इनका नाश करे ॥

भूतभैरवचूर्ण ।

तालकंशुक्तिकाचूर्णैतुल्यंतत्रोभयोरपि ॥ नवमांशंतुतुत्थंस्या-

न्मदयेत्कन्यकाद्रवैः ॥ तत्तुसंशुष्कमुपलैर्वन्यैर्गजपुटेपचेत् ॥

शीतंतत्पेपयेच्चूर्णगुंजामात्रंसितायुतं ॥ प्रभातेभक्षयेत्तेनया-

तिशीतज्वरःक्षयं ॥ वांतिर्भवतिकस्यापिकस्यापिनभवत्य-

पि ॥ एकेनदिवसेनैवशीतज्वरहरंपरं ॥ मध्याह्नसमयेपथ्यं

भक्तंशिखरिणीतथा ॥

अर्थ—हरताल, सीपका चूर्ण, दोनो बराबर ले इन दोनोंका नववां भाग

लीलाधोया लेवे सबको घीगुवारके रसमें खरल करे जब सूख जावे तब गज-
पुटमें धरके फूंक देवे जब शीतल होजाय तब निकालके खरल कर डारे और
१ रत्ती रस मिश्रीके साथ प्रातःकाल देवे तो शीतज्वर एक दिनमें दूर होय
जब दोप्रहर हो जावे तब भात और सिस्वरनका भोजन करावे इस औषधसे
किसीको वमन होती है और किसीको नहीं होती ॥

पथ्यादिचूर्ण ।

पथ्याशक्रशताचूर्णकर्ममात्रंगुडेनतु ॥

भक्षितंनाशयत्याशुशीतकंविषमज्वरम् ॥

अर्थ—हरड, और इन्द्रजी इनका तोले भर चूर्ण गुडके साथ खाय तो शीत
ज्वर तत्काल दूर होवे ॥

हरिद्रादिचूर्ण ।

हरिद्रानिवमात्रापिपिप्ल्यामरिचानिच ॥ भद्रमुस्तवि
निसप्तमंविश्वभेषजं ॥ सैधवंचित्रकंकुण्टंविषपाठाहरीतकं ..
एतानिसमभागानिअजामूत्रेणपेपयेत् ॥ नावनांजनपानेषु
गोमूत्रासृग्रसांजनैः ॥ जयेत्प्रयुक्तंविषमंज्वरमाशुनिकृंतति ॥
सर्वजंसमधुव्योपंगवांमूत्रेणशीतलं ॥ मधुनाशीतकंदेयंरक्त-
पित्तंवृपस्यता ॥ क्षयंक्षीराश्वगंधाभ्यांकासश्वासार्दितान्-
गदान् ॥ तक्रादिग्रहणीरोगान्कृच्छ्रंतण्डुलवारिणा ॥ प्रमेहंम-
धुनागुल्मशूलंचगुडवारिणा ॥ पीतमुष्णांभसावातंशूलस्या-
लेपनाद्रुजात् ॥

अर्थ—हलदी, नीमके पत्ते, पीपल, कालीमिरच, नागरमोथा, वायविडंग,
सोंठ, सैधानिमक, चीता, कूठ, पाठ और हरड, ये समान भाग लेकर बकरीके
मूत्रसे पीसे इस चूर्णको गोमूत्रसे नस्य देवे, रक्तमें अंजन करावे और रसोतके
साथ पान करे तो विषमज्वर जाय और सन्निपातमें शहत तथा त्रिकुट्टके
साथ शीतज्वरमें गोमूत्र अथवा शहतसे देवे, रक्तपित्तमें अडूसेके साथ, क्षय,
खौंसी, श्वास, इनमें दूध, तथा असगंधके चूर्णके साथ, संग्रहणीमें छाँछके साथ,
मूत्रकृच्छ्रमें चावलके धोवनके पानीके साथ, प्रमेहमें शहतके साथ, गोला और

शूल इनमें गुडके पानीके साथ, वादीके रोगमें गरम जलके साथ तथा शूलमें अदरखके रसके साथ, देवे तो उक्त रोगोंको दूर करे ॥

आरोग्यरागीरस ।

रसोगंधकणामूलवंशजंजयपालकं ॥ व्योपञ्चवाणलवणंविडं
चंद्रलवंक्षिपेत् ॥ तांबूलरसतोमर्द्यैदिनंतांबूलपत्रयुक् ॥ दत्तो
नवज्वरंहंतितापेशीतक्रियोचिता ॥ सर्वज्वरसन्निपातेददेत्तंतु
द्विगुंजकं ॥ आरोग्यरागिनामायंरसःपरमदुर्लभः ॥

अर्थ—पारा, गंधक, पीपरामूल, वंशलोचन, जमालगोटा, सोंठ, मिरच, पीपर, पाँचोनिमक और विड, ये सब एक २ भाग, एकत्र कर पानके रसमें एक दिन खरल कर २ रत्तीकी गोली करे एक गोली दो पानमें धरके देय तो यह (आरोग्यरागी रस) पूर्णज्वर, तथा संनिपात इनका नाश करे यह रस अत्यंत दुर्लभ है ॥

शीतांकुश ।

तुत्थंठंकणसूतखर्परविपंस्याद्रंधकंतालकंसर्वखल्वतलेविमर्द्य
घटिकांतंकारवेल्लीरसैः ॥ गुंजैकागुटिकासशर्करयुतासंजीरके
णाथवाएकाद्वित्रिचतुर्थशीतहरणाच्छीतांकुशोनामतः ॥

अर्थ—लीलाथोथा, सुहागा, पारा, खपरिया, विप, गंधक और हरताल, इन सबको करेलेके रससे घडीभर खरल कर रत्तीभरकी गोली बनावे एक-गोली मिश्रीके साथ अथवा जीरेके साथ देवे तो यह (शीतांकुश) रस ऐका-हिक, द्वाहाहिक, त्र्याहिक और चातुर्थिक, ज्वरोंका नाश करे ॥

तालकादिशितारिरस ।

तालकखर्परमूपकयुग्मं कांचनपल्लवरसेनघृष्टं ।

मर्दयमर्दयपुनरपिमर्दय शीतभयादिनिवारणगुटिका ॥

अर्थ—हरताल, खपरिया, तथा छोटी बड़ी दोनों मूपाकर्णा इनको धतूरेके पत्तोंके रसमें खरलकर गुटिका बनावे इसके सेवन करनेसे शीतज्वर दूर हो ॥

दूसराप्रकार ।

पिड्वातालकमेकभागममलंशंबूकचूर्णक्षिपेदत्वाचाथनवांशतो
पिचशिखिग्रीवंपुनःपेपयेत् ॥ कौमारीरसमर्दितंगजपुटेपाकं

चशीतंततो गृह्णीयादथगुंजयाज्वरहरंखंडेनसंयोजयेत् ॥ एक
द्वित्रिभवंचतुर्थकमयवेलाज्वरंनाशयेच्छीतारिश्चपलाययेज्वर
मिमंभानुंयथाशर्वरी ॥

अर्थ—हरताल १ भाग, शंखकी भस्म और लीलाथोथा नवमांश इन तीनोंका चूर्ण घीगुवारके रसमें खरलकर गजपुटमें फूंक देवे जब शीतल होजाय तब निकालके १ रत्ती यह रसखांडके साथ देवे तो एकाहिक, व्याहिक, व्याहिक, चातुर्थिक और वेलाज्वर इनका नाश होय इसको (शीतारि रस) कहते हैं इसके देतेही ज्वर दूर हो जैसे सूर्यके उदयसे रात्रि ॥

तीसराप्रकार ।

मनःशिलातालकतुत्थताम्रसेनगंधंसमकर्पभागं ॥ संमर्दयेत्-
त्रिफलरसेनगोलंन्यसेत्संपुटकेप्रदद्यात् ॥ पुटांततोद्धृत्यच
भानुवज्रीदुग्धेनभाव्यःकिलसप्तवारं ॥ काथेनदंतीत्रिवृतोद्भ
वेनविभावनाःसप्तपुनःप्रदेयाः ॥ ततोस्यमापंमरिचैःशतार्धैर्ग-
द्याणमात्रेणगुडेनयुक्तं ॥ संभक्षयेद्रातुलसीदलाभ्यांदिनत्रयं
पथ्यमितोदनंच ॥ शीतारिनामारसएपहंतिशीतज्वरंघोरत
रंसवातम् ॥

अर्थ—मनसिल, हरताल, लीलाथोथा, ताम्रभस्म, पारा, गंधक ये सब समान भागले त्रिफलेके रसमें खरलकर गोला बनाय उसपर कपड मिट्टी कर गजपुटमें फूंक देवे, फिर निकालके आक, धूहर, इनके रसकी सात २ भावना दे फिर दंती निसोय इनके काठेकी सात २ भावना देकर मासेभरकी गोली बनाय ले, एक गोली तुलसीके रसमें पचास कालीमिरचका चूर्ण छः मासे और गुड इनके साथ देवे और तीन दिन पथ्य तथा अल्पभोजन करे तो यह (शीतारिनामा) रस घोर शीतज्वरको नाश करे ॥

चौथाप्रकार ।

रसंगंधंचदरदंजेपालंक्रमवर्धितं ॥ दंतीरसेनसंपिप्यवटीगुंजा
मिताकृता ॥ प्रभातेसितयासार्धभक्षिताशीतवारिणा ॥ एके
नदिवसेनैवशीतज्वरमपोहति ॥

अर्थ—पारा १ भाग, गंधक २ भाग हिंगुल ३ भाग, और जमालगोटा चार भाग, ले दंतोंके रसमें खरलकर रत्तीभरकी गोली करे इस गोलीको प्रातःकाल मिश्री और शीतल जलके साथ लेवे तो, यह (शीतारो रस) जीर्ण ज्वरका नाश करे ॥

भूतभैरवरस ।

एककर्पभवेत्तालंद्रिकर्पतुत्थकं भवेत् ॥ पट्कपैभृष्टशुक्तीनांचू
र्णमेकत्रकारयेत् ॥ धतूरपत्रस्वरसैर्मर्दयेद्याममात्रकं ॥ निधा
यभाजनेलौहेसमर्द्यक्रमशोबुधः ॥ उपर्यग्नेःस्थापयित्वातच्च
संशोपयेद्भिपक् ॥ पुनःपर्युपितंप्रातर्गृहीत्वाकिंचिदग््नितः ॥
कोष्णंकृत्वाकल्कमेतत्ततोवैद्यःप्रसाधितः ॥ चणकप्रमितांद
द्यादेकांशंकरयासह ॥ शीतज्वरंनिहत्येवसर्वनास्त्यत्रसंशयः ॥

अर्थ—हरताल १ तोला, लीलाथोया २ तोले, शीपकी भस्म ६ तोले, सबको एकत्र कर धतूरेके पत्तोंके रसमें लोहेके पात्रमें प्रहरभर खरल करे फिर उसको चूल्हेपर चढायके घोंटे जब रस सूख जाय तब उसमें नींबूका रस दे प्रातःकाल अग्निपर कुछ गरम कर धतूरेका रस डालके सिद्धकरे और इसकी चनेके प्रमाण गोली बनावे एक गोली मिश्रीके साथ देय तो यह (भूतभैरव रस) सर्व शीतज्वरोंको निःसंदेह नाश करे ॥

दाहपूर्वपरशीतोपचार ।

एरंडस्यतुपत्राणिलिस्वाभूमौनिधापयेत् ॥ दाहादिज्वरिणोदे
हेतानिपत्राणिधारयेत् ॥ तेननश्यतिदाहोस्यज्वरश्चैवोपशा
म्यति ॥ दाहेशांतेयदाशैत्यंतच्चयुक्त्यानिवारयेत् ॥

अर्थ—अंडकेपत्ते लिपीहुई पृथ्वीमें बिछायदे जब शीतल होजावे तब दाह ज्वरवाले रोगीके देहपर लगावे तो उसका दाह शांत हो और ज्वरभी नष्ट हो जब दाह शांत होजावे और शीतलगे तो उसको वैद्य युक्तिपूर्वक अपनी बुद्धिसे दूर करे ॥

दाहऊपरस्त्रीकाआलिंगन ।

जघनचक्रचलन्मणिमेखलासरसचंदनचंद्रविलेपना ॥
वनलतेवतरुपरिवेष्टयेत्प्रबलदाहनिपीडितमंगना ॥

अर्थ—प्रबलदाहसे पीडित रोगीको जिसके कमरमें कोंधनी बजतीहो, तथा जिसने सुगंध, चंदन और कपूर, अंगमें लगाय रक्खा हो ऐसी स्त्री जैसे वेल वृक्षसे लपटती है इस प्रकार आलिंगन करे तो दाह शांत हो ॥

स्त्रीदूरीकरण ।

तदंगसंगसंजातः शैत्यैर्दाहेनिवारिते ॥

प्रहादं चास्यविज्ञायतांस्त्रीमपनयेत्पुनः ॥

अर्थ—जबस्त्रीके आलिंगन करनेसे दाह जाता रहे और रोगीको हर्ष हो तब उस स्त्रीको शीघ्र उसके पाससे हटाय लें ॥

शीतोपचार ।

उत्तानसुप्तस्यगभीरताम्रर्कास्यादिपात्रंप्रणिधायनाभौ ॥

तत्रांबुधारावहुलापतंतीनिहंतिदाहंत्वरितंसुशीतम् ॥

अर्थ—दाहवाले पुरुषको चित्त (सीधा) लिटायकर उसकी नाभीपर तामेंका अथवा कांसेका पात्र धरके उसमें शीतल पानीकी धार दिवावे इस प्रकार शीतल धारासे तत्काल दाह दूर होय ॥

दाहपरपट्टकतैल ।

सुवर्चिकानागरकुष्टमूर्वालाक्षानिशालोहितयष्टिकाभिः ॥

सिद्धं हरेत्पद्गुणतक्रपक्वं तैलं ज्वरं दाहसमन्वितंच ॥

अर्थ—सजीखार, सोंठ, कूठ, मूर्वा, लाख, हलदी, पतंग और सुलहदी, इनके काठमें तेल तथा तेलसे छः गुना दहीका जल डालके सिद्ध करे जब तेल मात्र रहे तब उतारके इस तेलका मालिस करे तो दाहयुक्त ज्वरको शांत करे ॥

महापट्टकतैल ।

रास्नानागरकुष्टचंदननिशायष्ट्याह्वकृष्णावलालाक्षसैंधवसारि
रिवामधुरसादेवद्रुरोहीतकैः ॥ सोशीरांबुधिफेनरौहिपजलैस्तै-
लंपचेत्पद्गुणेतक्रेतच्छमयेज्वरं दृढतरं दाहादिशीतादिकम् ॥

अर्थ—रास्ना, सोंठ, कूठ, लालचंदन, हलदी, सुलहदी, पीपल, खरेटी, लाख, सैंधानिमक, सारिवा, मूर्वा, देवदारु, लालरोहिडा, नेत्रवाला, समुद्रफेन और रोहिसतृण, इनके काठमें तेल और तेलसे छः गुनी छाल मिलाय तेल सिद्ध करे यह तेल दाहपूर्वक तथा शीतपूर्वक ज्वरका शमन करे ॥

अंगारतैल ।

मूर्वालाक्षाहरिद्रेद्रेमंजिष्ठासैद्रवारुणी ॥ बृहतीसैधवंकुण्डरास्त्रा
मांसीशतावरी ॥ आरनालाढकेचैवतैलप्रस्थंविपाचयेत् ॥
तैलमंगारकं नाम सर्वज्वरविमोक्षणम् ॥

अर्थ—मूर्वा, लास्र, हलदी, दारुहलदी, मँजीठ, इन्द्रायनका गूदा, कटेरी, सै-
धानिमक, कूठ, रास्ना, जटामांसी और सतावर, इनका काढा और काँजी-२५६
तौले लेय, तथा तैल १ सेर सबको एकत्रकर तैल सिद्धकरे इसकी मालिस
करनेसे सर्व ज्वरोंको नाश करे इसे अंगारक तैल कहते हैं ॥

रसादिधातुगतज्वरलक्षण ।

गुरुताहृदयोत्कृेदसदनंछर्द्यरोचकौ ॥

रसस्थेतुज्वरेलिंगदैर्न्यंचास्योपजायते ॥

अर्थ—रसधातुगतज्वर होनेसे देहमें भारीपना, हृदयस्थ दौप, उलटी द्वारा
निकल पडेसे प्रतीतहो, देहके सब अवयवोंमें ग्लानि, वमन, अरुचि और
उदासपना ये लक्षण होते हैं ॥

रसरक्तगतज्वरकीचिकित्सा ।

रसस्थेचाज्वरेतस्मिन्कुर्याद्भ्रमनलंघनं ॥

अर्थ—रसधातुगतज्वर होनेसे वमन और लंघन कराने चाहिये ॥

धातुगतज्वरचिकित्साप्रक्रिया ।

रसस्थेरससंशुद्धिरक्तस्थेरक्तमोक्षणं ॥ मांसस्थेरेचनंशस्तमे
दस्थेचसहिष्णुता ॥ रेचनं वमनंस्वेदं चास्थिस्थेस्वेदमर्दनम् ॥ म
जाशुक्राशयं दृष्ट्वा तमसाध्यं ज्वरं जयेत् ॥

अर्थ—रसधातुगतज्वर होनेसे पसीने निकालना और रक्तधातुगतज्वर होनेसे
फस्तखोलना, मांसधातुगतज्वर होनेसे उसमें दस्तकराना और मेदधातुगत-
ज्वर होनेसे कोई वस्तु सहन नहीं होती परंतु रेचन, वमन और पसीने निका-
लना ये क्रिया करावे, अस्थिगतज्वर होनेसे पसीने निकाले और मर्दन करावे
मजा और शुक्रधातुगतज्वर होनेसे असाध्य जानना इनका यत्न नहीं है ॥

रक्तधातुगतज्वरलक्षण ।

रक्तनिष्ठीवनंदाहोमोहश्छर्दनविभ्रमः ॥

प्रलापःपिटिकातृष्णारक्तप्राप्तेज्वरेनृणाम् ॥

अर्थ—रुधिर मिलाधूके, देहमेंदाह, मोह, ओकी, भ्रम, असंबद्ध भाषण, देहमें कुंसी और प्यास ये रक्तधातुगतज्वरके लक्षण जानने ॥

गायत्र्यादिकाढा ।

गायत्रीत्रिफलानिवंपटोलीवासकामृता ॥

काथोमधुघृताभ्यांचरक्तदोषेतिशस्यते ॥

अर्थ—खैर, त्रिफला, नीमकी छाल, पटोलपत्र, अडूसा और गिलोय, इनका काढा शहत और घी डालके देय तो यह रक्तदोष पर अति उत्तम है ॥

वराप्यजादिकाढा ।

वराप्यजाजीवृहतीहरिद्रावेण्वाटरूपप्रभवः कपायः ॥

जहातिदूरंमधुवाविमिथितोरक्तोद्भवंदारुणमूर्तिवेगम् ॥

अर्थ—त्रिफला, अजमायन, कटेरी, हलदी, रेणुकाबीज और अडूसा, इसमें शहत डालके पीवे तो रुधिरसे उत्पन्न हुआ दारुणज्वरका नाश करे ॥

वृषादिकाढा ।

वृषोदुरालभाश्यामापर्पटः कटुरोहिणी ॥ किरातमथमेतेषां

काथः पीतः सितायुतः ॥ रक्तोद्भवंमहादाहंतृष्णांमूर्च्छामति-

भ्रमं ॥ पित्तज्वरंहरत्याशुपापमीशोयथास्मृतः ॥

अर्थ—अडूसा, धमासा, पीपल, पित्तपापड़ा, कुटकी और चिरायता इनका काढा शहत मिलायके देवे तो रक्ताश्रितज्वर, दाह, तृषा, मूर्च्छा, मतिभ्रंश और पित्तज्वर ये दूर हो, जैसे परमात्माके स्मरणसे पाप दूर होते हैं ॥

रक्तगतचिकित्साक्रम ।

सेकसंशमनालेपरक्तमोक्षस्त्वसृग्गते ॥

अर्थ—रक्तगतज्वर होनेसे देह पर पानीफा तरडा देना ज्वरशमन कर्ता औषध लेना, लेप करना और रुधिर निकलवाना ये उपचार कराने चाहिये ॥

मांसगतज्वरलक्षण ।

पिंडिकोद्वेष्टनंतृष्णासृष्टमूत्रपुरीपता ॥

उष्मांतर्दाहविक्षेपोग्लाभिःस्यान्मासगेज्वरे ॥

अर्थ-जानुके नीचे मांसकी गांठ हो, प्यासलगे, मलमूत्र ये बहुत हो, गरमी तथा अंतरदाह हो, हाथ पैर अस्तव्यस्त हले, शरीरमें ग्लानि आवे, इत्यादिक मांस गतज्वरके लक्षण होते हैं ॥

मांसगतज्वरचिकित्सा ।

तीक्ष्णान् विरेकांश्च तथा कुर्यान्मांसगतेज्वरे ॥

अर्थ-मांसमें ज्वर चलागया होवे तो तीक्ष्ण (तेज) जुलाब देय ॥

मेदगतज्वरलक्षण ।

भृशं स्वेदस्तृषामूर्च्छाप्रलापश्छर्दिरेव च ॥

दौर्गंध्यारोचको ग्लानिर्मेदस्थे चासाहिष्णुता ॥

अर्थ-अंगमें अत्यंत पसीने, प्यास, मूर्च्छा और वकवाद, वमन, अंगमें दुर्गंधी, अरुचि और ग्लानि तथा अल्प कारणसे बहुत दुख हो, ये मेदगत ज्वरके लक्षण जानने ॥

अस्थिगतज्वरलक्षण ।

मेदोस्थनांकूजनंश्वासो विरेकश्छर्दिरेव च ॥

विक्षेपणंच गात्राणां विंध्यादस्थिगतेज्वरे ॥

अर्थ-हाडोंमें पीडा, तथा हाडोंका बोलना, श्वास, दस्तहोना, वमन और हात पैरोंका इधर उधर गिरना इत्यादि लक्षण अस्थिगतज्वरके जानने ॥

चिकित्सा ।

अस्थित्वेवांतिनाशनं ॥ वस्तिकर्मप्रयोक्तव्यं

मभ्यंगोद्धर्तनं तथा ॥

अर्थ-अस्थिगतज्वर होनेसे वांति नाशक औषध, वस्तिकर्म, अभ्यंग और उवटना ये उपचार करने चाहिये ॥

मज्जागतज्वरलक्षण ।

तमः प्रवेशनं हिक्काकासः शैत्यं वमिस्तथा ॥

अंतर्दाहो महाश्वासो मर्मच्छेदश्च मज्जे ॥

अर्थ-अंधकार दर्शन, हिचकी, खाँसी, शीत लगना, वमन, देहके भीतर दाह, महाश्वास और अंडकोश, ललाट, हृदय, नेत्र इन मर्मस्थानोंमें अत्यंत व्यथा होय ये मज्जागतज्वरके लक्षण जानने ॥

मज्जाशुक्रगतज्वर ।

मज्जाशुक्रेक्रियानोक्तामरणंतत्रभाषित ॥

अर्थ—मज्जागत तथा शुक्रगतज्वरका कोई यत्न नहीं कहा यदि मज्जा और शुक्रमें ज्वर पहुँच जाय तो रोगी अवश्य मरे ॥

शुक्रगतज्वरलक्षण ।

शेफसःस्तब्धतामोक्षः शुक्रस्यतुविशेषतः ॥

मरणंप्राप्नुयात्तत्रशुक्रस्थानगतज्वरे ॥

अर्थ—शुक्रस्थानमें ज्वर पहुँचनेसे लिगेन्ड्री जिकडीसी होजावे और वीर्य क्षण क्षणमें बहुत गिरे ऐसा रोगी मरजावे ॥

रसादिधातुसंबंधसेसाध्यासाध्य ।

रसरक्ताश्रितः साध्योमांसमेदगतश्चयः ॥

अस्थिमज्जागतस्थोपिशुक्रस्थोपिनिजीवति ॥

अर्थ—रस, रुधिर, मांस, मेद, इन धातुओंमें ज्वर पहुँचनेसे औषधोंकर साध्य होय हड्डी और मज्जागतज्वर दुःसाध्य है तथा शुक्रगतज्वर होनेसे रोगी मरणको प्राप्त हो ॥

प्राकृत व वैकृतज्वर ।

वर्षाशरद्वसंतेषुवाताद्यैः प्राकृतैः क्रमात् ॥

वैकृतोन्यःसुदुःसाध्यः प्राकृतश्चानिलोद्भवः ॥

अर्थ—वर्षा, शरद् और वसंत इनमें क्रम करके वातादि करके ज्वर उत्पन्न होय वो (प्राकृतज्वर) जानना और अन्यऋतुमें उत्पन्न होनेवाले ज्वरको (वैकृत) जानना जैसे वर्षाकालमें वातज्वर, शरदकालमें पित्तज्वर और वसंतकालमें कफज्वर ये प्राकृत है, एवं वर्षा कालमें पित्तज्वर, शरदकालमें कफज्वर, वसंतकालमें वातज्वर ये वैकृत दुःसाध्य जानना और प्राकृत वातज्वर दुःसाध्य है तथा प्राकृत पित्तज्वर सुसाध्य है ॥

प्राकृतज्वरकीउत्पत्तिक्रमकहतेहैं ।

वर्षासुमारुतोदुष्टःपित्तश्लेष्मान्वितोज्वरं ॥ कुर्याच्चपित्तंशर
दितस्यचानुबलःकफः ॥ तत्प्रकृत्याविसर्गाच्चतत्रनानशनाद्भ
यं ॥ कफोवसंतैतमपिवातपित्तंभवेदनु ॥

अर्थ-श्रीष्मऋतुमें संचित वायु वर्षाकालमें कुपित हो पित्तकफयुक्त होकर ज्वर उत्पन्नकरता है, उसीप्रकारका वर्षाकालमें संचित पित्त शरत्कालमें दुष्टहो, ज्वरको करे हैं उसका सहायकर्ताकफ है, उसज्वरमें कफपित्तके स्वभाव करके और विसर्ग काल होनेके कारण लंघन करानेसे भय नहीं रहता है, उसीप्रकार हेमन्त कालमें संचित कफ वसन्तकालमें ज्वर उत्पन्न करता है उसके वातपित्त ये सहायकरता जानने ॥

कालेयथास्वंसर्वेषांप्रवृत्तिर्वृद्धिरेववा ॥

निदानोक्तोनुपशयोविपरीतोपशायिता ॥

अर्थ-काल जैसे दोषोंको उत्पन्न कर बढाने वालाहै उसीप्रकार उपशया नुपशय भी हैं तहां दोषोंके बढानेवाले जे आहार विहारादि आचार वो अनुपशय अर्थात् उससे पीडा होती है और दोषोंका नाश करनेवाले जे आहारादि आचार वो उपशय कहिये इसके द्वारा सुख होता है ॥

अंतर्वेगज्वरकेलक्षण ।

अंतर्दाहोधिकातृष्णाप्रलापःश्वसनभ्रमः ॥ संध्यस्थिशूलम
स्वेदोदोषवर्चोविनिग्रहः ॥ अंतर्वेगस्यलिंगानिज्वरस्यैतानि
लक्षयेत् ॥

अर्थ-अंतर्दाह, अत्यंततृषा, वक्वाद् करना, श्वास, भ्रम, संधि और हड्डी इनमें पीडा, पसीने आवै तथा अपोवायु और मलका अच्छी तरह न उतरना ये अंतर्वेग ज्वरके लक्षण हैं यह असाध्य हैं ॥

बहिर्वेगज्वरलक्षण ।

संतापोह्यधिकोवाह्यस्तृष्णादीनांचमार्दवम् ॥

बहिर्वेगस्यलिंगानिसुखसाध्यत्वमेवच ॥

अर्थ-देहमें अत्यंत संताप और तृष्णादिक लक्षण उत्पन्नहो, ये बहिर्वेग ज्वरके लक्षण जानने यह सुसाध्य है इस कहनेसे यह सिद्ध हुआ कि उक्त अंतर्वेग ज्वर असाध्य है ॥

आमाशयगतज्वरलक्षण ।

लालाप्रसेकहृल्लासहृदयागुध्यरोचकाः ॥ तंद्रालस्याविपा
कास्यवैरस्यंगुरुगात्रता ॥ शुभ्राशोबहुमूत्रत्वंस्तत्रतात्रलवा-

नृज्वरः ॥ आमज्वरस्यचिह्नानिनदद्यात्तत्रभेषजम् ॥ भेषजं ह्या
 मदोपस्यभूयोजनयतिज्वरम् ॥ शोधनं शमनीयं च करोति विषमज्वरं
 अर्थ—लारका गिरना, ओकारी आनेकीसी भ्रांति, छाती भरीसी प्रतीत
 हो, अन्नद्वेष, अरुचि, तंद्रा, आलस्य, अन्न पचे नहीं, मुख बेरस हो, देहमें भारी-
 पना, क्षुधा न लगे, वारंवार सूत्रका उतरना, अंगोंका जिकडना, तथा अंगोंमें
 अधिक ज्वर होना ये अपक्व ज्वरके लक्षण जानने । इस ज्वरपर औषध नहीं
 देनी, अपक्व दोषोंमें औषध देनेसे ज्वरकी वृद्धि होती है शोधन अथवा शमन
 औषध देनेसे विषमज्वर करे है ॥

कटुक्यादिकाढा ।

कटुकारोहिणीमुस्तापिप्पलीमूलमेवच ॥

हरीतकीततोतोयमामाशयगतेज्वरे ॥

अर्थ—कुटकी, नागरमोथा, पीपलामूल और छोटीहरड इनका काढा देनेसे
 आमाशयगतज्वर नाश होवे ॥

सर्वेश्वररस ।

रसात्त्रिगुणितंगंधचतुर्भागंतुटंकणं ॥ तथाष्टभागजैपालं त्र्यहं
 संमर्दयेद्दृढम् ॥ वल्लोमज्वरं हंति रसः सर्वेश्वराभिधः ॥ वल्लद्वयं
 हरीतक्यायुक्तं वातज्वरे तथा ॥ द्विवल्लोमधुखंडेन पीतः क्षौद्रयु-
 तः कफम् ॥ गुंजाजीर्णज्वरं घोरमतिलंघितं तथा ॥ वल्लस्तु सू-
 तिकारोगे पिप्पलीमधुसंयुतः ॥ पंचवर्षस्थवालस्य यवमात्रो
 ज्वरं जयेत् ॥ गुंजाभिवृद्ध्या विषयान्यावच्चातुर्थिकानपि ॥ म-
 लखंडेन संयुक्तोहन्याज्ज्वरत्रयं तथा ॥ यवानीक्रिमिशत्रुभ्यां
 वल्लोहन्यात्कृमीनपि ॥ एवं सर्वगदान्हंति रसो भैरवभाषितम् ॥

अर्थ—पारा १ भाग, गंधक २ भाग, सुहागा ४ भाग और जमाल गोटा
 ८भाग, ये सब एकत्रकर तीनदिन खरलकरे यह सर्वेश्वर रस नवज्वरको नाशकरे
 हरडके साथ वातज्वरमें देय दो वल्लके अनुमान शहत और मिश्रीके साथ
 कफमें देय, १ रत्ती जीर्णज्वरमें देय और पीपल तथा शहतके साथ ३ रत्ती
 प्रसूतके रोगमें देय और पांच वर्षके बालके ज्वरमें यव मात्र देवे यह रत्ती
 २ की वृद्धि से विषमज्वरमें देवे तो चातुर्थिक आदिका नाश करे तथा सपेद

मिश्रीके साथ ज्वरत्रयका नाश करे तथा रत्ती अजवायन, तथा वायविडंगके साथ देनेसे कृमिरोग दूर हो इस प्रकार यह सर्वरोगोंको नाश करे हैं ऐसा भैरवका वाक्य है ॥

त्रिपुरभैरवरस ।

विपटंकं वलिम्लेच्छदंतिविजंक्रमाद्रहु ॥ दंत्यंबुमर्दितोयामंर-
सस्त्रिपुरभैरवः ॥ वल्लव्योपेणचार्द्रस्यरसेनसितयाथवा ॥ द-
त्तोनवज्वरंहंतिमांघ्रमानिलशोथहा ॥ हंतिशूलंसविष्टंभमर्शा-
सिकृमिजान्गदान् ॥ पथ्यंतक्रेणभुंजीतरसेस्मिन्नोगहारिणि ॥

अर्थ—वच्छनागविष १ तोला, गंधक, ताम्रभस्म और जमालगोटा, ये समान भाग लेवे इनको दंतीके रसमें प्रहरमात्र खरल करे इसको (त्रिपुर भैरव) रस कहते है यह तीन रत्ती सोंठ, मिरच और पीपल, अदरखका रस, अथवा मिश्री, इनमेंसे किसीएकके साथ भक्षण करे तो नवज्वर, मंदाग्नि, वात-शोथ, शूल, मलका रुकना, ववाशीर और कृमिसे होनेवाले रोग इनको नाश करे इसपर छालू भातका पथ्य देना चाहिये ॥

रत्नगिरि ।

सूताभ्रताम्रवर्णानिगंधश्चार्धांशलोहकम् ॥ लोहार्धमृतवैक्रांतं
मर्दयेद्भृंगजैर्द्रवैः ॥ पर्पटीरसवत्पाच्यंचूर्णितंभावयेच्छनैः ॥
शियुवासकनिर्गुंडीगुडूच्याग्राग्निभृंगजैः ॥ क्षुद्रामुंडीजयंत्याथ
मुनिब्राह्मयथतिक्तकैः ॥ कन्यायाश्चद्रवैर्भाव्यंत्रिवारंतुपृथक्पृ-
थक् ॥ ततोलघुपुटेपक्वंस्वांगशीतंसमुद्धरेत् ॥ मापोदत्तःक-
णाधान्ययुक्तश्चाभिनवज्वरम् ॥ कुर्याज्ज्वरविनिर्मुक्तंरोगिण्यंघ-
टिकाद्वयात् ॥ अयंरत्नगिरिर्नामरसोयंयोगवाहकः ॥ सुद्वा-
न्नमुद्गयूपवासमीरंतक्रभुक्तकम् ॥ रसेचोक्तं पथ्यमस्मिन्शाकंस-
र्वज्वरोदितम् ॥

अर्थ—पारा, अभ्रक, ताम्र, सुवर्ण और गंधक समान ले गंधकसे आधा लोह-भस्म और लोहसे आधा वैक्रांत भस्म ले सबको एकत्रकर भांगरेके रसमें खर-र परपटी रसके समान पचाय परपटी करे फिर इसका चूर्णकर, सहिजना,

अडूसा, सझाँलू, गिलोय, त्रिफला, चीता, भाँगरा, कटेरी, गोरखमुंडी अरनी, अग स्तिया, ब्राह्मी, चिरायता, और धीगुवार प्रत्येक रसकी तीन २ भावना, पृथक् २ देके फिर इसको लघुपुष्टमें धरके फूँक देवे, जब स्वांगशीतल होजाय तब निका लके धर रखे इसमेंसे ६ रत्ती पीपल और धनियेके साथ देवे तो नवीन ज्वर दो घडीमें दूर हो इस रसको (रत्नागिरी) कहते हैं इसको जिस औषधके योगसे देवे उसी उसी रोग को दूर करे इसके ऊपर मूँग अथवा मूँगका घूप, पवन, छाँछ और जो जो ज्वर रोगमें शाक देने पथ्य कहे हैं वो देने चाहिये ॥

नवज्वरेभसिंह ।

शुद्धसूतंतथागंधंलोहंताम्रंचसीसकं ॥ मरीचंपिप्पलीविश्वं
समभागानिचूर्णयेत् ॥ अर्धभागविषदत्वामर्दयेद्वासरद्वयम् ॥
शृंगवेरानुपानेनदद्यात्कृत्वाद्वयंभिषक् ॥ नवज्वरेमहाघोरेवातसं
ग्रहणीगदे ॥ नवज्वरेभसिंहोयं सर्वरोगेप्रशस्यते ॥

अर्थ—शुद्धपारा, गंधक, लौहभस्म, सीसा, कालीमिरच, पीपल और सोंठ सब समान भाग लेवे, पारेसे आधा विष शुद्ध डाले, सबको एकत्र कर अदरखके रससे दोदिन खरल करे फिर दो रत्तीकी गोली करे, इसको अदरखके रसके साथ घोर नवीन ज्वरमें और वातसंग्रहणीमें देवे, यह (नवज्वरेभसिंहरस) सर्व रोगमें देना चाहिये ॥

ज्वरघ्नीवटिका ॥

एकभागोरसःशुद्धःशैलेयःपिप्पलीशिवा ॥ आकारकरभोगंधः
कटुतैलेनशोधितः ॥ फलानिचेंद्रवारुण्याश्चतुर्भागमिताअ-
मी ॥ एकत्रमर्दयेत्तूर्णमिंद्रवारुणिकारसैः ॥ मापोन्मितावटी
कृत्वादद्यात्सद्योज्वरेबुधः ॥ छिन्नारसानुपानेनज्वरघ्नीव-
टिकामता ॥

अर्थ—शुद्धपारा १ भाग और शिलाजीत, पीपर, हरड, अफरकरा, सरसों के तेलमें शुद्ध करी हुई गंधक और इन्द्रायनके फलका गूदा, प्रत्येक चार २ भाग लेकर इन्द्रायनकेही रसमें खरल करे पश्चात् १ मासेकी गोली बनावे एक गोली गिलोयके रससे देवे तो नवीन ज्वर दूर हो इसे ज्वरघ्नी गुटिका कहते हैं ॥

विश्वतापहरण ।

सूतंशुल्वंत्रिवृतावलितिकादंतीवीजंचपलाविपातिंदु ॥ पथ्य-
यासहविचूर्ण्यसमांशमेहवारिसहितंदिनमेकं ॥ वल्ल्युग्मगुटि-
कार्द्रकतोयैर्नाशयेदभिनवज्वरमाशु ॥ विश्वतापहरणोत्रचप-
थ्यंसुद्गयूपसहितंलघुभुक्तम् ॥

अर्थ-पारा, ताम्रभस्म, निशोध, गंधक, कुटकी, जमालगोटा, पीपर, विप, कुचला और हरड, ये समान भाग लेकर उनकी धतूरेके रसमें १ दिन खरल कर ६ रत्तीकी गोली करे १ गोली अदरखके रससे देवे तो नवीन ज्वरका नाश करे इस विश्वतापहरण रसपर मूंगकी दाल और हलका अन्न देवे ॥

श्वासकुठाररस ।

सूतंगंधविपंचैवटंकणंचमनःशिला ॥ एतानिटंक्रमात्राणिम-
रिचंत्वष्टकं ॥ कटुत्रयंचपट्टकंसख्लेक्षित्वाविचूर्णयेत् ॥
रसःश्वासकुठारोयंश्वाससर्वज्वरापहः ॥

अर्थ-पारा, गंधक, विप, सुहागा और मनसिल, ये प्रत्येक समान भाग लेंवे और कालीमिरच एक औपयसे आठ गुनी लेय, तथा सोंठ, कालीमिरच, पीपल ये छः छः भाग लें, सबको खरल कर वारीक चूर्ण करे यह श्वासकुठार श्वास और सर्वज्वर इनका नाश करे ॥

उदकमंजरीरस ।

सूतोगंधश्चोपणंठंकणंचसर्वस्तुल्याशंकरामत्स्यपित्तैः ॥ भूयो
भूयोमर्दयेत्तंत्रिरात्रंवल्लोदेयःशृंगेवरद्रवण ॥ तापेशीतंवीज-
नैस्तक्रभक्तंवृंताकाढ्यंपथ्यमेतत्प्रदिष्टं ॥ अन्हैवोग्रंहंतिस-
द्योज्वरंतुपित्ताधिक्येसूर्ध्नितोयंचदद्यात् ॥

अर्थ-पारा, गंधक, कालीमिरच और सुहागा, ये समान भाग लें, तथा सबकी बराबर मिश्री मिलाय सबको मछलीके पित्तसे ३ दिन खरल कर जब बराबर तीन दिन हो चुके तब ३ रत्तीकी गोली बनावे, एक गोली अदरखके रससे देय यदि इसके खानेसे दाह होय तो पंखेकी पवन करे, छाँड, भात, वेंगनका शाफ, ये पथ्यमें देवे इस प्रकार करनेसे एक दिनमें नवीन ज्वर दूर

होय यदि पित्त अधिक उपद्रव करे तो उस रोगीके मस्तक पर शीतल जलका तरडा देवे ॥

ज्वरधूमकेतुरस ।

जह्यात्समंसूतसमुद्रफेनंहिगूलगंधंपरिमर्द्यामं ॥

नवज्वरेवल्लयुगंत्रिघस्रमाद्राभिसायंज्वरधूमकेतुः ॥

अर्थ—पारा, गंधक, समुद्रफेन और हिगूल इनको अदरखके रससे प्रहरभर खरलकर ६ रत्तीकी गोली बनावे १ गोली अदरखके रससे ३ दिन देवे तो नव ज्वरको नाश करे इसको ज्वरधूमकेतु रस कहते है ॥

वटिका ।

रसंगंधंचदरदंजैपालंक्रमवर्द्धितं ॥ दंतीरसेनसंपिष्यवटीगुंजा
मिताकृता ॥ प्रभातेसितयासार्धमशिताशीतवारिणा ॥ एके
नदिवसेनैपानवज्वरहराभवेत् ॥

अर्थ—पारा १ भाग, गंधक २ भाग, हिगूल ३ भाग, जमालगोटा ४ भाग, इस प्रकार लेकर दंतीके रससे खरलकर रत्तीभरकी गोली बनावे इसको मातःकाल शीतलजल और मिश्रीके साथ सेवन करे तो एकदिनमें नवज्वरका नाश करे ॥

दूसरीवटी ।

रसोगंधोविपंशुंठीपिप्पलीमरिचानिच ॥ पथ्यंविभीतकंधात्री
दंतीबीजंचशोधितं ॥ चूर्णमेपांसमांशानांद्रोणपुष्पीरसैर्भवेत् ॥
वटीमापनिभांकुर्याद्रक्षयेन्नूतनज्वरे ॥

अर्थ—पारा, गंधक, विप, सोंठ, पीपर, कालीमिरच, हरड, आमला और शुद्ध जमालगोटा, ये समान भाग ले चूर्णकरे फिर गोमाके रसमें खरलकर ढड़के बराबर गोली बनावे इसके खानेसे नवीन ज्वर दूर हो ॥

ज्वरांकुश ।

खंडितंहारिणंशुंज्वालसुरत्यारसैःसमं ॥ रुद्धाभांडेपचेच्चुल्यां
यामयुग्मंततो नयेत् ॥ अष्टांशंत्रिकटुंदद्यात्रिष्कमात्रंचभक्ष
येत् ॥ नागवत्यारसैःसार्धवातपित्तज्वरापहं ॥ अयंज्वरांकु
शोनामरसःसर्वज्वरापहः ॥

अर्थ—हिरण्यके सींगके वारिक टुकड़ेकर किसी पात्रमें रखके ज्वालामुखीके रसको उसमें डाल उसके मुखपर दूसरा छोटा पात्र डलवा रखके कपर मिट्टी कर देवे, चूल्हेपर रखके दो प्रतक अग्नि देवे, जब शीतल होजावे तब उन टुकड़ोंकी भस्म बाहर निकाल लेवे फिर इस भस्मका आठवाँ भाग सोंठ, मिरच, पीपल, इनका चूर्ण करके उस भस्ममें मिलाय देवे फिर इस भस्मको १ टंकके अनुमान नागरवेल पानके रससे खाय तो यह ज्वराकुञ्ज संपूर्ण ज्वरोंको दूर करे परंतु बहुधा वातपित्त ज्वरको दूर करे ॥

नवज्वरेभांकुश ।

सगंधटंकरसमूपणंचविमर्दितभावयमीनपित्तैः ॥ दिनत्रयंवल्ह
युगंप्रदद्याद्वृंताकतक्रौदनपथ्यमत्र ॥ नवज्वरेभांकुशनामधेयः
क्षणेनवर्मोद्गममातनोति ॥

अर्थ—गधरू, सुहागा, पारा और फाली मिरच, इनको मछलीके पित्तमें तीन दिन खरल करे ४ रत्ती रोगीको देय पथ्यमें चैंगन, छाल भात देवे यह क्षणभरमें पसीने उत्पन्न करता है ॥

अमृतकलानिधि ।

अमृतवराटिकमरिचैर्द्रिपंचनवमांशकैःकुर्यात् ॥

सुद्वप्रमाणवटिकाज्वरपित्तकफाग्निमांद्यहारीस्यात् ॥

अर्थ—बच्छनाग विष दो भाग, कौडीकी भस्म ५ भाग, फालीमिरच ९ भाग लेकर खरलकरे, इस रसकी मूंगके प्रमाण गोली बनाये तो ज्वर, पित्त, कफ और मंदाग्नि इनको दूर करे ॥

पंचामृतरस ।

स्वर्णरौप्यरविनागलोहकंचंद्रहृक्शिशिचतुःशरभागं ॥ मांदि
तंदृढतरंदिनमेकंभावितंमकरपित्तरसेन ॥ वल्हयुग्ममसिलज्व
रशांत्यैश्चैरार्द्रकरसेनददीत ॥

अर्थ—सोनेकी भस्म १ भाग, रूपेकी भस्म २ भाग, ताघभस्म ३ भाग, शींगेकी भस्म ४ भाग और लोहेकी भस्म ५ भाग, ले ये सब एकत्र ५२ मग-रके वितेकी भायना देकर ४ रत्तीकी गोली बनाये इनको मिर्ची और अदर-गके रसमें १ गोली देवे तो मंदांज्वर दूर हो ॥

जीर्णज्वरांकुश ।

मृतंसूताभ्रनागार्ककांतवैक्रांतमेवच ॥ हिगुलंटंकणगंधविपंकुष्ट
समांशकं ॥ त्रिकटुत्रिफलामुस्ताभृंगनिर्गुंडिकाद्रवैः ॥ भावये
त्रिदिनंचैवमापमानानुपानतः ॥ जीर्णज्वरंक्षयंकासंदोषान्मंदा
नलंतथा ॥ पांडुहलीमकंगुल्मसुदरंचार्दितजयेत् ॥ ग्रहर्णांशू
लरोगांश्चअरोचकमनेकधा ॥ कांतितेजोवलंपुष्टिवीर्यवृद्धिवि
वर्द्धयेत् ॥ साध्यासाध्यनिहंत्याशुरसोजीर्णज्वरांकुशः ॥

अर्थ-पारेकी भस्म, अन्नकभरम, शीशेकी भस्म, ताम्रभस्म, कांतलोहभस्म, वैक्रांतकी भस्म, हिगुल, सुहागा, गंधक, विप और कूठ, ये औषध समान, भाग लेकर सोंठ, मिरच, पीपल, हरड़, बहेडा, आमला और नागरमोथा इनके काठमें तथा भाँगरा, निर्गुंडी, इनके रसमें तीन दिन भावना देवे और यथा योग्य अनुपानके साथ देवे तो यह जीर्णज्वर, क्षय, खाँसी, त्रिदोष, मंदाग्नि, पांडुरोग, हलीमक, गोला, उदररोग, अर्दितवायु, संग्रहणी, शूल और सर्व प्रकारकी अरुचि इनका नाश करे तथा कांति, तेज, बल, पुष्टि और वीर्यवृद्धी इनको बढ़ावे, एवं यह जीर्णज्वरांकुश रस साध्य अथवा असाध्य रोगोंको नाश करे है ॥

पच्यमानज्वरलक्षण ।

ज्वरवेगोधिकतृष्णाप्रलापःश्वसनभ्रमः ॥

मलप्रवृत्तिरुत्केशःपच्यमानस्यलक्षणम् ॥

अर्थ-ज्वरका अधिक वेग, प्यास, प्रलाप, श्वास, भ्रम, मलका उत्तरना और उत्केश ये पच्यमान ज्वरके लक्षण हैं ॥

निरामज्वरलक्षण ।

शुत्क्षामतालघुत्वंचगात्राणांज्वरमार्दवं ॥

दापप्रवृत्तिरुत्साहोनिरामज्वरलक्षणम् ॥

अर्थ-क्षुधाका लगना, देहमें हलका पना, ज्वरका नष्ट होना, दोषोंकी प्रवृत्ति और उत्साहका होना, ये निरामज्वरके लक्षण हैं ॥

ग्रंथांतरोक्तजीर्णज्वरनिदान ।

त्रिःसप्तहेव्यतीतितुज्वरोयस्तनुतांगतः ॥

श्रीहाग्निमांथंकुरुतेसजीर्णज्वरवच्यते ॥

अर्थ—इक्कीस दिन व्यतीत होनेपर जो ज्वर देहमें बारीक होकर रहे और तापतिल्ली मंदामि को करे उसे जीर्ण (पुराना) ज्वर कहते है ॥

सामान्यचिकित्साशास्त्रार्थ ।

जीर्णज्वरीनरःकुर्यान्नोपवासंकदाचन ॥

लंघनात्सभवेत्क्षीणोज्वरस्तुस्याद्वलीयतः ॥

अर्थ—जीर्णज्वरवाला मनुष्य लंघन कदाचित् न करे कारण कि लंघन करनेसे रोगी क्षीण होजाता है और ज्वर बलवान् हो जाता है ॥

लंघन ।

पुराणेपिज्वरेदोषायद्यपथ्यैःपुनस्तथा ॥

लंघयेत्तत्रतंपश्चात्पूर्ववत्कारयेत्क्रियां ॥

अर्थ—यदि जीर्णज्वरमें अपथ्यके करनेसे दोष कुपित हुए होय तो उस जीर्णज्वरवालेको लंघन करावे जब लंघन करके क्षीण दोष होजावे फिर पूर्व प्रमाण क्रिया करावे ॥

ज्वरक्षीणकोवांतिनिपेध ।

ज्वरक्षीणस्यनहितंवमनंनविरेचनं ॥

कामंतुपायसंतस्यनिरूहैर्वाहरेन्मलान् ॥

अर्थ—जो मनुष्य ज्वरसे क्षीण है उसको वमन और विरेचन सर्वथा अहितहै उसको यथेच्छ दूधपिवावे अथवा निरूहण वस्ती करके उसके मलको निकाले ॥

ज्वरफेरआनेकाकारण ।

आवर्ततेगात्रसादेवैवर्ण्यमंगलादिषु ॥

शांतज्वरोप्यसाध्यःस्यादनुबंधभयान्नरः ॥

अर्थ—अंगोंका रहजाना विवर्णता इत्यादि विकार करके अथवा अमंगलादिकोंके देखनेसे शांत ज्वरभी फिर लौटकरके आता है ॥

वातजीर्णज्वर ।

ज्वरोष्मणाज्वरेजीर्णैवायुःकुप्यतिरूक्षिते ॥

घृतंसंशमनंतस्यदीप्तस्येषांबुवेश्मनः ॥

अर्थ—जीर्णज्वरकी गरमीसे; देह रुख होनेसे, वायुका कोप होता है उसकी शांति होनेके वास्ते घृतपान योग्य है जैसे फूँकते हुए घरमें पानीका डालना ॥

जीर्णज्वरमेंपक्काशयाश्रितदोषकीचिकित्सा ।

जीर्णज्वरेषुसर्वेषुदोषेषुपक्काशयाश्रिते ॥

स्नेहवस्तिःप्रकर्तव्यःसनिरूढोयथाविधि ॥

अर्थ—संपूर्ण जीर्णज्वरमें दोष पक्काशयाश्रित होनेसे स्नेहवस्ती, अथवा यथा विधि निरूहण वस्ती करनी चाहिये ॥

छिन्नादिकाढा ।

पिप्पलीचूर्णसंयुक्तः काथश्छिन्नोद्भवोद्भवः ॥

जीर्णज्वरकफध्वंसीपंचमूलकृतोऽथवा ॥

अर्थ—कुटकीके काढेमें पीपलका चूर्ण डालके पीवे तो जीर्णज्वर और कफको नष्ट करे अथवा पंचमूलका काढा करके पीवेतो जीर्णज्वर और कफ दूर हो ॥

त्रिकंठकादिकाढा ।

निदिग्धिकानागरकामृतानांकाथंपिवेन्मिश्रितपिप्पलीकम् ॥

जीर्णज्वरारोचककासशूलश्वासाग्निमांद्यादितपीनसेषु ॥

हृत्पुष्पज्वानयंप्रायः सायंतेनोपयुज्यते ॥

अर्थ—कटेरीका पंचांग, सोंठ, गिलोय, इनके काढेमें पीपलका चूर्ण मिलायके पीवे तो जीर्णज्वर, अरुचि, खांसी, शूल, श्वास, मंदाग्नि, अर्दितवायु, पीनस, तथा ऊर्ध्वविकार इनका नाश करे यह काढा सायंकालका देवे ॥

गुडूचीकाढा ।

अमृतायाःकपायंतुशीतलीकृतमीरित्तम् ॥

मधुपादयुतंपीतंजीर्णज्वरहरंपरम् ॥

अर्थ—गिलोयका काढा करके शीतल होनेपर उसमें चतुर्थांश शहत मिलायके पीवे तो जीर्णज्वर दूर हो ॥

द्राक्षादिअष्टादशांगकाढा ।

द्राक्षामृताशठीशृंगीमुस्तकंरक्तचंदनम् ॥ नागरंकटुकापाठा

भूनिवःसदुरालभः ॥ उशीरंधान्यकंपद्मवालकंकंटकारिका ॥

पुष्करंपिचुमंदश्चस्यादष्टांगमिदंस्मृतम् ॥ जीर्णज्वरारुचिश्वा

सकासथयथुनाशनम् ॥

अर्थ-मुनक्कादाख, गिलोय, कचूर, काकडासोंगी, नागरमोथा, लालचंदन, सोंठ, कुटकी, पाढ, चिरायता, धमासा, नेत्रवाला, धनिया, पद्मास, खस, कटेरी, पुहकरमूल और जीमकी छाल, इनका काढा जीर्णज्वर, अरुचि, श्वास, सांसी और सूजन, इनका नाश करे ॥

शुंठीकाढा ।

अरुचिमनलमांघंपीनसश्वासकासानुदरमुदकदोपानाशुहन्या
दशोपान् ॥ जनयतितनुकांतिंचित्तनेत्रप्रसादंपलपरिमितशुं
ठीक्षौद्रसिद्धः कपायः ॥

अर्थ-चारतोले सोंठके काठमें शहत डालके पीवे तो अरुचि, मंदाग्नि, पीनस, श्वास, सांसी, उदर, जलदोष, इनको दूरकरे तथा कांति, चित्त और नेत्र इनको प्रसन्नता देता है ॥

कणादिकाढा ।

कणामधुकमृद्धीकांबलाचंदनसारिवा ॥

निःक्वाथ्यपयसापीताः क्षीणज्वरविनाशनाः ॥

अर्थ-पीपल, महुआके फूल, मुनक्कादाख, खरेटी, लालचंदन और सारिवा इन औषधोंका काढा करके देवे तो जीर्णज्वरका नाश करे ॥

तिक्तादिकाढा ।

तिक्तापर्पटभूनिंबमुस्तांछिन्नरुहांपिवेत् ॥

अभ्यासेनजयत्येपज्वरमामृत्युमातुरः ॥

अर्थ-कुटकी, पित्तपापडा, चिरायता, नागरमोथा और गिलोय इनका काढा करके कुछ काल सेवन करे तो असाध्यभी ज्वर जाय ॥

कलिंगादिकाढा ।

कलिङ्गकटुकीमुस्ताभूनिंबोग्रंथिनागरं ॥ राजकन्यादेवदारुः

पिवेत्क्वाथंसकृष्णकम् ॥ जीर्णज्वरगदेनित्यंसामेचैवनिरामये ॥

ज्वरांश्चविपमांश्चैवशीतंचातुर्थिकंजयेत् ॥

अर्थ-इन्द्रजौ, कुटकी, नागरमोथा, चिरायता, पीपरामूल, सोंठ और देवदारु और पीपल इनका काढा कर पीवे तो जीर्णज्वर, साम और निराम ज्वर तथा विपमज्वर शीतज्वर, चातुर्थिक आदिको दूर करे ॥

द्राक्षादिचूर्ण ।

द्राक्षामृतानागरतोयमुष्णकृष्णाविपाकंवहुरोगनिघ्नम् ।

श्वासंचशूलंकसनंचमाद्यंजीर्णज्वरंचैवजलेनतृष्णा ॥

अर्थ—दाख, गिलोय, सोंठ और पीपल इनका चूर्ण कर गरम जलके साथ लेवे तो अनेक रोग दूर हो और श्वास, खांसी, शूल, मंदाभि, जीर्णज्वर और तृषा इनको शीतल जलके साथ लेनेसे दूर करे ॥

लवंगादिकाढा ।

देवपुष्पचपलाग्रथितंचसिंहिकानलकिरातपयोदाः ॥ त्राय-

माणभृगुजासुरवासब्राह्मिकाकरिकणादशमूलम् ॥ शक्रपुष्प-

शरटीनवरास्त्राशृंगिनागरवचाः समभागाः ॥ साधितंचकथ-

नंकिलपेयंयोजितंचसुरसास्वरसेन ॥ ज्वरेचसूतिकारोगेशी-

तेरोचकसंभ्रमे ॥ अग्निमाद्येवातगुल्मेलवंगादिःप्रशस्यते ॥

अर्थ—लौग, पीपल, पीपरामूल, कटेलीकीजड़, चित्रक, चिरायता, नागर-मोथा, त्रायमाण, भारंगी, देवदारु, अडूसा, ब्राह्मी, गजपीपर, दशमूल, इन्द्रजी, खदिरपर्णी, गस्ना, काकडासींगी, सोंठ और वच, इनके कांटेमें तुलसीका रस मिलायके देवे यह, ज्वर, प्रसूत, शीत, अरुचि, भ्रम, मंदाभि, वायगोला इनमें यह परमोत्तम उपाय है ॥

तालीसादिचूर्ण ।

तालीसंमरिचंशुंठीपिप्पलीवंशलोचनम् ॥ एकद्वित्रिचतुः पंच-

कर्षेर्भागान्प्रकल्पयेत् ॥ एलात्वचोस्तुकपर्ध्वप्रत्येकंभागमा-

वहेत् ॥ द्वात्रिंशत्कर्पतुलिताप्रदेयाशर्कराबुधैः ॥ तालीसा-

द्यमिदंचूर्णरोचनंपाचनंस्मृतम् ॥ कासश्वासज्वरहरंच्छर्द्यतीसा-

रनाशनम् ॥ शोफाध्मानहरंष्ट्रीहग्रहणीपांडुरोगजित् ॥ पक्त्वा-

वाशर्कराचूर्णक्षिपेत्सागुटिकामता ॥

अर्थ—तालीसपत्र, फालीमिरच, सोंठ, पीपल और वंशलोचन ये क्रमसे १-२-३-४-५ भाग लेवे तथा इलायची दालचीनी ये आधे २ भाग लेय और मिश्री ३२ तोले लेवे इस प्रकार सब वस्तु ले चूर्णकरे यह तालीसादि चूर्ण

रोचक और पाचक है तथा खांसी, श्वास, ज्वर, वमन, अतिसार, सूजन, पेटका फूलना, घृहीह, संग्रहणी और पांडुरोग इनका नाश करे यदि इसकी गोली बनानी होय तो खांडकी चासनीमें बनावे ॥

त्रिफलादिचूर्ण ।

कासश्वासज्वरहरापिप्पलीत्रिफलायुता ॥

चूर्णितामधुनालीढाभेदिनीचाग्निबोधिनी ॥

अर्थ—पीपर और त्रिफला इनका चूर्ण शहतसे चाटे तो भेदक और अग्नि दीप्त कर्ता है ॥

कट्फलादिचूर्ण ।

कट्फलंमुस्तकंतिक्तासठीशृंगीचपौष्करम् ॥ चूर्णमेपांचमधुना
शृंगवेररसेनवा ॥ लिहेजीर्णज्वरहरंकासश्वासारुचिंजयेत् ॥ वायुं
शूलंतथाछर्दिक्षयंचैवव्यपोहति ॥

अर्थ—कायफल, नागरमोथा, कुटकी, कचूर, काकडासांसी और पुहकरमूल, इनका चूर्ण शहतसे अथवा अदरखके रसमें चाटे तो जीर्णज्वर, खांसी, श्वास, अरुचि वायुशूल, वमन और क्षयरोग इनको नाश करे ॥

त्रिवृच्चूर्ण ।

चूर्णत्रिवृत्कणाश्यामात्रिफलानांसितासमम् ॥

भेदिकोष्टरुजादाहगौरवज्वरनाशनम् ॥

अर्थ—निसोथ, पीपल, सारिवा, हरड, बहेडा, और आमला, इनका समान भाग चूर्ण करे सब चूर्णके बराबर मिश्री मिलावे यह भेदी, पेटके शूलको, दाह भारीपना और ज्वर इनका नाश करे ॥

दूसरालवंगादिचूर्ण ।

लवंगजातीफलपिप्पलीनांभागंप्रकल्प्याक्षसमानमेपां ॥ पला
र्धमेकंमरिचस्यदेयंपलानिचत्वारिमहौपधस्य ॥ सितासमं
चूर्णमिदंप्रघृष्टरोगांश्चचाशुप्रबलान्निहंति ॥ कासज्वरारोच
कमेहगुल्मश्वासाग्निमांद्यग्रहणीप्रदोषम् ॥

अर्थ—लौंग, जायफल और पीपल ये प्रत्येक छः छः भासे, कालीमिरच

२ तोले सौंठ १६ तोले इन सबका चूर्ण करके इसमें बराबरकी मिश्री मिला-
यके देनेसे प्रचलरोग, खांसी, ज्वर, अरुचि, प्रमेह, गोला, श्वास, मंदाग्नि,
और संग्रहणीके विकारोंको दूर करे ॥

पंचाजादि ।

पंचाज्यंपंचगव्यंपंचाविकमथापिवा ॥ जीर्णज्वरविनाशा-
र्थपिवेद्रापंचमाहिपं॥दधिदुग्धंतथाज्यंचविष्णुत्रेपंचशस्यते ॥

पूर्वोक्तंपंचकंज्ञेयंचिकित्सायांभिषग्वरः ॥

अर्थ—बकरी और गौका दूध, दही, घी, गोबर, मूत्र ये एकत्र कर जीर्णज्व-
रमें देय तो जीर्णज्वर दूर हो, अथवा भैसका दूध दही आदि पांचो पदार्थ
रोगीको देवे तो उसका जीर्णज्वर दूर हो ॥

लोध्रादिचूर्ण ।

लोध्रचंदनपट्टग्रंथिर्कराघृतमाक्षिकैः ॥

सक्षीरेणविपंगुक्तंजीर्णज्वरहरंपरम् ॥

अर्थ—लोध, चंदन, पीपरामूल और अतीस इनके चूर्णमें मिश्री, शहत,
घृत और दूध मिलायके लेवे तो ये जीर्णज्वरको दूर करे ॥

वर्धमानपिप्पलीयोग ।

क्रमवृद्ध्यादशाहानिदशपैप्पलिकंत्विदं ॥ वर्धयेत्पयसासार्धं

तथैवानमयेत्पुनः ॥ पिप्पलीनांसहस्रस्यप्रयोगोयंरसायने ॥

पिष्टास्तात्रलिभिः पेयाः शृतामध्यवलैर्नरैः ॥ चूर्णिताहीनच-

लिनांहितामधुसमायुताः ॥ कासाजीर्णारुचिश्वासहृत्पांडुकृ-

मिरोगिणाम् ॥ मंदाग्निविपमाग्नीनांशस्यतेगुडपिप्पली ॥ पंच-

द्वीसप्तदशवापिप्पल्यः क्षौद्रसर्पिषा ॥ लीढज्वरंश्वासका-

संहृद्गोपांडुकामलाम् ॥ प्रदरंचप्रमेहंचहन्यात्तत्रकिमद्भुतम् ॥

अर्थ—क्रमवृद्धिसे दशपीपल दशदिन दूधमें औटायके पीवे इस प्रकार रसा-
यनमें यह हजार पीपलोंका प्रयोग कहा है, तहां बलवान् पुरुषको पीसके देवे
तथा मध्यबलवारे पुरुषको दूधमें औटायके देवे और हीनबलो रोगीको चूर्ण
कर शहतके साथ चाटे तो खांसी, अजीर्ण, अरुचि, श्वास, हृद्ग, पांडुरोग,
कृमि, मंदाग्नि, तथा विपमामि, इनको उत्तम है, यदि गुड, शहत, घृत इनसे

दश अथवा इससे अधिक देवे तो श्वास, खांसी हृद्रोग, पांडु, कामला, मदर, और प्रमेह इनको नाश करे इसमें आश्चर्य नहीं है ।

पिप्पलीमोदक ।

क्षौद्राद्विगुणितसर्पिर्घृताद्विगुणपिप्पली ॥ सिताचद्विगु-
णातस्याः क्षीरंदेयंचतुर्गुणम् ॥ चातुर्जातंक्षौद्रतुल्यंपक्त्वाकु-
र्याच्चमोदकान् ॥ धातुस्थांश्चज्वरान्सर्वान्श्वासंकासंचपांडु-
ताम् ॥ धातुक्षयंवह्निमाद्यंपिप्पलीमोदकोजयेत् ॥

अर्थ—शहत १ भाग, घृत २ भाग, पीपर ४ भाग, मिश्री ८ भाग, दूध वतीसभाग, और चातुर्जात १ भाग इस प्रमाण सब वस्तु लेकर पाककी विधिसे लड्डू बनावे इसमेंसे १ लड्डू नित्य खावे तो यह पिप्पलीमोदक धातुगत संपूर्ण ज्वरोंको, श्वास, खांसी, पांडुरोग, धातुक्षय, और मंदाग्नि इनको नाश करे ॥

मधुपिप्पलीयोग ।

पिप्पलीमधुसंयुक्तामेदःकफविनाशिनी ॥

श्वासकासज्वरहरापांडुप्लीहोदरापहा ॥

अर्थ—पीपल शहतके साथ सेवन करनेसे मेद, कफ, श्वास, खांसी, ज्वर, पांडुरोग, प्लीहा और उदररोगको दूर करे ॥

दग्धयोग ।

क्षीणेकफेज्वरेजीर्णेअल्पदोषेपिपासिते ॥

दाहार्तेतुपयोयोज्यंतेनैवतुविपंभवेत् ॥

अर्थ—क्षीण कफवालेके तथा जीर्णज्वर होनेपर अल्पदोष होनेके कारण प्यास और दाह होते हैं, इसीसे उसको दूध पिवावे परंतु नवीन ज्वरमें दूध देना विपत्तय है ॥

पंचमूलीक्षीर ।

सर्वज्वराणांजीर्णानांक्षीरंभैपज्यमुत्तमं ॥ श्वासात्कासाच्छिरः

शूलात्पार्श्वशूलात्सपीनसात् ॥ मुच्यतेज्वरितःपीत्वापंचमू-

लीशृतंपयः ॥

अर्थ—सालपर्णी, पृष्ठपर्णी, छोटी फटेरी, बड़ी फटेरी, और गोखरू, इन

पाँचोंकी जड़को कूट उसमें अठगुना दूध और दूधका चौगुना पानी डालके औटावे जब दूध मात्र रह जावे तब रोगीको पीवावे तो श्वास, खांसी, मस्तकगूल-पीठका दर्द पीनस और जीर्णज्वर ये दूर होय, इन संपूर्ण जीर्णज्वरोंमें यह दुग्ध पीना उत्तम है ॥

सितादिपेया ।

सिताज्यविश्वखर्जूरीमृद्धीकाभिःशृतंपयः ॥ पृथ्वीचविल्वव-
र्षाभूपयश्चोदकमेवच ॥ क्षीरावशिष्टंतत्पीतंतद्विसर्वज्वरापहं ॥

अर्थ—मिथी, घृत, सोंठ, लुहारे और दाख, इनको डालके औटायेहुए दूधको अथवा बेलगिरी, सोंठ, दूध और पानी ये एकत्र करके दूध मात्र—शेपरहने पर्यंत औटावे फिर इसको पीवे तो सर्वज्वरको दूर करे ॥

विल्वादिकाढा ।

साधितंविल्वपेशीभिर्मूलेनामंडकस्यच ॥
सद्योहंतिपयःपीतंज्वरंसंपरिवर्तकं ॥

अर्थ—दूधमें बेलगिरीका अथवा सपेद बडीजाईके जड़का काढा करके लेनेसे यह घोर ज्वरका नाश करे ॥

मधुकादिकाढा ।

मधुकारग्वधाद्राक्षतिकायासफलत्रिकैः ॥
सपटोलैर्जलंभेदिज्वरंहंतित्रिदोषजं ॥

अर्थ—मुलहठी, अमलतासका गूदा, मुनकादाख, कुटकी, धमासो, हरड, बहेडा, आमला और पटोलपत्र इनका काढा भेदी और सब तरहके ज्वरोंका नाशकरेहै ॥

अमृतादिहिम ॥

अमृतायाहिमःपेयोजीर्णज्वरहरःपरः ॥

अर्थ—पूर्वोक्त प्रकारसे गिलोपका हिम करके पीवे तो जीर्णज्वरका नाशहोय ॥

गुडयोग ।

गुडंपिप्पलिमूलस्यजलेनालोडितंपिवेत् ॥
चिरादापिचसत्रप्रांनिद्रामाम्रोतिमानवः ॥

अर्थ—गुडको पीपरामूलके जलमें पीस छानके पीवे तो बहुत कालकी गई हुई निद्रा आवे ॥

वार्ताकभक्षणयोग ।

सायंस्विन्नमशेषंकृत्वावार्ताकमेवपूर्वाह्ने ॥

मधुयुतमश्रन्नचिरान्नष्टामथाजयेन्निद्रा ॥

अर्थ—सायंकालमें बेंगनको भून शहतमेंमिलायके खाय तोतत्काल निद्रा आवै

गुडूचीस्वरस ।

पिप्पलीमधुसंमिश्रंगुडूचिस्वरसंपिवेत् ॥

जीर्णज्वरकफप्लीहाकासारोचकनाशनम् ॥

अर्थ—गिलोयके रसमें पीपल और शहत मिलायके पीवे तो जीर्णज्वर, कफ
प्लीहा, खांसी और अरुचि इनको नाश करे ॥

गुडपिप्पलीयोग ।

जीर्णज्वरेभिमाद्येचशस्यतेगुडपिप्पली ॥ कासाजीर्णारुचि

श्वासहृत्पांडुकृमिरोगनुत् ॥ द्विगुणःपिप्पलीचूर्णात्गुडोत्र

भिपजांमतः ॥

अर्थ—जीर्णज्वरपर और मंदाग्निपर गुड और पीपर सेवन उत्तम है, तथा
खांसी, अजीर्ण, जरुचि, श्वास, पांडु, और कृमिरोग इनको नाश करे, इस जगह
गुड पीपलसे दूना मिलाना चाहिये ॥

वातकफात्मकज्वरोंपर ।

वातश्लेष्माज्वरोक्तास्यात्क्रियावातबलासके ॥ जीर्णज्वरेक

फेक्षीणेदाहत्पणासमन्विते ॥ पयःपीयूषसदृशतन्नवेतुविपो

पमं ॥ चंदनाद्यंहित्तैलंशोपाधिकारकीर्तितम् ॥ तथानारायणं

तैलंजीर्णज्वरहरंपरम् ॥

अर्थ—वातकफ संबंधी जीर्णज्वरपर वातश्लेष्मज्वरोक्त क्रिया करनी चाहिये,
और जिनके कफ ने होय केवल दाह और तृषा मात्र विकार हो उसको दूध
पीना अमृतके तुल्य है और वही दूध नवीन ज्वरघालेको विषके समान अव-
गुणकरता है और शोषाधिकारमें चंदनादि तैल फहा है वो तथा नारायण
तैल ये जीर्णज्वर नाशक है इसवास्ते इनका मालिश करे ॥

द्वितीयवर्धमानपिप्पली ।

त्रिवृध्यापंचवृध्यावाप्तवृध्याथवाकणाः ॥ गव्यक्षीरेणसंपि-

प्राः पिवेद्दशदिनानिह ॥ तथैवद्वासयेदेताएवंविंशतिवासरान् ॥
पिवतांज्वरशांतिः स्यात्पांडुरोगश्चशाम्यति ॥ कासश्वासोग्नि
माद्यंचकफाधिक्यंचनश्यति ॥

अर्थ—तीन २ वृद्धि करके अथवा पांच पांच वृद्धि करके पीपल गौंके दूधमें
औटाय और पीसके दशदिनतक सेवन करे, फिर उसी प्रकार क्रमसे घटाता
चलाआवे इस प्रकार बीस दिनतक लेय तो ज्वरकी शांति होय, तथा पांडु-
रोग, खांसी, श्वास, मंदाग्नि और कफ इनका नाश करे ॥

नस्य ।

शिरोगौरवशूलघ्नमिन्द्रियप्रतिबोधनम् ॥ जीर्णज्वरेरुचिकरंद
द्याच्छिर्षविरेचनम् ॥ मधुनावाथतैलेनज्वरघ्नेनप्रयोजयेत् ॥

अर्थ—जीर्णज्वरमें मस्तकका भारीपनशूल इनके नाशके वास्ते और इन्द्रि-
योंके चैतन्यता करनेके वास्ते, तथा रुचि देनेवाला ऐसा मस्तक रेचन देवे वो
शहतसे अथवा तैल करके किंवा ज्वरघ्न योगों करके देवे ॥

रक्तकरवीरादिलेप ।

रक्तकरवीरपुष्पंकुष्ठंधात्रीफलंसधान्यांबु ॥

कलकैः कोष्णोलेपोज्वरेपुशिरसोरुजोहंति ॥

अर्थ—लालकनेरके फूल, कूट, आमला, धनिया और नेत्रवाला इनको गरमजलमें
पीस गरम करके जब थोडा गरम रहे तब लेप करे तो मस्तक पीडा दूर होय ॥

हिंग्वादिनस्य ।

हिंयुसैधवसंयुक्तंनस्यंस्यादनवघृतम् ॥

अर्थ—पुराने घीमें हींग और सैधानिमक मिलायके नस्य देवे तो ज्वरशांति होय ॥

जयंतीमूलिकाबंध ।

श्वेतजयंतीमूलंविधिनावद्धंशिखांतरेहंति ॥

क्षीणज्वरंनराणांखलश्चदुरितेनचात्मानम् ॥

अर्थ—सपेद जयंती की जड़को विधियुक्त चुट्टियामें बांधे इससे जीर्णज्वर दूर
होय जैसे दुष्टपुरुष पापोंसे अपनी आत्माको नाश करता है ॥

वायसजंघाबंध ।

वायसजंघामूलंशिरसिनिबद्धंतुकाकमाच्याश्च ॥

विधृतंनिद्राकरणंस्तुङ्मूलंवाशितंसगुडम् ॥

अर्थ—कौआडोडीकी जडको अथवा मकोयकी जडको मस्तकमें बांधनेसे निद्राको उत्पन्न करे, अथवा थूहरकी जडको गुडके साथ खानेसे निद्राको उत्पन्न करे

मुक्तापंचामृत ।

मुक्ताप्रवालखुरवंगकंकंबुशुक्तिभूनिवभूदधिद्विगिंदुसुधांशुभाग
म् ॥ इक्षुरसेनसुरभेःपयसाविदारीकन्यावरीपुरसहंसपदीरसैश्च ॥
संमर्द्ययामयुगलंचवनोत्पलाभिर्दद्यात्पुटानिमृदुलानिचपंचपं-
च ॥ पंचामृतंरसविभुंभिपजाप्रयोज्यंगुंजाचतुष्टयमितंचपला
रजश्च ॥ पात्रेनिधायचिरसूतवनस्पतीनांदुग्धेनयःप्रपिवतः
खलुचात्मभुक्तम् ॥ जीर्णज्वरः क्षयमियादथसर्वरोगाःस्वीयानु
पानकलिताश्चशमंप्रयांति ॥

अर्थ—मोती १ तोले, मूंगा ४ तोले, उत्तम वंग २ तोले, शंख १ तोले
सीपी १ तोले, इनकी भस्म तथा चिरायता, १ तोले, इन सबको एकत्र कर
ईसके रस, गौका दूध, विदारीकंद पीगुवार, सतावर, डाभ और हंसपदी,
इनके रसमें दो दो ग्रहर खरलकर आरने उपलोंकी पांच पांच पुट देवे यह (पंचा
मृत रस) नित्य ४ रत्ती और पीपलका चूर्ण पात्रमें डालके बहुत दिनकी व्याही
और वनस्पति खानेसे उत्पन्न हुआ दूध उसके साथ सेवन करे थोडा भोजन
करे तो जीर्णज्वर, तथा रोगोक्त अनुपानके साथ देनेसे सर्व रोगोंका नाश करे है।

जीर्णज्वरांकुश ।

मृतसूताभ्रनागार्कैकांतवैकांतमेवच ॥ हिंगुलंटंकणं गंधविपं
कुप्टसमांशकम् ॥ त्रिकटुत्रिफलामुस्ताभृगनिर्गुडिकाद्रवैः ॥ भाव
येत्रिदिनंचैवमापमात्रानुपानतः ॥ जीर्णज्वरेक्षयेकासेदोपेमंदा
नलेपुच ॥ पांडूहलीमकंगुल्ममुदरंचार्दितंजयेत् ॥ ग्रहणीं
शूलरोगांश्च अरोचकमनेकधा ॥ कांतितेजोवलंपुष्टीर्यवृद्धि
विवर्धयेत् ॥ साध्यासाध्यंनिहंत्याशुरसोजीर्णज्वरांकुशः ॥

अर्थ—पारेकी भस्म, अभ्रक, शीशेकी भस्म, तामेकी भस्म, कांतलोह और वैजांत इनकी भस्म, तथा हिंगुल, सुहागा, गंधक, विप, कूट, ये औषध समान भाग ले फिर त्रिफला, त्रिकुटा, नागरमोथा, भांगरा और निर्गुंडी, इनके काढेकी अथवा स्वरसकी तीन दिन भावना देवे और अनुपानके साथ एक टडदमात्र देवे तो जीर्णज्वर, क्षय, खांसी, मंदाग्नि, पांडुरोग, हलीमक, गोला, उदर, अर्दितरोग, संग्रहणी, शूल, सर्वप्रकारकी अरुचि ये रोग साध्य अथवा असाध्य होय तो भी नाश होवे, तथा यह जीर्णज्वराकुश, कांति तेज, बल, पुष्टि और वीर्य इनको बढ़ावे ॥

धातुज्वराकुश ।

लोहाभ्रकंताम्रभस्मपारदंगंधकंविपम् ॥ व्योषाफलत्रिकंकुप्टंस-
मभागेनमर्दयेत् ॥ भृंगनीरेणचार्द्रस्यावरानिर्गुंडिकारसैः ॥
त्रिदिनमर्दयित्वातुमुद्रमानावटीकृता ॥ यथारोगानुपानेनस-
र्वव्याधिविनाशिनी ॥ अजीर्णवातंकासघ्नीदीपनीरुचिवर्धनी ॥
सर्वान्धातुज्वरान्हंतिसोयंधातुज्वराकुशः ॥

अर्थ—लोह, अभ्रक, तथा तामा इनकी भस्म, और पारा, गंधक, विप, सौंठ मिरच, पीपल, हरड, बहेडा, आमला, कूट, ये समान भाग ले खरलकर भांगरा, अदरक, और निर्गुंडी इनके रसकी तीनदिन, भावना देवे, फिर मूंगके बराबर गोली बनावे एक गोली रोगोक्त अनुपानके साथ देवे तो सर्व व्याधि-योंको नाश करे तथा अजीर्ण और वात कफ इनको नाश करे तथा दीपन, रुचि बढ़ानेवाला, और सर्ष धातुगत ज्वरनाशक है इसको धातुज्वराकुश कहते हैं ॥

कल्याणघृत ।

तालीसत्रिफलैलवालफलिनीसौम्यापृथरूपिनीदंतीदाडिम-
चारुचंदननिशादावींविशालोत्पलैः ॥ जातीपद्महरेणुपद्म-
कयुतेर्जतुमंजिष्टकारुंक्षीहीनुटिसारिवाद्रयनतेनांगेद्रपुष्पा-
न्वितैः ॥ अष्टाविंशतिभिश्चतुर्गुणजलंकल्याणमेभिःशृतंहंत्ये-
तत्रिचतुर्थकज्वरमुरःकंपंसंध्यामयम् ॥ सापस्मारगदोद-
रामपवनोन्मादाःसजीर्णज्वराजायंतेनपुनःकृतेनहविपाकल्या-
णकेनामुना ॥

अर्थ—तालीसपत्र, त्रिफला, इलायची, नेत्रवाला, सालपर्णी, दंती, अनार-
दाना, उत्तमचंदन, हलदी, दारुहलदी, इन्द्रायनकीजड, कमलकंद, जाई,
कमल, पित्तपापडा, पन्नाख, वायविडंग, मंजीठ, कूट, कटेरी, छोटीइलायची,
दोनोप्रकारकी सारिवा, तगर, वांशककोडी, और लौंग, इन अट्ठाईस, औष-
धोंका चौगुनापानीडालके काढाकरके उस काढेमें धी डालके पचावे जब जल
करके घृतमात्र शेष रहे तब उत्तार लेंवे, यह कल्याणघृत, ज्याहिक, चातु-
र्थिकज्वर, हृदयका कंप, वंध्यापना, मृगी, उदर, आमवात, उन्माद, जीर्ण-
ज्वर, इन व्याधियोंको फिर नहीं होने देवे ॥

चंदनादितैल ।

चंदनाद्यंहितंतैलंशोपाधिकारकीर्तितम् ॥

तथानारायणंतैलंजीर्णज्वरहरंपरम् ॥

अर्थ—शोपाधिकारमें कहा चंदनादि तैल तथा नारायण तैल ये जीर्णज्व-
रको नाश करे ॥

लाक्षादितैल ।

लाक्षारसस्याढकमस्तुतैलप्रस्थंपचेन्मस्तुचतुर्गुणंच ॥ पिष्टाश
ताह्वारजनीमधूकरास्त्राश्वगंधाकटुकासमूर्वा ॥ हरेणुकंचंदन
मुस्तदारुकुपुंठपृथक्कर्मितंक्षिपेत्तत् ॥ पृष्टत्रिकांगस्फुटनंसं
शूलंदौर्गंध्यकंभ्रमवातरोगान् ॥

अर्थ—२५६ तोले लाखाका रस, तैल सरभर, दहीकी तोड चारसेर, शतावर
हलदी, मुलहदी, रास्त्रा, असगंध, कूटकी, मूर्वा, पित्तपापडा, लालचंदन
नागरमोथा, देवदारु, और कूट, ये प्रत्येक तोले २ भर लिय, सबको एकत्र-
कर तैल सिद्ध करावे इसको (लाक्षादि तैल) कहते हैं ये सर्व विपमज्वर,
और पीठका दर्द, त्रिकस्थानकी पीडा, शरीरका फुटना, गूल, दुर्गंध, खुजली
भ्रम, और वातरोगको नाश करे ॥

दूसराचंदनादितैल ।

चंदनांबुनृपंवाद्यंयष्टिशैलेयपद्मकम् ॥ मंजिष्टासरलादारुसं
व्योलानागकेसरम् ॥ पत्रंतैलंसुरामांसीकंकोलंचनतांबुदम् ॥ ह
रिद्रेसारिवेतिक्तलवंगागरुकुंकुमम् ॥ त्वगरेणुनलिकाचेतितैलंम

स्तुचतुर्गुणम् ॥ लाक्षारससमंसिद्धं ग्रहघ्नं बलवर्णकृत् ॥ अपस्मार
क्षयोन्मादक्षतालक्ष्मीविनाशनम् ॥ गात्रस्य स्फुटनं दाहं कंठूजी
र्णज्वरापहम् ॥

अर्थ—चंदन, नेत्रवाला, खिरनीकावृक्ष, खरेटी, मुलहटी, शिलाजीत, पन्नाख, मंजीठ, सरल (देवदारुका भेद) देवदारु, कचूर, इलायची, नागकेशर तमालपत्र, तेल, कांकोली, जटामांसी, कंकोल, छड, नागरमोथा, हल्दी, दारुह, लदी, सारिवा, चिरायता, लोंग, अगर, केशर, दालचीनी, पित्तपापडा, गुड-तजी, तेल तथा चौगुना दहीका पानी और इतनाही लाखका रस, सबको एकत्र कर तैलकी विधिसे इसको सिद्धकरे तो यह ग्रहपीडानाशक, बल, कांति इनको करे तथा अपस्मार, क्षय, उन्माद, घाव, अलक्ष्मी, देहका फटना, दाह, खुजली, जीर्णज्वर इनको नाश करे ॥

हरितकीपाक ।

प्रस्थमेकं शिवानां च जलद्रोणे निधापयेत् ॥ द्विप्रस्थं दशमूलस्य
सार्धप्रस्थायवाः स्मृताः ॥ ग्रंथिकंचित्रकं भार्गीशं खपुष्पीबला
सठी ॥ विश्वापामार्गमेघाश्च पुष्करं गजपिप्पली ॥ इमानितत्र
योज्यानि प्रत्येकं च पलंपलम् ॥ अष्टांशे निमृते चैपापथ्यापि
द्वापचेत्ततः ॥ गुडप्रस्थत्रयं योज्यं गोघृतं पलपंचकम् ॥ जातीफलं
केसरंच चतुर्जातंच धात्रिका ॥ दीप्याक्षौजातिपर्त्रीचताम्रलोहं
कटुत्रिकम् ॥ चूर्णमेपांक्षिपेत्तत्र प्रत्येकं च पलार्धकम् ॥ पथ्यापाक
इति ख्यातः कथितो भृगुणापुरा ॥ जीर्णज्वरहरः सद्यस्तुष्टिपुष्टिव
लप्रदः ॥ रसकोपे ग्रहण्यां च क्षीणधातौ च निःसृतौ ॥ गुदामयेश्वा
सकासेवातरक्तेहितो मतः ॥

अर्थ—हरड ६४ तोले, जल १०२४ तोले, दशमूल, १२८ तोले, इन्द्रजो ९६ तोले तथा पीपरामूल, चीतेकी छाल, भारंगी शंखाडुली, खरेटी, कचूर, सोंठ, आंगा, नागरमोथा, पुहकरसल, गजपीपल, ये प्रत्येक चार-तौले इन सबका अष्टावशेष फाडा कर उसमें हरडोंको पीसके डाल देवे और इसमें गुड १९२ तोले गौका घी २० तोले, तथा जायफल, केशर, चातुर्जात, आवले, अजमायन, वहेडा, जावित्री, ताम्रभस्म, लोहभस्म, सोंठ, कालीभिरच, पीपल, इन प्रत्येकका चूर्ण

दो दो तोले डालकर पाक बनावे इसको (हरीतकीपाक) कहते हैं यह जीर्ण-
ज्वर, संग्रहणी, क्षीणता, अतिसार, बवासीर, श्वास, खांसी, वातरक्त और
रसकोप इनको दूरकरे तथा तत्काल तुष्टी, पुष्टी और बल, इनको देय है ॥

कौक्कुट घृत ।

कुक्कुटं तरुणसद्यःशिरःपादांत्रवर्जितम् ॥ तस्यमांसस्यकुर्वीत
शृतंपलशतंभिपक् ॥ बृहतीकंटकारीचंगुंभीककटकस्यच ॥
वदराणिकुलित्याश्वभांगीआमलकीतथा ॥ शठीपुष्करमूलं
चपंचमूलमहत्तथा ॥ एतत्तुलांचसंगृह्यद्विद्रोणेत्वंभसःपचेत् ॥
पादशेषपरिस्राव्यकपायंग्राहयेद्भिपक् ॥ पङ्गुंक्षीरमाह-
त्यविपचेत्तुघृताढकम् ॥ तत्रकक्कीकृतंदद्यादस्वलंपंचमूल-
कम् ॥ तत्साधुसिद्धंविस्त्राव्यशुभेभांडेनिधापयेत् ॥ तस्यका-
लेपिवेन्मात्रांबलदोषमवेक्ष्यच ॥ जीर्णैतस्मिस्तुभुंजीतरक्त-
शाल्योदनंतथा ॥ जीर्णज्वरोपसृष्टानांशुष्यतांश्वासकासि-
नाम् ॥ प्रयोज्यंकौक्कुटं सर्पिर्यक्षिणांविपमज्वरे ॥ लेखनं बृह-
णीयंचबलवर्णाभिवर्धनम् ॥

अर्थ—उत्तम तरुण मुरगेका मस्तक, पैर और आंते निकालके उसके मांसका
काढा ४०० तोले लेकर उसमें दोनों कटेरी, काकडासींगी, बेर, कुलथी, भांगी,
आमले, कचूर, पुहकरमूल और बृहत्पंचमूल मिलाय सब ४०० तोले लेंवे,
उसको २०४८ तोले जलमें डालके चतुर्थांशावशेष काढा करे और काढेका लः
गुना दूध और १०२४ तोले घृत डालके उसमें बृहत्पंचमूलका कल्क मिलाय
सबको एकत्र कर मंदाग्निसे घी शेष रहने पर्यंत पचावे जब सिद्ध होजाय तब
उतारके उत्तम पात्रमें भरके धर रखे, फिर दोषोंका बलाबल देखके देवे इसके
जीर्णहोनेके उपरांत लाल चावलका भात भोजन करावे तो यह(कौक्कुट घृत)
जीर्णज्वर, श्वास, खांसी, क्षयी, विपमज्वर, इनको दूरकरे, तथा लेखन, बृहण,
और बल, वर्ण तथा अग्नि इनको बढ़ावे ॥

वासाद्यंघृतं ।

वासांगुडूचीत्रिफलांत्रायमाणांदुरालभाम् ॥ पक्त्वातेनकपाये-

णपयसोद्विगुणेनच ॥ पिप्पलेमुस्तमृद्धीकाचंदनोत्पलना-
गरैः॥ कल्कीकृतैश्चविपचेद्घृतंजीर्णज्वरापहम् ॥

अर्थ—अडूसा, गिलोय, त्रिफला, त्रायमाण, और धमासा इनके काठमें दुगना दूध और पीपल, नागरमोथा, दाख, लालचंदन, कमलगट्टा, और सोंठ इनको छालके सबको एकत्रकर उसमें घृत सिद्धकरे तो यह जीर्णज्वरको नाश करे ॥

पिप्पल्यादिघृत ।

पिप्पल्यश्चंदनंमुस्तमुशीरंकटुरोहिणी ॥ कर्लिंगकात्वामल
कीसारिवातिविपंस्थिरा ॥ द्राक्षामलकवीजानित्रायमाणा
निदिग्धिका ॥ सिद्धमेतत्घृतंसद्योजीर्णज्वरमपोहति ॥ क्षयं
कासंशिरःशूलंपार्श्वशूलमरोचकम् ॥ अंगाभिपातमाग्निचविपमं
सन्नियच्छति ॥ पिप्पल्यादित्विदंकापितंत्रेक्षरेणपच्यते ॥

अर्थ—पीपल, लालचंदन, नागरमोथा, नेत्रवाला, कुटकी, इन्द्रजव, आमले, सारिवा, अतीस, सालपर्णी, दाख, इमलकिकीया, त्रायमाण, फटेरी, इनके काठमें अथवा, कल्कमें घृत सिद्धकरे तो यह जीर्णज्वरको तत्काल नाश करे, तथा क्षय, खांसी, मस्तक पीडा, पँसवाडेका दर्द, अरुचि, अंगकी गरमी, और अग्नि इनका नाश करे यह पिप्पल्यादि घृत किसी ग्रंथमें दूधके साथ पचावे ऐसा कहा है ॥

क्षीरवृक्षादितैल ।

क्षीरवृक्षासनारिष्टाजंबूसप्तच्छदारुजैः ॥ शिरीषखादिरास्फो
तामृतवल्याटरूपकैः ॥ कटुकापर्पटोशीरिवचातेजोवतीधनैः ॥
साधितंतैलमभ्यंगादागुजीर्णज्वरःक्षयम् ॥

अर्थ—पीपर, विजैसार, नीमकी छाल, सताना, कोह, सिरस, खैर, सारिवा, गिलोय, अडूसा, कुटकी, पित्तपापडा, सस, वच, मालकांगनी, और नागर-मोथा, इनके काठमें अथवा कल्कमें तैल सिद्ध करे फिर इसका देहमें मालिश करे तो तत्काल जीर्णज्वरका नाश करे ॥

सेवंतीपाक ।

श्वेतपुष्पसहस्राणिघृतप्रस्थेविपाचयेत् ॥ घृतेपक्केकृतेतस्मि
न्निक्षिपेद्वैतदौषधम् ॥ सितोपलाचतुर्भागाचातुर्जातंपलंपलम् ॥

मृद्धीकापट्टपलंचैवक्षिपेन्मधुपलाष्टकम्॥धारासत्वंचार्यपलंसर्व
मेकत्रकारयेत्॥कर्पप्रमाणंतत्सेव्यंसततंचगदातुरैः॥जीर्णज्वरे
क्षयेकासेअग्निमाद्येप्रमेहके ॥ प्रदरंरक्तजान्‌रोगान्कुघ्राशांसि-
विनाशयेत् ॥नेत्ररोगान्सुदुःसाध्यांस्तथासर्वान्बुखोत्थितान्॥

अर्थ—सेवतीके सफेद फूल १००० लेकर घीमें सिजवावे, फिर इसमें मिश्री
चार भाग, दालचीनी, तमालपत्र, इलायची, नागकेशर, ये प्रत्येक चार२तोले
लेवे, दाख २४ तोले, और शहत ३२ तोले तथा गिलोयका सत्व २ तोले इन
सबको एकत्र कर पाककी विधिसे बनावे इस पाकको तोले भर नित्य प्रातःकाल
लेय तो (यह सेवती पाक,) जीर्णज्वर, क्षयी, खांसी, मंदाग्नि, प्रमेह, प्रदर, रक्त-
विकार, कौढ, अर्शरोग, और दुःसाध्य नेत्ररोग, तथा सुखरोगोंको नाश करे॥

पिप्पलीपाक ।

प्रस्थंपिप्पलिमादायक्षीरेणैवानुपेपयेत् ॥ अर्धाढकंघृतंगव्यं
शुद्धंखंडाढकंतथा॥पचेन्मृद्धग्निनातावधावत्पाकमुपागतम् ॥
शीतीभूतेक्षिपेत्तस्मिंश्चातुर्जातंपलत्रयुम् ॥ योजयेन्मात्रयाय
क्तदोषधात्वग्निसाम्यतः ॥ बल्यंवृष्यंतथाहृद्यतेजोवृद्धिकरं
परम् ॥ जीर्णज्वरक्षतक्षीणमश्रांतंचैवबृंहयेत्॥छर्दितृष्णारुचि
श्वासशोपजिह्वासकामलाम् ॥ हृद्रोगंपांडुरोगंचप्रदरंचत्रिदो
षजम् ॥ वातरक्तप्रतिश्यायमामवातंविनाशयेत् ॥ संवत्सरप्र
योगेणवलीपलितवर्जितः ॥

अर्थ—६४ तोले पीपल लेके दूधसे पीसें फिर १२८ तोले घीमें मंदाग्निसे कुछ
भूने तथा १०२४ तोले मिश्रीकी चासनीमें पाक बनावे और दालचीनी, तमा
लपत्र, इलायची, नागकेशर, इनका चूर्ण १२ तोले डालके फतरी जमाय लेवे पश्चात्
रोगीका दोष धातु अग्निका बलावल देखके देवे तो धातुको बढ़ावे, बलकरे, हृद-
यको हितकारी, तथा तेजकी वृद्धिकरे, और जीर्णज्वरवालेको, तथा क्षतक्षयसे
क्षीणपुरुषको पुष्टिकरे, वमन, प्यास, अरुचि, श्वास, शोष, जिन्हाके रोग, काम
ला, हृदयरोग, पांडु, प्रदर, त्रिदोष, वातरक्त, पीनस, और आमवात, इनका
नाश करे. इस पाकको एकवर्ष सेवन करनेसे अंगकी गुजलट, और सपेद वालों
का नाश कर तरुणता करे है ॥

ज्वरमुक्तलक्षण ।

प्रकाशोलाघवंशानिः स्वस्थतासुप्रसन्नता ॥

उपद्रवानिमित्तंचसम्यक्लङ्घितलक्षणम् ॥

अर्थ—इन्दी आपने अपने विषयग्रहण करनेमें समर्थ हो, शरीरमें हलकापना, शान्ति, चित्तकी स्वस्थता, तथा प्रसन्नता और सर्व उपद्रवकी शांति ये ज्वर-मुक्तके लक्षण हैं ॥

साध्यज्वरलक्षण ।

वलवत्स्वल्पदोषेतुज्वरःसाध्योनुपद्रवः ॥

अर्थ—जिस ज्वरमें मनुष्यकी शक्ति क्षीण न होय और वातादिक दोषोंका कोप थोडा होय तथा ज्वरके उपद्रव विशेष न होय उसज्वरको साध्य कहा है ॥

असाध्यज्वरलक्षण ।

हेतुभिर्वहुभिर्जातोवलिभिर्वहुलक्षणः ॥ ज्वरःप्राणांतकृद्यश्चशी

ब्रमिन्द्रियनाशनः ॥ ज्वरक्षीणस्यज्ञूनस्यगंभीरोदैर्घ्यरात्रिकः ॥

असाध्योवलवान्यश्चकेशसीमितकृज्ज्वरः ॥

अर्थ—अत्यंत और प्रबल हेतुओं करके उत्पन्न हुआ, ज्वर तथा जो उत्पन्न होतेही किसी एक इन्द्रियको नष्ट कर देवे, वो ज्वर प्राणांतकारी जानना । तथा जिस ज्वरमें मनुष्यके क्षीण होकर अंगोंमें सूजन आय जावे वो तथा गंभीर धातुप्रत जानेवाला और बहुत दिन तक देखमें रहने वाला तथा अंतर्वेगी, और जो ज्वर बहुत आनकर वालोंमें स्त्रियोंके मांगके समान रचना करने वाला ऐसे सब ज्वर असाध्य हैं ॥

गंभीरज्वरलक्षण ।

गंभीरश्चज्वरोज्ञेयोह्यंतर्दाहेनतृष्णया ॥

आनद्धत्वेनदोषाणांश्वासकासीद्रमेनच ॥

अर्थ—अंतर्दाह, तृष्णा, दोषोंकी प्रबलता, श्वास, खांसी, ये लक्षण जिस ज्वरमें हों उसको गंभीर कहते हैं ॥

असाध्यलक्षण ।

आरंभाद्विपमोयस्तुयस्तुस्यादैर्घ्यरात्रिकः ॥

क्षीणस्यचातिरूक्षस्यगंभीरोयस्यहंतितम् ॥

अर्थ—जो ज्वर उत्पन्न होतेही संतत सतत आदिरूप करके विपम हो जावे और बहुत रात्रिपर्यंत आवे तथा गंभीर हो ये तीनज्वर तथा क्षीण किवा रूक्ष मनुष्यका ज्वर प्राणनाशक जानना ॥

दूसराप्रकार ।

शंखस्वेदोतिवहुलंपिच्छलोयातिसर्वशः ॥

देहिनःशीतगात्रस्यतदामरणमादिशेत् ॥

अर्थ—शंख कहिये कनपटीमें बहुत पसीने आनकर सर्व देहमात्र पसीनोंसे चिकट जाय तथा रोगीका देह शीतल पडजावे वो ज्वरप्राणनाशक जानना ॥

तीसराप्रकार ।

विसंज्ञस्ताम्यतेयस्तुशेतेनिपतितोपिवा ॥

शीतादितांतरुष्णश्चज्वरेणम्रियतेनरः ॥

अर्थ—जो मनुष्य ज्वरसे विह्वल हो मोहित होजावे और सोकर तथा बैठकर उठे नहीं, एवं बाहर शीत और भीतरसे दाहयुक्त हो वो पुरुष ज्वर करके मरणको प्राप्त होवे ॥

चौथाप्रकार ।

शीतस्वेदोललाटेस्यश्लथसंधानबंधनः ॥

सुहृत्पुत्र्याप्यमानस्तुसस्थूलोऽप्यनुजीवति ॥

अर्थ—जिस मनुष्यके मस्तकपर शीतल पसीने आवे और सर्वांगके बंधन टाले होजावे, तथा उठनेमें मोहको प्राप्त होयेगामनुष्य पृष्टभी हो तथापि नहीं बचे ।

पाँचवाप्रकार ।

योहृष्टरोमारक्ताक्षोहृदिसंवातशूलवान् ॥

वक्त्रेणचैवोच्छ्वसितितंज्वरोहंतिमानवम् ॥

अर्थ—ज्वरमें रोगीके रोमांच खड़े रहें, नेत्र लाल हों, हृदयमें शस्त्रप्रहार होनेकीसी पीडा और टँचे मुख करके जो श्वास लेवे, ऐसा ज्वर रोगीका प्राणहरण कर्ता जानना ॥

दूसरेप्रकारकेअसाध्यलक्षण ।

प्रेतैःसहपिवेन्मद्यंस्वप्नेयःकृप्यतेशुना ॥ सघोरंज्वरमासाद्यन

जीवेन्नचमुच्यते ॥ ज्वरःपूर्वाह्निकोयस्यशुष्ककासश्चदारुणः॥
 बलमांसविहीनश्चयथाप्रेतस्तथैवसः ॥ ज्वरोयस्यापराह्णेतु
 श्लेष्माकासश्चदारुणः ॥ बलमांसविहीनश्चयथाप्रेतस्तथै
 वसः ॥ सहसाज्वरसंतापस्तृष्णामूर्च्छाबलक्षयः ॥ विश्लेषणंच
 संधीनांसुभूर्पोरुपजायते ॥ गोसर्गे वेदनाद्यस्यस्वेदः प्रच्यवते
 ध्रुवम् ॥ लेपज्वरोपसृष्टस्यदुर्लभंतस्यजीवितम् ॥ स्वेदोल
 लाटेहिमवान्नरस्यशीतार्दितस्यातिसपिच्छिलस्य॥कंठस्थितो
 यस्यनयातिवक्षोनूनंयमस्यैतिगृहंसमर्त्यः ॥ यस्यस्वेदोतिव-
 हलः पिच्छिलोयातिसर्वतः ॥ रोगिणः शीतगात्रस्यतदामरण
 मादिशेत् ॥

अर्थ—जो स्वप्नमें प्रेतोंके साथ मद्यपान करे, तथा जिसको कुत्ते घसीटे, वो भयंकर ज्वरसे मरे, जिसको पूर्वाह्नमें घोरज्वर आवे और सूखी दारुण खांसी हो, तथा बल, मांस, जिसका नष्ट हो जावे उसको प्रेतके समान जानना, जिसको अपराह्णमें ज्वर आनकर कफ-खांसी-अत्यंत पीडा देवे, बल, मांस नष्ट होजावे उसको मुरदेके तुल्य जानना, अकस्मात् ज्वरका दाह, तृषा, मूर्च्छा, और बलक्षय तथा संधि २ ढीले होजावें, ये लक्षण आसन्न भरण वालेके होते हैं । प्रातःकाल जिसके मुखपर पसीने आवें और लेपज्वर करके व्याप्त हो उसका बचना कठिन है । जिसके मस्तकपर शीतल पसीने और शीत अधिक लगे अंग-पसीनेसे चीकटसे होजावे और गलेका पसीना छातीपर आवे नहीं वो मनुष्य यमराजके घर जल्दी जाता है । तथा जिसके अत्यंत और चिकने पसीने चारों तरफसे आवे और अंग शीतल हो तो रोगी तत्क्षण मरे ॥

दूसराप्रकर ।

हिकाश्वासतृपायुक्तमूर्द्धविभ्रांतलोचनम् ॥

सततोच्छ्वासिनंक्षीणंनरंक्षपयतिज्वरः ॥

अर्थ—हिकी, श्वास, तृषा, इन करके युक्त और जिसके नेत्र चलायमान हो तथा बेहोश हो और निरंतर ऊर्ध्व श्वास लेवे तथा जो क्षीण हो गया हो उसको ज्वर मारता है ॥

असाध्यलक्षणज्वर ।

हतप्रभेद्रियक्षाममरोचकनिपीडितम् ॥

गंभीरतीक्ष्णवेगार्तज्वरितंपरिवर्जितम् ॥

अर्थ—जिस मनुष्यके निस्तेजता आय जावे, इंद्रियोंकी शक्ति चली जावे कृश हुआ तथा जिसको अरुचि हो तथा अंतर्गत और बाह्य वेगसे पीडित उसको वैद्य त्याग देवे अर्थात् चिकित्सा न करे ॥

ज्वरमोक्षके पूर्वरूप ।

दाहःस्वेदोभ्रमस्तृष्णाकंपोविद्भेदसंज्ञिता ॥

कूजनंचातिवैगंध्यमाकृतिज्वरमोक्षणे ॥

अर्थ—दाह, पसीने, भ्रम, तथा, कंप, मलका न उतरना, मूर्च्छा, गुंजना, अंगोंमें पसीनोंकी दुर्गंधी ये जानेवाले ज्वर के पूर्वलक्षण होते हैं, परंतु ये त्रिदोष ज्वरमें होते हैं अन्यज्वरमें नहीं ॥

ज्वरमुक्तलक्षण ।

देहोलघुर्व्यपगतक्लममोहतापंपाकोमुखेकरणसौष्टवमव्यथत्व

म् ॥ स्वेदःश्वःप्रकृतियोगमनोन्नलिप्साकंडूश्चमूर्ध्निविगतज्व

रलक्षणानि ॥

अर्थ—शरीर हलकाहो, क्लम, मोह और ताप, मुखका पाक, कर्णेंन्द्रिय बद्धत उत्तम शरीरकी सर्व व्यथा दूर हो जावे, पसीने अधिक, प्रकृतिके तार-तम्य फरके छोके आवे, अन्नपर इच्छाहो और मस्तकमें खुजली चले ये सब लक्षण ज्वरमुक्त मनुष्यके जानने ॥

मधुरज्वरलक्षण ।

ज्वरोदाहोभ्रमोमोहोद्यतीसारवमिस्तृषा ॥ अनिद्राचमुखरक्तं

तालुजिह्वाचशुष्यति ॥ ग्रीवायांपरिदृश्यतेस्फोटकाःसर्पपो

पमाः ॥ क्षताशनात्स्वेदरोधान्मंथरोजायतेनृणाम् ॥

अर्थ—ज्वर, दाह, भ्रम, मोह, अतीसार, घांती, प्यास, निद्रानाश, मुखपर लाली, तथा तालु और जिह्वा इनका सूखना, नाडयें सरसोंके समान कुंसी उठे, ये मधुरज्वर अत्यंत घृतपान करनेसे अथवा पसीनोंके रुकनेसे होता है ॥

सुरसादियोग ।

सुरसागोमयरसोअजाजीमृतमक्षिका ॥ अथवाशांवरंशृंगचंद
नंजीरकंजलम् ॥ कैरातंकुटजोजाजीछिन्नेलापद्मकंफलम् ॥

घृद्धापीत्वानिहंत्याशुज्वरंमधुरकाभिधम् ।

अर्थ—तुलसी, गोबरका रस, जीरा, मरीडुई मक्खी, साँवरसींगा, लालचं-
दन, कालाजीरा, नेत्रवाला, चिरायता, इन्द्रजौ, गिलोय, इलायची और
कमलगट्टा, इन सबको जलमें घिसके ४ तोले पीवे तो शीघ्र मधुरज्वर दूर हो ॥

मुस्तादिकाढा ।

मुस्तापर्पटकोयष्टीगोस्तनीसमभागतः ॥ अष्टावशेषितःक्वा
थोनिपीतोमधुनासह ॥ पित्तभ्रमंज्वरंदाहंहेतिच्छर्दिसमंथराम् ॥

अर्थ—नागरमोथा, पित्तपापडा, मुलहदी और दाख, ये समान भाग ले
अष्टावशेष काढा कर शहत डालके देवे तो पित्त संबंधी भ्रम, ज्वर, दाह,
वान्ती और मधुर ज्वर ये नष्ट हो ॥

विण्मक्षिकाकाढा ।

विण्मक्षिकोद्भवसमूलसुश्वेतमिक्षुकर्पूरिकापणदरंसुरसाद्रंशास्वा ॥
न्यग्रोधपर्णकथनंसमभागकर्मप्रावशेषज्वरमंथरवातिशीघ्रम् ॥

अर्थ—मक्खियोंकी बीट, जडसमेत सपेद ईखकी जड, कपूर, कौडी, शंख,
तुलसीकी मंजरी, वडके पत्ते, प्रत्येक एक एक तोले लेवे इनका अष्टावशेष
काढा करके देवे तो मधुरज्वर नाश होय ॥

चंदनादिकाढा ।

चंदनोशीरधान्यंचवालकंपर्पटंतथा ॥

मुस्ताशुंठीसमायुक्तंमंथरज्वरनाशनम् ॥

अर्थ—चंदन, खस, धनिया, नेत्रवाला, पित्तपापडा, नागरमोथा और सोंठ,
इनका काढा मंथर ज्वरको नष्ट करे ॥

मक्षिकादियोग ।

मक्षिकागुडसंयुक्ताज्वरमंथरकेहिता ॥

भ्रममोहातिसारांश्वनाशयत्यविलंबतः ॥

अर्थ—मधुरज्वरमें मक्खीको गुडमें मिलायके खाय तो भ्रम, मोह और अतीसार इनको शीघ्र शमन करे ॥

कृष्णमधुरालक्षण ।

ज्वरंचक्षुर्मोहंचदंतौष्टौचैवश्यामकौ ॥ जिह्वाकंठमुखघ्राण
रक्तताचाक्षिकवुरम् ॥ कंठमुक्तावलीहारः सप्ताहाद्द्वार्यतेनवा ॥
त्रिसप्तकादिनादर्वाक्स्फोटाः स्युः सर्पपोपमाः ॥

अर्थ—ज्वर, नेत्रोंका मिचना, और दाँत, होठ, जिह्वा, कंठ, मुख, और नासिका ये काले तथा नेत्र चित्रविचित्र वर्ण, ये लक्षण होते हैं और जिसकं गलेमें सातदिनके भीतर मोतियोंका हार न पहनावे तो इक्कीस दिनमें सरसोंके समान फोंडे उत्पन्न हों ये लक्षण कृष्णमधुरज्वरके जानने ॥

सहस्रवेधपापाणादियोग ।

सहस्रवेधिपापाणंकपालंकच्छपस्यच ॥ वृद्धैलतुलसीपत्रंना
रिकेलास्थिचूतजम् ॥ दाणाखसखसाख्याश्चगोमयस्यरसेनच ॥
घृष्ट्वापानायदातव्यमधुरज्वरशांतये ॥

अर्थ—हाँगका छोटासा टुकड़ा, कत्रुएके कपालकी हड्डी, बड़ीइलायची तुलसीके पत्ते, नारियलकी नरेली, आमकी गुठली, खसखसके दाने, इन सबको गोबरकेरसमें पीसके पिवावे तो मधुरज्वर शांति होय ॥

भूनिवादिकाढा ।

भूनिवातिविपालोऽंमुस्तकेद्रयवामृता ॥ बालकंधान्यविल्वंच
कपायोमाक्षिकान्वितः ॥ विद्भेदश्वासकासांश्चरक्तपित्तज्वरं हरेत् ॥

अर्थ—चिरायता, अतीस, लोध, नागरमोथा, इन्द्रजव, गिलोय, नेत्रवाला, धनिया और बेलगिरि इनको काठेमें शहत मिलायके पिवावे तो अतीसार, श्वास, खाँसी और रक्तपित्तको दूर करे ॥

वासाद्यकाढा ।

वासाद्राक्षाभयाक्काथः पीतः सक्षौद्रशर्करः ॥

निहंतिरक्तपित्तार्तिश्वासंकासंज्वरंतथा ॥

अर्थ—अहूसा, दास और छांटी हरड, इनके काठेमें शहत और मिर्ची-मिलायके पीवे तो रक्तपित्तकी पीडा, श्वास, खाँसी और ज्वर इनको नष्ट करे ॥

मधुकादिकाढा ।

मधुकंवलकलंकुष्टमुत्पलंचंदनंचा ॥ त्रिफलादुर्लभावासाद्रा
क्षाशिरीषपद्मकम् ॥ मूर्वायष्टिरयंकाथोदाहंमूर्च्छातृपांभ्रमम् ॥
रक्तपित्तज्वरंहंतिनिपीतोमधुनासह ॥

अर्थ—मुलहठी, दालचीनी, कूठ, नीलाकमल, चंदन, वच, त्रिफला, अडूसा, दाख, सिरसकी छाल, पद्माख, मूर्वा और भारंगी इनके काठेमें सहत डालके पीवे तो दाह, मूर्च्छा, प्यास, भ्रम, रक्तपित्त और ज्वरको दूरकरे ॥

दुर्जलजनितज्वरपर पटोलादिकाढा ।

पटोलमुस्तामृतवल्लिवासकंसनागरंधान्यकिराततित्तकम् ॥
कपायमेपांमधुनायुतंनरोनिवारयेद्दुर्जलदोषमुल्बणम् ॥

अर्थ—पटोलपत्र, नागरमोथा, गिलोय, अडूसा, सोंठ, धनिया, चिरायता और फुटकी, इनका काढा सहत मिलायकर पीवे तो दुष्टजलका घोरदोष निवारणहोय

किराततित्तादिचूर्ण ।

किराततित्तात्रिवृदंभुपिप्पलीविडंगविश्वकटुरोहिणीरजः ॥
निहंतिलीढंमधुनातिसत्वरंसुदुस्तरंदुर्जलदोषजंज्वरम् ॥

अर्थ—कडुवाचिरायता, निसोथ, नागरमोथा, पीपल, वायविडंग, सोंठ और फुटकी इन सबका चूर्ण सहतमें मिलायके चाटें तो दुष्टजलजनित ज्वर शीघ्र दूर होय ॥

हरीतक्यादिचूर्ण ।

हरीतकीनिवपत्रंनागरसैधवोऽनलः ।

एपांचूर्णसदाखादेद्दुर्जलज्वरशांतये ॥

अर्थ—हरडकी छाल, नीमकेपत्ते, सोंठ, संधानिमक, चीतेकीछाल इन सबका चूर्ण दुर्जल जनित विकारकी शांतिके अर्थ नित्य खानां चाहिये ॥

शुंठ्यादिकल्क ।

भोजनादनैर्भुक्तंशुंठीराज्यभयोत्थितम् ।

कल्कंतुसहतेनित्यंनानादेशोद्भवंजलम् ॥

अर्थ—जो मनुष्य नित्य प्रति भोजनके आदिमें सोंठ, राई और हरड, इनका कल्क नित्य पीता है उनको अनेक देशका जल विकार नहीं करता है ॥

आर्द्रकादिचूर्ण ।

महार्द्रकयवक्षारौपीत्वाचोष्णेनवारिणा ।

नानादेशसमुद्भूतवारिदोषमपोहति ॥

अर्थ—जो मनुष्य सोंठ और जवाखारको गरम जलके साथ पीताहै उसके अनेक देशोंका उत्पन्न जलविकार दूर होता है ॥

दुर्जलजेतारस ।

विषंभागद्वयंदग्धकपर्दः पंचभागकः ॥ मरीचंनवभागंचचूर्णैव
स्त्रेणशोधयेत् ॥ आर्द्रकस्यरसेनास्यकुर्यात्सुद्गसमावर्टी॥वा-
रिणावटिकायुग्मंप्रातः सायंचभक्षयेत् ॥ अयंसोज्वरेयोज्य-
स्तस्मिन्दुर्जलजेपिच॥अजीर्णाध्मानविष्टंभशूलेषुश्वासकासयोः ।

अर्थ—विष२ तोले, कौडीकी भस्म ५ तोले, कालीमिरच ९ तोले ले सबको कूट पीस कपड़छानकर अदरखके रसमें मूंगके समान गोली बनावे, २ गोली जलके साथ प्रातःकाल और सायंकालमें खाये, इस रसको ज्वरमें तथा जलजनित ज्वरमें देय एवं अजीर्ण, अफरा, विष्टंभ, शूल, श्वास और खाँसीमें देवे तो दूर हो ॥

ज्ञानोदयरस ।

कलावेदांकचंद्रांशैः सर्वांशसितयायुतैः ॥ शक्रासनरजोजाती
फलंशुकैःसुमेलितैः ॥ ज्ञानोदयोभवेदेपसाधकानंदसिद्धिदः॥
सेवितः सात्म्यतोग्राहीजलदोषापनोदकः ॥

अर्थ—इन्द्रजौ १५ तोले, पित्तपापडा ४ तोले, जायफल ९ तोले, सपेद अंडकी जड़ १ तोले लेंवे, सबका चूर्ण कर बराबरकी मिश्री मिलावे तो यह (ज्ञानोदय) तयार हो; इसके सेवन करनेवालोंको सिद्ध देवे और सात्म्य होकर जलसंबंधी दोषोंको दूर करे ॥

हरिद्रकवृक्षयोग ।

सहरिद्रयवक्षारौपीत्वाचोष्णेनवारिणा ॥

नानादेशसमुद्भूतवारिदोषमपोहति ॥

अर्थ—जो मनुष्य हलदी और जवाखार मिलाके गरम जलके साथ पीवे तो अनेक देशोंके दुष्ट जलविकारको दूर करे ॥

मद्योद्भवज्वर ।

मद्याजीर्णसमालोक्यवामयेच्छर्करोदकैः ॥ पित्तज्वरोपचारे-

णमद्यज्वरमुपाचरेत् ॥ मद्यपानज्वरस्यादौलंघनंनैवकारयेत् ॥

अर्थ-मद्यजीर्णवालेको शरबत पिलाकर वमन करावे, तथा मद्यजनित ज्वरकापत्र पित्तज्वरके सदृश करे, परंतु मद्यजन्य ज्वरके आदिमें लंघन नहींकरानाचाहिये ॥

फिरउलटकरज्वरआयाउसपरलंघन ।

अपथ्यदोषाद्यदिसंप्रवृत्तोभवेज्वरश्चेद्बलिनश्चपुंसः ॥

हितंपुनर्लंघनमादिशंसितोल्पदोषस्यचभेषजानि ॥

अर्थ-यदि बलवान् पुरुषके अपथ्य करनेसें फिर ज्वर हो आवे तो दोषकी अधिकताके अनुसार लंघन करना हित है और अल्पदोषमें पाचनादि औषध देवे ॥

रचन ।

यदिनिर्व्याहृतमलःपुनरेवभवेज्वरः ।

मलंचनिर्हरेच्छीघ्रंततःसंपद्यतेसुखम् ॥

अर्थ-यदि दस्त करानेके अनंतर फिर ज्वर हो आवे तो वैद्य उसको फिर दस्त कराके मलको निकाले तो तत्काल सुखी होवे ॥

किराततिक्तादिकाढा ।

किराततिक्तकंतिक्तामुस्तापर्पटकामृता ।

निःक्वाथ्यपीतानिघ्नतिपुनरावर्तिकज्वरम् ॥

अर्थ-फडुआ चिरायता, कुटफी, नागरमोथा, पित्तपापडा, गिलोय, इनका काढा प्राशन करनेसे फिर लौटकर आनेवाले ज्वरको नाश करे ॥

तिक्तादिकाढा ।

तिक्तोशीरबलाधान्यपर्पटांभोधरैः कृतः ॥

क्वाथःपुनः समायातंज्वरंशीघ्रनिवारयेत् ॥

अर्थ-कुटफी, खस, बला, धनिया, पित्तपापडा और नागरमोथा, इनका काढा फिर लौटकर आनेवाले ज्वरको शीघ्र नष्ट करे ॥

अपथ्यज्वरलक्षण ।

अपथ्यजेमद्यभवेचहेतुहेतुर्ज्वरोपित्तमुदाहरंति ॥ दाहश्चशैत्यं

चशिरोव्यथाचकोप्राभिवृद्धिः कटितोदकंडु॥मलातिपातस्त्व
तिनद्धताचअपथ्यदोषेणभवेज्वरेच ॥

अर्थ—अपथ्य और मद्यजन्य ज्वरमें पित्तप्रधान होता है, तिनमें कुपथ्य कर
नेसे हुए ज्वरमें दाह, शीतल, मस्तकपीडा, उदरवृद्धि और कमरकी पीडा,
खुजली, दस्त, अथवा मलवद्धता इन विकारोंको करै ॥

कटुक्यादिकाढा ।

कटुकीपिप्पलीमूलंमुस्ताचैवहरितकी ॥

गिरिमालसमः काथः सर्वज्वरविनाशनः ॥

अर्थ—कुटकी, पीपलामूल नागरमोथा, हरडकी छाल और किरवारकी
गिरी, सब समान लेकर काथ करे यह काथ सर्वज्वरोंको नाश करे ॥

आमलक्यादिचूर्ण ।

अमलंचित्रकंपथ्यासैंधवंपिप्पलीकृतम् ॥ चूर्णसोयंगणोह्योपस
र्वज्वरविनाशनः ॥ भेदीरुचिकरःश्लेष्मजेतादीपनपाचनः ॥

अर्थ—आमला चित्रल, वडोहरडकी छाल, सैंधानिमक और पीपल, इनका
चूर्ण सर्वज्वर और कफको दूर करे, दस्तकर, रुचिकारी और दीपन पाचन है ॥

गुडूच्यादिकाढा ।

गुडूचीधनकारिष्टपद्मकोरक्तचंदनम् ॥ गुडूच्यादिगणःकाथःस
र्वज्वरहरःपरः ॥ दीपनोदाहहृच्छासतृष्णाछर्द्यरुचिर्जयेत् ॥

अर्थ—गिलोय, धनिया, नीमकीछाल, पद्मास और लालचंदन, यह गुडू-
च्यादि गण काथ सर्वज्वर, दाह, हृच्छास, प्यास, वमन और अरुचिको दूर करे
तथा दीपन है ॥

क्षुद्रादिकाढा ।

क्षुद्राकिराततित्तंचशुंठीछिन्नाचपौष्करम् ॥

कपायएपांशमयेत्पीतश्चाष्टविधंज्वरम् ॥

अर्थ—केटरी, चिरायता, सांठ, गिलोय, अंडकीजड और पुहकर मूल इन
छः औषधोंका काढा पीनेसे आठ प्रकारके ज्वर दूर करे ॥

नागरादिपाचन ।

नागरदेवकाष्ठंचधान्यकंबृहतीद्रयम् ।

दद्यात्पाचनकंपूर्वज्वरितानांज्वरापहम् ॥

अर्थ—सोंठ, देवदारु, धनिया, दोनों कटेरी, इनका काढा कर ज्वरवालोंके ज्वर दूर करनेकी यह पाचन देवे ॥

चलदलतरुसेवाहोममंत्रोत्रिनेत्रिद्विजजनगुरुपूजाविष्णुनाम्नां
सहस्रम् ॥ मणिधृतिरपिदानान्याशिपस्तापसानांसकलमि-
दमरिष्टंस्पष्टमष्टज्वराणाम् ॥

अर्थ—पीपरकी सेवा, होम, गायत्र्यादि मंत्रोंका जप, श्रीशिव, ब्राह्मण, गुरु इनका पूजन, विष्णुसहस्रनामका पाठ, मणिधारण, दान तपस्वियोंके आशीर्वाद, इन यत्नों करके अष्टविध ज्वर शांत हों ॥

समुद्रस्योत्तरेतीरेद्विरदोनामवानरः ॥

तस्यस्मरणमात्रेणज्वरोयातिदिगंतरम् ॥

अर्थ—समुद्रके उत्तरतीरेमें द्विरदनाम वानर रहता है उसके स्मरण करतेही ज्वरभाग जाता है, ये श्लोक मंत्ररूप है ज्वरवाला इसका स्मरण कराकरे ॥

वेलाज्वर ।

शोकात्क्रोधात्तथाजीर्णात्संतापाद्बलहानितः ॥

अंतकालेचमर्त्यानांजायंतेदारुणाज्वराः ॥

अर्थ—शोक; क्रोध, अजीर्ण संताप और बलहानि, इनसे मनुष्यको अंत-कालमें भयंकर ज्वर उत्पन्न होता है ॥

मूलिकाबंधनम् ।

सर्वज्वरापहं नीलिमूलं रात्रिज्वरापहम् ॥

दुग्धिकामूलिकाकर्णहंति वेलाज्वरं तथा ॥

अर्थ—नीलीवृक्षकी जड़ और हलदी, ये सर्व ज्वर नाशक हैं उसीप्रकार दुग्धीकी जड़को पानमें रसनेसे वेलाज्वर दूर हो ॥

पिप्पलीचूर्णज्वरऊपर ।

मधुनापिप्पलीचूर्णलिहेत्कासज्वरापहम् ॥

हिक्काश्वासहरं कंत्र्यं ग्रीहमंत्रालकोचितम् ॥

अर्थ—रकमासे पीपलके चूर्णको शहतसे चाटे तो इससे कासज्वर, हिचकी

और श्वास, ये दूरहो, तथा चूर्ण कंठको हितकारी है घ्रीहको दूर करे तथा बालकोंके उपयोगी है ॥

धान्यादिचूर्ण ।

धान्यंलवंगंत्रितयंचशुंठीकौष्णांबुपीतंतरुणज्वरापहम् ॥

तेभ्यःशतंवारितथाग्निमांद्यंश्वासाद्यजीर्णविषमंचवातम् ॥

अर्थ—धानिया, लौंग, निशोथ, और सांठ, इनके चूर्णको गरम जलके साथ सेवन करनेसे तरुण ज्वरका नाश हो, अथवा इन औषधोंका काढा देवे तो मंदाग्नि, द्वास, अजीर्ण, विषमज्वर, और वादीको नाश करे ॥

गोरोचनादिचूर्ण ।

गोरोचनंचमरिचंराम्नाकुष्ठंचपिप्पली ॥

उष्णोदकेनपीतंचसर्वज्वरविनाशनम् ॥

अर्थ—गोरोचन, कालीमिरच, राम्ना, कूठ और पीपल, इनका चूर्ण गरम जलके साथ पीनेसे सर्व ज्वर दूर हो ॥

सितोपलादिचूर्ण ।

सितोपलापोडशीस्यादष्टौस्याद्वंशरोचना ॥ पिप्पलीस्याच्चतु

ष्कर्पाएलास्याच्चद्विकर्पिका ॥ एककर्पत्वचः कार्यश्चूर्णयेत्सर्व

मेकतः ॥ सितोपलादिकंचूर्णमधुसर्पिर्युतंलिहेत् ॥ कासश्चा

सक्षयहरंहस्तपादांगदाहजित् ॥ मंदाग्निसुप्तजिह्वत्वंपार्श्वशूल

मरोचकम् ॥ ज्वरमूर्ध्वगतंरक्तपित्तमाशुव्यपोहति ॥

अर्थ—मिश्री १५ तोले, वंशलोचन ८ तोले, पापर ४ तोले, छोटी इलायचीके बीज २ तोले और दालचीनी अथवा तज १ तोले, इनका चूर्ण फर शहत और घृतसे देवे तो यह सितोपलादि चूर्ण खाँसी, श्वास, क्षय, हाथपैरोंका दाह मंदाग्नि जीभकी शून्यता, पैसबाड़ेका शूल, अरुचि, ज्वर ऊर्ध्वगत रक्तविकार और पित्त इनका नाश होय ॥

भाङ्ग्यादिचूर्ण ।

भाङ्गीककटशृङ्गीचचव्यंतालीसपत्रकम् ॥ मरिचंमागधीमूलंप्रत्येकं

द्विपलंभवेत् ॥ पट्टपलंशृङ्गेवेरंचद्विपलंपिप्पलीद्वयम् ॥ चातुर्जात-

मुशीरंचपलमेकंपृथक्पृथक् ॥ चातुर्जातसमाशुभ्राशर्करासम-
योजिता ॥ ज्वरमष्टविधंहंतिकासंश्वासंचदारुणम् ॥ शोफशूलो-
दराध्मानदोषत्रयहरंपरम् ॥

अर्थ—भारंगी, काकडासिगी, चव्य, तालीसपत्र, कालीमिरच, और पीप-
रामूल, ये प्रत्येक आठ २ तोले, सोंठ २४ तोले, पीपर ८ तोले, तथा गज-
पीपर, चातुर्जात और खस, ये ४ तोले, पृथक् २ लेवे, मिश्री ४ तोले,
सबका चूर्णकरे इस भांग्यादि चूर्णके सेवनसे आठप्रकारके ज्वर, खाँसी,
श्वास, सूजन, उदर, पेटका फूलना और त्रिदोष इनको दूर करे ॥

अनंतादिचूर्ण ।

अनंतंवालकंमुस्तानागरंकटुरोहिणी ॥ सुखांबुनाप्रागुदया
त्पिवेदक्षसमंरवेः ॥ एतत्सर्वज्वरान्हंतिदीपयत्याशुचानलम् ॥

अर्थ—जवासा, नेत्रवाला, नागरमोथा, सोंठ, कुटकी, इनका एकतोले चूर्ण कुछ
गरम जलके साथ सूर्योदयसे पूर्व पीवे तो सर्व ज्वर दूर हो और जठरामिषबलहो ॥

भेडोक्तसुदर्शनचूर्ण ।

तालीसंत्रिफलात्रुटीत्रिकटुकंत्वक्त्रायमाणंत्रिवृन्मूर्वाग्रंथिनि
शायुगंशठिवलारुक्कंठकारीयुगम् ॥ मुस्तापर्पटनिवपुष्करजटा
भांगीयवानीहिमंचव्यंचित्रकपुंडरीकतगरंसेव्येविडंगंचा ॥
यासोवत्सककुंडलींद्रयवकंदेवद्रुमंवालकंचीजंशिगुभवंपटोल
कटुकापद्माह्वपत्रंविषा ॥ काकोलीमधुकुंकमंचसतक्षीरिल-
वंगंपृथक्पर्णाशैलजशालिपर्णसहितंशामंतकीपुष्पकम् ॥ सर्व
समंचूर्णतदर्धभागैरातकंश्रेष्ठतमंहिचूर्णम् ॥ सुदर्शनं नाम रु-
द्रलासामयोद्भवान्हंतिपृथक्कृताञ्ज्वरान् ॥ संसर्गजान्सकल-
जान्विषमात्रिहन्याद्भ्रातृद्भवान्विषकृतानभिघातजांश्च ॥ सा-
मान्समानसकृतानतिदाहयुक्ताञ्छीतान्तृतीयकचतुर्थविपर्यं
यांश्च ॥ ऐकाहिकद्वयाहिकसत्रिपातान्नानाविधान्पाक्षिकता
सजातान् ॥ तृद्दाहमोहभ्रमदैन्यतंद्रासंश्वासकासारुचिपां

दुरोगान्॥हलीमकंकामलपार्श्वशूलपृष्ठोद्भवंजानुभवंतथैव ॥
 त्रिकग्रहंवातविकारजातंविनाशयत्येवशिरोग्रहं च ॥ स्त्रीणां
 रजोदोषसमुद्भवांश्चविनाशयेदुष्णजलेनपित्तम्॥शीतांबुनापि-
 त्तभवान्विकारान्नामानुनींद्रैर्गदितंजगद्धितम् ॥ सुदर्शनंदानव-
 नाशनंयथासुदर्शनंयोगविनाशनंतथा ॥

अर्थ-तालीसपत्र, त्रिफला, इलायची, त्रिकटु, तज, त्रायमाण, निसोध
 मूर्वा, पीपरामूल, हलदी, दारुहलदी, कचूर, बला, कटेरीकीजड, बडोकटेरीकी
 जड, नागरमोथा, पित्तपापडा, नीमकीछाल, पुहकरमूल, भारंगी, अजमायन,
 नेत्रवाला, चव्य, चीतेकीछाल, कमलगट्टा, तगर, खस, वायविडंग, वच,
 जवासो, कुडार्की छाल, गिलोय, इन्द्रजी, देवदारु, पीलीखस, सहिजनके बीज,
 पटोलपत्र, कुटकी, पद्मास, पत्रज, कलियारी, काकोली, मुलहठी, केशर,
 तवाखीर, लौंग, पृष्ठपर्णी, पत्थरका फूल, सालपर्णी, और मूखी अंवाडा, ये
 सब औषध, समान ले और सब औषधोंका अर्धभाग त्रिरामता डाले, तो यह
 (सुदर्शन चूर्ण) वात कफसे प्रगट ज्वरोंको तथा पृथक् २ ज्वरोंको, संसर्गज
 ज्वर, संनिपातजन्य, विषमज्वर, धातुगतज्वर, विषजन्यज्वर, अभिघातज्वर,
 सामज्वर, मानसज्वर, दाहज्वरशीतज्वर, तृतीयक, चातुर्थिक, विपर्यय,
 एकाहिक, द्वाहाहिक, त्रिदोषात्मक, पक्षज्वर, मासज्वर, टपा, दाह, मोह,
 भ्रम, दैन्य, तंद्रा, श्वास, खाँसी, अरुचि, पांडुरोग, हलीमक, कामला, पार्श्व-
 शूल, पृष्ठशूल, जानुशूल, त्रिकशूल, संपूर्ण वातविकार, मस्तकशूल, अनेक
 देशोंके जलविकार, दूषीविष, स्त्रीकरजविकार, इन सब रोगोंको गरम जलके
 साथ लेनेसे दूर करे और शीतलजलसे पित्तके विकारोंको नाशकरे, ये पहले
 अनेक मुनियोंने जगत्के हितार्थ कहाहै, जैसे सुदर्शन चक्र दैत्योंका नाश करे
 उसी प्रकार यह सुदर्शन चूर्ण रोगोंको नाश करता है॥

सुदर्शनचूर्ण ।

त्रिफलरजनीयुग्मंकंटकारीयुगंठठी ॥ त्रिकटुग्रंथिकंसूर्वाशुद्ध
 चोधन्वयासकः ॥ कटुकापर्पटोमुस्तात्रायमाणाचवालकम् ॥
 निंबुपुष्करमूलंचमधुयष्टीचवत्सकः ॥ यवानींद्रयवाभांगींशि
 शुर्बीजंमुराष्टजा ॥ वचात्वक्पद्मकोशीरचंदनातिविपावला ॥
 शालिपर्णीपृष्ठिपर्णीविडंगंतगरंतथा ॥ चित्रकंदेवकाष्ठंच

व्यंद्राक्षापटोलजम् ॥ जीवकर्पभकौचैवलवंगवंशलोचना ॥ पुं
 डरीकंचकाकोलीपत्रजजातिपत्रकम् ॥ तालीसपत्रंचतथासम
 भागानिचूर्णयेत् ॥ सर्वचूर्णस्यचार्धांशकैरातंप्रक्षिपेत्सुधीः ॥
 एतत्सुदर्शनं नाम चूर्णदोपत्रयापहं ॥ ज्वरांश्चनिखिलान्हंतिना
 त्रकार्याविचारणा ॥ पृथग्द्वंद्वगंतुकांश्चधातुस्थान्विषमज्व
 रान् ॥ सन्निपातभवांश्चापिपीनसानपिनाशयेत् ॥ शीतज्वरै
 काहिकादीन्मोहंतंद्रांभ्रमंतृपाम् ॥ श्वासकासौचपांडुं चहृद्गो
 दंतिकामलाम् ॥ त्रिकपृष्ठकटीजानूपाशूलनिवारणम् ॥ शीतां
 बुनापिवेद्धीमान् सर्वज्वरनिवृत्तये ॥ सुदर्शनं यथाचक्रंदानवा
 नांविनाशनम् ॥ तद्वज्ज्वराणां सर्वेषामिदं चूर्णप्रणाशनम् ॥

अर्थ—हरड, बहेडा, आमला, हलदी, दारुहलदी, छोटी बडी कटेरी, कचूर,
 सोंठ, मिरच, पीपल, पीपरामूल, मूवा, गिलोय, धमासो, कुटकी, पित्तपापडा,
 नागरमोथा, त्रायमाण, नेत्रवाला, नीमकी छाल, पुहकरमूल, सुलहटी, कूडाकी
 छाल, अजमायन, इन्द्रजौ, भारंगी, साहिंजनेके बीज, फिटकरी, वच, दालचीनी,
 पन्नाख, खस, लालचंदन, अतीस, खरेटी, सालपर्णी, पृष्ठपर्णी, वायर्विडग, तगर,
 चीतेकी छाल, देवदार, चव्य, दाख, पटोलपत्र, जीवक, ऋषभक, लौंग, वंश-
 लोचन, कमलगट्टा, काकोली, पत्रज, जावित्री और तालीसपत्र, ये समान भाग
 ले चूर्ण करे, और सब चूर्णसे आधा चिरायता डाले तो यह (सुदर्शन) चूर्ण
 संपूर्ण ज्वरोंको नाश करे, तथा वात, पित्त, कफ इनका नाशक है; इसमें विचार
 नहीं करना । तथा वातज्वर, पित्तज्वर, कफज्वर वातपित्तज्वर, धातकफज्वर,
 पित्तकफज्वर, आगंतुकज्वर, धातुगतज्वर, विषमज्वर, सन्निपातज्वर, पीनस शी
 तज्वर, ऐकाहिकादिज्वर, मोह, तंद्रा, भ्रम, तृपा, श्वास, साँसी, पांडुरोग हृद्गो,
 कामला, त्रिक, पीठ, कमर, घोट्ट और पार्श्व इनका शूल, इन सबको नाश
 करे ये चूर्ण शीतल जलके साथ पीये तो जैसे सुदर्शन चक्र सर्व देवियोंको नाश
 करे उसीप्रकार यह सुदर्शन चूर्ण रोगोंको नाशकरे है ॥

लघुसुदर्शनचूर्ण ।

गुडूचीपिप्पलीमूलंकणातिकाहरतकी ॥ नागरदेवकुसुमांनि-
 वत्वकचंदनंतथा ॥ सर्वचूर्णस्यचार्धांशकैरातंप्रक्षिपेत्सुधीः ॥

एतत्सुदर्शनं लघ्वनाम्नादोपत्रयापहम् ॥ ज्वरांश्चप्याखिलान्हन्या-
न्नात्रकार्याविचारणा ॥

अर्थ—गिलोय, पीपरामूल, पीपर, कुटकी, हरडकी, छाल, सोंठ लौंग, नी-
मकी छाल, लालचंदन, ये सब, बराबर लेवे सब चूर्णसे आधा चिरायता ले यह
लघु सुदर्शन चूर्ण तीनों दोषोंको और संपूर्ण ज्वरोंको नाश करे है ॥

आमलक्यादिचूर्ण ।

धात्रीशिवसैंधवचित्रकाणांकणायुतानांसमभागचूर्णम् ॥

जीर्णज्वरारोचकवाह्निमाद्येविड्विग्रहेशस्तमितिप्रतिज्ञा ॥

अर्थ—आमले, हरड; सैंधानिमक, चीतेकी छाल और पीपल, समान भाग
ले चूर्णकरे तो जीर्णज्वर, अरुचि, मंदाग्नि, बृद्धकोष्ठ को दूर करे ॥

केसरादि ।

केसरंमातुलिंगस्यमधुसैंधवसंयुतम् ॥

जिह्वातालुगलक्लोमशोपेमूर्धानिदापयेत् ॥

अर्थ—विजोरेकी केशरमें सहत और सैंधानिमक मिलाकर मस्तकपर लगा-
वे तो जीभ, तालुआ, गला और पिपासा स्थानका मूतना दूरहोय ॥

विदार्यादिलेप ।

विदारीदाडिमंलोभ्रंदधित्थंवीजपूरकम् ।

एभिःप्रलिप्यान्मूर्धानंतृडाहातस्यदेहिनः ॥

अर्थ—जो मनुष्य प्यास और दाहसे पीडित हो उसका मस्तक, विदारी-
कंद, अनारदाना, लोथ, फमरस और विजोरेका केशर पीसकर लेप करे ॥

ज्वरघ्नीगुटिका ।

भागैकःस्याद्रसाच्छुद्धादेलीयःपिप्पलीशिवा ॥ आकारकर-
भोगंधःकटुतैलेनशोधितः ॥ फलानिचेंद्रवारुण्याश्चतुभाग-
मिताअमी ॥ एकत्रमर्दयेच्चूर्णमिद्रवारुणिकारसैः ॥ मापो-
न्मितांगुटांकृत्वादद्यात्सर्वज्वरेबुधः ॥ छिन्नारसानुपानेनज्वर-
घ्नीगुटिकामता ॥

अर्थ—शुद्धपारा १ तोले, एलुआ पीपल छोटी हरड, अकरकरहा और सरसों

के तेलमें) शुद्धकरी गंधक, तथा इन्द्रायणका गूदा, ये छः औषध चारचार तोले लेंवे चूर्णकर इन्द्रायणके गूदेके रसमें खरलकर भासे भासे की गोली करें . गिलोयके रससे देवे तो ज्वर दूर हो ॥

बलाद्यघृत ।

बलांश्वदंष्ट्रां वृहतीं कलशीं धावनीं पुनः ॥ निवर्पपटकं मुस्तां त्रा-
यमाणां दुरालभाम् ॥ कृत्वा कपायं कल्कार्थं दद्यादा मलकीं शठी
म् ॥ द्राक्षा पुष्करमूलं च मेदामामलकानि च ॥ घृतं पयश्च तत्सिद्धं
सर्पिर्ज्वरहरं परम् ॥ क्षयकासप्रशमनं शिरःपार्श्वरुजापहम् ॥

अर्थ—खरेटी, गोखरू, कटेरी, पृष्ठपर्णी, धायके फूल, नीमकी छाल, पित्त-
पापडा, नागरमोथा, त्रायमाण और धमासा इनका काढा करके उसमें भूय-
आमला, कचूर, दाख, पुहकर मूल, मेदा और आमले इनका कल्क तथा ६४
तोले घृत और चौसठ तोले दूध डालके अग्निपर घृत सिद्ध करे । ये ज्वर, क्षय,
खांसी, और शिर पँसवाडेकी पीडा इनको नाश करे ॥

मंजिष्ठाद्यघृत ।

मंजिष्ठातिविपापथ्यावचानागररोहिणी ॥ देवदारुहरिद्राच -
द्रोणिन्यां पालिकांपचेत् ॥ काथेस्मिन्साधयेत्पिष्टैर्घृतप्रस्थांपि-
चून्मितैः ॥ शृंगवेरकणाहिं गुद्विक्षारकटुपंचकैः ॥ तत्कफावृ-
तसर्वैकज्वरिणाममृतोपमम् ॥ वर्ध्महिक्कारुचिश्वासपांडुरोग-
विकारिणि ॥ मलग्रहप्रमेहार्शुप्लीहापस्मारशोपिणाम् ॥ उदा-
वर्तपरीतानां मंदाग्नि कृमिकुष्ठिनि ॥

अर्थ—मंजीठ, अतीस, हरड, वच, सोंठ, कुटकी, देवदारु, हलदी और गुड-
तजी, ये सर्व पदार्थ चार २ तोले लेके काढा करे उसमें सोंठ, पीपल, हिंग,
जवाखार और कटुपंचक, इनका कल्क एक तोले और ६४ तोले घी मि-
लायके अग्निपर सिद्ध करे ये घृत, कफज्वरवालेको अमृतके समान है तथा अंड
वृद्धि, हिचकी, अरुचि, श्वास, पांडुरोग, मलवद्धता, प्रमेह, बवासीर, प्लीहा,
अपस्मार, क्षय, उदावर्त, मंदाग्नि और कृमिरोग इनको नाश करे ॥

कुलित्थाद्यघृत ।

कुलित्थकोलत्रिफलादशमूलयवान्पचेत् ॥ त्रिफलासलिलद्रो-

णेघृतेपक्त्वाक्षकान्क्षिपेत् ॥ पंचकोलकसप्ताह्वावयस्था-
 हिगुतुंवरुः ॥ शठीपुष्करमूलार्कमूलप्रतिविपावचा ॥ किरा
 ततिक्तकंमुस्तंकर्कटारुयांदुरालभाम् ॥ नक्तमालमुभेपाठेक
 टुकाशिशुतेजिनी ॥ सोमवल्कश्चरजनीकटुर्काकंटकारिका ॥
 पटोलनिंवगोजिह्वाकसकामदनोजटा ॥ लवणानिपलांशा-
 निक्षारानर्धपलोन्मितान् ॥ प्रस्थंवाज्यस्यतत्सिद्धंदीपनंकफ
 वातनुत् ॥ गृध्रसीग्रहणीगुल्मश्वासकासाशंसांहितम् ॥ दीर्घ
 ज्वराभिभूतानांज्वरिणाममृतोपमम् ॥

अर्थ—कुलथी, वेर,हरड, बहेडा, आमला, दशमूल, और (इन्द्रजव) ये एवं
 त्रिफलाके १६३८४ तोले काठेमें, पंचकोल, सतोना, आमले,हींग,तुंवरु,कचूर,
 पुहकरमूल, आककीजड, अतीस, वच, चिरायता, नागरमोथा, कांकडासींगी,
 धमासा, कंजा, पाठल, काष्ठपाठला, कुटकी, कटेरी, पटोलपत्र, नीमकी छाल,
 गोभी, कसोदी, मैनफल, जटामांसी, ये सब एक एक तोले ले नीमक
 ४ तोले, क्षार २ तोले, और घी ६४ तोले डालके सिद्ध करे, ये कफवात गृध्रसी
 संग्रहणी, गोला, श्वास, खांसी और बवासीर वाले रोगियोंको हितकारी है और
 बहुत दिनके ज्वरवालोंको अमृत तुल्य है ॥

अमृताद्यघृत ।

अमृतात्रिफलापटोलयासैःसपयस्कविधिवद्घृतंविपक्वम् ।

विपमज्वरनाशनंप्रधानंक्षयगुल्मारुचिकामलापहारि ॥

अर्थ—गिलोय, त्रिफला, पटोलपत्र और धमासा, इनका अथवा कल्क, दूध
 और घृत ये सब एकत्र कर घृत सिद्ध करावे तो ये विपमज्वर, क्षय, गुल्म,
 अरुचि और कामला इनका नाश करे ॥

गुडूच्यादिघृत ।

गुडूच्यारसकल्काभ्यांत्रिफलाधारसेनतु ।

मृद्रीकावातलायाश्चसिद्धाःस्नेहाज्वरच्छिदः ॥

अर्थ—गिलोयके कल्क और रससे तथा त्रिफलाके रससे, अथवा दास और
 खरेटीके रससे सिद्ध कराइया घृत ज्वरको दूर करताहै ॥

पंचतित्तघृत ।

घृतनिंवामृताव्याघ्रीपटोलानांकृतेनच ॥ कल्केनपक्वसर्पिस्तु-
निहन्याद्विपमज्वरान् ॥ पांडुंकुण्डं विसर्पचकृमीनशांसिनाशयेत् ॥

अर्थ—अडूसा, नीमकीछाल, गिलोय, कटेरी और पटोलपत्र इनके फल्क करके सिद्ध करा हुआ घृत विपमज्वर, पांडु, कोढ़, विसर्प, कृमि और ववासीर इनको दूर करे ॥

द्वितीयअमृताद्यघृत ।

अमृतात्रिफलापटोलयासैःसपयस्कंविधिवद्घृतंविपक्वम् ॥

ससंधवैश्वपलिकैर्घृतप्रस्थंविपाचयेत् ॥ क्षीरंचतुर्गुणंदद्यात्त-

द्घृतंश्रीहनाशनम् ॥ विपमज्वरमंदाग्निहरंरुचिकरंपरम् ॥

अर्थ—गिलोय, त्रिफला, पटोलपत्र और जवासा, तथा दूध, तथा संधानिमक इनसे विधिपूर्वक घृत सिद्ध करे। इसमें सेरभर घी और चारसेर दूध डालके सिद्ध करे ये घृत शीह, विपमज्वर, मंदाग्नि और अरुचि इनको दूर करे ॥

महापट्पलघृत ।

पूतिकाग्निपंचकोलरुचकैःसाजाजियुग्मोद्भिदैःसक्षरैःस-

विडैःसहिंयुहबुपासिंधूद्रवैःकल्कितैः ॥ सूक्तेनार्द्रकसंभवेन

चरसेनैतन्महापट्पलंसर्पिःपक्वमरोचकाग्निसदनश्रीहज्वरश्वा-

सजित् ॥

अर्थ—कंजा, चित्रक, सोंठ, मिरच, पीपल, पीपरामूल, चव्य, जीरा, काला जीरा, सजीरार, जवाखार, विडनोन, हींग, हाऊवेर और संधानिमक इनका चूर्ण कौंजीमें अथवा अदरखके रसमें मिलाय और उसमें घृत मिलायके अभिद्वारा सिद्ध करे इसको पट्पलघृत कहते है ये शीहा, विपमज्वर और अरुचि इनको दूर करे ॥

दूसराप्रकार ।

पिप्पलीपिप्पलीमूलंचव्यचित्रकनागरैः । ससंधवैश्वपलिकैर्घृ-

तप्रस्थंविपाचयेत् ॥ क्षीरंचतुर्गुणंदत्वात्तद्घृतंश्रीहनाशनम् ॥

विपमज्वरमंदाग्निहरंरुचिकरंपरम् ॥

अर्थ-पीपर, पीपरामूल, चव्य, चित्रक, सोंठ और सैंधानिमक ये सब औषध ४ तोलेके प्रमाण लेकर कूट पीस चाँगुने पानीमें डालके काढा करे इस काढेमें घी ६४ तोले डालके औटावे इसको महापद्मपलघृत कहते हैं, ये ग्रीहा, विषमज्वर, मंदाग्नि और अरुचि इनको दूर करे ॥

लघुलाक्षादितैल ।

लाक्षाहरिद्रामंजिष्ठाकल्कैस्तैलंविपाचयेत् ॥

पद्गुणेनारनालेनदाहशीतज्वरापहम् ॥

अर्थ-लाख, हलदी और मँजीठ, इनका कल्क और तेलसे छः गुनी कांजी मिलायके तेलको सिद्ध करे तो यह तेल दाह और शीतज्वर इनका नाश करे ॥

लाक्षादितैल ।

लाक्षादशाक्षाअरुणातदर्धासचंदनंलोहितचंदनंच ॥ त्वक्पत्र-
कंवारिमुरासमुस्ताप्रत्येकमेतानिपलोन्मितानि ॥ किरातति-
क्तस्त्रिवृतासविश्वामृताकणापर्पटकंटकार्यः ॥ विडंगविश्वाम-
लकानिवासारसानिशावारुणसिंधुवाराः ॥ एतानिदेयानिपृ-
थक्पलार्धमानानिसर्वाणिचऔषधानि ॥ कल्कंक्षमीपांवि-
दधीतगव्यदुग्धेनवैसार्धतुलोन्मितेन ॥ तैलंतिलानांतुतुला-
नुमानंतेनैवकल्केनशनैः पचेत्तत् ॥ हन्याज्वरांस्तैलमिदंस-
मस्तान्कुर्याद्रलंवीर्यमतीवपुष्टम् ॥ विमर्दनादाशुपरिश्रमंभ्रमं
शमनयेत्संजनयेद्दृष्टितितनोः ॥ तथाव्यथामस्थिसमुद्भवाम-
पिप्रहृत्यनिद्रांसमुपार्जयेत्सुखम् ॥

अर्थ-लाख १० तोले, मँजीठ ५ तोले, चंदन, लालचंदन, दालचिनी, तमा-
लपत्र, नेत्रवाला, एकांगीमुरा और नागरमोथा, ये प्रत्येक चार २ तोलेप्रमाण
लेवे, तथां चिरायता, निसोथ, सोंठ, गिलोय, पीपर, पित्तपापडा, फटेरी, वाय-
विडंग, सोंठ, आमले, अडूसा, हलदी, यरना और निर्गुडी, ये प्रत्येक दो दो
तोले लेवे, सब औषधोंका कल्ककर ६०० तोले गोके दूधमें मिलाय उसमें ४००
तोले तिलका तेल मिलायके तेलपाक विधिसे सिद्ध करे ये तेल सर्वज्वरका
नाश करे और बलवीर्य तथा पुष्टी इनको करे । इसके मर्दनसे भ्रम, भ्रम,

शांतिहो, शरीरमें कांति और हड्डियोंकी पीडा नष्ट कर निद्रा और सुखको उत्पन्न करे ॥

मध्यमलाक्षादितैल ।

तैलंप्रस्थमितंचतुर्गुणजतुक्त्वाथंचतुर्मुस्तुरुग्यष्टीदारुनिशाब्द-
मूर्वकटुकामिश्रश्चकौंतीहिमैः ॥ रास्नाह्वैःपिचुसंमितैः कृत
मिदंशस्तंतुजीर्णज्वरेसर्वस्मिन्विषमेषिपयक्ष्मणिशिशौवृद्धेसग-
भांसुच ॥

अर्थ—तेल ६४ तोले, चींगुना लाखका काठा उसमें नागरमोथा, कूठ, मुल-
हदी, दारुहलदी, मोथा, मूर्वा, कुटकी, सोंफ, रेणुका, चंदन, रास्ना, ये एक २
तोले सब लेकर इनका कल्क लाखके काठमें डालके औंटापकर तेल सिद्ध
करावे इस तेलके मालिससे जीर्ण ज्वर, सर्व विषमज्वर राजयक्ष्मा, गर्भिणीके
रोग और प्रसूत ये दूर हो ॥

पद्मकृतैल ।

लाक्षानिशाकुप्टशुंठीमंजिष्ठाचसुवर्चिका ॥ मूर्वाचंदनसंसिद्धेतै
लंतक्रेथपद्मगुणे ॥ अभ्यंगेनप्रशमयेदाहंशीतज्वरंनृणाम् ॥

अर्थ—लाख, हलदी, कूठ, सोंठ, मंजीठ, सजीखार, मूर्वा और चंदन इन-
के काठमें तेल, तेलसे छः गुनी छौंछ मिलायके तेल सिद्ध करे इसके मालिस
करनेसे दाहज्वर और शीतज्वर नष्ट हो ॥

स्वर्जिकाद्यतैल ।

स्वर्जिकाकुप्टमंजिष्ठालाक्षामूर्वाविपौपथैः ॥

सक्षीरैः साधितंतैलमभ्यंगादाहशीतनुत् ॥

अर्थ—सजीखार, कूठ, मंजीठ, लाख मूर्वा, सोंठ और अतीस इनके काठमें
दूध डाल और तेल डालके औंटावे इस तेलके मालिश करनेसे दाह तथा
शीतज्वर, इनको दूर करे ॥

बलाद्यतैल ।

बलामधुकमंजिष्ठापद्मपद्मकचंदनैः ॥ समुद्रफेनह्वैररजनीगै
रिकोत्पलैः ॥ पिष्टैरैतैः पचेत्तैलमस्तुक्षीरचतुर्गुणम् ॥ वातपि
त्तज्वराजीर्णात्तेनाभ्यक्तोविमुच्यते ॥

अर्थ-खरेटीकीजड, मुलहदी, मंजीठ, पद्मास्र, अंडकीजड, चंदन, समुद्र-फेन, सोंठ, हलदी, गेरू और कमलगट्टा, इनका कल्क करके उसमें तेल और दूध तथा दहीका तोड़ दूधसे चौगुना डालके तेल सिद्ध करे, तो यह बलादि-तेल मालिश करनेसे वातापित्तज्वर और जीर्णज्वर इनका नाश करे ॥

पटोलाद्यस्नेह ।

पटोलपिचुमंदाभ्यांगुडूच्यामलकेनच ॥

मदनैश्चशतः स्नेहोज्वरघ्नमनुवासनम् ॥

अर्थ-पटोलपत्र, नीमकी छाल, गिलोय, आमले और मैनफल, इनके काटेसे सिद्धकराहुआ तेल ज्वरमें पिचकारी द्वारा गुदामें देय तो ज्वरको नाश करे ॥

चंदनाद्यनुवासन ।

चंदनोत्पलकाश्मर्यमधुकागरुमूलकैः ॥

सिद्धतैलंविधातव्यं वस्तौसर्वज्वरापहम् ॥

अर्थ-चंदन, कमलगट्टा, कंभारी, महुआके फूल, अगर, तथा मूली इनके काटेसे सिद्ध करे हुए तेलकी अनुवासन वस्ति करनेसे संपूर्ण ज्वरोंको दूर करे ॥

पटोलाद्यनुवासन ।

पटोलमदनारिष्टगुडूचीमधुकैः स्मृतम् ॥ श्वदंष्ट्रामदनंगुंगामधु

कारिष्टवासकैः ॥ अश्वगंधेति तैलस्यकार्पिकैराढकंपचेत् ॥

अनुवासनकेतैलंसर्वज्वरविनाशनम् ॥ कृच्छ्रान्वातविकारांश्च

नाशयेदपिचोत्थितान् ॥

अर्थ-पटोलपत्र, मैनफल, नीमकी छाल, गिलोय, महुआके फूल, गोखर, खैर, कांकडासिंगी, मुलहदी, रीठा, जइसा और असगंध, ये प्रत्येक तोले २ लेकर काढा करे इसमें २५६ तोले तेल डालके पचावे, इस तेलसे अनुवास वस्ति करनेसे संपूर्ण ज्वर और कृच्छ्रान्वातविकारोंका नाश करे ॥

आरग्वधादिनिरूहवस्ति ।

आरग्वधमुशीरंचमदनस्यफलानिच ॥ पण्यंश्चतस्रोमधुकं-

निरूहमनुकल्पयेत् ॥ प्रियंगुमदनंमुस्तंमधुकंचशताह्वयम् ॥

कल्कः सर्पिगुंडक्षौद्रैर्ज्वरघ्नोवस्तिरुत्तमः ॥

अर्थ—अमलतासका गूदा, खस, मैनफल, चारप्रकारकी पर्णी और मुलहटी इनका काढा करके निरूह बस्ती करावे अथवा फूल मियंगु, मैनफल, मोथा, मुलहटी और सतावर इनका फल्क, घी गुड और शहत लायके इनकी बस्ती देवे यह उत्तम ज्वरघ्न है ॥

तैलपाकविधि ।

घृततैलगुडादींस्तुएकाहात्रैवसाधयेत् ॥ उपितास्तुप्रकुर्वति
विशेषेणगुणान्वहून् ॥ स्नेहकल्कोयदांगुल्यावर्तितोवर्तितवद्भ
वेत् ॥ वह्नौक्षितेचनोशब्दस्तदासिद्धंविनिर्दिशेत् ॥

अर्थ—घृत, तेल और गुड आदि औषधोंको एकदिनमें सिद्ध नकरे, वासीहोनेसे विशेष गुण करतेहैं । जिससमय तेलमें कल्क औटावे और औटतेरुँगलियोंमें मसलनेसे बत्तीके समान हो जावे और तेल अप्रिमें डालनेसे चरचर शब्द न करे उस समय तेल सिद्ध हुआ ऐसा जानना ॥

मंद मध्यम व तीक्ष्णस्नेहपाक ।

नस्येमृदुःखरोभ्यंगेस्नेहेकिट्टंतुमध्यमम् ॥

नातिस्थिरंपचेद्भस्तौखरमभ्यजनेपचेत् ॥

अर्थ—स्नेह नस्यविषयमें मृदु रखना चाहिये, उबटनेकेलिये खर (तेज) पाककरे मध्यम स्नेह कल्कका किट्टहोने पर्यंत पचन करावे उसीको बस्ति विषयमें तीव्र पचावे ॥

खरपाकलक्षण ।

स्नेहपाकोत्थकल्केस्यान्मृदुरंगुलिकेपिन ॥

अगृह्णात्यंगुलिमथशीर्यमाणोखरः स्मृतः ॥

अर्थ—पाककेसमय स्नेहपाकमें कल्क मृदुभी नहीं, औटानेमें फाढाभी न होजावे उँगलियोंपर मलनेसे उँगलियोंको पकडे नहीं, फैल जावे उसे खरपाक जानना ॥

खर व मृदुपाककाफल ।

खरोभ्यंगेमृदुर्नस्येमध्यः स्याद्धस्तिपानयोः ॥ परंपाकोमृदुःका-
योद्रव्यस्यनखरोमतः ॥ किंचित्तुशीर्यमादत्तेनजहातिखरःपुनः ॥

अर्थ—खर पाक स्नेह उबटनेके विषय, और मध्यपाक बस्ति और पीनेके विषय देवे, परंतु द्रव्यपाक मृदु करावे, खरन करे खरपाक होनेसे मस्तक शूलादि विकारोंको करे है और यह छुटता नहीं है ॥

चंदनवलातैल ।

चंदनचवलामूललाक्षालामज्जकंतथा ॥ पृथक्पृथक्प्रस्थमात्रं
द्रोणेचसलिलेपचेत् ॥ चतुर्भागावशेषेस्मिन्नतैलंप्रस्थद्वयंक्षि-
पेत् ॥ चंदनोशीरमधुकशताह्वाकडुरोहिणी ॥ देवदारुनिशा-
कुष्टमंजिष्ठागुरुवालकम् ॥ अश्वगंधावलादावीमूर्वासुस्तासमू-
लिका ॥ एलात्वङ्नागकुसुमंराह्वालाक्षासुगंधिका ॥ चंप-
कंपोतसारंचसारिवारोचकद्वयम् ॥ कल्कैरेतैः समायुक्तंक्षीराढ-
कसमन्वितम् ॥ तैलमभ्यंजनेत्रेष्टंसप्तधातुविवर्धनम् ॥ कासश्वा-
सक्षयहरंसर्वच्छर्दिनिवारणम् ॥ असृग्दरंरक्तपित्तहंतिपित्तक-
फामयम् ॥ कांतिकृदाहशमनंकंठूविस्फोटनाशनम् ॥ शिरोरोगं-
नेत्रदाहमंगदाहंचनाशयेत् ॥ वातामयहतानांचक्षीणानांक्षी-
णरेतसाम् ॥ वालमध्यमवृद्धानांशस्यतेशोफकामलाम् ॥
पांडुरोगंविशेषेणज्वरान्सर्वान्विनाशयेत् ॥

अर्थ—चंदन, खैरटीकी जड़, लाख और नेत्रवाला, ये चार औषध पृथक्कर
चौसठ तोले ले १०२४ तोले जलमें आंटावे जब पानी चतुर्थांश बाकी रहें तब
तेल १२८ तोले डालके फिर चंदन, नेत्रवाला, महुआके फूल, सोंफ, छुटकी, देव-
दार, हलदी, कूठ, मर्जाठ, अगर, रस, असर्गंध, खैरटी, दारुहलदी, मूर्वा, नागर-
मोथा, इलायची, दालचीनी, नागकेशर, रास्ना, लास, निर्गुडी, चंपा, सिलारस,
सारिवा संधानिमक और संचरनोन ये सब समान भाग लेके फलकरे पीछे यह
फलक और दूध २५६ तोले मिलायके आंटावे जब तेल सिद्ध होजावे तब उता-
रके धर रखे । इसे मालिश करे तो सातों धातु बढ़ावे तथा कांति करे खाँसी,
श्वास, क्षय, वमन, प्रदर, रक्तपित्त, फफ, दाह, खजली, फोडा मस्तकशूल, नेत्र-
दाह, जगदाह और चादीके रोग इनको नाश करे तथा क्षीण धातुक्षीण बालक,
तरुण और पृष्ठ, इनको हितकारी है, तथा सृजन, कामला, पांडु और ज्वर
इत्यादिकोंको नाश करे ॥

अश्वगंधादितैल ।

अश्वगंधावलालाक्षाप्रस्थंप्रस्थंपृथक्पृथक् ॥ जलेद्रोणेविष-

क्तव्यंचतुर्भागावशेषितम् ॥ तैलं त्रिमानकंपद्यादधिमस्तुचतुर्गुणम् ॥ अश्वगंधाशिलादारूकौंतीकुण्डचंदनैः ॥ निशातिक्ताशताह्वाचलाक्षामूर्वासमूलकैः ॥ सुरादारुचमंजिष्ठामधुकौशीरसारिवा ॥ समभागानिसर्वाणिकल्कीकृत्यविपाचयेत् ॥ सर्वज्वरान्हरत्याशुसर्वधातुविवर्धनम् ॥ एतदभ्यंजनेनाशुक्षयरोगंविमुंचति ॥

अर्थ—असगंध, खरेटी, लाख, प्रत्येक, ६४ तोले ले १०२४ तोले जलमें काढा करे, जब चतुर्थांश रहे तब १९२ तोले तेल डालके फाँड़ेसे चाँगुना दहीका तोड डाले, फिर असगंध, मनसिल, दारुहलदी, रेणुका, कूठ, नागरमोथा, चंदन, हलदी, कुटकी, सौफ, लाख, मूर्वा, देवदार, मंजीठ, महुआके फूल, खस, सारिवा ये सब औषध कूटके डाले और तेलको औटावे जब सिद्ध हो जाय तब उतारके धर रखे इसकी मालिश करनेसे सर्व प्रकारके ज्वरनाश होंय, तथा ये धातु बढ़ावे और क्षयरोगको नष्ट करे ॥

वृहल्लाक्षादितैल ।

तैलं लाक्षारसंक्षीरं पृथक् प्रस्थं समंपचेत् ॥ चतुर्गुणेरिते काथेद्रव्यैरेतैः पलोन्मितैः ॥ लोभ्रकट्फलमंजिष्ठामुस्तकेसरपद्मकैः ॥ चंदनोशीरयष्ट्याह्वैस्तेलंगंडूपधारणात् ॥ दंतरोगाः प्रणश्यन्तिलेपात्सर्वाञ्ज्वराञ्जयेत् ॥ एतल्लाक्षादिकंतैलंबलपुष्टिप्रदायकम् ॥

अर्थ—लाखका काढा, दूध, ये प्रत्येक, ६४ तोले लेके चतुर्थांश काढा करे उसमें लोध, फायफल, मंजीठ, नागरमोथा, केशर, पद्मास, चंदन, नेत्रवाला, और मुलडी, ये सब औषध चार २ तोले ले, कूटके फलकफरे इसको पूर्वोक्त फपायमें मिलायके औटावे तो यह लाक्षादि तैल बनकर तयार हो इसको देहमें मालिश करे तो “सर्वज्वर” दूर हो तथा दाँतोंके रोग दूरहो ॥

पंचममहालाक्षादितैल ।

लाक्षाहरिद्रामंजिष्ठाफेनिलंमधुकंचला ॥ लामन्नकंचंदनंचचंपकंनीलमुत्पलम् ॥ प्रत्येकमेपांपण्मुष्टीः पक्त्वातोयेचतुर्गुणे ॥

चतुर्भागावशेषेतुर्गर्भैश्चैतत्समावपेत् ॥ रेणुकापद्मकंचैववाजि-
गंधातथैवच ॥ वेतसंचोरकंकुपुटं देवदारुनखंत्वचम् ॥ शतपुष्पां
पुंडरीकं मांसीमधुकमेवच ॥ एभिरक्षमितैः कल्कैः कपायेणै-
वपेषितैः ॥ मस्तुसूक्तारनालानामाढकाढकमावपेत् ॥ क्षी-
राढकसमायुक्तं तैलप्रस्थं विपाचयेत् ॥ अभ्यंगात्तैलमेतद्धि-
शीघ्रं दाहमपोहति ॥ व्यपोहतितथावातपित्तश्लेष्मं भवं ज्वरम् ॥
सप्रलापं सतृष्णं च तालुशोषभ्रमान्वितम् ॥ ग्रहोपसृष्टायेवालार
क्षः संद्रूपिताश्रये ॥ तेषां कपुंड्रं शमयते तैलं लाक्षादिकं महत् ॥

अर्थ—लाख, हलदी, मंजीठ, वेर, मुलहठी, खरेदी, चंदन, चंपाकेपुष्प
नीलकमल, ये प्रत्येक २४ तोले लें और इन सब औषधोंके चौगुना जल
डालके आँटावेजव चतुर्थांश रहे तब इसमें रेणुका, पद्माख, असर्गंध, वेत, गठो-
ना, कूट, देवदारु, नख, दालचीनी, सौंफ, कमल, जयमांसी, मुलहठी, ये प्रत्ये
क औषध तोले २ भरले कूट पीस पूर्वोक्त काठेमें ढाल देवे फिर दहीका पानी
कांजी, सिरका, दूध, ये प्रत्येक ५५६ तोले ले सबको मिलाय इसमें ६४ तोले
तेल तथा २५६ तोले दूध डालके पकावे जब तैल मात्र आय रहे तब जानेकी
सिद्ध होगया इसके मालिश करनेसे दाह, वादी, कफ, सर्वे ज्वर, इनको नाश-
करे तथा ग्रह, राक्षस, इनकी पीडासे पीडित बालककी पीडा शांत करेहे ॥

निरूहवस्तिद्रव्यमान ।

एकादशाष्टौपट्टकंच कशायस्य पलं मतं ॥ कफपित्तानिलोत्थे-
पुविकारेपुयथाक्रमम् ॥ स्नेहस्य त्रिचतुःपट्टचश्चत्वारो मधुनस्त-
था ॥ तथा द्रव्यंतुकल्कस्य कर्पः स्यात्संधवस्य च ॥ रसक्षीराम्ल-
मत्स्यानामेकैकं प्रक्षिपेत्पलम् ॥ निरूहकल्पनामात्राकथितै-
पामर्हापिणा ॥

अर्थ—निरूहवस्तीमें काठा लेना होय तो कफमें ११ तोले पित्तमें ८ तोले
वातमें ६ तोले इसप्रकार लेव और सहत तथा स्नेह लेना होय तो कफ, वात,
और पित्त इनमें क्रमसे ४ - ६ - और ४ पल लेवे तथा कल्क दो पल संधा-
निमक १ तोला और मांसरस, दूध, खटाई, मछली, डालना होय तो चारचार
ले डालना, ये निरूहवस्तीमें द्रव्य डालनेका मान महर्हापिणे कहाहे ॥

चतुर्थलाक्षादितैल ।

लाक्षारससमतैलंतैलान्मस्तुचतुर्गुणम् ॥ अश्वगंधानिशादारु
कौंतीकुष्ठाब्दचंदनैः ॥ समूर्वारोहिणीरास्नाशताह्वामधुकैः
समैः ॥ सिद्धंलाक्षादिकं नामतैलमभ्यंजनादिना ॥ सर्वज्वरक्ष
योन्मादश्वासापस्मारवातनुत् ॥ यक्षराक्षसभूतघ्नगर्भिणीनां
चशस्यते ॥

अर्थ-लाखका काठा, तथा काठके तुल्य तिलका तेल और तेलसे चौगुना
दहीकाजल और असगंध, हलदी, देवदारु, रेणुका, कूट, नागरमोथा, चंदन
मूर्वा, कुटकी, रास्ना, शतावर और मुलहठी ये औषध समानभाग डालके तेल
सिद्धकरे यह लाक्षादितैल, मालिश अथवा पीनेसे, सर्वज्वर, क्षय, उन्माद, श्वास,
सृग्गी, वादीके रोग, यक्ष और राक्षसकी बाधा, तथा भूतबाधा, इनको दूर
करे और गर्भिणीको हितकारी है ॥

घृत वा तैलपक्वहुएकीपरीक्षा ।

शब्दव्युपरमेप्राप्तेफेनव्युपरमेतथा ॥ गंधवर्णरसादीनांसम्य
क्त्वेसिद्धमादिशेत् ॥ फेनातिमात्रंतैलस्यशब्दंघृतवदादिशेत् ॥

अर्थ-घृततेल आदिकी सिद्धीके समय कटकट शब्द बंद हो जावे, झागोंका आना
बंद हो जाय, तथा गंध, वर्ण और रस इनकी शुद्धता होनेपर जाने कि अब
घृत अथवा तेल सिद्ध हो गया ॥

औषधिकितनेदिनउपयोगपडतीहै ।

पक्वतैलोद्भवेवीर्यहीनमद्दार्धतःपरं ॥ घृताच्चाब्दात्पुरावृद्ध्यागु
डादेस्त्वद्दतः परं ॥ गुणहीनं भवेद्द्रुपर्दाूर्ध्वतो न्यूनमौषधं ॥ मास
द्वयात्तथाचूर्णहीनवीर्यप्रजायते ॥ हीनत्वंगुटिकालेहाद्द्वयच्चा
त्तेवत्सरात्परं ॥ हीनाः स्युर्घृततैलाद्याश्चातुर्मासाधिकास्तथा ॥

अर्थ-सिद्धहुआ तेल १ वर्षके, पश्चात् हीनवीर्य होता है, उसीप्रकार घृत पक्व
वर्ष पर्यंत उत्तमगुणकरताहै और गुड आदि वर्षादिनके उपरांत गुणकारी होते हैं
सामान्यकाष्ठौषधी एकवर्ष व्यतीत होनेपर हीनवीर्य होजाती है, चूर्ण दोमहिने
में हीन वीर्य होता है, तथा गुटका और अवलेह दोवर्षमें हीनवीर्य होते हैं और
घृत तेल आदिद्रव्य चार महीनेके अनंतर हीनवीर्य हो जाते हैं ॥

दूसरामहाज्वरांकुश ।

शुद्धसूतोविपंगंधःप्रत्येकंशाणसंमिताः ॥ धूर्त वीजंत्रिशाणं-
स्यात्सर्वेभ्योद्विगुणाभवेत् ॥ हेमाह्वाकारयेदेपांसूक्ष्मचूर्णप्र-
यत्नतः । देयंजंवीरमजाभिश्चूर्णगुंजाद्रयोन्मितम् ॥ आर्द्रकस्व-
रसैर्वापिज्वरंहंतित्रिदोषजम् ॥ एकाहिकंवाद्द्वयाहिकंवात्र्याहि-
कंचचतुर्थकं ॥ विपमंचज्वरंहन्याद्विख्यातोयंज्वरांकुशः ॥

अर्थ—शुद्धपारा ३ मासे, शुद्धविष ३ मासे, गंधक ३ मासे, धतूरेकेबीज ९ मासे, चूक सबसे दुगना इन सबका चूर्ण कर जंभीरीके रससे खरल कर दौरती-की गोली बनावे १ गोली अदरखके रससे खाय तो त्रिदोषज ज्वर, एकाहिक व्याहिक, त्र्याहिक, चातुर्थिक, विपम तथा दिनरात्रिमें आनेवाला ज्वरदूर हो, इसको (महाज्वरांकुश) कहते हैं, यदि जंभीरीका रस न मिले तो अदरखके रसमें ही घोट कर गोली बनावे ॥

ज्वरघ्नीवटिका ।

एकोभागोरसाच्छुद्धाच्छैलेयः पिप्पलीशिवा ॥ आकारकर-
भोगंधः कटुतैलेनशोधितः ॥ फलानिचेंद्रवारुण्याश्चतुर्भाग-
मिताभापि ॥ एकत्रमर्दयेच्चूर्णमिंद्रवारुणिकारसैः ॥ मापोन्मि-
तांवर्दीकृत्वाद्दद्यात्सद्योज्वरेबुधः ॥ छिन्नारसानुपानेनज्वर-
घ्नीवटिकामता ॥

अर्थ—शुद्धपारा १ भाग, एलुआ शुद्ध, पीपल, हरड, अकरकरहा, कटुपतैलमें शुद्ध करी गंधक और इन्द्रायणके फल ये प्रत्येक चार २ भागलेवे सबको इन्द्रा-यण के फलके रसमें खरलकर १ मासेकी गोली बनावे १ गोली गिलोयके रसके साथ ज्वरमें देवे तो यह (ज्वरघ्नीवटिका) तत्काल ज्वरोंको दूर करे ॥

दूसराज्वरमुरारि ।

त्रिः सतजंभजलभावितक्षर्परस्यचूर्णानिशोत्थनवनीतविमर्दि-
तंस्यात् ॥ बल्लद्वयंहरतिशर्करयानुपानंसद्योज्वरंज्वरमुरारि-
रसश्चपुंसाम् ॥

अर्थ—खपरियाके चूर्णमें नीचूके रसकी २ १ भावना देय फिर ताजे मक्खनमें

खरल करे इसकी मात्रा ४ रत्ती मिर्चीके साथ देवे तो यह सद्यज्वरको नाश करे इसे (ज्वरमुरारि) रस कहते हैं ॥

स्वर्णमालिनीवसंत ।

स्वर्णमुक्तादरदमरिचंभागवृद्ध्याप्रदेयंखपर्यष्टौप्रथमनवनीते-
नानिब्वंशुनाच ॥ यावत्स्नेहोन्नजतिविलयंमर्दयेद्दीयतेसौगुञ्जा
द्वंद्वंमधुचपलयासर्वरोगवसंतः ॥

अर्थ-सुवर्ण १ तोला, मोती २ तोले, कालीमिरच ३ तोले और खपरिया ८ तोले इनका चूर्णकर मक्खनमें घोंटे, फिर नीचूके रसमें जबतक घोंटे कि, चिकनाई न रहे इसको २ रत्ती शहत, पीपलके साथ देवे ये सर्वरोगोंपर चलती है इसे (स्वर्णमालिनी) कहते हैं ॥

लघुमालिनीवसंत ।

रसकयुगलभागंवलिजंभागमेकंद्वितयमथसुखल्वेमर्दयेन्मसृणे
न ॥ भवतिघृतविमुक्तोनिंबुनीरेणयावज्ज्वरहरमधुकुल्योमा
लिनीप्राग्वसंतः ॥ जीर्णज्वरेधातुगतेऽतिसारेरक्तान्चितेरक्त
भवेविकारे ॥ घोरव्यथेपित्तभवेचदोषेवल्लद्वयदुग्धयुतंचप
थ्यम् ॥ प्रदरं नाशयत्याशुतथादुर्नामशोणितम् ॥ विपमनेत्ररोगं
चगजेंद्रमिवकेसरी ॥ वसंतोमालिनीपूर्वःसर्वरोगहरः शिशोः ॥
गर्भिण्यैतच्चदेयंचजयंत्यापुष्पैर्युतम् ॥ सर्वज्वरहरंश्रेष्ठं गर्भपा-
लनमुत्तमम् ॥

अर्थ-खपरिया २ तोले, कालीमिरच १ तोले, दोनोंको एकत्रकर मक्खनमें घोंटे फिर नीचूके रसमें चिकनाई दूर होने पर्यंत घोंटे, इसमेंसे ४ रत्ती शहत और पीपलके चूर्ण के साथ देवे इमें (मालिनीवसंत) रस कहते हैं। यह जीर्णज्वर, धातुगतज्वर, अतिसार, रक्तातिसार, रुधिरसे उठे विकार, घोर पित्तविकार, प्रदर अशंसंबंधी रुधिर-विपमज्वर और नेत्ररोग इनमें देवे यह हार्याको सिंहके समान सर्वरोग नाशक है तथा जयंतीके पुष्पके साथ गर्भिणीको देय तो सर्व-ज्वरोंको नाश करके गर्भको उत्तमरीतिसे पालन करे इसपर दूध भातकी पथ्य देवे ॥

दाव्यादिवटिका ।

दारुनिशाशिखित्रीवारसकंचपृथक्पृथक् ॥ टंकंवयानुमाने
नगृहीत्वाकनकद्रवैः ॥ मर्दयेत्त्रिदिनंकार्यावटीचणकमात्रया ॥
मरीचैरेकविंशत्यासप्तभिस्तुलसीदलैः ॥ खादेद्वटीद्वयंपथ्यदु-
ग्धभक्तंसर्करम् ॥ तरुणविपमंजीर्णहन्यात्सर्वज्वरंध्रुवम् ॥

अर्थ—दारुहलदी ३ तोले, लीलायोथा ३ तोले, खपरिया ३ तोले, इस प्रकार लेकर धतूरेके रसमें ३ दिन खरलकरे, चनेके प्रमाण गोली बनावे उसको पच्चीस कालीमिरच और ७ पत्ते तुलसीके साथ दो गोली देवे और दूध भात मिश्री ये पथ्यमें देय तो तरुणज्वर, विपमज्वर और जीर्णज्वर, इत्यादि सर्व-ज्वरोंका नाश करे इसे दाव्यादिवटी कहते हैं ॥

हुताशनरस ।

नागरंकर्पमात्रंस्यात्कर्पमात्रंचटंकणम् ॥ मरिचंसार्धकर्पस्या-
त्तावद्गधवराटकम् ॥ विपंकर्पचतुर्थांशंसर्वमेकत्रचूर्णयेत् ॥
रसोहुताशनोनाम्नाखाद्योगुंजामितोज्वरे ॥

अर्थ—सांठ १ तोले, सुहागा १ तोले, कालीमिरच १ तोले, फौडीकी भस्म १ तोले, विष पाव तोले इन सबका चूर्ण कर लेवे इसे (हुताशनरस) कहते हैं १ रत्नी पानके साथ देनेसे ज्वरोंको दूर करे ॥

दूसरालघुमालिनीवसंत ।

खर्परमानुपेमूत्रेस्थितंपस्त्रेत्रिसप्तकम् ॥ निस्त्वक्तदधमरिचंन
वनीतेनमर्दयेत् ॥ शतधाभावयेत्त्रिंबुरसैःस्याद्रसकेश्वरः ॥ पि-
प्पलीमधुयुग्दत्तः ससितोवास्यभेपजम् ॥ ज्वरंधातुगतंपित्तभ्रम-
पित्तास्रजान्गदान् ॥ रक्तातिसारग्रहणीदुर्नामास्रनिवारयेत् ॥
अनम्लदधिवादुग्धंपथ्यंचास्मिन्प्रयोजयेत् ॥

अर्थ—खपरियाको २१ दिन मनुष्यके सूत्रमें भिगोवे फिर बाईसवें दिन निकाल चूर्ण कर इसे आधी धुलीहुई काली मिरच डालके चूर्ण करे, फिर मक्खनमें धोटेके नींबूके रसकी १०० भावना देवे, तो यह रस तैयार हो, यह (रसकेश्वर) पीपल और शहत तथा मिश्री इनके साथ देवे तो धातुगत ज्वर पित्त-

ध्रम, रक्तपित्त, रक्तातिसार, संग्रहणी, अश्विकार, इनको नाश करे इसपर मीठा दही अथवा दूध पथ्यमें देवे ॥

अपूर्वमालिनीवसंत ।

वैक्रांतमभ्रंरविताप्यरौष्यवंगंप्रवालंरसभस्मलोहम् ॥ सुटंकणं
कंबुकभस्मसर्वसमांशकंपाच्यवरीहरिद्रः ॥ द्रव्यैर्विभाव्यंमुनि
संख्ययाचमृगांकजाशीतकरेणपश्चात् ॥ बल्लप्रमाणोमधुपि
प्पलीभिर्जीर्णज्वरेधातुगतेनियोज्यः ॥ गुडूचिकासत्वसिता
युतश्चसर्वप्रमेहेषुनियोजनीयः ॥ कृच्छ्राश्मरीनिहंत्याशुमातुलुं
ग्यंघ्रिजैर्द्रवैः ॥ रसोवसंतनामायमपूर्वमालिनीपदः ॥

अर्थ-वैक्रांत मणि, अभ्रक, ताश्च, सुवर्ण, माक्षिक, रूपा, वंग, मूंगा, पारा, लोह, इनकी भस्म और मुहागा तथा शंखभस्म, ये समान भाग लेके शतावरी और हलदी, इनकी सात २ भावना देवे और चाँदनीमें धर देवे फिर टिकडी घनायले इसमेंसे २ रत्ती रस शहत पीपलके साथ देय तो जीर्णज्वर धातुगत ज्वर दूरहो और गिलोय सत्वके और मिश्रीके साथ देय तो सर्व प्रमेह दूर हो विजैरेके पत्तेके रससे देय तो पथरी नष्ट हो इस रसको (अपूर्वमालिनी वसंतरस) कहते हैं ॥

दूसरालघुमालिनीवसंत ।

नरांशुमध्येरसकस्यचूर्णदिनानिसप्तत्रिगुणानिपूर्वम् ॥ धृत्वात
पेशोपितमेतदेवनृवारिजीर्णभवतीतियावत् ॥ पलप्रमाणंमरि
चंचनिस्तुपंपलद्वयंस्याद्रसकस्यतस्या ॥ एकत्रसंचूर्णकृतंतदेव
पलार्धकंगोनवनीतकंच ॥ निवृत्त्यतोयेनविमर्दनीयंशतैकमा
नंभिपजावारिष्टम् ॥ बल्लद्वयंचास्यकणामधुभ्यांप्रदापयेद्रचावि
गजस्यकेसरी ॥ नाम्नाप्रसिद्धोरसराजएपःसद्योग्रहण्यामति
सारकेच ॥ ज्वरेक्षयेर्शस्सुतथैवतापेशूलेग्निमांघेनिलजेवि
कारे ॥ प्रदरंनाशयत्याशुतथादुर्नामशोणितम् ॥ विपमनेत्रो
गंचगजेंद्रमिवकेसरी ॥

अर्थ-पोडेके मूत्रमें खपरियाको भिगोय २१ दिनतक धरा रहने दे फिर

धूपमें सूखाय उसका चूर्ण ८ तोले लेवे और ४ तोले मिरचका चूर्ण तथा हिंगुल ८ तोले सबको एकत्रकर दो तोले गौंके मक्खनमें खरलकर फिर १०० नींबूके रसमें खरल करे तो रस बनके तैयारहो इसकी ४ रत्ती मात्रा शहत पीपलके साथ देवे तो यह (व्याधिगजकेशरी रस) संग्रहणी, अतिसार, ज्वर, क्षय, ववासीर, ताप, शूल, मंदाग्नि, वादीका विकार और प्रदर इनको नाश करे तथा अर्श संबंधी रुधिर, विषमज्वर, नेत्ररोग इनमें देवे, यह रोगरूप हाथियोंके मारनेमें सिंहेके समान है ॥

लघुसूचिकाभरणरससन्निपातपर ।

विपंपलमितंसूतः शाणिकंचूर्णयेद्वयम् ॥ तच्चूर्णसंपुटेक्षित्वा
काचलिप्तशरावयोः ॥ मुद्रादत्वाचसंशोष्यततश्चुल्यानिवेश
येत् ॥ वह्निं शनैःशनैः कुर्यात्प्रहरद्वयसंख्यया ॥ ततरुद्धाट्ये-
न्मुद्रामुपरिस्थांशरावकात् ॥ संलग्नोयोभवेत्सूतस्तंगृह्णीया-
च्छनैशनैः ॥ वायुस्पर्शोयथानस्यात्तथाकुप्यानिवेशयेत् ॥
यावत्सूच्यामुखेलग्नः कुप्यानिर्यातिभेपजम् ॥ तावन्मात्रोरसो-
देयोमूर्च्छितेसन्निपातिनि ॥ क्षौरेणप्रस्थितेमूर्धितत्रांगुल्या-
चवर्षयेत् ॥ रक्तभेपजसंपर्कान्मूर्च्छितोपिहिजावति ॥ तथैव-
सर्पदष्टस्तुमृतावस्थोपिजावति ॥ यदातापोभवेत्तस्यमधुरंत-
त्रदीयते ॥

अर्थ—विष ४ तोले, शुद्धपारा ३ मासे, दोनोंको खरलकर चूर्ण करे फिर मिट्टीके प्यालेमें कांचको पीस लेप कर सिद्ध करलेवे इसप्रकार सिद्धकरे कांचके बडे २ दो प्याले लेवे एकमें पूर्वोक्त घुटे पारेको डालके दूसरेसे संपुट बंदकर कपर मिट्टी करके सुखायले फिर चूहेपर धरके मंद मंद अग्नि दौपहर तकदेवे फिर नीचे उतार मुद्राको दूरकर ऊपरके पारेमें लगी हुई भस्मको धीरेरहवासे वचायके युक्तिसे निकाल शीशीमें भरके धर देवे, फिर उस शीशीमें मूईडाले सुई के अग्रभागमें जितनी भस्म लगे इतनी निकाल सन्निपातवाले मनुष्यके मस्तक के बाल दूर कर और किचिन्मात्र चौर देके उसमें भरदेवे और ज्वरतक रुधिर में ये औषधी न मिले तबतक धीरे-डुंगलीसे घिसता रहे इसके रुधिरसे मिलाप होतेही तत्काल सन्निपातकी मूर्च्छा दूर होय उसीप्रकार सर्पका काटा हुआ जो विषसे मूर्च्छित हो घोभी इस उपायके करनेसे बचजावे, यदि इस उपायके पर-

नेसे मनुष्यके देहमें दाह होवे तो गुलकंद, चिलायती अनार, दाख, अंगूर, ईख की गँडेरी, इत्यादि मधुर पदार्थ खावे तो उस रोगीका दाह शांत होय ॥

जलचूडामणिरस ।

भस्मसूतसमंगंधगंधात्पादंमनःशिला ॥ माक्षिकं पिप्पलीव्योषं-
प्रत्येकं शिलयासमम् ॥ चूर्णयेद्भावयेत्पित्तैर्मत्स्यमायूरसंभवैः ॥
सप्तधाभावयेच्छुष्कं देयं गुंजाद्रयेहितम् ॥ तालपर्णीरसश्चानुपं-
चकोलशृतेनवा ॥ जलचूडोरसो नाम सन्निपातं नियच्छति ॥
जलयोगश्च कर्तव्यस्तेन वीर्यं भवेद्रसे ॥

अर्थ—पारेकी भस्म १ तोले, गंधक १ तोले, मेनसिल ३ मासे, सोनामक्खी की भस्म, पीपल, सोंठ, कालीमिरच, सब तीन तीन मासे लेवे सबका चूर्णकर इसको मछलीके पित्तकी सात भावना देवे, उसीप्रकार सात पुट मोरके पित्तकी देवे फिर दो रत्तीकी गोली बनावे, १ गोली मूसलीके रससे अथवा पंचकोलके फाटेसे देवे तो यह (जलचूडामणिरस) संनिपातको दूर करे, इस गोलीको देकर फिर उस रोगी मनुष्यके मस्तकपर शीतल जलका तरडा देवे कि जिससे रसमें वीर्य आनकर संनिपातको दूर करे ॥

कनकसुंदररससन्निपातादिकोंपर ।

कनकस्याष्टशाणाः स्युः सूतोद्वादशभिर्मतः ॥ गंधोपिद्वादश
प्रोक्तस्ताम्रशाणद्वयोन्मितम् ॥ अभ्रकस्य चतुःशाणमाक्षिकं च
द्विशाणकम् ॥ वंगोद्विशाणः सौवीरं त्रिशाणं लोहमष्टकम् ॥ विषं
त्रिशाणिकं कुर्याच्छांगलीपलसंमिता ॥ मर्दयेद्दिनमेकं च रसेर
म्लफलोद्भवैः ॥ दद्यान्मृदुपुटेव न्हौततः सूक्ष्मं विचूर्णयेत् ॥ मा-
पमात्रोरसो देयः सन्निपाते सुदारुणे ॥ आर्द्रकस्वरसेनैवरसो न
स्यरसेनवा ॥ किलासं सर्वकुष्ठानि विसर्पचभगंदरम् ॥ ज्वरंगरम
जीर्णचजयेद्रोगहरोरसः ॥

अर्थ—धतूरेके बीज ८ टंक, पारा १२ टंक, गंधक १२ टंक, ताम्रभस्म २ टंक, अभ्रकभस्म ४ टंक, सोनामक्खीकी भस्म २ टंक, गंधभस्म २ टंक, शुद्धकरा सुरमा ३ टंक, लोहभस्म ८ टंक, शुद्धविष ३ टंक और फँडेरीकी जड़ ४ ताले

सबको एकत्रकर नीबूके रससे एकदिन खरल करे फिर मिट्टीके सरावमें सं-
पुट करके आरने उपलोंमें धरके मंद पुट देवे जब शीतल हो जावे तब सरावमें-
से निकालके चूर्ण कर डाले १ मासे रस संनिपात वाले रोगीको अदरखके रस
के साथ देवे और लहसनके रससे देय तो किलास तथा सर्वप्रकार के कुष्ठ,
वितर्प भगंदर, ज्वर, विपरोग और अजीर्ण इन सब रोगोंको यह (कनकसं-
दररस दूर करे है ॥

सन्निपातभैरवरस ।

रसोगंधस्त्रिस्त्रिकर्पांकुर्यात्कजलिकाद्वयोः ॥ ताराभ्रताम्रवंगा
हिसाराश्चैकैकार्षिकाः ॥ शिशुज्वालामुखीशुंठीविल्वेभ्यस्तं
दुलीयकान् ॥ प्रत्येकंस्वरसैःकुर्याद्दामैकैकंविमर्दयेत् ॥ कृ-
त्वागोलंबृतं वस्त्रे लवणापूरितेन्यसेत् ॥ काचभांडिततःस्थाल्यां
काचकूपीनिवेशयन् ॥ वालुकाभिःप्रपूर्याथवन्हिर्यामद्रयंभवे
त् ॥ ततउद्धृत्यतंगोलंचूर्णयित्वाविमिश्रयेत् ॥ प्रवालचूर्णक
पेणशाणमात्रविपेणच ॥ कृष्णसर्पस्यगरलेदिवसंभावयेत्तथा ॥
तगरंसुसलीमांसीहेमाव्हावेतसः कणा ॥ नलिनीपत्रकंचैला
चित्रकश्चकुठेरकः ॥ शतपुष्पादेवदालीधतूरागस्त्यमुंडिका ॥
मधूकजातिमदनरसैरेपांविमर्दयेत् ॥ प्रत्येकमेकवेल्लंचततःसं-
शोप्यधारयेत् ॥ बीजपूराद्रंकद्रावैर्मरिचैःपोडशोन्मितैः ॥
रसोद्विगुंजाप्रमितःसन्निपातस्यदीयते ॥ प्रसिद्धोयंरसोनाम्ना
सन्निपातस्यभैरवः ॥

अर्थ—शुद्धपारा ३ तोले और गंधक ३ तोले, दोनोंको खरलकर कजली करे फिर
चांदीकी भस्म, अभ्रकभस्म, ताम्रभस्म, वंगभस्म, नागभस्म और लोहभस्म, ये
प्रत्येक तोले २ भर लेंवे सबको पारेगंधककी कजलीमें मिलाय देवे, फिर साहजनके
रससे १ प्रहर खरल करे, ज्वालामुखीके रससे, सांठके काठसे, बेल फलके रससे
और चोलाईके रस इन प्रत्येकमें पृथक् २ एक एक प्रहर खरल करे, फिर इस-
को गोलाकर कांचके पात्रमें रखके दूसेसे सुस बंधकर उस पर कपरामिट्टीकर
के मिट्टीके मटकेको आधा निमकसे भरके बीचमें उस पूर्वोक्त कांचके पात्रको

रखके बाकी सबको निमकसे भर देवे. फिर उस मिट्टीके संपुटको चूल्हेपर चढाय दो प्रहरकी अग्नि देवे जब स्वांग शीतल हो जावे तब उस गोलेमेंसे रसको निकाल चूर्ण कर डाले, और उसमें १ तोले मूँगेका चूर्ण, १ टंक ले शुद्धविष डालके उसमें काले सर्पका जहर मिलायके एक दिन खरलकरे, फिर इस रसको कांचकी शीशीमें भरके वालुका यंत्रमें दो प्रहरकी अग्नि देवे जब शीतल हो जाय तब शीशीमेंसे औषध निकाल खरलमें डालके आगे लिखी औषधोंकी भावना देवे, तगर, मूसली, जटामांसी, चोक, घेत, पीपल, नीलपुष्पी, पत्रज, इलायची चीता, वनतुलसी, सौंफ, देवदाली (घघरखेल) धतूरा, अगस्तिया, मुंडी, महुआ जाई और मैनफल, इन १९ औषधोंके स्वरस न्यारेरनिकालके एक एकके रसमें पृथक् भावना देवें, इस प्रकार सब औषधोंकी भावना देवे जिस औषधका रस न निकले उसके काढेमें घांटे, जब घुटकर तयारहो जावे तब इसको दो रत्तीकी गोली बनायके धररखे इसमेंसे १ गोली विजोरेके रस और अदरखके रसमें १६ फालीमिरचका चूरा मिलायके जो संनिपातसे बेहोश होय उसको देवे तो उसका संनिपात दूर हो ये संनिपातभैरव रस नामसे प्रसिद्ध है ॥

रसपर्पटी ।

जयापत्रसेनापिवर्धमानरसेनच ॥ भृंगराजरसेनापिका-
कमाच्यारसेनच ॥ रसंसंशोधयत्नेनतत्समंशोधयेद्वलिम् ॥
भृंगराजरसैःपिड्वाशोपयेदर्करश्मिभिः ॥ सप्तधावात्रिधावापिप-
श्वाच्चूर्णचकारयेत् ॥ चूर्णयित्वासमंतेनरसेनसहमर्दयेत् ॥
नष्टसूतंयदाचूर्णभवेत्कज्जलसन्निभम् ॥ निर्धूतेवदरांगारेद्रवी-
कुंर्यात्प्रयत्नतः ॥ तत्रतन्महिपीविष्टास्थापितेकदलीदले ॥ नि-
क्षिप्यतदुपर्यन्यत्पत्रंदत्वाप्रपीडयेत् ॥ शीतलत्वंगतेपत्रात्स-
मृद्धत्यविचूर्णयेत् ॥ एवंसिद्धाभवेद्द्रव्याधिघातिनीरसपर्पटी ॥
ज्वरादिव्याधिभिर्व्याप्तंविश्वंद्दृष्ट्वापुराहरः ॥ चकारकृपयायु-
क्तःसुधावद्रसपर्पटीम् ॥ रक्तिकासंमितांतावद्भ्रष्टजीरकसंयु-
ताम् ॥ गुंजार्धभ्रष्टहिंवात्र्यांभक्षयेद्रसपर्पटीम् ॥ रोगानुरूपभे-
पज्यैरपितांभक्षयेद्बुधः ॥ पिवेत्तदनुपानीयंशीतलंचुलकत्रयम् ॥

प्रत्यहं वर्धयेत्तस्य एकैकारक्तिकाभिपक्व ॥ नाधिकां दशगुंजातो-
भक्षयेत्तां कदाचन ॥ एकादशदिनारं भात्तां तथैवापकर्षयेत् ॥
एवमेतां समश्रीयान्नरो विंशतिवासरान् ॥ शिवंगुरुंतथा विप्रा-
न्पूजयित्वा प्रणम्य च ॥ श्रद्धया भक्षयेदेतां क्षीरमांसरसाशनः ॥
ज्वरंच ग्रहणींचापितथा तीसारमेव च ॥ कामलां पांडुरोगंच शू-
लप्लीहजलोदरम् ॥ एवमादीन्गदान् हत्वा हृष्टः पुष्टश्च वीर्यवान् ॥
जीवेद्वर्षं शतं साग्रं वलीपलितवर्जितः ॥

अर्थ—अरनीकेपत्ते, अंडकेपत्ते, भांगरा और मकोय, इनके रसमें पारेको शोधे उसी प्रकार गंधकको भांगरेके रसमें घुटायके धूपमें सुखाय देवे इस प्रकार सातवार शुद्ध करे अथवा तीनवार करे फिर इस पारा और गंधक दोनोंको मिलाय कजली करे उस कजलीको लोहके कडल्लेमें धरके वेरकी लकड़ीके कोलेनपर गरम करे जब कजली पतली होजावे तब गोवरसे लिपी हुई पृथ्वीपर केलेका पत्ता विछायके उसपर उस कजलीकी चासनीको ढाल दे और तत्काल दूसरे पत्तेसे ढकके गोवरसे ढावदेवे, जब शीतल होजावे तब निकाल लेय, यह (रस पर्पटी) प्रथम शिवने ज्वर व्याप्त जगके देख कृपा करके निर्माण करी, यह पर्पटी १ रत्ती भुनेजारे और अधभुनी हांगके साथ देवे अथवा रोगोक्त अनुपानके साथ देय और इसके ऊपर तीन चुट्टू शीतल पानीके पिये, इस प्रकार नित्य एक २ रत्ती चढावे जब दस रत्ती होजावे तब एक एक रत्ती घटाय देवे इस प्रकार बीस दिन भक्षण करे इसको अपने इष्टदेवको नमस्कार करके श्रद्धा पूर्वक भक्षण करके दूध और मांस ये पथ्यमें देवे तो ज्वर, संग्रहणी, अतीसार, कामला, पांडुरोग, शूल, प्लीह, जलोदर, इत्यादि रोगका नाश करे और पुरुषको हृष्ट पुष्ट, वीर्यवान् करे इसके सेवन करनेसे वृद्धावस्था रहित सौ वर्ष जीवे ॥

रविसुंदररस ।

द्विभागतालेन हतंचताम्रं रसंच गंधंच समानमाहुः ॥ विपंसमंच
द्विगुणंचताम्रं त्रिसप्तत्रात्रेण दिवाकरांशौ ॥ विमर्द्यारिष्टस्वर
सेनचूर्णं गुंजैकदत्तंसितया समेतम् ॥ ज्वरांकुशोरं रविसुंदराल्यो
ज्वरान्निहंत्यष्टविधान्समग्रान् ॥

अर्थ—दोभाग हरताल लेकर उससे एकभाग ताम्रकी भस्म करे, इस प्रकार करी ताम्रकी भस्म २ तोले, पारा १ तोले, गंधक १ तोले और शुद्धविष १ भाग इस प्रकार लेके इक्कीस दिन नींबूके रसमें खरल करे, फिर १ रत्तीके प्रमाण मिश्रीसे खाय तो यह रविसुंदरज्वरांकुश रस आठ प्रकारके ज्वरोंको दूर करे ॥

कज्जलीगुण ।

शुद्धसूतंतथागंधंखल्वेतावद्विमर्दयेत् ॥ सूतोनदृश्यतेयाव-
त्तिकतुकज्जलवद्भवेत् ॥ एपाकज्जलिकाख्याताबृंहणीवीर्यव-
र्धिनी ॥ नानानुपानयोगेनसर्वव्याधिविनाशिनी ॥

अर्थ—शुद्धगंधक, पारा, दोनोंको जबतक खरल करे कि जहां तक पारा न दीखे इसे कज्जली कहते हैं ये बृंहण है, वीर्यवर्धक और नानाप्रकारके अनु-पानसे सर्वरोगनाश करने वाली है ॥

गदमुरारिरस ।

रसवलिफणिलोहव्योमताम्रेणतुल्यान्यथरसदलभागोवत्सना
गः प्रदिष्टः ॥ भवतिगदमुरारिश्चास्यगुंजार्द्रवाराक्षपयतिदिव-
सेनप्रौढमामज्वराख्यम् ॥

अर्थ—पारा, गंधक, शीशेकी भस्म, लोहभस्म, अधक और ताम्र ये समान भाग लें और पारेसे आधा शुद्ध विष डाले सबको खरल कर १ रत्तीकीगोली बनावे १ गोली अदरखके रससे देय तो तरुणज्वरको एक दिनमें नष्ट करे इसे गदमुरारिरस कहते हैं ॥

वालार्करस ।

रंगहिंगुलजोपालवृद्ध्यादंत्यंघुमर्दयेत् ।
दिनार्धेनज्वरंहंतितमः सूर्योदयोयथा ॥

.. -पारा, गंधक, हींगलू और जमालगोटा, इन सबको दंतीके रससे खरल-कर रत्तीकी गोली बनाय ले १ गोली भक्षण करे तो जैसे सूर्य अंधकारका नाश करेहै इसप्रकार यह एकदिनमें ज्वरको नाश करे इसे वालार्करस कहते हैं।

ज्वरांकुश ।

शुद्धसूतंविषंगंधधूर्तवीजत्रिभिःसमम् ॥ चतुर्णांद्विगुणंव्योपंचू-
र्णगुंजाद्वयंहितम् ॥ पक्वजंवीरकद्रावैर्युक्ताद्रस्यद्रवैर्युतम् ॥

महाज्वरांकुशोनामज्वराणामंतकोभवेत् ॥ एकाहिकंद्र्याहिकंवा
त्र्याहिकंवाचतुर्थकम् ॥ विपमंवात्रिदोपोत्थंनाशयेद्याममात्रतः ॥

अर्थ—पारा, गंधक और विप प्रत्येक समान लेवे और इन तीनोंकी बराबर धतूरेके बीज ले, तथा सबसे दूनी सोंठ, मिरच और पीपल लेवे सबका चूर्ण कर पकी जँभीरी तथा अदरख इनके रससे खरल करे फिर दो रत्तीकी गोली बनावे एक गोली खाय तो एक प्रहरमें एकाहिक, त्र्याहिक, चतुर्थिक, विपम और संनिपात ज्वर इनको नष्ट करे इसको महाज्वरांकुश कहते हैं यह सर्वज्वरोंका नाश करनेवाला कालके समान है ॥

विश्वतापहरण ।

सूतशुल्बत्रिवृतावलितिकादंतिबीजचपलाविपतिंदुः ॥ पथ्य-
यासहविचूर्ण्यसमांशहेमवारिसहितंदिनमेकम् ॥ वल्युग्मगुटि-
कार्द्रकवारानाशयेदभिनवज्वरमाशु ॥ विश्वतापहरणोऽत्रचप-
थ्यंसुद्रयूपसहितंदिनमेकम् ॥

अर्थ—पारा, ताम्रभस्म, निशोध, गंधक, कुटकी, जमालगोटा, पीपर, विप, फुचला और हरड, सब समान ले चूर्णकर धतूरेके रससे १ दिन खरलकरे फिर ४ रत्तीकी गोलियां बनावे १ गोली अदरखके रससे खाय तो नवीन ज्वरका नाश करे इसको (विश्वतापहरण) रस कहते हैं इसपर मूंगकी दाल और भात पथ्य देवे ॥

सन्निपातभैरवरस ।

मूतंगंधलोहकिट्टंविमर्द्यसर्वेस्तुल्यं वत्सनागंनियुंज्यात् ॥ आ-
द्रंभृंगंबीजपूरंजयंतीनियुंडीकाभृंगराजद्रवैश्च ॥ युक्त्यावेद्यो
भावंपित्वाविधेयाशाणार्धार्धिसन्निपातस्यनूनम् ॥ शीतंवातंनि-
र्मलंस्नानपानंपथ्यंदुग्धंशर्कराभिर्युंतंच ॥

अर्थ—पारा, गंधक और मंडूरकी भस्म ये समान भाग ले और तीनोंकी बराबर शुद्धविप, अदरख, भांगरा, विजोरा, भांग और निर्गुडी ये लेकर भांगरेके रससे खरल करे, तथा १ भासकी गोली बनावे १ गोली भक्षण करे तो सन्निपातका नाश करे शीतल जलसे स्नान करे, पयनमें घंटे, शीतल जल तथा दूध भात और चीनी पथ्यमें देवे ॥

त्रिभुवनकीर्तिरस ।

हिंगुलंचविपंव्योपटंकणंमागधीशिफा ॥ संचूर्ण्यभावयेत्रेधा
सुरसार्द्रकहेमीभः ॥ रसोभुवनकीर्तिः सगुंजैकार्द्रद्वेणवै ॥ स-
र्वज्वरविनाशंचसन्निपातांस्त्रयोदश ॥

अर्थ—हींगूल, विष, सोंठ, मिरच, पीपल, मुहागा और पीपरामूल, इन सब औषधोंको बारीक पीस, तुलसी, अदरक, धतूरा, इन प्रत्येकके रसमें पृथक् २ खरल करे इसको (त्रिभुवनकीर्तिरस) कहते हैं यह १ रत्ती अदरकके रससे खाय तो सर्वज्वर और तेरह प्रकारके सन्निपातोंको नाश करे ॥

मृतप्राणदायीरस ।

रसगंधकंटंकणवत्सनाभंसुसंमर्दयेदूर्तबीजेनयामम् ॥ ततोवत्स-
नागेनहैमैश्वबीजैरसैर्भावयेच्चत्रिवारंत्रिवारम् ॥ कटुव्यादिना
पंचवारंततः स्यादयंमूत्रराजोमृतप्राणदायी ॥ ज्वरेसन्निपा-
तेज्वरेनूतनेवामहाश्लेष्मरोगेचगुंजाप्रमाणम् ॥ पयःपायसंदा-
धिकंतक्रभक्तंसितावानवीनज्वरेचार्द्रनीरैः ॥ ज्वरेचातिसारेव-
नद्रावयुक्तेग्रहण्यशांक्षांक्षौद्रसंसीतयावा ॥ ज्वरेवायुनात्रिकटु-
ग्निपीतंप्रकंपेचवाहूकफेकांगवाते ॥ अपस्मारमुन्मादवातं
निहंतिप्रयुक्तोसितापंचभिर्घूर्तबीजैः ॥

अर्थ—गरा, गंधक, मुहागा, विष और धतूरेके बीज ये सब समान भाग लेके धतूरेके बीजोंके और बच्छनाग विष इनके काठेमें तीनरभावना देवे फिर सोंठ, मिरच और पीपल, इसके कांठकी पांच भावना देवे तो यह सूत्रराज मृतप्राणदायी रस तयार हो यह सन्निपातज्वर, नवीन ज्वर घोर कफका रोग इनमें एक रत्ती अदरकके रससे देवे, इसपर पथ्य दूध भात, खीर, दहीभात, छाँछभात, देवेतो यह रस ज्वरातिसार संग्रहणी, मूलव्याधि, इनमें शहत और मिश्रीके साथ देवे तथा वातज्वर, प्रकंपवायु, बाहुकंप, एकांगवायु, इनमें सोंठ, मिरच, पीपल और चित्रक इनके साथ देय, एवं मृगी, उन्माद, इनमें मिश्री और पांच धतूरेके बीज इनके साथ देवे ॥

ज्वरोपद्रव ।

श्वासोमूर्च्छारुचिश्छर्दिस्तृष्णातीसाराविद्ग्रहः ॥

हिक्काकासांगभेदश्चज्वरस्योपद्रवादृश ॥

अर्थ—श्वास, मूच्छा, अरुचि, वमन, तृषा, अतिसार, मलबद्धता, हिक्की
सांसी अंगोंका दूटना ये ज्वरके दश उपद्रव हैं ॥

ज्वरोपद्रवकीचिकित्सा ।

संजातोपद्रवोव्याधिस्त्याज्योनस्याच्चिकित्सकैः ॥ व्याधौशां-
तेप्रणश्यंतिसद्यः सर्वेषुपद्रवाः ॥ अतोव्याधिजयेद्यत्नात्पूर्व
पश्चादुपद्रवम् ॥ भिषग्यः कुशलः सोत्रजयेत्पूर्वमुपद्रवम् ॥ तेष्वपि
प्रचुरेषु प्राद्वनाशयेदाशुकारिणम् ॥ मूलव्याधिजयेत्पूर्वजेयोयो-
वाभवेद्दली ॥ अविरोधेनवाकुर्यादुभयोरपिचक्रियाम् ॥

अर्थ—वैद्यको उपद्रवयुक्त व्याधिकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिये, व्याधिके
शांत होतेही संपूर्ण उपद्रव तत्काल शांत हो जाते हैं, अतएव यत्नपूर्वक प्रथम
व्याधिकी जीते फिर उपद्रवोंकी चिकित्सा करे। अथवा कुशल वैद्य प्रथम
उपद्रवोंको जीते उनमें भी जो शीघ्र बढनेवाला है उसको प्रथम चिकित्सा
करे पश्चात् अन्यान्यको जीते ॥

अथवा कुशल वैद्य प्रथम मूलव्याधिकी जीते अथवा उसमें जो बलवान्
उपद्रव होय उसको जीते किंवा व्याधि और उपद्रव दोनोंकी अविरोधी
चिकित्सा करे ॥

सिंहादिकपाय ।

सिंहिव्याघ्रीताम्रमूलीपटोलीगृगीभांगीपुष्कररोहिणीच ॥

साकंशब्द्याशैलमल्याश्वीजंश्वासंहन्यात्सन्निपातेदशांगः ॥

अर्थ—कटेरी, बडी कटेरी, धमासा, पटोलपत्र, काकाडासोंगी, भारंगी, पुह-
करमूल, कुटकी, कचूर, कुरैया इन दश अंगोंका काढा सन्निपातोत्पन्न
श्वासका नाश करे ॥

द्वान्निशांगकाढा ।

भांगीनिवचनाभयामृतलताभूनिववासाविपात्रायंतीकटुकाव-
चान्निकटुकस्योनाकशक्रद्रुमैः ॥ रास्नायासपटोलपाटलि-
शठीदावीविशालान्नितृत्राह्नीपुष्करसिंहिकाद्वयनिशाधात्र्या-
क्षदेवद्रुमैः ॥ काथोयंखलुसन्निपातनिवहान्द्वान्निशांगतात्पा

नतोदुर्धर्पान्निजतेजसाविजयतेसर्पान्गुरुत्मान्निव ॥ किंच-
श्वासवलासकासगदहृद्रोगांश्चहिक्कामरुन्मन्यास्तंभगलामया-
र्दितमलावष्टंभवध्मानपि ॥

अर्थ—भारंगी, नीमकी छाल, नागरमोथा छोटीहरड, गिलोय, चिरायता अडूसा, अतीस, त्रायमाण, कुटकी, वच, सोंठ, मिरच, पीपल, टेंदू, कुड़ाकी छाल, रास्ना, धमासा, पटोलपत्र, पाठ, कचूर, दारुहलदी, इन्द्रापणकी जड, निशोथ, ब्राह्मी, पुहकरमूल, छोबी कटेरी, बडी कटेरी, हलदी, बहेडा, आंवला और देवदारु ये सब औषध समान भाग लेकर काढा करे तो यह (द्वात्रिंशांग-काढा) अपने पराक्रमसे श्वास, खाँसी, कफ, हृदयके रोग हिचकी, वादी, मन्यानाडीका जिकड़ना, गलेके रोग, अर्दित वायु, मलावष्टंभ, वदरोग इन सबको नाशकरे जैसे गरुड़ अपने तेजसे सपोंको जीतता है ॥

मध्वाद्यकाढा ।

मधुनाकृष्णाकट्फलकर्कटशृंगीभवंचूर्णम् ॥

श्वासामयेमहोत्रेर्लीङ्गालोकः सुखीभवति ॥

अर्थ—पीपल, कायफल और काकडासर्पिंगी, इनका चूर्ण शहतसे चाटे तो घोर उग्रश्वासको दूर करे ॥

श्वासपरदाग ।

वन्योपलाग्नितापितदात्रस्याग्नेणपंजरेदाहः ॥

अपहरतिश्वासामयमसंज्ञयंभापितंमुनिभिः ॥

अर्थ—आग्ने उपलोंकी अग्निमें दरातको तपायके उसके अग्रभागसे हृदि-योंके पंजरमें दाग देवे तो श्वासको अवश्य दूर करे ॥

आर्द्रकादिनस्य ।

आर्द्रकस्यरसैर्नस्यंमूर्च्छायामाचरेन्नरः ॥

अंजनंचप्रयुंजितमधुसिंधुशिलोपणैः ॥

अर्थ—यदि ज्वरमें मूर्च्छाआय जावे तो अदरस्रके रसकी नस्य देवे और शहत संधानिमफ, मनशिल और काली मिरच इनका अंजन करे तो मूर्च्छा दूर हो ॥

शीतांभसादियोग ।

शीतांभसाक्षिसेकःसुरभिधूपःसुगंधिपुष्पंच ॥

मृदुतालवतवातःकोमलकदलीदलस्पर्शः ॥

अर्थ-मूच्छामें शीतलजल नेत्रोंपर छिड़के, सुगंधित धूनीदे, अथवा सुगंधित फूल सुँपावे, ताडके पंखेसे धीरे २ पवन करे तथा केलेके कोमल पत्ते देहपर रखने चाहिये ॥

अरुचिचिकित्सा ।

अरुचौतुशृंगवेरजरसकैःसहसिंधुजैः कवलः ॥

सिंधूत्थमातुलंगीफलकेसरधारणवक्त्रे ॥

अर्थ-यदि ज्वरमें अरुचि होय तो अदरत्तके रसमें सैंधानिमक मिलाय उसको मुखमें रखे अथवा विजोरेकी केशरमें सैंधानिमक मिलायके मुखमें रखे तो अरुचि दूर हो ॥

मातुलिङ्गकवल ।

अरुचौमातुलंगस्यकेसरंसाज्यसैंधवम् ॥

धात्रीद्राक्षासितानांवाकल्कमास्येतुधारयेत् ॥

अर्थ-अरुचि होनेसे विजोरेकी केशरमें सैंधानिमक और घी मिलायके मुखमें रखे ॥

सैंधवादियोग ।

नीरेणसिंधूत्थरजोतिसूक्ष्मनस्येतिनूनंविनिहंतिहिक्काम् ॥

शुंठीहठाद्रासितयासमेताधूपोथवाहिगुसमुद्भवश्च ॥

अर्थ-ज्वरमें हिचकी होनेसे सैंधानिमक बारीक पीस जलमें मिलायके नस्य देवे अथवा सोंठ, मिश्री और तीक्ष्ण प्रदार्थ इनके सेवन करनेसे अथवा हींगकी धूनी देनेसे हिचकी बंद होवे ॥

अश्वत्थक्षार ।

अश्वत्थंवलकलंशुष्कंदग्धनिर्वापितंजले ॥

तजलंपानमात्रेणहिक्कांछिदचनाशयेत् ॥

अर्थ-पीपलकी सूखी छालको भस्म करके जलमें भिगोय देवे फिर उसको नितारके पानी निकाल लेवे इसे पीनेसे हिचकी और घमन ये नाश होवे ॥

शुष्कअश्वपुरीपयोग ।

शुष्कस्याश्वपुरीपस्यधूपोहिक्कानिवारयेत् ॥

अपिसर्वात्मिकांचैवयोगराडयमीरितः ॥

अर्थ—सखी हुई घोंडेकी लीदकी धूनी संनिपातकी हिचकीको नाश करे ॥

यावकादिनस्य ।

यावकस्यरसेनापिनस्यतोहंतिहिक्किकाम् ॥

अर्थ—सीजे हुए जौके रसकी नस्य देवे तो हिचकी दूर हो ॥

ज्वरकीखाँसीपरकणाद्यलेह ।

कासेकणाकणामूलंकलिद्रुमफलंरजः ॥

सविश्वभेषजलिह्यान्मधुनाववृषारसम् ॥

अर्थ—ज्वरमें खाँसी होनेसे पीपल, पीपरामूल, वहेडा, पित्तपापडा और साँठ, इनके चूर्णका अवलेह अडूसेके रससे अथवा शहतकेसाथ देवे तो दूर होय ॥

पुष्करादिचटनी ।

पुष्करमूलकटुत्रिकशृंगी कट्फलयासककारविकाभिः ॥

मधुलुलिताभिरयंखलुलेहः कासरिपुःकफरोगहरश्च ॥

अर्थ—पुहकरमूल, त्रिकटु, काकडासाँगी, कायफल, धमासा और अजवायन इनका चूर्ण शहतसे चाटे तो खाँसी और कफ, इनका नाश होय ॥

विभीतकयोग ।

विभीतकंघृताभ्यक्तंगोशकृत्परिवेष्टितम् ॥

स्विन्नमग्नौहरेत्कासंध्रुवमास्यविधारितम् ॥

अर्थ—बहेडेको घीसे लपेट उसपर गोबर लपेटके पुटपाक करे इसकी छालको मुखमें रखनेसे खाँसीको दूर करे ॥

लवंगादिवटी ।

विभीतकत्वक्परिचंलवंगसर्वैःसमानंखदिरस्यसारम् ॥

बच्चूलजर्काथंकृतावटीयंमुखास्थिताकासहरीक्षणेन ॥

अर्थ—बहेडेकी छाल, कालीमिरच और लौंग सब समान लेवे और सबकी बराबर सैरसार लेवे सबको बच्चूके फाँड़ेमें खरलकर गोली बनावे इस गोलीको मुखमें रखे तो यह तत्काल खाँसीको दूर करे ॥

ज्वरदाहचिकित्सा ।

दाहाधिकारलिखितंदाहेकुर्याच्चिकित्सितम् ॥

परंज्वराविरुद्धंयन्मुख्योनाश्रयोज्वरोयतः ॥

अर्थ—ज्वरमें दाह होनेसे दाहाधिकारमें जो दाहकी चिकित्सा लिखी है वो करनी चाहिये, परंतु ज्वरदाहमें ज्वर मुख्य है अतएव उसमें ज्वरके विरुद्ध चिकित्सा न करे ॥

गुडूच्यादिकाढा ।

क्वाथोगुडूच्याःसमधुःसुशीतःपीतःप्रशांतिर्वमनस्यकुर्यात् ॥

विण्मक्षिकाणांमधुनावलीढासचंदनाशर्करयान्वितावा ॥

अर्थ—गिलोयका काढा शीतल होनेपर उसमें शहत मिलायके पीवे तो ज्वरमें वमन होना शांति होय । अथवा मक्खीकी विष्ठा शहतसे चंदनका चूरा मिलायके देवे अथवा मिश्री और चंदन मिलायके देवे तो ज्वरमें रद होना बंदहोवे ॥

दंतशठादिकाढा ।

दंतशठबीजपूरकदाडिमवदरैःसचुक्रकैर्वदने ॥

लेपोजयतिपिपासामथरजतगुटीमुखांतस्था ॥

अर्थ—जंभीरी, विजोरा, अनार, वेर और अमलवेत इनका फल्क तलएमें, जीभमें और गालोंके भीतर लेप करे तो प्यासको शमन करे । अथवा चांदीकी गोली मुखमें रखनेसे प्यास दूर होवे ॥

जलादियोग ।

शीतंपयःक्षौद्रयुतंनिपीतमाकंठमाश्वेतदुद्भमेच्च ॥

तर्पप्रकर्षप्रशमायवक्रेदध्याद्दक्षौद्रवटाग्रलाजान् ॥

अर्थ—ज्वरमें तृपाके रोकनेको शीतल जलमें शहत मिलायके कंठपर्यंत पीवे और तत्काल वमन द्वारा कुरलाकर देवे, अथवा फूट, बडकी कोपल और खील इनके अवलेहमें शहत मिलायके मुखमें राखे तो तृपा शांति होय ॥

ज्वरातिसारचिकित्सा ।

लघनमेकंमुक्कानचान्यदस्तीहभेपजंवलिनः ॥

समुदीर्णदोषनिचयंशमयतितत्पाचयत्यपिच ॥

अर्थ—ज्वरमें दस्त होनेसे यदि रोगी बलिष्ठ होयता उसको लंघनही करना औषधी कहीहै है, वो हुए लंघन बढे दोष समूहका नाश करे हैं और उनको पचावे भी है ॥

वत्सादन्यादिकाढा ।

वत्सादनवित्सकवारिवाहविश्वंभरानिवविपाः सविश्वाः ॥

ज्वरोतिसारंत्वारितंजयतीविश्वामृतावत्सकवारिवाहाः ॥

अर्थ—गिलोय, कुड्केकीछाल, नागरमोथा, चिरायता, नमिकी छाल, अतीस और सोंठ, इनका अथवा सोंठ, गिलोय, कुड्केकीछाल और नागरमोथा, इनका काढा पीवे तो ज्वरमें होनेवाले अतीसारका नाश करे ॥

पाठादिकाढा ।

पाठामृतापपटमस्तुविश्वाकिराततित्तेद्रयवान्विपाच्य ॥

पिवन्हरत्येवहठेनसर्वज्वरातिसारानपिदुर्निवारान् ॥

अर्थ—पाठ, गिलोय, पित्तपापडा, नागरमोथा, सोंठ, चिरायता और इन्द्रजौ इनके काढेको पीनेसे निश्चय दुर्निवार अतीसारको दूर करे ॥

ज्वरमेंदस्तकेअवरोधकीचिकित्सा ।

विद्ग्रहेवातजित्कमंकुर्यादत्रानुलोमनम् ॥

मलंप्रवर्तयेदाशुतीक्ष्णाभिःफलवर्त्तिभिः ॥

अर्थ—ज्वरमें यदि दस्त न उत्तरता होय तो वातनाशक ऐसे अनुलोमन देवे अथवा प्रथम तीक्ष्णफलवर्ती आदि करके मलको निकालना चाहिये ॥

पथ्यादिकाढा ।

पथ्यारग्वधतित्कात्रिवृदामलकैःशृतंतोयम् ॥

जीर्णज्वरेविवधेदद्यादाश्वेषिद्ग्रहःशाम्येत् ॥

अर्थ—छोटीहरड, अमलतासका गुदा, कुटकी, निसोथ और आमले इनका काढा जीर्णज्वर, उसीप्रकार मलयद्धताका नाश करे ॥

ज्वरपरपथ्य ।

वमनंलंघनंकालेयवागुःस्वेदनानिच ॥ कटुतित्तोरसश्चेति

पाचनंतरुणज्वरे ॥ संनिपातेत्वदंसर्वकुर्यादामकफापहम् ॥

अवलेहोजननस्यंगहूपश्चरसक्रियाः ॥ पादयोर्हस्तयोर्मू-

लेकंठकूपेचगंडयोः ॥ स्वेदेभ्रष्टकुलित्थानांचूर्णघर्षणमेवच ॥

अर्थ—बमन और लंघन करना, प्रातःकाल यवागू देवे, पसीने काठने तथा चरपरे, कडुए ये रस और पाचन ये उपचार तरुण ज्वरमें करे और संनिपात में सब कर्म करावे । तथा आमज्वरमें कफनाशक क्रियाकरे, अवेलेह, और अंजन, नस्य, कुरले करना, पसीने काठनां और हाथ पैर इनकी जडमें तथा फंठके गड्डे एवं कपोलकी जडमें पसीने आनेसे कुलथीको भून और पीसके इसके चूर्णको मालिश करे ॥

तरुणज्वरपरअपथ्य ।

स्नानंविरेकःसुरतंकपायंव्यायामभ्यंजनमन्दिनिद्रा ॥ दु-
ग्धघृतवैदलमामिपंचतक्रंसुरास्वादुगुरुद्रवंच ॥ अन्नंप्रवातंभ्र
मणंचक्रोधंत्यजेत्प्रयत्नात्तरुणज्वरार्तः ॥

अर्थ—स्नान, दस्त, मैथुन, काठा, दंड, कसरत, दिनकी निद्रा, दूध, घी, दोद-
लका अन्न (दालआदि) मांस, छाँछ, मद्य, भारीपदार्थ, स्वादुपदार्थ, पतली
वस्तु, अन्न, हवाखाना, डोलना, क्रोध और बहुत बोलना ये सर्व वस्तु तरुण
ज्वर वालेको त्याज्य हैं ॥

मध्यमज्वरमेंपथ्य ।

पुरातनाः पाष्टिकशालयश्ववार्ताकसौभांजनकारवेच्छं॥वेत्राग्र
मापाठफलंतथैवककौटिकंमूलकपोतिकांच ॥ मुद्गैर्मसूरैश्चण-
कैःकुलित्थैर्मकुष्टकैर्वाभिहितश्चयूपः ॥ पाठांमृतावास्तुकतं-
दुलीयजीवंतिशाकानिचकाकमाची ॥ द्राक्षाकपित्थानिचदा-
डिमातिवैतंकतान्येवपचेलिमानि ॥ लघूनिसात्प्यानिचभेष-
जानिपथ्यानिमध्यज्वरिणाममूनि ॥

अर्थ—पुराने सांठी चावल, शालीचावल, वेंगन, सहंजाना, करेले, चाँसकी
कोपल, टट्टद, अरहर, आपाठमहीनेके फल, ककडी, मूली, पोई, मूंग, मसूर, चना,
कुलथी, मोंठ, इनका रस, पाठ, गिलोप, बयुआ, चोलाई, जीवंती (डोटी) और
मकोय इनका शाक, दास, कैय, अनार, विकंकत, पचेलिम, तथा हलके
और हितकारी पसी औपथ, ये ज्वरवाले मनुष्यको हितकारी कही दे ॥

सर्वज्वरमेंपथ्य ।

तंदुलीयकवास्तुकवालमूलकपर्पटान् ॥ पटोलतित्तशाकंचयु-

दूचीपल्लवान्यपि ॥ कालशाकंनिवपुष्पमारिपंदाविकादलम् ॥
 जीवन्तीचापिचांगेरीसुनिपण्णाकमाविकैः ॥ पत्रशाकप्रिया-
 णांतुज्वरितानांप्रदापयेत् ॥ मुद्गान्मसूराश्चणकान्कुलित्थां-
 श्वमकुष्टकान् ॥ यूपार्थयूपसात्म्यानांज्वरितानांप्रदापयेत् ॥
 लावान्कर्पिजलानेणान्पृपतान्शरभान्शशान् ॥ कालपुच्छा-
 न्कुरंगांश्चतथैवमृगमात्रकान् ॥ मांसार्थमाससात्म्यानांज्वरि-
 तानांप्रदापयेत् ॥ सारसक्रौंचशिखिनस्तथात्तित्तिरकुकुटाः ॥
 ज्वरितानानंशस्यंतेइतिकेचिद्व्यवस्थिता ॥ वृंताकंपीलुक-
 कौटपटोलककठिल्लकम् ॥ फलशाककृतेदेयंसर्वनिस्त्रेहमेवच ॥
 वत्सरोपितधान्यस्यतंदुलाद्यंज्वरोहितम् ॥ रोटिकार्थंप्रदातव्यं-
 द्विवर्षोपितमल्पशः ॥ गोधूमादियथासात्म्यमन्यदप्यल्यमर्पयेत् ॥

अर्थ—चौलाई, बधुआ, छोटी नवीन मूली, पित्तपापडा, पडवल, वरना, गिलोय, पालक, कालशाक (नाडीकाशाक,) नीमके फूल, मारिपशाक (मरसेकासाग (डोडीकाशाक, चूकाकाशाक, चौपतियाका, बकरीके दूधके पदार्थ, अथवा पत्रका शाक), और मूंग, मसूर, चना, कुलथी, मोठ, मटर इनका यूप जिनको हित होवे उनको देय । तथा दुंवाकामांस, लवा, सपेदतीतर, मृग, चित्तलमृग, शरभ और सर्वप्रकारके मृगोंका मांस, मांसभक्षण करनेवालोंको देवे, सारस, क्रौंच, मोर, तीतर, मुरगा, इन पक्षियोंका मांस ज्वरवालेको नदेवे ऐसे कई आचार्य कहते हैं, तथा बेंगन, पीलू, कफोडा पडवल, करेले, ये फल शाकोंमें देवे, परंतु चिकनाई युक्त पदार्थ नदेवे, यदि भात देवे तो एक वर्षके पुराने चावलोंका देय यदि रोटी देय तो एक वर्षके चावलोंकी देवे और गेंहू आदि नित्यही खाते हैं इससे दे बाकी अन्यवस्तु थोड़ी २ देवे ॥

जीर्णज्वरपथ्य ।

विरेचनंछर्दनमंजनंचनस्यंचधूमोप्यनुवासनंच ॥ संशोधनंसं-
 श्मनंन्यवायोभ्यंगोवगाहः शिशिरोपचारः ॥ एणः कुलिंगोह-
 रिणोमयूरोलावःशशस्तिरिक्कुक्कुटौच ॥ क्रौंचःकुरंगःपृपत-
 श्वकोरः कपिञ्जलोवार्तिककालपुच्छो ॥ गव्यामजायाश्चपयो-

घृतचहरीतकीपर्वतनिर्झरांभः ॥ एरंडतैलंसितचंदनचद्रव्या-
णिसर्वाणि पुरेरितानि ॥ ज्योत्स्नाप्रियालिङ्गनमप्यथस्या-
द्भर्गःपुराणज्वरिणांसुखाय ॥

अर्थ—रेचन, वमन, अंजन, नस्य, धूप, अनुवासन वस्ति, पसीने काटना, स्त्रीसंभोग, उबटना, पानीमेंघसकरस्नान, शीतलउपचार, हरिण, घरकाचिडा, एण, मोर, लवा, ससा, तीतर, मुरगा, क्रौंच, कुरंग, चित्तलहिरण, चकोर, स-
पेदतीतर, बतक और कालपुच्छ इनका मांस और गौ, बकरीका दूध और घी, हरड, पर्वतके झरनेका पानी, अंडीका तेल, सपेद चंदन और पूर्वोक्त कहीं हुई संपूर्ण द्रव्य, चांदनी, स्त्रीका आलिङ्गन, ये जीर्णज्वरवाले रोगीको सुखकारक पथ्य वर्ग कहा है ॥

आगंतुकज्वरपथ्य ।

आगंतुज्वरेनैवनरःकुर्वीतलंघनम् ॥ अभिघातसमुत्थानेपा-
नाभ्यंगेचसर्पिपः ॥ रक्तावसेकैर्मद्यैश्चतथामांसरसोदनैः ॥
क्षतजेव्रणजेवापिक्षतव्रणचिकित्सितम् ॥ इत्यागंतुज्वरेपूर्वाभिप-
ग्भिःपथ्यमीरितम् ॥ क्रोधजेपित्तजित्कार्याक्रियासद्वाक्यमेव-
च ॥ औषधीगंधजेकुर्यात्कर्मपित्तप्रसादनम् ॥ अभिचाराभि-
शापोत्थेजपहोमादिभेपजम् ॥ उत्पातग्रहपीडोत्थेदानंस्वस्त्य-
यनादयः ॥ क्रोधोत्थितेपित्तहरंकामजेक्रोधमेवच ॥ काम-
शोकभयोद्भूतेसर्वावातहरीक्रिया ॥ आश्वासनंचेष्टलाभोहर्ष-
दायीनियानिच ॥ हर्षेणचसमायांतिकामशोकभयज्वराः ॥
विशेषतःपुनःश्वात्रकामक्रोधसमुत्थिते ॥ भयशोकसमुद्भूते-
कामक्रोधकरौषधम् ॥ भूताभिपंगजेभूतवाधावेशनताडनम् ॥
अध्वश्रान्तिपुचाभ्यंगादिवानिद्राचकारयेत् ॥ मनःक्षोभेसमु-
त्पन्नेमनसःसांत्वनानिच ॥ इत्यागंतुज्वरेपूर्वाभिपग्भिःपथ्य-
मिप्यते ॥

अर्थ—आगंतुक ज्वरमें लंघन न करावे, अभिघातज्वरमें घृतका पीना और
गालिशरुधिरका निकालना, मद्यपान, मांसरस और भात ये पथ्यहैं और क्षतजनि-

त अथवा व्रणजनितज्वरमें क्षत (घाव) और व्रण (फोड़े) के ऊपर जो चिकित्सा लिखी है वो करना चाहिये, ये आर्गंतुक ज्वरपर प्रथम पथ्य है। क्रोधज्वरपर पित्त शमन कर्ता क्रिया करे और अच्छी-बवात करे। औषधीगंधज्वरपर चित्तको प्रसन्न कारक चिकित्सा करे। और अभिचारज्वर तथा अभिशापज्वरोंमें जप, होम इत्यादि क्रिया करे। उत्पात और ग्रहपीडा इनसे उठे हुए ज्वरपर दान देना, पुण्याहवाचन इत्यादि करे। और क्रोधज्वरमें पित्तहरण कर्ता क्रिया तथा काम-ज्वरमें क्रोधज्वरकी चिकित्सा करे। और क्रोधज्वरमें कामज्वरोक्त चिकित्सा करे। एवं काम, शोक और भय इनसे उत्पन्न हुए ज्वरपर सर्व वातनाशक क्रिया तथा उस रोगीको आश्वासन (दिलासादेना) इष्टलाभ तथा हर्षदायक पदार्थ ये देवे। तथा कामक्रोध इनसे उत्पन्न ज्वरमें क्रमसे क्रोध और कामोत्पादक करता क्रिया करे। भूताभिपंग जनितज्वरमें भूतका देहमें बुलाना, ताडन करना इत्यादि कर्म करे। मार्गश्रम करके आये हुए ज्वरपर अभ्यंग, दिनमें सोना इत्यादि करे, तथा मनके क्षोभसे उत्पन्न ज्वरपर मनकी शांति करना इसप्रकार आर्गंतुक ज्वरपर घैद्योंने पथ्य कहा है ॥

विपमऊपर ।

विपमेप्रतिकुर्वीतभिषग्वमनरेचनैः ॥ विष्णोर्नामसहस्रस्यपठ-
नंश्रवणंश्रुतेः ॥ देवानांब्राह्मणानांचगुरुणामपिपूजनम् ॥ ब्रह्मच-
र्यतपोहोमःप्रदानंनियमोजपः ॥ साधूनांदर्शनंनित्यरत्नौषध
विधारणम् ॥ मंगलाचरणंचैववर्गःसर्वज्वरापहः ॥

अर्थ—विपमज्वरमें घमन और विरेचन देवे विष्णुसहस्रनामका पाठ, वेदोंका श्रवण, गुरु ब्राह्मणोंका पूजन, ब्रह्मचर्य, तप, होम, दान, नियम जप, साधुमहात्माओंके दर्शन, रत्न और औषध इनका धारण करना, तथा मंगल कर्म ये पथ्य वर्ग हैं ॥

सर्वज्वरऊपरअपथ्य ।

वमिवेगंदंतकाष्ठमसात्म्यमपिभोजनम् ॥ विरुद्धान्यन्नपाना-
निविदाहीनिगुरुणिच ॥ दुष्टांबुक्षारमम्लानिपत्रशाकंवि-
रूढकम् ॥ ललदंबुचतांबूलंकलिंगलकुचंफलम् ॥ तोडिमत्स्यंच-
पिण्याकंनवान्नंपिष्टवैकृतम् ॥ अभिष्यंदोनिचेतानिज्वरितः-
परिवर्जयेत् ॥ व्यायामंचव्यवायंचस्नानंचक्रमणानिच ॥ ज्वर-
मुक्तोनेसेवेतयावन्नोवलवान्भवेत् ॥

अर्थ—वमनकरना, दँतून करना, आपको अहित ऐसा भोजन, विरुद्ध भोजन, दाहकारी, और भारी पदार्थ, दूषित जलपान, खार, खटाई पत्तेकाशाक अंकुर आपहुए धान्य, पोखरका पानी, तांबूल, तरबूज, बडहर, तथा तोडिजा-तिकी मछली, खल, नवीनधान्य, पिष्टपदार्थ और पौष्टिक ये पदार्थ ज्वरवाले रोगीको छोड देने उसीप्रकार मेहनत, स्त्रीसंग, स्नान, डोलना, फिरना इत्यादि कर्म जबतक ज्वरमुक्त रोगीके देहमें बल न आवे तबतक न करे ॥

मंत्र ।

वज्रहस्तोमहाकायोवज्रतुंडोमहेश्वरः ॥ हतोसिवज्रतुंडेनभू-
म्यांगच्छमहाज्वर ॥ ठः शः शंतः ॥ तालपत्रेलिसित्वातुकं-
ठेवाहौचबंधयेत् ॥

अर्थ—ऊपर कहा हुआ मंत्र ताडके पत्तेपर लिख गलेमें अथवा भुजामें बांधे तो ज्वर दूर हो ॥

पेय ।

आम्रातकसहस्रेणदलेनसुकृतीपिवेत् ॥
पेयांघृतपुतांजंतुश्चातुर्थिकहरीत्र्यहे ॥

अर्थ—जो भीतर घृत मिली पेयाको तीनदिनपर्यंत महुआके हजार पत्तोंसे पीवे तो उसका चातुर्थिक ज्वर दूर होवे ॥

ज्वरनाशकपत्रम् ।

स्वस्तिश्रीलंकातःकौणपाधिपतिर्विभीपणोयथास्थानेवास्त
व्यस्यासुकस्यमहाविपमज्वरंसमाज्ञापतिरेरेपापिष्ठदुरात्मन्-
ज्वरममपार्श्वशीघ्रमागन्तव्यंनोचेदन्यथाकरिप्यसितदाचंद्रहा
सखड्गेनत्वच्छिरःकर्तयिष्यामिमाभणिप्यसितत्राख्यातमिति-
हांहीचूंहूं ॥

विभीपणेनप्रहितांपत्रिकांलिख्यवुद्धिमान् ।

विपमज्वरनाशायभुजायांरोगिणोन्यसेत् ॥

अर्थ—इस मंत्रको शुभदिनमें अष्टगंधसे लिख और गुग्गुलकी धूनी देकर विपमज्वर दूर करनेको रोगीकी भुजामें बांधे तो ज्वर अवश्य दूर हो ॥

लंकेश्वररस ।

तालकंमाक्षिकंतुत्थंहरवीजसंगंधकम् ॥ कर्कोटीपत्रतोयेनमर्दये-
दिनसप्तकम् ॥ चुल्यांपाच्यंचतुर्यामंसशर्करज्वरापहः ॥ अयंलंके-
श्वरोनामशीतमातंगकेसरी ॥

अर्थ—हरताल, सुवर्णमाक्षिक, नीलाथोथा, पारा और गंधक, ये सब समान भाग ले सबको कर्कोडेके पत्तोंके रससे सातदिन खरलकर चूहेपर चढाय ४ प्रहरकी अग्नि देवे, फिर इसमेंसे बलाबल विचारके रसकी मात्रा भित्रीकेसाय देवे तो यह (लंकेश्वर) रस शीतज्वर हाथीके नाश करनेमें सिंहरूप है ॥

दुग्धफेनगुणाः ।

गोदुग्धप्रभवंकिंवाछागीदुग्धमथापिवा ॥ भवेत्फेनंत्रिदोषप्ररो-
चनंवलवर्द्धनम् ॥ वह्निवृद्धिकरंपथ्यंसद्यस्तृप्तिकरंलघु ॥ अति-
सारोग्रिमाद्येचज्वरेजीर्णंप्रशस्यते ॥

अर्थ—गोंके दूधके अथवा बकरीके दूधको मथकर झाग प्रकट करे ये झाग त्रिदोष नाशक, रुचिकारी, बलवर्द्धक, जठराग्निवर्द्धक, पथ्य, तत्काल तृप्तिकरता और हलके है इनको अतिसार रोग, मंदाग्नि और जीर्णज्वरपर देना हितकारी होता है ॥

लाक्षारसविधि ।

दशांशंलोध्रमादायतदशांशंचस्वजिकाम् ॥ किंचिच्चवदरीपत्रं
वारिपोडशधामतम् ॥ वस्त्रपूतोरसोग्राह्यःलाक्षायाः पादशेषितः ॥

अर्थ—बहुतसे वैद्योंको लाक्षादितेल बनाते देखा परंतु इसमें मुख्य लासका रस निकाला जाता है उसकी विधि बहुत वैद्य नहीं जाने फिर लाक्षादि तैलका बनाना वो क्या जाने, उनकेवास्ते लासका रस निकालनेकी विधि कहते हैं जैसे कि—प्रथम नितनी लाख हो उसका दशवां भाग लोप लेंवे और लोधका दशवां भाग सजी डाले और उसमें थोड़ीसी बेरकी पत्ती डाले और लाखसे पानी १६ सोलह गुना डालके औटावे जब चौथाई जल रहे तब उतारके वारीफ कपडेमें इस लाखके रसको छान लेंवे, फिर इसको लाक्षादि तैलमें मिलाना चाहिये ॥

रोगमुक्तस्नानम् ।

चरेविलग्नैरविभौमवारेरिक्तातिथौचंद्रवलेचहीने ॥

केन्द्रत्रिकोणार्थगतैश्वपापैःस्नानंहितंरोगविमुक्तकानाम् ॥

अर्थ—भेष, कर्क, तुला औ मकर, ये लग्न-रविवार और भौमवारमें तथा रिक्तातिथी (११।१४) में और चंद्रमा बलकरके हीन हो, तथा पापग्रह (सूर्य, मंगल, शनि, और इनका साथी बुध,) ये केन्द्र (प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम) स्थानमें तथा त्रिकोण (पंचम और नवम) स्थानमें बैठे होवे ऐसे समयमें रोगीको रोगमुक्त होनेपर प्रथम स्नान कराना उत्तम कहा है ॥

चरलग्न स्नानमें लेनेका यह कारण है कि चरलग्न चलायमान होती है इस वास्ते इसमें स्नान रोगी करे तो उसका रोग फिर आगे चला जावे रोगीके पास नहीं आवे । इसी प्रकार दुष्टवार भी अमंगली है इस कारण अमंगल वारमें स्नान करनेसे रोगभी अमंगल से डरता है, इसी प्रकार रिक्ता तिथी और हीनबली चंद्रमाका फल जान लेना चाहिये ॥

यह मत ज्योतिषियोंका है भेरा नहीं है न वैद्यशास्त्रका है वैद्योंकामत सात्म्यके आधीन होता है ॥

ज्वरमुक्तिलक्षण ।

संक्षोभणाच्चधातूनांदोषसंचालनादपि ॥ भूयोभवतिवेगस्तु-

मोक्षकालेज्वरस्यतु ॥ त्रिदोषजेज्वरेह्येतदंतर्वेगेचधातुगे ॥

लक्षणंमोक्षकालेस्यादन्यस्मिन्स्वेददर्शनम् ॥


अर्थ—ज्वरके जानेके समय धातुओंके क्षोभसे अथवा दोषोंके चलायमान होनेसे ज्वरका अत्यंत वेग होता है, त्रिदोषज्वर, अंतर्वेगज्वर, और धातुगतज्वर इनमें ये लक्षण होते हैं शेषज्वरोंमें केवल पसीने मात्र आते हैं ॥

इति श्रीमाधुरकृष्णलालतनय दत्तराम निर्मिते आयुर्वेदोद्धारे बृहन्निघण्टु-
रत्नाकरे सर्वज्वरनिदानचिकित्सापथ्यापध्यपूर्णतामगात् ॥

समाप्तमिदंज्वरप्रकरणम् ।

श्रीः ।

अतिसारकाकर्मविपाक ।



स्मार्ताग्निशमयेद्यस्तुसेतीसारयुतोभवेत् ॥ अग्निरश्मीत्यृचं
जस्वादशांशंजुहुयात्तिलान् ॥ सर्पिपाचापुतान्दद्याद्विरण्यं
ब्राह्मणाय वै ॥ अग्निरश्मीतीयमृक्चतारतम्येनवाजपेत् ॥

अर्थ—जो प्राणी स्मार्ताग्निको शमन (शांति) करता है वो अतीसार रोग-
से पीडित होता है, इसके दूर करनेको (अग्निरश्मि) इस ऋचाका जप और
दशांश तिलोका हवन करे तथा घृत मिले तिल और सुवर्णका दान करे,
अथवा अग्निरश्मि इस ऋचाका जप और हवनादि करे ॥

दूसराप्रकार ।

अतीसारीसभवतियस्त्रेताग्निविनाशकः ॥ सुवर्णेनाथताम्रेण-
कुर्यात्प्रतिकृतिबुधः ॥ वह्नेः शक्त्यनुसारेणपलेनार्धेनवापुनः ॥
तथाज्वालाकुलारक्तचंदनेनविलेपिताम् ॥ रक्तवस्त्रेणसंवीतां
भेषस्योपरिसंस्थिताम् ॥ रक्तमाल्यैश्चसंछन्नामुक्तादामपरि-
ष्कृताम् ॥ कनकाचलवर्णाभाद्रादशार्कनिभांशुभाम् ॥ ब्रह्मच-
र्यान्वितेविप्रेकनिष्ठेचाग्निहोत्रिणि ॥ अंगुलीयकवस्त्राद्यैर्भूषि-
तेतानिवेदयेत् ॥ मंत्रेणानेनविधिवदाग्निप्रीत्यर्थमाहृतः ॥

अर्थ—जो मनुष्य अग्निप्रयोगको शांति करे वह अतिसार (दस्त) रोगवाला
होता है। इसको सुवर्णकी अथवा तामेकी अपनी शक्तिके अनुसार अग्निकी
प्रतिमा बनायकर दानकरे परंतु दो तौलसे न्यून न करे उस अग्निका ध्यान
कहते हैं, ज्वालासे घ्याप्त लालचदन लगाइआ, लालवस्त्र पहने, मेंढाके ऊपर,
सवार, लाल मालाओंको और मोतियोंके हारको पहने, सुवर्णके पर्वतके समान
वारह सूर्यकी कांतिके समान ऐसी प्रतिमा करके ब्रह्मचारी अथवा अग्निहोत्री
इनका वस्त्रालकारआदिसे पूजन कर आगे कहे हुए मंत्रकरके दान करे ॥

दानकामंत्र ।

त्रेतारूपोअग्निरीड्यस्त्वमंततश्चासिवैनृणाम् ॥ त्वंवेत्थप्राक्तनंपाप
मतिसारंविनाशय ॥ एवंकृत्वानरःसम्यगतिसारंव्यपोहति ॥
निरुजंससुसीनित्यंदीर्घमायुश्चावेदति ॥

अर्थ—हे अमि! तू अमि त्रयरूपी तथा पूज्य; मनुष्योंके मरण पर्यंत रहने वाली तथा मेरे जन्मान्तरके पापोंको जानने वाला ऐसा है अतएव इस मेरे अतिसार रोगको शांति कर इस प्रकार कहकर दान करे इस विधि दान करनेसे अतिसार रोगको नाश करे है, रोगरहित नित्य सुखी और दीर्घ आयुको प्राप्त होवे ॥

तीसरे प्रकारका कर्मविपाक ।

स्त्रीहंताचातिसारीस्यादश्वत्थान्नोपयेद्दश ॥

दद्याच्चशर्कराधेनुं भोजयेच्चशतं द्विजान् ॥

अर्थ—स्त्रीके मारनेवाला अतिसारी होता है वह दशपीपलके वृक्ष लगावे और शर्कराधेनुका दान करे, तथा १०० ब्राह्मणोंको भोजन करावे, शर्कराधेनुका दान आगे यक्ष्माप्रकर्णमें कहेंगे ॥

रक्तातिसारका कर्मविपाक ।

दावाग्निदायकश्चैवरक्तातीसारवान् भवेत् ॥

तेनोदपानं कर्तव्यं रोपणीयस्तथा वटः ॥

अर्थ—वनमें आग लगानेवाला प्राणी रक्तातिसारी होता है उसको प्याऊ इत्यादि जलदान करना चाहिये । तथा १० वडके वृक्ष लगावे इस प्रकार करनेसे रक्तातिसार दूर होवे ॥

अतिसारनिदान ।

गुर्वेतिस्निग्धतीक्ष्णोष्णद्रवस्थूलातिशीतलैः ॥ विरुद्धाध्य-
शनाजीर्णैर्विषमैश्चातिभोजनैः ॥ स्नेहाद्यैरतियुक्तैश्च मिथ्यायु-
क्तैर्विषैर्भयैः ॥ शोकदुष्टांबुमद्यातिपानैः सात्म्यतुर्पर्ययैः ॥ ज-
लाभिरमणैर्वैगविधातैः कृमिदोषतः ॥ नृणां भवत्यतीसारो ल-
क्षणंतस्य वक्ष्यते ॥

अर्थ—भारी, अत्यंत चिकना, चरपरा, गरम, पतला, मोटा, अत्यंत शीतल इनके सेवन और देश, काल, तथा संयोग इनसे विरुद्ध (जैसे मध्यदेशवालोंको चाहपानी आदि स्वाना विरुद्ध, वसंत ऋतुमें कफकारी और नदी आदिवा जलपीना यह काल विरुद्ध है, दूध मछली मिलाय कर खाना संयोग विरुद्ध) तथा भोजनके ऊपर फिर भोजन करना, अजीर्ण, भोजनका काल छोड़ फिर गरमागरम अधिक खाना, स्नेहादिक द्रव्यका अत्यंत पान, विरुद्ध फल देनेवाले हीनाधिक

योग, विष भक्षण, भय, शोक, इन करके तथा दूषितपानी और मद्य इनका अत्यन्त पान करनेसे । ऋतु विपरीत पदार्थोंके भक्षणसे, जलमें गोता मारना, मलमूत्रका वेग रोकनेसे, तथा पेटमें कीड़े पडजाना इन कारणोंसे इसप्राणिके अतिसार रोग होता है उसके लक्षण कहते हैं ॥

संप्राप्ति ।

संशाम्यापांधातुरग्निप्रवृद्धोवर्चोमिश्रोवायुनाधःप्रणुन्नः ।

सरत्यतीवातिसारंतमाहुर्व्याधियोरंपड्विधंतंवदन्ति ॥

अर्थ—शरीरमें जलद्रव रूप धातु (फफ, रस, मूत्र, स्वेद, मेद, पित्त, और रुधिर आदि) अति बढे हुए जठराग्निको शमन (मंद) करके स्वयंवायु करके निकाले हुये मल संयुक्त वर्च (मल) वा झाडे को गुदाकेद्वारा अत्यंत बारंवार निकाले है अतएव वैद्य इसको अतिसार ऐसा कहते हैं यह घोर व्याधि छः प्रकारकी है ॥

षट्प्रकार ।

एकैकशःसर्वशश्चापिदोषैःशोकेनान्यःषट्प्रकारेणयुक्तः ॥

केचिच्चाहुर्नैकरूपप्रकाराइत्येवंतंकाशिराजोह्यवादीत् ॥

अर्थ—वातातिसार, पित्तातिसार, कफातिसार, संनिपातातिसार, शोकातिसार और आमातिसार, ऐसे अतिसार रोग छः प्रकारके हैं, तथा सातवौं द्रंद्रज अतिसार विद्वानोंने माना है उक्त श्लोकमें यह द्रंद्रज अतिसार अधिक कहा है तथा अन्य ग्रंथोंमें इस द्रंद्रज अतिसारकी चिकित्सा लिखी है तथा काशीराजकाभी यह मत है कि अनेक अतिसार हैं ॥

पूर्वरूप ।

हृन्नाभिपायूदरकुक्षितोदगात्रावसादानिलसन्निरोधाः ॥

विद्रसंगआध्मानतथाविपाकोभविष्यतस्तस्यपुरःसराणि ॥

अर्थ—हृदय, नाभि, गुदा, पेट और कूख, इनमें शूल होंगे, अंग रहजावे, अधोवायु रुकजावे, मल उत्तरे नहीं, पेट फूले, तथा, अपक्वअन्न पेटमें रहा आवे ये अतिसार होनेवाले मनुष्यके लक्षण होते हैं ॥

अतिसारकेपूर्वरूपकीचिकित्सा ।

हितंलंघनमेवादौपूर्ववत्तेनपाचनम् ॥ पडंगयूपंकृत्वावापिपासादिपुयोजयेत् ॥ मुद्गयूपंसंतक्रंधान्यजीरकसंयुतम् ॥ पडं-

ग्यूपमित्याहुः सैधवेनसमान्वितम् ॥ अग्निसंदीपनंप्रोक्तंग्रहणी-
दोपनाशनम् ॥ अरोचकेज्वरेचैवश्रेष्ठमेतत्प्रवाहिके ॥

अर्थ—अतिसार रोगवालेको प्रथम लंघन करना हितकारी है, कारण लंघन पाचन करे है, फिर प्यास आदि उपद्रव होवे तो पडंगयूष देवे, मूंगका यूप रस छाँछ, धनियां, जीरा, सैधानिमक, इनको पडंग यूप कहते हैं यह अग्निको संदीपन करे, संग्रहणीका नाश करे, तथा अरुचि, ज्वर और प्रवाहिका इनपर हितकारी है ॥

विल्वादिपडंगयूप ।

विल्वंचधान्यं चसजीरकंचपाठाचशुंठीतिलसंयुताच ॥

पिष्ट्वापडंगः सहितोनराणायूपस्त्वतीसारहरः प्रदिष्टः ॥

अर्थ—वेलगिरी, धनिया, जीरा, पाठ, सोंठ और तिल, इनके चूणका यूप करे इस पडंग यूपके पीनेसे, अतिसार नाश होवे ॥

यवागू ।

तृष्णापनयनीलघ्वीदीपनीवस्तिशोधिनी ॥

विरेकेचातिसारेचयवागूः सर्वदाहिता ॥

अर्थ—यवागू तृष्णानाशक, हलकी, दीपनी, वस्त्याशयको शोधन करता, रैचक और अतिसार, इन पर सदैव हितकारी है ॥

औषधीदेनावर्ज्य ।

नस्तंभयेदतीसारमपकंवृद्धिमागतम् ॥

विनाक्षीणस्यवृद्धस्यगर्भिण्यावालकस्यच ॥

अर्थ—क्षीण, बालक, वृद्ध और गर्भिणी इनके हुए अतिसारको त्याग कर अपक और बढे हुये अतिसारको बंद न करे ॥

अतिसारपर लंघन ।

तस्यादौलंघनंप्रोक्तंज्ञात्वादेहबलावलम् ॥ पाचनंचविधातव्यं

त्र्यूषणाद्यंभिषग्वरैः ॥ नपित्तेनविनासोपिजायतेशुणुपुत्रक ॥

तस्यनोलंघनंप्रोक्तंज्वरजेचातिसारके ॥ तस्यादौलंघनंचैव-

मन्येवानैवलंघनम् ॥ तस्माद्द्वेयंकपायंतुपाचनंभोजनेनच ॥

अर्थ—देहशक्तिके अनुसार अतिसार रोगमें प्रथम लंघन करना चाहिये, फिर ऋषणादि द्वारा पाचन देवे, कोई वैद्य अपने पुत्रसे कहता है कि हे पुत्र ! अतिसार रोग विनापित्तके नहीं होता, अतएव पित्ताधिक अतिसार पर लंघन नहीं कराना उसीप्रकार ज्वरातिसारपर भी लंघन न करावे इन दोनोंको पाचन काढा भोजनके साथ देवे ॥

यवान्यादिदीपन ।

यवानीनागरोशीरधानिकाविल्वमुस्तकम् ॥

द्विपर्णिकापचेच्चैतद्दीपनं पाचनं स्मृतम् ॥

अर्थ—अजमायन, सोंठ, खस, धनियाँ, बेलगिरी, नागरमोथा, सालपर्णी और पृष्ठपर्णी इनका काढा दीपन पाचन है ॥

अतिसारप्रक्रिया ।

अतिसारेज्वरेचैवरक्तपित्तेद्द्विगमये ॥

आदौ न प्रति कुर्वीत व्याधिवेगो हि दुस्तरः ॥

अर्थ—अतिसार, ज्वर, रक्तपित्त, नेत्ररोग इतने रोगोंमें रोग उत्पन्न होतेही चिकित्सा न करे कारण यह है कि, इन रोगोंका वेग कठिन है, अतएव जब इनका वेग घटे तब इलाज करना चाहिये ॥

दूसरा प्रकार ।

आमपकक्रियाहित्वानातिसारेक्रियाहिता ॥

अतः सर्वातिसारेपुज्ञेयं पक्वामलक्षणम् ॥

अर्थ—आमपक करनेकी क्रियाको छोड़कर दूसरी क्रिया अतिसारमें हितकारी नहीं है अतएव संपूर्ण अतिसारमें आमपक हुई है या नहीं हुई ये जानना चाहिये ॥

तीसरा प्रकार ।

आमेविलंघनं शस्तमादौ पाचनमेव च ॥

कार्यवानशनस्यांते सद्रवंलघुभोजनम् ॥

अर्थ—आमातिसारमें प्रथम लंघन और पाचन उत्तम है अथवा लंघनके अनंतर पतला और हलका भोजन देवे ॥

धान्यपंचकपाचन ।

धान्यवालकविल्वानागरेःसाधितं जलम् ॥ आमशूलहरं ग्राहि

भेदिदीपनपाचनम् ॥ पित्तेधान्यचतुष्कंतुशुंठीत्यागाद्वदंतिहि ॥

अर्थ—धनिया, नेत्रवाला, बेलगिरी, नागरमोथा और सोंठ इनका काढा, आमगूल नाशक, ग्राहि, रेचक, दीपन और पाचन है, तथा पित्तमें शुंठीके विना धान्यपंचक देवे ॥

धातक्यादिमोदक ।

धातकीविश्वपापाणमालूरमजमोदकम् ॥

मुस्तंमोचरसंचुक्रंसर्वातीसारशांतये ॥

अर्थ—धायके फूल, सोंठ, पापाणभेद, बेलगिरी, अजमोद, नागरमोथा, मोचरस और चूका इनके लड्डू सर्व प्रकारके अतिसारोको शमन करे ॥

कुटजाष्टककाढा ।

कुटजवालविपावनधातकीकुसुमदाडिमलोध्रमथोवृकी ॥ क

थनमेभिरिदंमधुनायुतंविमलमोचरसेनसमाहितम् ॥ पीयमानं

महातीव्रमतिसारंसदाहकम् ॥ रक्तशूलामरोगंचनिहंति कुटजाष्टकम् ॥

अर्थ—कूडाकी छाल, नेत्रवाला, अतीस, नागरमोथा, धायकेफूल अनारकेछो-तरा, लोध और पाठ इनके काठमें सहत और मोचरस मिलापके पीवे तो दाह-युक्त अतिसार, रक्तगूल, आमका रोग इन सबको यह कुटजाष्टक नष्ट करे ॥

वातातिसारनिदान ।

अरुणंफेनिलंरुक्षमल्पमल्पंमुहुर्मुहुः ॥

शकृदामंसरुक्शब्दंमारुतेनातिसार्यते ॥

अर्थ—बादोंके योगसे अतिसारके दस्तोंका रंग लाल ज्ञायुक्त, रुक्ष और कच्चा, तथा चारंवार गुडगुहा हटके साथ गुदाके द्वार थोडा २ गिरता है, उसको वातातिसार जानना ॥

पूतिकादिकाढा ।

पूतिकंमागधीशुंठीबलाधान्यंहरितकी ॥

पक्त्वांबुनापिचेत्सायंवातातिसारशांतये ॥

अर्थ—फंजा, पीपल, सोंठ, खरेंटी, धनिया, हरड, इनका काढा सायंवाल्क समय लेनेमें आम और वातातिसार शमन होवे ॥

पथ्यादिकाढा ।

पथ्यादारुवचाशुंठीमुस्ताचातिविषामृता ॥

क्वाथएपांहरेत्पीतोवातातीसारमुल्यणम् ॥

अर्थ—हरड, देवदारु, वच, सोंठ, मोथा, अतीस और गिलोय, इनका काढा घोर वातातिसारको नाश करे ॥

वचादिकाढा ।

वचाचातिविषामुस्तंचीजानिकुटजस्यच ॥

श्रेष्ठःकपायएतेपांवातातीसारशांतये ॥

अर्थ—वच, अतीस, मोथा, इन्द्रजौ इनका काढा वातातिसारको नाश करे ॥

सुवर्चलादिकाढा ।

सुवर्चलंवचाहिंशुहैमज्योतिविषासमम् ॥

वातातीसारहृत्प्रोक्तंसकुटुत्रयमंभसा ॥

अर्थ—कालानिमक, वच, हींग, विरायता, चीत्तिकी छाल, अतीस, सोंठ, कालीमिरच और पीपल इनका काढा वातातिसारनाशक है ॥

कपित्थाष्टकचूर्ण ।

अष्टौभागाःकपित्थस्यपद्भागशर्करामता ॥ दाडिमंतिडि

कंचश्रीफलंधातकीतथा ॥ अजमोदाचपिप्यल्यःप्रत्येकंस्यु

स्त्रिभागिकाः ॥ मरीचंजीरकंधान्यंअथिकंवालकंतथा ॥ सी

वर्चलयवानीचचातुर्जातंसचित्रकम् ॥ नागरंचैकभागाःस्युः

प्रत्येकंसूक्ष्मचूर्णिताः ॥ कपित्थाष्टकसंज्ञस्याच्चूर्णमेतजला

मयान् ॥ निहंतिग्रहणीरोगानतिसारंव्यपोहति ॥

अर्थ—केयफा गूदा ८ तोले- मिश्री ६ तोले, अनारदाना, इमली, बेलगिरी, धायके फूल, अजमोद और पीपल ये प्रत्येक तीन २ तोले हों तथा काली-मिरच, जीरा, धनिर्धा, पीपरामूल, नेत्रवाला, कालानिमक, अजवायन, दाल-चीनी, पत्रज, इलायची, नागकेशर, चीत्तिकी छाल और सोंठ, ये प्रत्येक एक एक तोले हों सबका चूर्ण करे इसको (कपित्थाष्टक) चूर्ण कहते है यह संपूर्णजल संबंधी रोग, संग्रहणी और अतिसार इनको नाश करे ॥

भेदिदीपनपाचनम् ॥ पित्तेधान्यचतुष्कंतुशुंठीत्यागाद्रदंतिहि ॥

अर्थ—धनिया, नेत्रवाला, बेलगिरी, नागरमोथा और सोंठ इनका काठा, आमशूल नाशक, ग्राहि, रेचक, दीपन और पाचन है, तथा पित्तमें गुंठीके बिना धान्यपंचक देवे ॥

धातक्यादिमोदक ।

धातकीविश्वपापाणमालूरमजमोदकम् ॥

मुस्तमोचरसंचुक्रं सर्वातीसारशांतये ॥

अर्थ—धायके फूल, सोंठ, पापाणभेद, बेलगिरी, अजमोद, नागरमोथा, मोचरस और चूका इनके लड्डू सर्व प्रकारके अतिसारोंको शमन करे ॥

कुटजाष्टककाठा ।

कुटजवालविपाचनधातकीकुसुमदाडिमलोध्रमथोवृकी ॥ क

थनमेभिरिदंमधुनायुतंविमलमोचरसेनसमाहितम् ॥ पीयमानं

महातीव्रमतिसारंसदाहकम् ॥ रक्तशूलामरोगंचनिहंतिकुटजाष्टकम् ॥

अर्थ—कूडाकी छाल, नेत्रवाला, अतीस, नागरमोथा, धायकेफूल अनारकेछो-तरा, लोध और पाठ इनके काठमें सहत और मोचरस मिलायके पीये तो दाह-युक्त अतिसार, रक्तशूल, आमका रोग इन सबको यह कुटजाष्टक नष्ट करे ॥

वातातिसारनिदान ।

अरुणंफेनिलंरूक्षमल्पमल्पंसुहुर्मुहुः ॥

शकृदामंसरुक्शब्दंमारुतेनातिसार्यते ॥

अर्थ—वादीके योगसे अतिसारके दस्तोंका रंग लाल झागयुक्त, रुक्ष और कच्चा, तथा चारंवार गुडगुडा हटके साथ गुदाके द्वार थोडा २ गिरता है, उसको वातातिसार जानना ॥

पूतिकादिकाठा ।

पूतिकंमागधीशुंठीवलाधान्यंहरौतकी ॥

पक्त्वांबुनापिवेत्सायंवातातीसारशांतये ॥

अर्थ—कंजा, पीपल, सोंठ, खैरंटो, धनिया, हरड, इनका काठा सायंकालके समय लेनेसे आम और वातातिसार शमन होवे ॥

पथ्यादिकाढा ।

पथ्यादारुवचाशुंठीमुस्ताचातिविषामृता ॥

काथएपांहेरेत्पीतोवातातीसारमुल्वणम् ॥

अर्थ—हरड, देवदारु, वच, सोंठ, मोथा, अतीस और गिलोय, इनका काढा घोर वातातिसारको नाश करे ॥

वचादिकाढा ।

वचाचातिविषामुस्तंवीजानिकुटजस्यच ॥

श्रेष्ठःकपायएतेपांवातातीसारशांतये ॥

अर्थ—वच, अतीस, मोथा, इन्द्रजौ इनका काढा वातातिसारको नाश करे ॥

सुवर्चलादिकाढा ।

सुवर्चलंवचाहिंगुहैमज्योतिविषासमम् ॥

वातातीसारहृत्प्रोक्तंसकुटुत्रयसंभसा ॥

अर्थ—कालानिमक, वच, हींग, विरायता, चीत्तिकी छाल, अतीस, सोंठ, कालीमिरच और पीपल इनका काढा वातातिसारनाशक है ॥

कपित्थाष्टकचूर्ण ।

अष्टौभागाःकपित्थस्यपद्मभागाशर्करामता ॥ दाडिमंतितिडी

कंचत्रीफलंधातकीतथा ॥ अजमोदाचपिप्यल्यःप्रत्येकंस्यु

स्त्रिभागिकाः ॥ मरीचंजीरकंधान्यग्रथिकंवालकंतथा ॥ सौ

वर्चलयवानीचचातुर्जातंसचित्रकम् ॥ नागरं चैकभागाःस्युः

प्रत्येकंसूक्ष्मचूर्णिताः ॥ कपित्थाष्टकसंज्ञस्याच्चूर्णमेतजला

मयान् ॥ निहंतिग्रहणीरोगानतिसारंव्यपोहति ॥

अर्थ—केयका गुदा ८ तोले- मिश्री ६ तोले, अनारदाना, इमली, वेल्गिरी, धायके फूल, अजमोद और पीपल ये प्रत्येक तीन २ तोले लेवे तथा काली-मिरच, जीरा, धनियां, पीपरामूल, नेत्रवाला, कालानिमक, अजवायन, दाल-चीनी, पत्रज, इलायची, नागकेशर, चीत्तिकी छाल और सोंठ, ये प्रत्येक एक एक तोले लेवे सबका चूर्ण करे इसको (कपित्थाष्टक) चूर्ण कहते है यह संपूर्ण जल संबंधी रोग, संग्रहणी और अतिसार इनको नाश करे ॥

लाईचूर्ण ।

चित्रकंत्रिफलाव्योपविडंगंजीरकद्वयम् ॥ भल्लातकंयवानीचहिं
गुर्लवणपंचकम् ॥ गृहधूमंवाचाकुष्ठंधनमभ्रंचगंधकम् ॥ क्षारत्रयंचा
जमोदापारदंगजपिप्पली ॥ एतेपांचूर्णितंयावत्तावच्छकाश
नस्यच ॥ अभ्यर्च्यलाईकांप्रातर्योगिनीकामरूपिणीम् ॥ विडाल-
पदमात्रंतुभक्षयेदस्यगुंडकम् ॥ मंदाग्रिकासदुर्नामप्लीहापांडुचि-
रज्वरात् ॥ प्रमेहशोथविष्टंभसंत्रहग्रहणीहरः ॥ सर्वातिसारश-
मनः सर्वशूलनिवारणः ॥ आमवातगजोच्छेदीमूतिकातंकना-
शनः ॥ नैतस्मिन्व्याधयःसंतिवातपित्तकफोद्भवाः ॥ काष्ट-
प्युदरेतस्यभक्षणाद्यातिजीर्णताम् ॥ वार्यनचव्यवायंचस्रानं
पिशितभोजनम् ॥ कांजिकाम्लंसदापथ्यंदग्धमीनंतथादधि ॥
तस्मादसौसदासेव्योगुंडकोलाईकाकृतिः ॥

अर्थ—चीतेकी छाल, त्रिफला, त्रिकुटा, वायविडंग, जीरा, कालाजीरा, भि-
लाये, अजमायन, हींग, पाचोनिमक, घरकाधूआ, वच, कूठ, नागरमोथा,
अध्रक, गंधक, सजीखार, जवाखार, मुहागा, अजमोद, पारा, गजपीपरु इन
सबके चूर्णके बराबर भांग, अथवा (इन्द्रजव) मिलायके प्रातःकाल कामरू-
पीणी, लाई योगनीका पूजन कर दो तोले नित्यलेवे तो मंदाग्रि, खांसी, बवासीर,
डीहा, पांडु, अरुचि, ज्वर, प्रमेह, मूजन, विष्टंभ संग्रहणी, सर्वातिसार, शूल,
आमवात, प्रमूतका रोग, त्रिदोषजन्य व्याधी ये सब नाशको प्राप्त हो इस
चूर्णके खानेवालेने यदि काष्ठ भक्षण कराहोय तो वोभी पचजावे इसपर पथ्य-
नहीं है, मैथुन स्नान, मांस ये वस्तु वर्जित नहीं है, खट्टीकांजी, भुनी मछली
और दही ये पथ्य है और लाई के आकृतिवाले गोला सेवन करने चाहिये ॥

कुटजचूर्ण ।

इंद्रजमेघमदाकुसुमंश्रीलोधमहौपधमोचरसानाम् ॥

चूर्णमिदंगुडतक्रनिपीतंहंत्यचिरादतिसारमुदारम् ॥

अर्थ—इन्द्रजौ, नागरमोथा, धायके फूल, बेलगिरी, लोध, सोंठ और मोचरस
इनके चूर्णको गुड और छाँछ के साथ लेवे तो घोर अतिसारको नष्ट करे ॥

शुंठीचूर्ण ।

कल्याणिकांचनलताललितांगयष्टेतांबूलशालिवदनेललने-
शृणुष्व ॥ शुंठीमदांकुसुममोचरसाजमोदातक्रान्विताःप्रशम-
यंत्यतिसारमुग्रम् ॥

अर्थ-सोंठ, धायके फूल, मोचरस और अजमोदा इनका चूर्ण छौंछके साथ पीवे तो घोर अतिसार नष्ट होवे यह लौलिबराममें लिखा है ॥

बृहल्लवंगादिचूर्ण ।

लवंगमेलातजपत्रजोत्पलमुसीरमासीतगरंसवालकम् ॥ कंकोल-
कृष्णागरुनागकेसरंजातीफलंचंदनजातिपत्रिका ॥ द्व्यजाजि-
सत्र्यूपणपुष्करंशार्ठीफलत्रिकंकुष्ठविडंगचित्रकम् ॥ तालीसपत्रंसु-
रदारुधान्यकंयवानियष्टीखदिराम्लवेतसम् ॥ तुंगाजमोदाघन-
सारमभ्रकंशृंगीविपात्रंथिकमग्निमंथकम् ॥ प्रियंगुमुस्तातिविपाश-
तावरीसत्वंगुडूच्यास्त्रिवृतादुरालभा ॥ समानिसर्वैश्चसमासि-
ताभवेद्बृहल्लवंगाद्यमिदंनिगद्यते ॥ सायंप्रगेखादतिकर्पसंमि-
तंभवंतिदेहेवलवीर्यपुष्टयः ॥ प्रमेहकासारुचियक्ष्मणीतथाक्ष-
यास्रदाहंग्रहणीत्रिदोषनुत् ॥ हिक्कातिसारप्रदरंगलग्नहनिहं-
तिपांडुस्वरभंगमश्मरीम् ॥

अर्थ-लौंग, इलायची, तज, पत्रज, कमलगट्टा, खस, जटामांसी, तगर, नेत्रवाला, कंकोल, काली अगर, नागकेशर, जायफल, सपेचंदन, जावित्री, कालाजीरा, सपेजीरा, सोंठ, मिरच, पीपल, कचूर, हरड, बहेडा, आमला, फूड, वापविडंग, चीतेकीछाल, तालीसपत्र, देवदारु, धनिया, अजवायन मुल-हरी, रीरसार, अमलवेत, वंशलोचन, अजमोद, कपूर, अभ्रक, फाकडासिंगी-अतीस, पीपरामूल, अरनी, फूलप्रियंगु, मोषा, सपेद अतिविष. सतायर, गिलोयसत्व, निसोय और धमासा ये सब समान भाग ले सब चूर्णके समान मिश्री मिलावे इस चूर्णको बृहल्लवंगादि चूर्ण कहते है, इसमेंमे श्तोले सायंशाल, और प्रातःकाल देवे तो देहमें बल, वीर्य और पुष्टिकरे तथा प्रमेह, खांसी-

अरुचि, राजयक्ष्मा, पीनस, क्षई, रक्तदाह, संग्रहणी, सन्निपात, हिचकी, अतिसार, प्रदर, गलग्रह, पांडुरोग, स्वरभंग और पथरी इन सबको नाश करे ॥

विजयायोग ।

मधुनाविजयाभवंरजोनिशिलीढंमधुनासुभजितम् ॥

अतिसारमनिद्रतांहरेद्ग्रहणीवैदहनस्यमंदाताम् ॥

अर्थ—रात्रिमें भाँगका भुना हुआ चूर्ण शहतके साथ देवे तो अतिसार निदानाश, संग्रहणी और मंदाग्नि इनका नाश करे ॥

कुटजावलेह ।

क्षुण्णंकुटजमूलस्यचूर्णतोयार्मणेपचेत् ॥ काथेपादावशेषेस्मि-

न्लेहेपूतेपुनः पचेत् ॥ सौवर्चलयवक्षारविडसैंधवपैप्पलम् ॥

पाठाचेन्द्रयवाजाजीचूर्णदत्वापलद्वयम् ॥ लिह्याद्भद्रमात्रंतुत

च्छीतंमधुसंयुतम् ॥ पक्वापक्रमतीसारंनानावर्णसवेदनम् ॥ दुर्वा

रंग्रहणीरोगंजयेच्चैतत्प्रवाहिकम् ॥

अर्थ—कूडाकी जड़की छालको बारीक कूट १०२४ तोले जलमें काढाकर जब चतुर्थांश रहे तब उतारके छानलेवे और इसमें संचर निमक, जवाखार, विडनोन, सैंधानिमक, पीपल, पाठ, इन्द्रजौ और जीश इनका चूर्ण दो २ पल मिलाय-शीतल करे, इस कुटजावलेहको बेरके समान शहतके साथ देवे तो पक्क, अपक्क अनेकवर्णवाला, पीडायुक्त ऐसा अतिसार तथा दुर्निवार संग्रहणी रोग और प्रवाहिका इनका नाश करे ॥

दूसराकुटजावलेह ।

काथोवत्सकजोनितांतविमलैः पादावशेषःस्थितो मुस्ताक्षीर-

विडंगवीजरुचकंसिंधूद्भवंधातकी ॥ कृष्णाचेतिविचूर्णितंसममि-

दंसंपाचयेत्पावकेयावत्तद्वनतांप्रयात्यतितरांशीतिमधुक्षेपणम् ॥

कृत्वावत्सकलेहएपशमयेत्कृच्छ्रातिसारंरुजंदुर्नामग्रहणीभंग-

दरगदान्श्वासप्रमेहानपि ॥

अर्थ—कूडेकी छालका चतुर्थांश काढा कर उसमें नागरमोथा, दूध, वाय-इंग, पाँगानिमक, सैंधानिमक, धायकेफूल और पीपल इनका चूर्ण समान

भाग ले अमिपर रखके जवतक गाढा न होवे तबतक पचावे फिर कुछ पतले रहनेपर उतारके शीतल करे उसमें शहत मिलाय अनुपानके साथ देवे तो यह कुटजावलेह, अतिसार, बवासीर, संग्रहणी, भगंदर, श्वास और प्रमेह इनका नाश करे ॥

कुटजपुटपाक ।

तत्कालंकृष्णकुटजत्वचंतंडुलवारिणा ॥ पिष्ट्वाचतुःपलमितां
जंवृपल्लववेष्टिताम् ॥ सूत्रेणवद्धांगोधूमपिष्टेनपरिवेष्टिताम् ॥
लिप्त्वाचयनपकेनगोभयैर्वह्निनादहेत् ॥ अंगारवर्णाचमृदं-
द्वावह्नेःसमुद्धरेत् ॥ ततोरसंगृहीत्वाचशीतंक्षौद्रयुतंपिबेत् ॥
जयेत्सर्वानतीसारान्दुस्तरान्सुचिरोत्थितान् ॥

अर्थ—कालेकूडाकी गीली छाल १६ तोले को चांवलोंके धुले हुए पानीमें पीस गोला बनावे उसके चारोंतरफ जामुनके पत्ते लपेटकर मूतसे लपेट देवे उसके ऊपर गेहूँके चूनको सानके गाढा गाढा लेप करे फिर उसपर गाढी गाढी कीचका लेपकरे उसको आरने उपलोंकी अमिमें धरके फूंक देवे जब गोला अंगारेके वर्ण होजावे तब निकाल ऊपरका लेप दूरकरे उसकारस निचोड शहत मिलायके शीतल पीवे तो बहुत दिनका घोर अतिसार दूर होवे ॥

तंडुलजल ।

कंडितंतंडुलपलंजलेष्टगुणितेक्षिपेत् ।

भावयित्वाजलग्राह्यदैयंसर्वत्रकर्मसु ॥

अर्थ—उत्तम विने हुए चावल ३५ तोले लेकर अठगुने पानीसे धोवे उस पानीको सर्वत्र योगमें देना चाहिये ॥

मृतसंजीवनरस ।

शुद्धसूतंसमंगंधंसूतपादंविपक्षिपेत् ॥ सर्वतुल्यंमृतंचाश्रमर्द्य-
धत्तूरजैर्द्रवैः ॥ सर्पाक्ष्याश्चद्रवैर्यामंकपायेणाथभावयेत् ॥ धात
क्यतिविपामुस्ताशुंठीवालकजीरकम् ॥ यवानीधातकीविल्वं
पाठापथ्याकणान्विता ॥ कुटजस्यत्वचंवीजंकपित्थंदाडिमी-
बला॥प्रत्येकंकर्पमात्रंस्यात्कलिकतंक्वथितंजलैः ॥कल्काच्चतु

गुणंतोयंकाथंपादावशेषितम् ॥ अनेन त्रिदिनं भाव्यं पूर्वोक्तं मर्दितं
 रसम् ॥ रुद्ध्वा तद्वालुकाय त्रेक्षणं मृद्भिना पचेत् ॥ मृतसंजीवनीना
 मरसो गुंजा चतुष्टयम् ॥ दातव्यमनुपानेन असाध्यमपि साधयेत् ॥
 नागरातिविपासुस्तादेवदारुवचाकणा ॥ यवानीधान्यनकंवाल
 कुटजस्यत्वचाभया ॥ धातकीं द्रव्यापाठाविल्वमोचरसंसम
 म् ॥ चूर्णितं मधुना लेह्यमनुपानं सुखावहम् ॥

अर्थ—शुद्धपारा और गंधक, समान भाग तथा सिंगियाविष पारेकी चतुर्थांश
 लेवे और सबकी बराबर अन्नक भस्म ये सब एकत्र कर धतूरेके रसमें खरल
 करे फिर सरफोंकाके रसकी अथवा कोठेकी एकप्रहर भावना देवे और धायके
 फूल, अतीस, नागरमोथा, सोंठ, नेत्रवाला, जीरा, अजवायन, जव, वेलगिरी,
 पाठ, हरड, पीपल, कुडेकी छाल, इन्द्रजौ, कैथ, अनारदाना और खरेटी ये
 प्रत्येक एक एक तोले लेकर सबका कल्क करे अथवा जब गाढ़ा होजावे तब
 कल्कका चौगुना पानी मिलाय उसका चतुर्थांश काढा करे उसको पूर्वोक्त औष
 धोंकी तीन दिन भावना देकर सुखाय शीशीमें भर कपडामिट्टी कर वालुका-
 यंत्रमें रखके इसको थोड़ी देर मंद आँचसे पचावे इसको मृतसंजीवन रस
 कहते हैं यह रस सोंठ, अतीस, नागरमोथा, देवदारु, घब, पीपल, अजमायन,
 धनिया, नेत्रवाला, कुडाकी छाल, हरड, धायके फूल, इन्द्रजौ, पाठ, वेलगिरी,
 और मोचरस इनकेचूर्ण और सहत इनसे देवे यह अनुपान सुखकारी है, इसे
 सर्वप्रकारके अतिसार अवश्य दूर हों ॥

कारुण्यसागररस ।

रसभस्मद्विधागंधतस्माद्धिघ्नं मृताश्रकम् ॥ दिनं सऋतुतैलेन पि-
 ष्वायामं विपाचयेत् ॥ रसं मार्कवमूलोत्थेनिर्यासे संविमर्द्यच ॥
 त्रिक्षारपंचलवणं विपंव्योपाग्निजीरके ॥ सचित्रकैः समानां-
 शैर्युक्तः कारुण्यसागरः ॥ मापद्वयं प्रयुंजीतरसः स्यादतिसा-
 रके ॥ सज्वरे विज्वरे वाथसशूलेशोणितोद्भवे ॥ निरामेशोथयु-
 क्ते वाग्रहण्यां सानुपानकः ॥ अनुपानं विना ह्येपकार्यं सिद्धि-
 करिष्यति ॥

अर्थ—चंद्रोदय १) गंधक २) अभ्रकभस्म ४) सबको एकत्रकर अंडीके तेलसे १ दिन खरल कर १ प्रहर अग्निपर पचावे फिर भांगरेके रससे, खरल-करे और जवाखार, सजीखार, मुहागा, निमक, सेंधा, विडलवण, संचर, सिंगियाविप, सोंठ, मिरच, पीपर, केशर, जीरा, चीतेकी छाल इनका समान भाग चूर्ण मिलावे इसको करुणासागर रस कहते है यह अतिसार पर दो मासे देवे तो यह ज्वरसहित किंवा ज्वररहित और शूलसहित रक्तातिसार किंवा मूजनयुक्त अतिसार, संग्रहणी इनपर अनुपानके साथ देवे अथवा यह विना अनुपानकेही सर्वकार्य करता है ॥

कुंकुमवटी ।

कीटनिष्टीवनेष्टृष्टं नागफेनसकुंकुमम् ॥ तंदुलप्रमितंदत्तअतिसा
रनिपूदनम् ॥ इदंमयागुरोर्लब्धंनतुशास्त्राद्भिपग्वराः ॥ भव-
तामुपकरायगुरोस्तत्त्वंप्रकाशितम् ॥

अर्थ—मोम, अफीम और केशर ये समान भागले एकत्र खरल कर इसमेंसे-चावलके अनुमान देवे तो अतिसारको नाश करे यह प्रयोग मैने गुरुसे लेकर आप लोगोंके उपकारके वास्ते इस जगे प्रकाश करदीना, शास्त्रमें नहीं है, यह वैद्यामृत ग्रंथमें लिखाहै ॥

कपित्थादिपेया ।

कपित्थविल्वचांगेरीतक्रदाडिमसाधिता ॥

ग्राहिणीपाचनीपेयावातेवापंचमूलिका ॥

अर्थ—कैथका गुद्दा, बेलगिरी, चूका छाल, और अनारदाना इनसे बनी हुई पेया ग्राहिणी और पाचनी है, किंवा वाताधिक अतिसारपर पंचमूलसे बनी हुई पेया देवे ॥

पंचमूलवलादिपेया ।

पंचमूलीवलाविश्वाधान्यकोत्पलविल्वजा ॥

वातातिसारिणोदेयासूक्तेनान्यतमेनच ॥

अर्थ—पंचमूल, खटेरी, सोंठ, धनिया, कमलगट्टा और बेलगिरी इन औषधोंसे बनी पेया वातातिसारको नष्ट करे, अथवा इसको सिकाके साथ किंवा दूसरे योगोंके साथ देवे ॥

मसूराद्यधृत ।

मसुराणांपलशतंजलद्रोणेविपाचयेत् ॥ पादशेषंशृतंनीत्वाद
त्वाविल्वपलाष्टकम् ॥ धृतप्रस्थंपचेत्तेनसर्वातीसारनाशनम् ॥
ग्रहणीभिन्नविट्कंचनाशयेच्चप्रवाहिकाम् ॥

अर्थ—४०० तोले मसूर लेकर १०५४ तोले पानीमें औटावे जब चतुर्थांश रहे तब उतार लेवे, फिर वैलगिरिका चूर्ण ३२ तोले, और घी ६४ तोले मिला-यके पचावे जब घी मात्र शेष रहे तब उतारले इसके सेवन करनेसे सर्व प्रकार-के अतिसार, संग्रहणी, मलका टूटना और प्रवाहिका इनका नाश करे ॥

लोकनाथरस ।

रसभस्मभागमेकंचत्वारःशुद्धगंधकम् ॥ पिष्ट्वावराटिकामूलं टंक-
णेन निरुध्य च ॥ भांडेरुष्वापुटे पाच्यं स्वांगशीतं विचूर्णयेत् ॥
लोकनाथोरसो नाम्नाक्षौद्रे गुंजाचतुष्टयम् ॥ नागरातिविषामु-
स्तादेवदारुवचान्वितम् ॥ कपायमनुपानं स्याद्वातातीसारना-
शनम् ॥ क्षीरिण्यावाकपायेण योगवाहं नियोजयेत् ॥

अर्थ—चंद्रोदय, शुद्ध गंधक ४ दोनोंको एकत्र खरल कर कजली करे इसको कौडियोंमें भरके दूधसे पिसे हुए मुहागेसे कौडियोंका मुख बंद कर देवे फिर शरावमें धरके कपड मिट्टी कर गजपुटमें फूंकदे जब स्वांग शीतल होय तब निकालके खरल करे शीशामें भरके धर रखे इसको (लोकनाथरस) कहते है ४ रत्ती इस रसको सहतके साथ देवे अथवा सोंठ, अतीस, नागरमोथा, देवदारु, वच, इनके काटेसे अथवा खिरनीके काटेसे किंवा योगवाहक अनुपा-नोंके साथ देवे तो वातातिसार दूर होवे ॥

महारस ।

भस्मसूतस्यतीक्ष्णस्य मरिचाज्यंसमंसमम् ॥ शुक्क्षीरकाक-
माचीभ्यामर्दयेद्याममात्रकम् ॥ निरुध्यभूधरेपाच्यं दिनैकेन-
महारसम् ॥ निष्कार्धभावयेच्चानुपाययेदधिसंयुतम् ॥ सर्पाक्षिक-
र्षमात्रंतुपीत्वावातातिसारनुत् ॥

अर्थ—चंद्रोदय, खेरीलोहकी भस्म, फालीमिरच, और घी ये पदार्थ समान

भाग ले इनको थूहरका दूध, मकोय इनके रससे खरल करे फिर सरावसंपु-
टमें रखके कपडामिट्टी कर १ दिन भूधर यंत्रमें पचावे तो यह (महारस) सिद्ध
होवे इसमेंसे १॥मासे अनुपानके साथ देवे और इसके ऊपर दही और सरफोंका
मिलाय १० मासे पिवावे तो वातातिसारका नाश होवे ॥

द्वितीयमहारस ।

शुद्धसूतंसमंगंधंमरिचंटंकणकणा ॥ स्वर्णबीजंसममर्द्यभृंगि-
द्रावेदिनार्थकम् ॥ सूततुल्योरसोयोज्योरसः कनकसुंदरः ॥
योज्योगुंजाद्वयंहंतिवातातिसारमद्भुतम् ॥ दध्यन्नंदापयेत्पथ्य-
माज्यंवाथगवांदाधि ॥

अर्थ—शुद्धारा १) गंधक १) कालीमिरच, सुहागा, पीपल और धतूरेके
बीज प्रत्येक दोदो तोले लेंवे सबको भाँगेके रससे दो प्रहर खरलकरे फिर
पॉरकी बराबर इसमें कनकसुंदर रस मिलावे सबको खरलकर इसमेंसे रत्ती
सेवन करे तो यह महारस वातातिसारको दूर करे ऊपर दहीभातका पथ्य देवे
अथवा गौका धी और दही देवे ॥

वातातिसारपरशाक ।

फंजीशाल्मलिरक्ताक्षीकपित्त्यंदाडिमान्यथ ॥ श्लेष्माटोवद-
रीवाथक्षीरिणीवाकुचीशिवा ॥ तर्कारिवावलीचैपांशालप-
त्राणिवापुनः ॥ पक्कानिव्यंजनार्थाययोजयेदतिसारिणाम् ॥

अर्थ—समर, गूगल, कैथ, अनार, निमोरे, बेर, खिरनी, चावची, जरनी
बभूर इनके कोमलपत्ते अथवा पुराने पत्रोंका शाक यथायोग बनाकर देवे तो
अतिसारमें हितकारी जानना ॥

पित्तातिसारनिदान ।

पित्तात्पीतनीलमालोदितंवातृष्णामृच्छादाहपाकोपपत्रम् ॥

अर्थ—पित्तके कोपमें पीला, नीला, अथवा पुच्छल्लोहीलिये दन्त होता है
और प्यास मृच्छा, दाह और श्वाका पकना ये लक्षण होते हैं ॥

पित्तातिसारचिकित्साक्रम व पेया ।

अमान्वितमतीसारं पित्तिकं लंबनं जयेत् ॥ लंबितस्य यथासा-

त्स्यंयवागूमंडतर्पणैः ॥ शृतंचंदनमुस्ताभ्यांपटोलादीप्यनाग-
रैः ॥ पेयामम्लामतक्रांवापाचर्नाग्राहिणींपिबेत् ॥

अर्थ—आमयुक्त पित्तातिसारको लंघनद्वारा जीते अथवा लंघन करनेके उपरांत यथासात्म्य यवागू, मंड, वृत्तिकारी पदार्थ और चंदन, मोथा पटोल-पत्र, जीरा और सोंठ इनका काढा देवे ॥

पित्तातिसारपर पानी वा अन्न ।

धान्योदीच्यशृतंतोयंतृष्णादाहातिसारवान् ॥

ताभ्यामेवसपाठाभ्यांसिद्धमाहारमाचरेत् ॥

अर्थ—धनिया और नेत्रवाला इनका काढा प्यास, दाह और अतिसार इनके निवारणार्थ जलके पलटेमें देवे और धनिया, नेत्रवाला और पाठ, इनके काढेमें सिद्ध करा अन्न देवे ॥

मधुकादियोग ।

मधुकंकटफलंलोभ्रंदाडिमस्यफलत्वचौ ॥

पित्तातिसारमध्वक्तंपाययेत्तंडुलांबुना ॥

अर्थ—मुलहठी, फायफल, लोभ, अनारदाना और अनारकी छाल, इनका चूर्ण और कल्क चावलके धोवनमें शहत डालके देवे तो पित्तातिसारको दूर करे ॥

शुंठ्यादिकाढा ।

शुंठीसुवर्चलाहिंगुरभयेंद्रयवामताः ॥

पित्तातिसारहृत्काथोनिपीतोमधुनासह ॥

अर्थ—सोंठ, ब्राह्मी, हिंग, हरड और इन्द्रजौ इनके काढेमें शहत डालके देवे तो पित्तातिसारको दूर करे ॥

विल्वादिकाढा ।

विल्वशक्रयवांभोदवालकातिविपाकृतः ॥

कपायोहंत्यतीसारंसामंपित्तसमुद्भवम् ॥

अर्थ—बेलगिरी, इन्द्रजौ, नागरमोथा, नेत्रवाला और अतीस, इनका काढा आमसहित पित्तातिसारको दूर करे ॥

कट्फलादिकाढा

कट्फलातिविपांभोदवत्सकंनागरान्वितम् ॥

शृतंपित्तातिसारघ्नंदातव्यमधुसंयुतम् ॥

अर्थ—कायफल, अतीस, नागरमोथा, कूडाकी छाल और सोंठ इनका काढा सहत युक्त देवे तो पित्तातीसार दूर होवे ॥

मधुयष्ट्यादिकाढा ।

मधुयष्टिः सितालोध्रमुत्पलंसमभागतः ॥

मधुक्षीरयुतंपीतंरक्तपित्तातिसारजित् ॥

अर्थ—मुलहठी, मिश्री, लोध, कमलगन्ना इनका काढा सहत और दूध डालके देवे तो रक्तातिसारको नाश करे ॥

समंगादिचूर्ण ।

समंगाघातकीपुष्पंविभवंसौवर्चलंविडम् ॥ सक्षौद्रंदाडिमंचैव-

पीतंतदुलवारिणा ॥ चूर्णंपित्तातिसारघ्नंशूलंचाशुनियच्छति ॥

अर्थ—खरेटी, धायकेफूल, वेलगिरी, संचरनोन, और विडनोन इनके चूर्णमें सहत और अनारदाना मिलाय चावल धोवनके साथ पीवेतो शूलयुक्त पित्तातिसार तत्काल दूर हो ॥

अतिविपादियोग ।

सक्षौद्रातिविपापिष्टावत्सकस्यफलंत्वचम् ॥

तंदुलोदकसंयुक्तंपेयंपित्तातिसारनुत् ॥

अर्थ—अतीस, कूडाकीछाल, और इन्द्रजौ इनके चूर्णको चावलके धोवनके साथ सहत डालके पीवे तो पित्तातिसार और शूल इनका नाश करे ॥

जंवादिचूर्ण ।

जंबूचूतफलस्यास्थिद्राक्षापथ्याचपिप्पली ॥ खजूरंशाल्म-

लीछल्लीउदुंबरसवलकलम् ॥ एतच्चूर्णंसमंशुक्ष्णमधुनासहभ

क्षितम् ॥ रक्तपित्तोद्भवंश्रिंहंत्यतीसारमुल्बणम् ॥

अर्थ—जामुन और आमकी गुठली, दाख, हरड, पीपल, खजूर, सेमरकी छाल और गूलर, लोध इनका समान भाग चूर्ण कर सहतके साथ देवे तो रक्त और पित्त इनसे उत्पन्न हुए अतिसारका शीघ्र नाश करे ॥

लोकेश्वररस ।

रसस्यभस्मनाहेमपादांशमारितंक्षिपेत् ॥ उभयोर्द्विगुणं गंधं
मर्दयेच्चित्रकांबुना ॥ पूर्य्यावराटिकातेनटंकणेननिरोधयेत् ॥
मृत्तिकाचूर्णलिप्तेतुभांडेक्षित्वानिरुव्यच ॥ शुष्कं गजपुटेप-
क्करात्रौग्राह्यं सुशीतलम् ॥ रसोलोकेश्वरोनामचूर्णं गुंजाचतुष्ट-
यम् ॥ मधुनासहदातव्यं सर्वातीसारनाशनम् ॥ शालविल्वंगुंडतै-
लंपिप्पलीनागरं समम् ॥ लेहयेन्मधुनासार्धमनुपानं सुखावहम् ॥

अर्थ—चंद्रोदय, स्वर्णभस्म ३ मासे और गंधक २॥ तोले ले, सबको चीतेके
छालके रससे खरलकर कौडियोंमें भरके सुहागसे मुख बंद करदे फिर मिट्टी
और चूनेसे ल्हेस किसीपात्रमें भर मुख बंदकर गजपुटमें फूंक देवे जब शीतल
हो जावे तब निकाल लेवे यह लोकेश्वररस ४ रत्नी सहतके साथ देवे तो सर्वप्र-
कारके अतीसारोंको नष्ट करे इसके ऊपर कच्चीवेलगिरी, गुड, तैल, पीपल और
सोंठ इनका चूर्ण सहतके साथ चाटे यह अनुपान है ॥

दूसराप्रकार ।

लोकनाथोरसोप्यत्रक्षौद्रैर्गुंजाचतुष्टयम् ॥
दातव्यश्चपिवेच्चानुपेषितंतंडुलोदकम् ॥

अर्थ—इस अतिसार रोगमें लोकनाथरस ४ रत्नी सहतके साथ देवे और
ऊपर पीसे चावलका जल पीवे तो अतिसार रोग दूर हो ॥

वत्सकादिघृत ।

पलंवत्सकसंसिद्धंचतुर्गुणजलेघृतम् ॥
पित्तातिसारेभिपजादेयं दीपनपाचनम् ॥

अर्थ—४ तोले कूडाकी छालके कांठमें घृत सिद्धकर देवे तो पित्तातिसार
दूर हो और दीपन तथा पाचन है ॥

कफातिसारनिदान ।

शुक्लंसांद्रंसकफंश्लेष्मयुक्तं विस्रंशीतं हृष्टरोमामनुप्यः ॥

अर्थ—जिसका दस्त सपेद रंगका गाढा, कफ मिला, आमगंधी और
शीतल हो और उसके रोमांच खड़े रहे उसके कफातिसार जानना ॥

कफातिसारचिकित्साक्रम ।

श्लेष्मातिसारेप्रथमंहितंलंघनपाचनम् ॥

योज्यश्चामातिसारघ्नोयथोक्तोदीपनोगणः ॥

अर्थ—कफातिसारमें प्रथम लंघन और पाचन देना हित है तथा आमाति-
सार हरणकर्ता यथा विधिपूर्वक दीपनीय गण देना चाहिये ॥

नतुसंग्रहणंदद्यात्पूर्वमामातिसारिणाम् ॥

दोषोद्घातौवर्धमानौजनत्यामयान्वहून् ॥

अर्थ—आमातिसारवालेको संग्राही अर्थात् दस्त रोकनेवाली औषधी न देवे
क्योंकि दस्त रोकने से दोष बढकर अनेक प्रकारके रोगाका प्रकट करे है
अतएव दस्तोंका रोकना अहित है ॥

डिंभजःस्थाविरोवापिवातापित्तात्मकश्चयः ॥ क्षीणधातुवला-
र्तस्यबहुदोषोतिविश्रुतः ॥ आमोपिस्तंभनीयः स्यात्पाच-
नान्मरणंभवेत् ॥

अर्थ—छोटेबालके और वृद्धके तथा धातुक्षीणवालेके यदि आम अधिक
बढगई होवे तो इसे पित्तयुक्त जाननी इसलिये उसको रोकनी चाहिये यदि
उसका पाचन करे तो वो मरण करे ॥

पाथ्यादिकाढा ।

पथ्याग्निकटुकापाठावचामुस्तकवत्सकैः ॥

सनागरैर्जयेत्काथःकल्कोवाश्चैष्मिकांस्तुतिम् ॥

अर्थ—हरड, चीता, कुटकी, पाठ, वच, नागरमोथा, कूडाकी छाल और
सोंठ इनका काढा अथवा कल्फ कफके दस्तहोनेको दूर करे ॥

कृमिशञ्चादिकाढा ।

कृमिशञ्चुवचाविल्वपेशीधान्याककट्फलम् ॥

एपांक्षाथंभिपग्दद्यादतीसारेवलासजे ॥

अर्थ—धायविडंग, वच, बेलगिरी, धनिया, कायफल इनका काढा कफज-
न्य अतिसार रोगमें वैद्य देवे ॥

पूतिकादिकल्फ ।

पूतिकव्योपविल्वाग्निपाठादाडिमाहिंशुभिः ॥

योजयेत्सत्कृतैः पेप्यैः श्लेष्मातीसारपीडितम् ॥

अर्थ—कंजा, सोंठ, मिरच, पीपल, वेलगिरी, चीतेकी छाल, पाठ, अनारदाना, और होंग इनका काढा कफातिसारपीडावाला पीवे ॥

गोकंटकादिकाढा ।

गोकंटकंगुहोव्याघ्रीकपायंसुशृतंपिवेत् ॥

आमश्लेष्मातिसारघ्नदीपनंपाचनंपरम् ॥

अर्थ—गोखरू, कांगनी और कटेरी इनका काढा आमश्लेष्मातिसारनाशक और दीपन तथा पाचन है ॥

चव्यादिचूर्ण ।

चव्यंसातिविपाकुष्टंवालविल्वंसनागरम् ॥

वत्सकत्वक्फलंपथ्याछर्दिःश्लेष्मातिसारनुत् ॥

अर्थ—चव्य, अतीस, कूट, वेलगिरी, सोंठ, कूडाकी छाल, इन्द्रजौ और हरड इनका काढा वमनयुक्त कफातिसारको दूर करे ॥

कणादिचूर्ण ।

पाठावचात्रिकटुकंकुष्टंकटुकरोहिणी ॥

उष्णांबुनाविनिघ्नंतिश्लेष्मातीसारमुल्वणम् ॥

अर्थ—पाठा, वच, सोंठ, मिरच, पीपल, कूट, कुटकी इनका चूर्ण गरम जलके साथ पीवे तो कफातिसार दूर होवे ॥

हिंग्वादिचूर्ण ।

हिंगुसौवर्चलंव्योपमभयातिविपावचा ॥

पोतमुष्णांबुनाचूर्णमेतच्छ्लेष्मातिसारनुत् ॥

अर्थ—होंग, संचरनोन, सोंठ, मिरच, पीपल, हरड, अतीस और वच, इनका चूर्ण गरम जलके साथ पीवे तो कफातिसार दूर करे ॥

वव्वुलादियोग ।

वव्वूलपत्रंसंपिष्टंरात्रौजीरद्वयंहितम् ॥

कर्पमात्रंभवेद्भक्ष्यंकफातीसारनाशनम् ॥

अर्थ—रात्रिमें वव्वूलके पत्तोंको दोनों जीरेके साथ पीस १ तोले भक्षण करे तो कफातिसार नाश होवे ॥

पथ्यादिचूर्ण ।

पथ्यापाठावचाकुष्ठचित्रकः कटुरोहिणी ॥

चूर्णमुष्णांभसापीतंश्लेष्मातीसारनाशनम् ॥

अर्थ—हरड, पाठ, वच, कूठ, चीता और कुटकी इनके चूर्णको गरमजलके साथ पीवे तो कफातिसार दूर होवे ॥

अभयादिचूर्ण ।

अभयातिविपाहिंशुसौवर्चलकटुत्रयम् ॥

एतच्चूर्णसुतप्तांभः पीतंश्लेष्मातिसारजित् ॥

अर्थ—हरड, अतीस, हींग, संचरनीन, सोंठ, मिरच, पीपल, इनके चूर्णको गरम जलके साथ पीवे तो कफातिसार दूर होवे ॥

पथ्यादिचूर्ण ।

पथ्यासौवर्चलंहिंशुसैधवातिविपावचा ॥

आमातिसारंसकफपीतमुष्णांबुनाजयेत् ॥

अर्थ—हरड, संचरनिमक, हींग, सैधानिमक, अतीस और वच इनके चूर्णको गरम जलके साथ पीवे तो कफयुक्त आमातिसार दूर हो ॥

शुंठीपुटपाक ।

महौपधंसूक्ष्मचूर्णकृत्वातोयेनपेपयेत् ॥ ततस्तुगोलकंकृत्वा-
लेपयेत्तदनंतरम् ॥ वातारिशूलकल्केनश्रीपत्रैर्वेष्टयेत्तथा ॥ सू-
त्रवद्धंमृदालितंमृदुवह्नौविपाचयेत् ॥ सुस्निग्धंगोलकंतंतु-
स्फोटयित्वासमुद्धरेत् ॥ शीतोभूतमधुयुतंखादेन्मापद्रयो-
न्मितम् ॥ अथतत्रेणगव्येनसहदेयंपलेनच ॥ योगोयंकफवा-
तोत्थदुष्टातीसारनाशनः ॥ शोफकासहरः कांतिकृष्णवर्त्म-
विवर्धनः ॥

अर्थ—सोंठका चारीक चूर्ण कर जलसे पीस फिर उसका गोला बनाय उस-
पर अंडके कल्कवा लेपकर बेलके पत्तोंसे लपेट सूतसे कस देवे, फिर ऊपर
मिट्टी चढायके मंद अग्निमें पचावे फिर उसको फाँड़के सोंठके गोलको निकाल
लेवे शीतल होनेपर २ मासेके अनुमान सहतके साथ भक्षण करे अथवा ५ तोले

गौकी छॉछके साथ देवे तो यह योग कफ और वायुके दुष्ट होनेसे उत्पन्न दुष्ट अतिसारको नाश करे तथा सूजन खांसीको हरण करे और कांति तथा अग्निको बढ़ावे ॥

त्रिदोषातिसारनिदान ।

वराहस्नेहमांसांबुसदृशंसर्वरूपिणम् ॥

कुट्टसाध्यमतीसारविद्यादोषत्रयोद्भवम् ॥

अर्थ—जिस रोगीके दस्त सूअरके चसाके समान मांस धोवन जलके समान, तथा वातादि सर्व अतिसारोंके लक्षण करके युक्त होंवे उसको त्रिदोषका अतिसार जानना यह कष्टसाध्य है ॥

कुटजाबलेह ।

कुटजस्यत्वचःकाथोवस्त्रपूतोघनीकृतः ॥ सलीढोतिविपायुक्तः

स्यात्रिदोषातिसारनुत् ॥ इच्छंत्यत्राष्टमांशेनकाथादतिविपा-

रजः ॥ प्रक्षिपेद्वाचतुर्थांशमितिकेचिद्भद्रंतिहि ॥

अर्थ—कूडाकी छालके काढेको कपडेमें छान उसमें अतीसका चूर्ण मिलायके फिर पचावे जब गाढा होजावे तब उतारके उसे चाटे तो त्रिदोषका अतिसार दूर हो इसमें अष्टमांश अतीस डाले ऐसे कोई आचार्य कहते हैं तथा चतुर्थांश डाले ऐसे किसी आचार्यका मतहै इसमें वैद्य अपनी बुद्धिसे दोषोंकी अनु-सार कल्पना करे ॥

समंगादिकाढा ।

समंगातिविपामुस्ताविश्वह्रिवेरधातकी ॥

कुटजत्वक्फलं विल्वंकाथः सर्वातिसारनुत् ॥

अर्थ—खरेटी, अतीस, नागरमोथा, सोंठ, हाऊवेर, धायके फूल, कूडाकी छाल इन्द्रजौ और बेलगिरी इनका काढा सर्व प्रकारके अतिसारोंका नाश करे ॥

पंचमूलीबलादिकाढा ।

पंचमूलीबलाविल्वगुडूचीमुस्तनागरैः ॥ पाठाभूनिवर्हिष्ठ-

कुटजत्वक्फलैःशृतम् ॥ सर्वजंहंत्यतीसारंज्वरंचापितथावमिम् ॥

सशूलोपद्रवंश्वासंकासंवापिसुदुस्तरम् ॥

अर्थ—पंचमूल, खरेटी, बेलगिरी, गिलोय, नागरमोथा, सोंठ, पाठ, चिरायता, नेत्राला, कूडाकी छाल, इन्द्रजी इनका काढा त्रिदोषातिसार, ज्वर, वात-शूल, श्वास और खाँसीको नाश करे ॥

पंचमूलयोजना ।

पंचमूलयत्रसामान्यापित्तैयोज्याकनीयसी ॥

वातेपुनर्वलासेचसायोज्यामहतीमता ॥

अर्थ—पित्तमें लघुपंचमूल देवे और वादी तथा कफमें बृहत्पंचमूल देना-चाहिये ॥

कुटजपुटपाक ।

अवेदनंसुसंपक्कंदीताग्नेः सुचिरोत्थितम् ॥ नानावर्णमतीसारं-
पुटपाकैरुपाचरेत् ॥ स्निग्धघनंकुटजवल्कलजंत्वजग्धमादा-
यतत्क्षणमतीवचपेपयित्वा ॥ जंबूपलाशदलतंदुलतोयसिक्तं
वद्धंकुशेनचवहिर्यनपंकलितम् ॥ सुस्विन्नपिष्टमपिपीडचरसं-
गृहीत्वाक्षौद्रेणयुक्तमतिसारवतेप्रदद्यात् ॥ कृष्णात्रिपुत्रमत-
पूजितएपयोगः सर्वातिसारहरणेस्वयमेवराजा ॥

अर्थ—शूलरहित पक्क दीप्तामिवालेका, अनेक वर्ण संयुक्त और पुरा-
ने अतिसारको पुटपाक देवे; कूडाकी गीली छाल लाकर तत्काल पीस और
चावलके धोवनको मिलाय गोला करे फिर जामुनके पत्तोंसे लपेट ऊपर
मूतसे लपेट देवे फिर उसके ऊपर गाड़ीरकीचकालेपकर मंदाग्रिमें पचन करावे
फिर उसको निकाल उसकी मट्टी और पत्ते दूर कर रस निकाल ले उसमें सहत
मिलायके अतिसार रोगवालेको देवे तो यह योग सर्वातिसारको नष्ट करे यह
कृष्णात्रेय ऋषिका कहा सर्व मयोगोंका राजा है ॥

सूतादिवटी ।

मृतंसूतंमृतंस्वर्णमृतंताम्रंसमंसमम् ॥ तुल्यंचखादिरंसारंतथामो
चरसंक्षिपेत् ॥ द्रवैःशाल्मलिमूलोत्थैर्मर्दयेत्प्रहरद्वयम् ॥ चण-
मांत्रां वटीकृत्वाखादेज्जीरकसंयुताम् ॥ त्रिदोषाद्यमतीसारसं-
ज्वरं नाशयेधुवम् ॥

अर्थ—चंद्रोदय, सुवर्णभस्म, तामेकी भस्म, प्रत्येक बराबर लेवे. सबकी

वरावर खैरसार और मोचरस लेकर सेमरकी जडके रससे २ प्रहर खरल कर चणेकी वरावर गोली बनावे इसको जीरेके साथ खाय तो त्रिदोषका अतिसार ज्वरयुक्त निश्चय दूर होवे ॥

चतुःसमागुटी ।

अभयानागरंमुस्तंगुडेनसहयोजितम् ॥ चतुःसमेयंगुटिकात्रि-
दोषघ्नीप्रकीर्तिता ॥ आमातिसारमानाहसविवंधंविपूचिकाम् ॥

कृमीनरोचकंहन्यादीपयत्याशुचानलम् ॥

अर्थ—हरड, सोंठ, नागरमोया और गुड ये समानभाग ले गोली बनावे इसे खायतो त्रिदोष, आमातिसार, अफरा, विबंध, विपूचिका, कृमिरोग और अरुचि इनको दूर करे और अन्नको दीपन करे ॥

तृप्तिसागररस ।

रसभस्मचभागैकरसाद्विगुणगंधकम् ॥ गंधकाद्विगुणंचात्रंनिश्वं-
द्रमर्दयेत्ततः ॥ दिनैकंकटुतैलेनरुध्वाचुल्यांविपाचयेत् ॥ या-
मैकंवालुकायंत्रेसमुद्धृत्यविमर्दयेत् ॥ हयमारकमूलोत्थरसै-
र्यामंनिरुध्यच ॥ पूर्ववत्पाचयेच्चुल्यांसमादायविमिश्रयेत् ॥
त्रिक्षारंपंचलवणंनिष्काग्निद्वयजीरकैः ॥ विडंगेनचतत्तुल्यंयु-
क्तोयंतृप्तिसागरः ॥ भक्षयेन्मापमात्रंचसन्निपातातिसारजित् ॥
सज्वरांग्रहणीहंतिह्यनुपानंविनारसः ॥

अर्थ—चंद्रोदय १ तोला गंधक २ तोले, अन्नक ४ तोले, ये संपूर्ण पदार्थ एकत्र कर एक प्रहर खरलकरे फिर उसको सरसोंके तेलमें १ दिन खरल करे फिर शीशीमें भरके मुख बंदकर १ प्रहर वालुकायंत्रमें पचावे फिर कनेरकी जडके रससे १ प्रहर खरलकर पूर्वविधिसे चूल्हेपर चढाय वालुकायंत्रमें पचावे फिर निकालकर तीनों क्षार, पाँचोंनिमक, चाँतेकी छाल, जीरा, कालाजिरा, वायविडंग इनका चूर्ण तीन २ मासे लेकर मिलावे इनको तृप्तिसागररस कहते हैं, १ मासे सेवन करे तो संनिपातातिसार ज्वरयुक्त संग्रहणी इसको विना अनुपानके नष्ट करे ॥

आनंदभैरवी ।

मूलंकटुकरोहिण्याविल्वमज्जागुडूचिका ॥ दध्नापिद्वापिवेच्चानु
वटीचानंदभैरवी ॥ सन्निपातातिसारघ्नीपथ्यमूलाचपूर्ववत् ॥

अर्थ—कुटकी, बेलगिरी, गिलोय इनके चूर्णको दहीसे पीसके देवे तो संनि-
पातातिसार नष्ट हो इसको आनन्दभैरवी कहते हैं इसपर पथ्य पूर्ववत् देवे ॥

शोकभयातिसारनिदान ।

तैस्तैर्भावैः शोचतोल्पाशनस्यवाप्पोप्मावैवाह्निमाविश्यजं
तोः ॥ कोष्ठं गत्वाक्षोभयेत्तस्यरक्तं तच्चाधस्तात्काकणं तीप्रका
शम् ॥ निर्गच्छेद्वैविद्धिमिथं ह्यविड्भानिर्गंधं वागंधवद्वातिसारः ॥
शोकोत्पन्नो दुश्चिकित्स्योतिमात्रं रोगो वैद्यैः कष्ट एव प्रदिष्टः ॥

अर्थ—जिसके धन बंधु इत्यादि नाश होनेसे अत्यंत भयभीत हो इसी कारण
उसका अन्न थक जावे, उसके नेत्रोंसे उदकादि तथा देहसे कांत्यादिक तेज ये
भीतर प्रवेश होकर कोंठेमें जायकर जठरामिको व्याकुल कर रुधिरको क्षोभित
करे फिर वह रुधिर अपान (शूदा) द्वारा निकलने लगे उसका रंग गुंजा
(घूँघची) के समान होवे तथा वह रुधिर कभी २ मलमिश्रित किंवा केवल
गंधरहित किंवा सगंध ऐसा होय उसको शोकातिसार कहते हैं यह कष्टसाध्य
है वैद्योंकरके दुश्चिकित्स्य है, क्योंकि बिना शोकनष्ट हुए यह इसका दूर होना
असंभव है ॥

चिकित्सा ।

भयशोकसमुद्भूतौ ज्ञेयौ वातातिसारवत् ॥
तयोर्वातहरीकार्यार्हर्पणाश्वासनैः क्रिया ॥

अर्थ—भय और शोकसे उत्पन्न हुए अतिसारोंकी चिकित्सा वातातिसारके
सदृश जानना ॥ तथा उसको हर्षकारक पदार्थ अथवा धीरज वटावना और
वातहरणकर्त्ता क्रिया करावे ॥

पृश्निपर्ण्यादिकाढा ।

पृश्निपर्णीवलाविल्वंधान्यकोत्पलनागैः ॥ विडंगातिविषामु-
स्तादारुपाठाकलिंगैः ॥ मरिचेनसमायुक्तं शोकातीसारनाशनम् ॥

अर्थ—पृश्निपर्णी, खरेदो, बेलगिरी, धनियां, कूठ, सोंठ, वायविडंग, अतीस,
नागरमोया, दारुहरुदी पाठमूल और कूडाकी छाल इनका काढा कालीमि-
रचका चूर्ण मिलायके पीवे तो शोकातीसार नष्ट हावे ॥

आमातिसारनिदान ।

अन्नाजीर्णात्प्रद्रुताःक्षोभयंतः कोष्ठंदोषाधातुसंधान्मलांश्च ॥

नानावर्णनैकशः सारयतिशूलेपितंपष्ठमेनंवदंति ॥

अर्थ—अन्नके अजीर्णसे वातादिक दोष अपने स्थानसे उठकर सब उदरको दूषित करते हुए संपूर्ण पेटमें फिरने लगते हैं, फिर रसादि सप्तधातु और पुरीषादि मल इनसे अनेक वर्णका और अनेक प्रकारका अपान द्वारा शूलयुक्त थोडा २ मल बाहर निकले उसे आमातिमार कहते हैं उसको छटा अतिसार जानना ॥

आमातिसारचिकित्साक्रम ।

आमपक्वक्रमंहित्वानातिसारेक्रियाहिता ॥

अतोतिसारेसर्वस्मिन्नामंपक्वंचलक्षयेत् ॥

अर्थ—आम पचन होनेके विना अतिसारपर औषध हितकारी नहीं होती अतएव सर्व अतिसारमें आम पचन हुई या नहीं हुई ये देखना चाहिये ॥

आमेपिलंघनंशस्तमादौपाचनमेवच ॥

कार्यवानशनस्यांतेसद्रवंलघुभोजनम् ॥

अर्थ—आमातिसारमें लंघन और पाचन करावे अथवा लंघनके अंतमें हलके भोजन करे ॥

लंघनमेकमुक्त्वानान्यच्चास्तीहभेपजंवलिनान्म ॥

समुदीर्णदोषनिचयंशमयतितत्पाचयत्येव ॥

अर्थ—आमातिसारमें लंघन और पाचन करावे किंवा लंघनके अंतमें द्रवरूप हलके भोजन करावे ॥

नतुसंग्रहणंदद्यात्पूर्वमामातिसारिणाम् ॥ दोषोह्यादौवर्धमा-

नोजनयत्यामयान्वहून् ॥ शोफपांड्वामयप्लीहकुष्ठगुल्मोद-

राज्वरान् ॥ दंडकालसकाध्मानग्रहण्यशौगदांस्तथा ॥ डि-

भस्थः स्थविरस्थश्चवातपित्तात्मकश्चयः ॥ क्षीणधातुवल-

स्यापिवहुदोषोतिविश्रुतः ॥ आमोनस्तंभनीयः स्यात्पाच-

नान्मरणंभवेत् ॥ अतीसारेज्वरेचैवयस्तुपित्तेद्वगामये ॥

आदौनप्रतिकुर्याद्भ्रान्याधिवेगोहिदुस्तरः ॥

अर्थ—आमातिसारी रोगीको प्रथमही मल बांधनेवाली औषध न देवे, वर्धमान आमरूप दोष सूजन, पांडु, ग्रीहा, कुष्ठ, गुल्म, उदर, ज्वर, दडक, अलसक, अफरा, संग्रहणी, ववासीर इत्यादि अनेक रोग करे है, और बालक, तथा वृद्ध इनका तथा वातपित्तात्मक और धातुक्षीण, बलक्षीण इनका अनेक दोषयुक्त आमका स्तंभन न करे, स्तंभन करनेसे रोगी मरजावे और अतिसार, ज्वर, पित्त, नेत्ररोग, और कफ, इनपर प्रथमही चिकित्सा न करे क्यों कि व्याधिका वेग दुःसह है अतएव तीन चार दिन व्यतीत होनेपर चिकित्सा करनी चाहिये ॥

धान्यकादिकाढापाचनवादीपन ।

धान्यनागरजःकाथःपाचनोदीपनस्तथा ॥

एरंडमूलयुक्तश्चजयेदामानिलव्यथाम् ॥

अर्थ—धनिया और सोठ इन दो औषधोंका काढा पीवे यह दीपन और पाचन करे है, तथा इन काढेमे अंडकी जड डालके लेवे तो आमवातको नाश करे ॥

अभयाविरेचन ।

स्तोकंस्तोकंविष्टुद्धंवासशूलंयोतिसार्यते ॥

अभयापिप्पलीकल्कैः सुखोष्णैस्तंविरेचयेत् ॥

अर्थ—थोडा २ किवा बहुत शूल युक्त अतिसार होय तो उसको हरड और पीपल इनके कल्करा रेचन देवे ॥

विडंगादिरेचन ।

दीप्ताग्निर्वहुदोषोयोविवद्धमतिसार्यते ॥

विडंगत्रिफलाकृष्णाकपायैस्तंविरेचयेत् ॥

अर्थ—दीप्ताग्नि पुरुषको बहुत दोषयुक्त, तथा गांठदार मल उतरता है उसको वायविडंग, त्रिफला और पीपल इनके काढ करके रेचन करावे ॥

क्षुधितकाअतिसार ।

क्षुत्क्षामस्यविरेकेतुपेयांयुज्याद्विचक्षणः ॥

भेषजैर्मारुतग्नैश्चदीपनीयैश्चकल्पिताम् ॥

अर्थ—भूँकसे पीडित होनेसे जिसके दस्त होते हो उसकी वातनाशक दीपन ऐसी औषधोंसे सिद्ध करी पेया पिलानी चाहिये ॥

देवदारुजलपान ।

योतिवद्धंप्रभूतंचपुरीपमतिसार्यते ॥ तस्यादौवमनंयोज्यंप
श्वालंघनमेवच ॥ देवदारुवचाकुप्टंनगरातिविपाभया ॥ स
र्वाजीर्णप्रश्मनंपेयमैतैः शृतंपयः ॥

अर्थ—जिस रोगीका अति कठोर और बहुत मल उत्तरता हो उसको प्रथम घमन फिर लंघन फिर देवदारु, वच, फूठ, सोंठ, अतीस और हरड इनसे दूधको ओंढायकर देवे तो अजीर्णको नाश करे ॥

चित्रकादिकाढा ।

चित्रकंपिप्पलीमूलंवचाकटुकरोहिणी ॥ पाठावत्सकवाजा-
निहरीतक्योमहौपधम् ॥ एतदामसमुत्थानमतिसारंसवेदनम् ॥
कफात्मकंसपित्तंचसवातंहंतिवैध्रुवम् ॥

अर्थ—चीतिकी छाल, पीपरामूल, वच, कुटकी, पाठ, इन्द्रजौ, हरड, और सोंठ इनका काढा आमातिसार, कफातिसार, पित्तातिसार और वातातिसार-को नाश करे ॥

विश्वादियोग ।

विश्वाभयाघनवचातिविपासुराह्वाक्वाथोथविश्वजलदातिवि-
पागतोवा ॥ आमातिसारश्मनः कथितः कपायःशुंठीघनाप्र-
तिविपामृतवल्लिजोवा ॥

अर्थ—सोंठ, हरड, नागरमोथा, अतीस और देवदारु इनका । अथवा सोंठ, नागरमोथा और अतीस इनका । अथवा सोंठ, नागरमोथा, अतीस और गिलोय इनका काढा आमातिसारनाशक है ॥

पाथ्यदिकाढा ।

पथ्यादारुवचामुस्तैर्नागरातिविपान्वितैः ॥

आमातिसारशूलग्रंदीपनंपाचनंपरम् ॥

अर्थ—हरड, देवदारु, हलदी, वच, नागरमोथा, सोंठ और अतीस इनका काढा देवे तो आमातिसार नाश करे ॥

एरंडादिरस ।

एरंडरससंपिष्टंपक्वमामंचनागरम् ॥

आमातिसारशूलघ्नं दीपनं पाचनं परम् ॥

अर्थ—अंडके रसमें भुनी हुई और कच्ची सोंठको पीसके देवे तो आमातिसार और शूलको नाश करे. यह दीपन और पाचन है ॥

शुंठ्यादिचूर्ण ।

शुंठीप्रतिविपाहिं गुमुस्ताकुटजचित्रकैः ॥

चूर्णमुष्णांडुनापीतमामातीसारनाशनम् ॥

अर्थ—सोंठ, अतीस, भुनी हींग, नागरमोथा, इन्द्रजौ और चीतेकी छाल इनका चूर्णकर चौगुने गरम पानीमें पीवे तो आमातिसार नाश होवे ॥

दूसराहरीतक्यादिचूर्ण ।

हरीतकीप्रतिविपासिंधुसौवर्चलंवचा ॥ हिं गुचेतिकृतंचूर्णैपि-

वेदुष्णेनवारिणा ॥ आमातिसारशमनं ग्राहिचातिप्रबोधनम् ॥

अर्थ—छोटीहरड, अतीस, सैधानिमक, संचर निमक, वच और भुनी हींग इन छः औषधोंका चूर्ण गरम जलके साथ पीवे तो आमातिसार दूर होवे तथा मलका अवष्टंभ होकर अभि प्रदीप्त होवे ॥

शुंठीपुटपाक ।

चूर्णैकचित्पृताभ्यक्तं शुंठ्याएरंडजैर्दलैः ॥ वेष्टितंपुटपाके-

नविपचेन्मंदवाह्निना ॥ ततउद्धृत्यतच्चूर्णंग्राह्यंप्रातः सितास-

मम् ॥ तेनयातिशमंपीडाह्यामातीसारसंभवा ॥ कुक्षिशूला-

मशूलघ्नं विवंधाध्मानसारजित् ॥

अर्थ—सोंठके चूर्णको थोड़ेसे घीसे चुपड अंडके पत्तोंसे लपेट फिर ऊपर गोबर मिट्टीका लेपकर मंदाग्निसे पचावे, फिर बराबरकी खांड मिलाय प्रातःकालमें खायतो आमातिसार दूर होवे, तथा आमातिसार संबंधी सर्व पीडा नाश हो और कूखका शूल, आमशूल, मलबद्धता, पेटकाफूलना तथा अतिसारकी नाश करे ॥

दूसराशुंठ्यादिचूर्ण ।

शुंठीजीरसैधवांहिं गुजातिवीजंतद्रत्साहकारंप्रशस्तम् ॥ ज्ञेयंस-

द्विः साखरुंडंसविल्वंमार्कंड्यावाशोधितंसूक्ष्मचूर्णम् ॥ दध्ना-
चवटिकांकुर्यात्तेनैवसहलेहयेत् ॥ आमातिसारंमांघ्रं च अरु-
चिंहंतितत्क्षणात् ॥

अर्थ-सोंठ, जीरा, सेंधानिमक, हींग, जायफल, आमकी गुठली, बेलगिरी, खाखसेके पत्र इनको बारीक कपड्डयान चूर्ण कर उसकी दहीसे गोली बनावे और दहीसे खाय तो तत्क्षण आमातिसार, मंदाग्नि और अरुचि दूर होवे ॥

तीसराशुंठ्यादिचूर्ण ।

सत्वाशुंठ्योपणंभृंगीसमांशंसूक्ष्मचूर्णकम् ॥ यथासात्म्यंसेव-
नीयंशीततोयानुपानतः ॥ सशूलममदोषं च नाशमायातिसत्व-
रम् ॥ दध्योदनं पथ्यमात्रमुचितंरोगशांतये ॥

अर्थ-सोंठका सत्व, कालीमिरच, भांग, ए समान भाग ले चूर्ण करे, इसको शीतल जलके साथ संवन करे तो शूल, आमातिसार, इनको शीघ्र दूरकरे इसपर दहीभात पथ्य कहाहै ॥

साखरुंडचूर्ण ।

जयाखंडंसाखरुंडंजरिकंदधिमिश्रितम् ॥

आमातिसारंरक्तं च हंतिवेगेन कौतुकम् ॥

अर्थ-भांग, मिश्री, साखरुंड, जीरा और दही, ये एकत्र करके पीवे तो आमातिसार और रक्तातिसारका बहुत जल्दी नाश करे यह कौतुक है ॥

यवान्यादिकाढा ।

यवानीनागरोशीरधनिकातिविपाधनैः ॥

वालविल्वद्विपर्णीभिर्दीपनं पाचनं भवेत् ॥

अर्थ-अजवायन, सोंठ, खस, धनिया, अतीस, नागरमोथा, बेलगिरी, सालपर्णी और पृष्ठपर्णी, इनका काढा दीपन और पाचन है ॥

कलिंगादिकाढा ।

कलिंगातिविपाहिंशुपथ्यासौवर्चलंवचा ॥

शूलस्तंभविबंधघ्नपेयं दीपनपाचनम् ॥

अर्थ-इन्द्रजौ, अतीस, हींग, हरड, कालानिमक और वच, इनका काढा शूल, स्तंभता, मलका रुकना, इनको दूर करे यह दीपन और पाचन है ॥

त्रिकंटादियवकांजी ।

त्रिकंटकैरंडविल्वैः साधितंयावकांजिकम् ॥

आमातिसारशूलानिजयेत्क्षौद्रान्विताशिवा ॥

अर्थ—गोखरू, अंडकीजड, बेलगिरी, ए वस्तु डालके जवोंकी कांजी बनावे यह आमातिसार, शूल, इनका नाश करे अथवा शहत और हरड देवे तो आमातिसार दूर हो ॥

शोपपरह्वीवेरादिकाठा ।

ह्वीवेशृंगवेराभ्यांमुस्तापर्पटकेनच ॥

मुस्तोदीच्यशृतंतोयंदेयंवापिपिपासिते ॥

अर्थ—नेत्रवाला, अदरख, नागरमोथा, भद्रमोथा, खस इनका काठा प्यासवालेको देवे ॥

त्र्यूपणादिचूर्ण ।

त्र्यूपणातिविपाहिंशुवचासौवर्चलाभया ॥

पीतोष्णेनांभसादद्यादामातिसारमुत्तमम् ॥

अर्थ—सोंठ, मिरच, पीपल, अतीस, हींग, वच, कालानिमक और हरड इनका चूर्ण गरम जलके साथ देवे तो घोर आमातिसारको नष्ट करे ॥

पाठादिचूर्ण ।

पाठाहिंग्वाजमोदोग्रापंचकोलाब्दजरजः ॥

उष्णांबुपीतंसरुजंजयत्यामंससैधवम् ॥

अर्थ—पाठ, हींग, अजमोद, वच, पीपल, पीपरामूल, चव्य, चित्रक, सोंठ और नागरमोथा इनके चूर्णमें सैधानिमक मिलाय गरम जलसे देवे तो पीडायुक्त आमरोगको नाश करे ॥

पयमुस्तायोग ।

पयसिकाथ्यमुस्तानांविंशतिस्त्रिगुणांभसि ॥

क्षीरावशेषंतत्पीतंहंत्यामंशूलमेवच ॥

अर्थ—दूध १ भाग, जल ३ भाग और नागरमोथेका काठा २० भाग, सबको एकत्रकर औटावे जब केवल दूध मात्र शेष रहे तब प्यासे यह आम और शूल इनका नाश करे ॥

आमपक्वतिसारलक्षण ।

संसृष्टमेभिदोषैस्तुन्यस्तमप्स्ववसीदति ॥ पुरीपंभृशदुर्गधिपि
च्छिलंचामसंज्ञितम् ॥ एतान्येवंतुलिंगानिविपरीतानियस्य-
वै ॥ लाघवंचविशेषेणतस्यपक्वंविनिर्दिशेत् ॥

अर्थ-पूर्वाक्त कहे हुए वातादिक अतिसारोंके लक्षणों करके युक्त ऐसा मल जलमें गरनेसे आम भारी है अतएव डूबजावे, तथा उसमें अत्यंत दुर्गंध आवे, और चिकना होवे उसकी आमसंज्ञा है । इससे विपरीत लक्षणवाला और शरीरमें अत्यंत हलकापन होवे उस मनुष्यका मल पक्व जानना इस प्रकार वैद्यकी आम और पक्वमलकी परीक्षा करना चाहिये ॥

असाध्यलक्षण ।

पक्वजाववसंकाशयकृत्पिडनिभंतनु ॥ घृततैलवसामज्जावेसवा
रपयोदधि ॥ मांसधावनतोयाभंकृष्णनीलारुणप्रभम् ॥ मेचकं-
कबुरंस्निग्धंचंद्रिकोपगतंधनम् ॥ कुणपंमस्तुलिंगाभंदुर्गंधंकु-
थितंबहु ॥ तृष्णादाहारुचिश्वासहिक्कापार्श्वास्थिशूलिनम् ॥
संमूर्च्छारतिसंमोहयुक्तपक्ववलीगुदम् ॥ प्रलापयुक्तंचभिपगवर्ज-
येदतिसारिणम् ॥

अर्थ-जिस रोगीका मल-पकी हुई जासुनके सदृश हो, कलेजेके रंग समान तथा घी, तेल, वसा, मज्जा इनके समान, वेसवार (मसाले)के पानीके समान, दूध, दही, मांस धोनेके जल समान, काजलके समान फाला; नीला, ललोही लिये, मृदंगकी स्याहीके समान, अनेक प्रकारके रंगका, चफचकाहट लिये, मोरपंखके ऊपर जैसे अनेक प्रकारके रंग हो ऐसा दस्तका रंग हो, गाढा मुर्दे कीसी दुर्गंधवाला, मस्तकसे मेदानिकले ऐसा हा, दुर्गंधयुक्त, बहुत ऐसा मल गिरे और रोगीको प्यास, दाह, अन्नद्वेष, श्वास-हिचकी, पसवांडके हाडोंका दृखना मनको मोह, बेकली ये लक्षण होवे और गुदाकी घली (आँटें) पक्वजावे तथा बकवाद फरे ऐसा अतिसार रोगी वैद्यकी त्याज्य है ॥

दूसराअसाध्यलक्षण ।

असंवृत्तगुदंक्षीणंदुरात्मानमुपद्रुतम् ॥
गुदेपक्वगतोष्माणमतिसारिणमुत्सृजेत् ॥

अर्थ—जिस रोगीकी गुदा दस्त होनेके पश्चात् सूँदे नहीं, ऐसा क्षीणहुआ अत्यंत अफरा करके और मूजन इत्यादि उपद्रवों करके युक्त तथा गुदाके ऊपर छोटी २ फूसी हो कर पके तथा जिसके देहमें गरमी न रहे अथवा जठराग्नि शांत हो जावे ऐसे अतिसाररोगीको वैद्य त्याग देवे ॥

अतिसारकेउपद्रव ।

शोथंशूलंज्वरंतृष्णांश्वासंकासमरोचकम् ॥

छर्दिमूच्छीचहिक्कांचदृष्ट्वातीसारिणंत्यजेत् ॥

अर्थ—मूजन, शूल, ज्वर, प्यास, श्वास, खाँसी, अरुचि, वमन, मूच्छा और हिचकी इनको देखकर वैद्य अतिसारवाले रोगीको त्याग देवे ॥

असाध्यलक्षण ।

श्वासशूलपिपासार्तक्षीणंज्वरनिपीडितम् ॥

विशेषेणनरंवृद्धमतिसारोविनाशयेत् ॥

अर्थ—श्वास, शूल, प्यास, कृश और ज्वरसे पीडित ऐसे उपद्रवों करके युक्त बढाहुआ अतिसार रोग रोगीका नाश करे है ॥

लोध्रादिचूर्ण ।

सलोध्रंधातकीविल्वंमुस्ताम्रास्थिकर्लिंगकम् ॥

पिवेन्माहिपतक्रेणपक्वातीसारनाशनम् ॥

अर्थ—लोधपठानी, धायके फूल, वेलगिरी, नागरमोथा, आमकी गुठली, इन्द्रजौ इनके चूर्णको भैसकी छाँछके साथ पीवे तो पक्वातिसार दूर हो ॥

पद्मादिचूर्ण ।

पद्मसमंगामधुकंविल्वजंतुशलाटुच ॥

पिवेत्तंडुलतोयेनसक्षौद्रमगदंकरम् ॥

अर्थ—पद्मास, मुलहठी, महुआ, वेलगिरी, हरे और कोमल गूलर इन सबके चूर्णको चावलके चूर्णके जलमें सहत डालके पीवे तो पक्वातिसार दूर होवे ॥

कुटजादिचूर्ण ।

कुटजातिविपाचूर्णमधुनासहलेहितम् ॥

चिरोत्थितमतीसारपक्वंपित्तास्रजंजयेत् ॥

अर्थ—कूडाकी छाल, अतिस इनके चूर्णमें सहत मिलायके चाटे तो बहुत दिनका अतिसार, पकातिसार और रक्तपित्त इन सबको दूर करे ॥

अंवष्टादिगण ।

अंवष्टाधातकीलोध्रसमंगापद्मकेसरम् ॥

मधुकारतुविल्वंचपकातीसारहागणः ॥

अर्थ—पाठ, धायकेफूल, लोध, मँजीठ, कमलकी केशर, मुलहदी, टेंदू और वेलगिरी इनका चूर्ण अथवा काटा पकातिसारको नाश करे ॥

समंगादिचत्वारिचूर्ण ।

समंगाधातकीपुष्पमंजिष्टालोध्रएवच ॥ शाल्मलीवेष्टकोलो-
ध्रदाडिमद्रुफलत्वचौ ॥ आम्रास्थिमध्यलोध्रंचविल्वमध्यंप्रियं-
गुच ॥ मधुकंशृंगवेरंचदीर्घवृंतत्वगेवच ॥ चत्वारएतेयोगाश्चप-
कातीसारनाशनाः ॥ तेयोगाउपयोज्यावैसुक्षौद्रास्तंडुलांबुना ॥

अर्थ—लजालू, धायकेफूल, मँजीठ और लोध, अथवा मोचरस, लोध, अनार-
दाना, अनारकी छाल, अथवा आमकी गुठली, लोध, वेलगिरी और फूल-
प्रियंगु, अथवा मुलहदी, अदरस, अरलू और दालचीनी ये चार योग इन
मेंसे कौसीएक योगको चावलोंको धोवनमें सहत मिलाय उसके साथ पीवे तो
पकातिसार नष्ट होवे ॥

कंचटादिचूर्ण ।

कंचटजंबूदाडिमशृंगाटकपत्रविल्ववाहिष्ठम् ॥

जलधरनागरसाहितंगामपिवेगवाहिर्निरुंध्यात् ॥

अर्थ—गजपीपल, जामुनकेपत्ते, अनारकी छाल, सिंघाडेके पत्ते, वेलगिरी
नेत्रवाला, नागरमोथा और सोंठ इनको समान भाग ले चूर्ण करके पीवे तो
गंगाके प्रवाह समान भी दस्तोंको रोकें ॥

अंकोटकल्क ।

अंकोटमूलकल्कस्तंडुलपयसासमाक्षिकःपीतः ॥

सेतुरिववारिवेगंझटितिनिरुंध्यादतीसारम् ॥

अर्थ—अंकोलकी जड़के पत्थफां चावलोंके धोवनमें सहत मिलायके

पीवे तो जैसे नदीके वेगको सेतु(बैड) रोक देता है उसी प्रकार अतिसारको यह रोग बंदकर देता है ॥

मोचरसादिचूर्ण ।

मोचरसमुस्तानागरपाटारखुधातुर्काकुसुमैः ॥

चूर्णमथितसमेतरुणद्धिगंगाप्रवाहमपि ॥

अर्थ—मोचरस, नागरमोथा, सोंठ, पाठ, अरलू और धायके फूल, इनको समान भागले चूर्ण करे फिर इसमेंसे १ तोले गौकी छाँछके साथ पीवे तो यह गंगाके वेगसमान अतिसार रोगको दूर करे ॥

मुस्तादिचूर्ण ।

मुस्तमोचरसलोध्रधातुकिपुष्पविल्वगिरिकोटजैःफलैः ॥

चूर्णितंसगुडतक्रसेवितानिभ्रगाजलरयोपिरुध्यते ॥

अर्थ—नागरमोथा, मोचरस, लोध्र, धायके फूल, वेलगिरी इन्द्रजौ इनके चूर्णको छाँछ और उसमें गुड मिलायके पीवे तो नदीके वेगको भी बंद करे फिर दस्तोंका बंद करना क्या बड़ी बात है ॥

विश्वादिवटी ।

विश्वजीरकसिंधुत्थर्हिगुजातिफलानिच ॥ साम्रास्थिशंखंखं-
लंचदध्राम्लेनप्रपेषयेत् ॥ ईषदंगारकैर्भ्रष्टावटिकाकर्पसंमि-
ता ॥ पक्वापकमतीसारंसशूलंत्रहणीगदम् ॥ चिरोत्थमचिरो-
त्थंचनाशयेन्नात्रसंशयः ॥

अर्थ—सोंठ, जीरा, सैधानिमक, हींग, जायफल, आमकी भीतरकी गुठली शंखका टुकड़ा इन सबको खट्टे दहीसे घोंटे फिर अंगारोंपर कुछ थोड़ी भून लेंगे फिर एक २ तोलेकी गोलियाँ बनावे १ गोली नित्य सेवन करे तो पक्कातिसार शूल, संग्रहणी ये रोग बहुत दिनके अथवा नए हों सबका नाश होवे ॥

वटप्ररोहयोग ।

वटप्ररोहंसंपिष्ट्वाइलक्षणंतंडुलवारिणा ॥

तंपिबेत्तक्रसंयुक्तमतिसारप्रज्ञांतये ॥

अर्थ—चावलके धोवनके जलमें घडके नवीन अंकुरोंको पीस छाँछ मिलायके अतिसार नाशके अर्थ देवे ॥

कुटजावलेह ।

कुटजत्वक्तुलामादौद्रोणाद्भिश्चपचेद्भिपक् ॥ पादशेषंशृतं-
नीत्वावस्त्रपूतंपुनः पचेत् ॥ लज्जालुर्थातुकीविल्वंपाठामो-
चरसस्तथा ॥ मुस्तंप्रतिविपाचैवचूर्णमेपांपलंपलम् ॥ निक्षि-
प्यप्रपचेत्तावद्यावद्दूर्वांप्रलेपनम् ॥ जलेनछागदुग्धेनपीतोमंडे-
नवाजयेत् ॥ घोरान्सर्वानतीसारान्नावावर्णान्सवेदनान् ॥
असृग्दरंसमस्तंचतथाशांसिप्रवाहिकाम् ॥

अर्थ—गीलीकुडाकी छाल ४०० चारसो तोले, जल १०२४ तोले लेकर काढा
करे । जव चतुर्थाश वाकी रहे तब उतारके छान लेवे, उसमें लज्जालूका कंद,
धायकेफूल, बेलगिरी, पाठ, सेमकागोंद, नागरमोथा, और अतीस प्रत्येक चार
चार तोले लेकर चूर्ण करके उस काढेके जलमें मिलाय देवे, फिर उसको अग्नि-
पर चढायके औटावे जव कलछीसे लिपटने लगे तब इसको उतारके किसी-
पात्रमें भरके धर देवे, उसको जलसे अथवा बकरीके दूधसे, अथवा मंडसे
देय तो घोर और अनेक वर्णके सर्व अतिसार, शूल, रक्तप्रदर, अर्श और प्रवा-
हिका इनको नाश करे ॥

रालयोग ।

चिरोत्थितमतीसारंरालोहन्यात्सितायुतः ॥

अर्थ—रालके चूर्णको मिश्रीसे मिलायके फंकी लेवे तो बहुतदिनके अति
सार रोगको नाश करे ॥

नाभौक्षेपणीय ।

कृत्वालवालंसुहृदंपिष्टैरामलकैर्भिपक् ॥ आर्द्रकस्वरसेनाशु
पूरयेन्नाभिमंडलम् ॥ नदीवेगोपमंघोरंप्रवृद्धंदुर्जरंनृणाम् ॥
वृद्धातिसारमजयंनाशयत्येपयोगराट् ॥

अर्थ—रोगीके नाभिके चारों तरफ आमके चूर्णसे थामलासा बनायके उसमें
अदरखका रस भर देवे और रोगीको उसी तरहसे ४ घडी पर्यंत लेटारह-
नेदे तौ नदीके वेग समान घोर बढा हुआ दुर्जय अतिसारको यह योगराज
नाश कर दे ॥

पाठादियोग ।

पाठापिष्टाचगोदघ्रातथामध्यत्वगात्रजा ॥

अतिसारंव्यथादाहयुक्तंहंत्युदरेधृता ॥

अर्थ—पाठकी जड़को अथवा आमके भीतरकी छालको दहीसि पीसके पेट-पर रखनेसे दाहयुक्त अतिसारकी पीड़ाको नाश करे ॥

जातीफलादियोग ।

जातीफलं नागरसर्जकेनौखर्जूफलं भिन्नमिदंचनित्यम् ॥ योज्यं
द्विनिष्कंचकरीपजातादरण्यजाद्रस्मसमंचसर्वैः ॥ निष्का-
धंमात्रं भिपजाप्रयोज्यं द्विवारमेतच्छुभतंदुलोदकैः ॥ जीर्णा-
तिसारे रुधिरामयुक्तेहितः सशूले बहुवेगयुक्तम् ॥

अर्थ—जायफल, सोंठ, राल, केनावृक्षकी छाल और लुहारा ये प्रत्येक छः छःमासे लेवे सबका चूर्ण करे सब चूर्णके बराबर आरने उपलोंकी राख लेवे सबको एकत्र करे ॥ डेढ मासे चावलके धोवनके साथ दिनमें दोवार देवे तो जीर्णातिसार, रक्तातिसार, आमातिसार, और शूल इन रोगोंपर यह चूर्ण हितकारी है ॥

रक्तातिसारनिदान ।

पित्तकृन्तियदात्यर्थद्रव्याण्यश्रातिपैत्तिके ॥

तदोपजायते भीक्ष्णं रक्तातिसारउल्बणः ॥

अर्थ—पित्तातिसार होनेसे अथवा होनेवाला हो. उस समय यदि पित्तकारी पदार्थ बहुत और निरंतर भोजन करे तो बड़ा भारी घोर रक्तातिसार उत्पन्न होवे उसके लाल और काले रंग आदिसे वातादि दोष जानने कोई आचार्य इसप्रकार कहते हैं कि, रक्तजर्मी अतिसार हैं परंतु यदि सातवा मानोंगे तो पदसंख्यामें विरोध आता है इसवास्ते पैत्तिकका एक अवस्थाभेद है ऐसा मान लिया है ॥

यष्ट्यादिकाढा ।

यष्टीमधुसितालोध्रं मधुकं नीलमुत्पलम् ॥

अजाक्षीरेण कथितं रक्तातिसारशांतये ॥

अर्थ—मुलहठी, मिश्री, लोध, महुआ और नीलकमल, इनका बकरीके दूधमें काढा करके देवे तो रक्तातिसार शांत होवे ॥

कुटजादिकाढा ।

कुटजातिविपामुस्तावालकं लोध्रं चंदनम् ॥ धातकीदाडिमंपा

ठाकाथंक्षौद्रयुतंपिबेत् ॥ दाहेरक्तेचशूलेचआमरोगेचदुस्तरे ॥

कुटजाष्टमिदंख्यातंसर्वातीसारनाशनम् ॥

अर्थ—कूडाकी छाल, अतीस, नागरमोथा, नेत्रवाला, पठानी लौध, रक्तचंदन, धायके फूल और पाठ, इनके काठेमें सहत मिलायके पीवे तो दाह, रक्तशूल, आम और सर्वातिसार इनको नष्ट करे इसको कुटजाष्टक कहतेहैं ॥

वत्सकादिकाढा ।

सवत्सकः सातिविषः सविल्वः सोर्दीच्यमुस्तश्च कृतः कपायः ॥

सामेसशूलेचसशोणितेचचिरप्रवृत्तेपिहितोतिसारे ॥

अर्थ—कूडाकी छाल, अतीस, वेलगिरी, नेत्रवाला और नागरमोथा इनका काढा आमसंबंधी शूल, रक्तातिसार और बहुतादिनका अतिसार इनपर हितकारीहै

तंदुलजलयोग ।

लघुचेतकिजीरकेसमेमृदुभृष्टेसुचूर्णितेपीते ॥

सहतंदुलवारिणामतोतिसृतिश्रुतिप्रसिद्धयोगः ॥

अर्थ—जंगीहरड और जीरे दोनो समान भाग लेवे दोनोंको कुछरभून लेवे फिर चूर्णकर चावलके जलसे पीवे तो अतिसारका नाश करे यह सिद्धयोग अर्थात् सिद्धपुरुषोंका कहा हुआ है ॥

दाडिमादिकाढा ।

अधिकंदुकतिंदुकस्तनिप्रमदारूपमदापहारिणि ॥

रुधिरातिसृत्तौकपायकः समधुदाडिमवत्सकत्वचः ॥

अर्थ—हेकंदुकतिंदुकस्तनि हे प्रमदारूपमदापहारिणि ! अनारकी छाल और कूडाकी छाल इनके काठेमें सहत मिलायके देवे तो रक्तातिसारका नाश होवे ॥

चंदनादियोग ।

चंदनंविमलतंदुलांबुनासंयुतंमधुयुतंसितायुतम् ।

तृड्खंडनमसृग्विखंडनंखंडनंप्रचुरदाहमोहयोः ॥

अर्थ—चावलके धोवनमें चंदनको मिलायके उसमें सहत और मिश्री मिलायके देवे तो तृषा, रक्तातिसार, दाह और मोह इनको नाश करे ॥

द्विवेरादिकाढा ।

द्विवेरातिविषामुस्ताविल्वधान्यकवत्सकम् ॥ समंगाधातकी-

लोम्रंविश्वं दीपनपाचनम् ॥ हंत्यरोचकपिच्छामविवंधं चातिवे-
दनम् ॥ सशोणितमतीसारसंज्वरं वाथविज्वरम् ॥

अर्थ—नेत्रवाला, अतीस, नागरमोथा, बेलगिरी, धनिया, कूडाकी छाल, मंजीठ, धायकेफूल, लौंग और सोंठ, इनका काढा देवे तो यह दीपन और पाचन है, तथा अरुचि, आम, बड़कोष्ठ, शूल, रक्तातिसार, संज्वर, अथवा गतज्वर, अतिसार इनको नाश करे ॥

विल्वादियोग ।

विल्वं छागपयःसिद्धं सितामोचरसान्वितम् ॥

कलिंगचूर्णसंयुक्तं रक्तातीसारनाशनम् ॥

अर्थ—बेलगिरीको भेडके दूधमें औंटावे, फिर इसमें मिश्री और मोचरस तथा इन्द्रजौके, चूर्णको मिलायके पीवे तो रक्तातिसार नाश होवे ॥

कलिंगयवषट्क ।

सहरीतकीप्रतिविपारुचकंसर्हिगुसकलिंगयुतम् ॥

इतितत्कलिंगयवषट्कमिदं रुधिरातिसारगदशूलहरम् ॥

अर्थ—हरड, अतीस, संचरनिमक, हांग, कूडाकी छाल और इन्द्रजौ इनका काढा अथवा चूर्ण रक्तातिसार, शूल, इनका नाश करे इसको कलिंगयवषट्क कहते हैं ॥

कुटजक्षीर ।

निःकाथ्यमूलममलंगिरिमल्लिकायाःसम्यक्पलंद्वितयमंबुचतुः

शरावे ॥ तत्पादशेषसलिलं खलुशोषणीयं क्षीरेपलद्वयमिते-

कुशलैरजायाः ॥ प्रक्षिप्यमापकानष्टौमधुनस्तत्रशीतले ॥

रक्तातिसारीतत्पीत्वानैरुजत्वमवाप्नुयात् ॥

अर्थ—कूडाकी जड़की छाल ८ तोलेको लेकर, १०० सौ तोले जलमें औंटावे कर काढा करे चतुर्थांश रहनेपर उतार लेवे, और छान ले फिर दूसरे पात्रमें भर चून्हेपर चढावे और इसमें ८ आठतोले बकरीका दूध डालके औंटावे जब खूब औंटा जावे तब उतारके शीतल कर लेवे फिर इसमें आठमासे शहत मिलायके पीवे तो रक्तातिसारी इसको पीकर शीघ्र निरोगी होवे ॥

रसांजनादिचूर्ण ।

रसांजनंसातिविपंकुटजस्यफलत्वचम् ॥ धातकीशृंगवेरंचपि-
वेत्तंदुलवारिणा ॥ क्षौद्रेणयुक्तंनुदंतिरक्तातीसारमुल्बणम् ॥

अर्थ—रसोत, अतीस, कूडाकी छाल, धायके फूल और सोंठ इनके चूर्णको शहत मिले चावलको धोवनके साथ मिलायके पीवे तो रक्तातिसार दूरहोवे ॥

कुटजावलेह ।

कुटजस्यपलंग्राह्यमष्टभागजलेभृतम् ॥ तथैवाद्भिःपचेद्भूयोदा-
डिमोदकसंयुतम् ॥ कुटजकाथतुल्योत्रदाडिमस्यरसोमतः ॥
यावच्चरसिकाभासंमृतंतमुपकल्पयेत् ॥ तस्यार्धकर्पतक्रेणापि-
वेद्रक्तातिसारवान् ॥ अवश्यंमरणीयोपिनमृत्युर्यातिगोचरम् ॥

अर्थ—कूडाकी छाल १ पल लेकर ८ पल जलमें अष्टावशेष काढा करे फिर जितना कूडाका काढा होवे उतनाही अनारका रस लेवे दोनोंको मिलायके फिर औटावे जब गाढा हो जावे तब उतार लेवे, शीतल होनेपर इसमें छः मासे छौंछके साथ रक्तातिसारीको देवे तो अवश्य मरनेवाला रोगीभी बचजावे ॥

सल्लक्यादिस्वरस ।

सल्लकीवदरीजंबूप्रियाल्वाभ्राजुनत्वचः ॥

पीताःक्षीरेणमध्वाढ्याःपृथक्शोणितनाशनाः ॥

अर्थ—हरफारेवडी, बेर, जामुन, चिरोजी, आम और कोह इनके वृक्षोंमेंसे किसीएक वृक्षकी छालको दूधमें पीसके और शहत मिलायके पीवे तो रक्ताति सार नाशक होवे ॥

जंब्वादिअंगरस ।

जंब्वाभ्रामलकीनांचपल्लवोत्थोरसोजयेत् ॥

मध्वाज्यक्षीरसंयुक्तोरक्तातीसारमुल्बणम् ॥

अर्थ—जामुन, आम, और आनले इनमेंसे किसीएकके पत्तोंका रस शह...
पी और दूधके साथ पीवे तो घोर रक्तातिसार दूर होवे ॥

गुडविल्वयोग ।

गुडेनखादयेद्रिल्वंरक्तातीसारनाशनम् ॥

आमशूलविबंधग्रंथकुक्षिरोगविनाशनम् ॥

अर्थ—बेलगिरीको गुडके साथ मिलायके खाय तो रक्तातिसार, आमका शूल, विबंध और कूखके रोग इन सबको दूर करे ॥

शतावरीकल्क ।

पीत्वाशतावरीकल्कं पयसाक्षीरभुग्जयेत् ॥

रक्तातिसारं पीत्वा वातथासिद्धं घृतं नरः ॥

अर्थ—शतावरीके कल्कको दूधके साथ पीकर ऊपर दूधकाही पथ्य करे अथवा शतावर करके सिद्ध घृतकोही पीवे तो अतिसार दूर होवे ॥

तिलादिकल्क ।

कल्कस्ति लानां कृष्णानां शर्कराढ्यश्च भागिकः ॥

आजेन पयसा पीतः सद्योरक्तं नियच्छति ॥

अर्थ—काले तिलोंके कल्कमें एकभाग मिश्री मिलाय बकर्रीके दूधसे पीवे तो तत्काल रुधिरका गिरना बंद होवे ॥

नवनीतावलेह ।

गोदुग्धं नवनीतं तु मधुना सितया सह ॥

लीढं रक्तातिसारे पुत्र्याहिकं परमं मतम् ॥

अर्थ—गौका दूध, और गौका मक्खन इनको सहत और मिश्रीके साथ मिलायके पीवे तो रक्तातिसारको दूर करे ॥

शाल्मलिपुष्पयोग ।

शाल्मलेरार्द्रं पुष्पाणि पुटपाककृतानि च ॥ संकुटचोलुखलेत्त

स्य गृह्णीयात्पयसि श्रिते ॥ गृहीत्वा च पलं तस्य त्रिफलं घृततै

लयोः ॥ युक्तं मधुकल्केन माक्षिकत्रिफलेन च ॥ युक्तं स्तुवपु-

षोदद्याद्द्रस्तो प्रत्यागतेरसे ॥ भोजयेत्पयसावापि पित्ताती-

सारपीडितम् ॥

अर्थ—सेमरके गीले फूल लेकर पुटपाकविधि पचायके फिर उनको खरलकर कूट गरम दूधमें १ पल रस मिलायके पीवे तथा उसमें घृत और तेल १२ तोले तथा मुलहदीफा कल्क १२ तोले, सहत बारह तोले, ये सर्व मिलायके देवे जब यह रसवस्तीमें आन पहुँचे तब दूधभात भोजन करावे ॥

गुदपाक ।

विरेकैर्वहुभिर्यस्यगुदंपित्तेनदह्यते ॥

पच्यतेवातयोः कार्यसेकप्रक्षालनादिकम् ॥

अर्थ—जिसकी गुदा बहुत दस्तोंके होनेसे पित्त करके जलने लगे अर्थात् विनचिनावे लगे अथवा पक्कावे उसको सेचन अथवा शीतल जलसे धुलानी चाहिये ॥

पटोलादिकाढागुदक्षालनार्थ ।

पटोलाष्टिमधुकक्वाथेनाग्निशिरेणाहि ॥

गुदप्रक्षालनंकार्यतेनैवगुदसेचनम् ॥

अर्थ—पटोलपत्र, मुलहदी और महुआकी छाल इनका शीतल काढा कर के उससे गुदापर तरावा देवे अथवा इस काढेसे धोवे तो गुदका पाक और पीडा होना शांति होवे ॥

गुदक्षालनार्थजल ।

दाहेपाकेहितंछागीदुग्धंसक्षौद्रशर्करम् ॥

गुदस्यक्षालनेसेकेयुक्तंपानेचभोजने ॥

अर्थ—गुदामें दाह अथवा गुदपाक होनेसे बकरीके दूधमें सहत और चीनी मिलायके गुदाका प्रक्षालनकरे अर्थात् धोवे सेचन पान (पीवे) और भोजन करे तो गुदाका विकार दूर हो

चांगेरीघृत ।

गुदनिःसरणेशस्तंचांगेरीघृतमुत्तमम् ॥ अतिप्रवृत्त्यामहतीभवे

द्यदिगुदव्यथा ॥ स्विन्नमूपकमांसिनतथासंस्वेदयेद्गुदम् ॥

अर्थ—गुदभ्रंश अर्थात् कांछ निकल आईं होवे तो इसपर चांगेरीघृतसेवन उत्तम है यदि कांछ अधिक बाहर निकलनेसे अत्यंत पीडा होती होवे तो मूसे (चूहे) के मांसको अग्निसर सेककर गुदाको सेके तो गुदाकी पीडा शांति हो ॥

मूपकमांसस्वेद ।

स्वेदोथभूपिकामांसैस्तद्वत्सामृक्षणंतथा ॥ शंबूकमांससुस्वि-

त्रंसतैललवणान्वितम् ॥ ईपद्धस्तेनचाभ्यक्तंस्वदयेत्तेनयत्नतः ॥
गुदभ्रंशमशेषेणनाशयेत्क्षिप्रमेवच ॥

अर्थ—गुदभ्रंश अर्थात् कांछ निकलनेसे मूसेके मांसका बफारा देवे, अथवा उस मांसको गुदाके ऊपर बांधे, उसीमकार छोटे शंखका मांस सिजायके उसमें तेल और निमक मिलाय गुदापर तेल लगायके उसमांससे सेक करावे तो निःशेष पीडा तत्काल दूर होवे ॥

गोधूमचूर्णस्वेद ।

अथगोधूमचूर्णस्यस्विन्नितस्यतुवारिण

साज्यस्यगोलकंकृत्वामृदुसंस्वेदयेद्भृदम् ॥

अर्थ—गेंहूके भीतरके रवाको जलमें भिगोय देवे, जब भीगजावे तब घी मिलाय गोला करके उसको भूनलेवे, फिर उस गोलेको निकालके उससे मुहातार सेक करे तो गुदाकी पीडा शांति होवे ॥

गुदांतप्रवेशन ।

गुदभ्रंशेगुदंस्नेहैरभ्यज्यांतःप्रवेशयेत् ॥ प्रविष्टंस्वेदयेन्मंदंमूप-
कस्यामिपेणहि ॥ गुदभ्रंशाभिधोव्याधिः प्रणश्यतिनसंशयः ॥

अर्थ—कांछ निकलजाई होवे तो उसपर तेल चुपडके धीरे २ भीतरी घुसेडे फिर मूसेके मांससे धीरे २ सेंकेतो गुदभ्रंश (कांछका निकलना) दूर होवे इसमें संशय नहीं है ॥

चांगेरीघृत ।

चांगेरीकोलदध्यम्लक्षारनागरसंयुतम् ॥

घृतंविपक्वंपातव्यंप्रणश्यतिनसंशयः ॥

अर्थ—चूका, बेर दही, नींबू, जवाखार और सोंठ, इनके काटेमें घी डालके घृतपाककी विधिसे पचावे जब सिद्ध हो जावे तब उतारके धर रक्ते फिर इसमेंसे सेवन करे तो गुदभ्रंश रोगका नाश होय इसमें संदेह नहीं है ॥

कमलपत्रभक्षण ।

कोमलंपद्मिनीपत्रयः खादेच्छर्कराविन्वतम् ॥

एतन्निश्चित्यनिर्दिष्टंनतस्यगुदनिर्ग

अर्थ—कोमल कमलके पत्तोंको खांडमें मिलायके सेवन करे तो उसकी गुदा कदाचित् बाहर नहीं निकले यह निश्चय करके कहा है ॥

ज्वरातिसारचिकित्साक्रम ।

ज्वरातिसारयोरुक्तंभेषजं प्रतृथक्प्रतृथक् ॥

नतन्मीलितयोःकार्यमन्योन्यवर्धयेद्यतः ॥

अतस्तौप्रतिकुर्वीतविशेषोक्तचिकित्सितैः ॥

अर्थ—ज्वर और अतिसार इनपर जो पृथक् २ औषधी कही है उनको मिलायके ज्वरातिसारपर उपचार कदाचित् नकरे यदि अज्ञानसे मिलायके देवे तो वो औषध ज्वर और अतिसार दोनोंको परस्पर बढ़ाती है इसीसे ज्वरातिसारपर विशेष क्रिया जो कही है वही करना चाहिये ॥

उत्पलपष्टिक ।

लघनमुभयोरुक्तंमीलितकार्योविशेषतस्तदनु ॥

उत्पलपष्टिकसिद्धंलाजकमंडादिकंपेयम् ॥

अर्थ—ज्वर और अतिसार इन दोनोंपर लघन कहाहै सो लघन ज्वरातिसार पर कराना चाहिये फिर कमलकंद (भसीडा) और सांठीचावल इनकी खीलोंका मंड करके देवे ॥

दाडिमावलेह ।

दाडिमादिरसप्रस्थंचतुः प्रस्थेजलेपचेत् ॥ चतुर्भागकपाये-

स्मिच्छर्कराप्रस्थमेवच ॥ नागरंपिप्पलीमूलंकणाधान्यक

दीप्यकम् ॥ जातीपत्रमरीभंजीजीरकंकरकंतुगा ॥ विजयानि-

वपत्रंचसमंगावत्सशाल्मली ॥ अरलातिविपापाठालवंगंचपृथ

क्पलम् ॥ घृतस्यमधुनःप्रस्थंसर्वलेहंविपाचयेत् ॥ दाडिंवलेह

कंनामज्वरातिसारनाशनम् ॥

अर्थ—अनारकारस १ सेर, जल ५ सेर, दोनोंको चूहेपर चढायके चतुर्थांश शेष काढा करके उसमें १ सेर साँड और साँड, पीपलामूल, पीपर, धनिया, अजवायन, जावित्री, फसोदी, जीरा, बंशलोचन, भाँग, नीमकेपत्ते, लजालूका कंद, कूडाकीलाल, सेनर, ठेंठ, अतीस, पाठकीजड और लोंग ये प्रत्येक चार २

तोले लेवे घी, सहत, केशर, इन सबको एकत्र करके अवलेह सिद्धकरे इसको कुटजावलेह कहते है यह ज्वरातिसारको नाश करे ॥

कणादिकाढा ।

कणाकरेणुजलदक्काथोमधुसितायुतः ॥

पीतोज्वरातिसारस्यतृष्णावम्योश्चनाशनः ॥

अर्थ-पीपल, गजपीपल और नागरमोथा, इनके काठेमें सहत और मिश्री मिलाय पीवे तो अतिसार, प्यास और वॉति, इनको नाश करे ॥

पाठादिकाढा ।

पाठेद्रयवभूर्निवमुस्तापर्पटकःशृतः ॥

जयत्याममतीसारंज्वरंचसमहौपधम् ॥

अर्थ-पाठकी जड, इन्द्रजौ, चिरायता, नागरमोथा, पित्तपापडा और सोंठ इनका काढा आमातिसार और ज्वर इनका नाश करे ॥

नागरादिकाढा ।

नागरातिविषामुस्ताभूर्निवामृतवत्सकैः ॥

सर्वज्वरहरःक्वाथःसर्वातीसारनाशनः ॥

अर्थ-सोंठ, अतीस, नागरमोथा, चिरायता, गिलोय और कूडाकी छाल, इनका काढा संपूर्ण ज्वर और संपूर्ण अतिसार इनका नाश करे ॥

कलिंगादिकाढा ।

कलिंगातिविषाशुंठीकिरातांबुयवासकम् ॥

ज्वरातिसारसंतापनाशयेदविकल्पतः ॥

अर्थ-कूडाकी छाल, अतीस, सोंठ, चिरायता, नेत्रवाला और जवासा इनका काढा ज्वरातिसार संबंधी संताप इनको निःसंशय नाश करे है ॥

गुडूच्यादिकाढा ।

गुडूच्यातिविषाधान्यशुंठीविल्ववद्दवालकैः ॥ पाठाकुटजभू-

निवचंदनोशीरपर्पटैः ॥ पिवेत्कपायंसक्षौद्रंज्वरातीसारशांत

ये ॥ हृल्लासारोचकच्छर्दिपिपासादाहनाशनम् ॥

अर्थ-गिलोय, अतीस, धनिया सोंठ, वेलगिरी, नागरमोथा, नेत्रवाला, पाठ,

कूडाकी छाल, चिरायता, लालचंदन, खस और पित्तपापडा, इनका काढा, शहत डालके पीवे तो ज्वरातिसार हल्लास, अरुचि, वमन वृषा और दाह इनको नाश करे ॥

वत्सकादिदोकाढे ।

वत्सकंस्यफलंदारुरोहिणीगजपिप्पली ॥ श्वदंष्ट्रापिप्पलीधा-
न्यविल्वपाठायवानिका ॥ द्वावप्येताविमौयोगौश्लोकार्धेनाव-
भापितौ ॥ ज्वरातिसारशमनौविशेषादाहनाशनौ ॥

अर्थ—इन्द्रजौ, देवदार, कुटकी, गजपीपल, इनका अथवा गोखरू, पीपल, धनिया, बेलगिरी, पाठ और अजवायन इनका काढा ज्वरातिसार और विशेष करके दाह इनको शमन करे ॥

उशीरादिकाढा ।

उशीरंवालकंमुस्तंधान्यकंविल्वमेवच ॥ समंगाधातकीलोध्रं
विश्वंदीपनपाचनम् ॥ हंत्यरोचकपिच्छामंविबंधमतिवेदनम् ॥
सशोणितमतीसारंसज्वरंवाथविज्वरम् ॥

अर्थ—नेत्रवाला, खस, नागरमोथा, धनिया, बेलगिरी, मँजीठ, धायकेफूल, लोध और सोंठ, इनका काढा दीपन और पाचन है तथा अरुचि आमाति-सार, मलबंध, शूल, रक्तातिसार और ज्वर, इनका नाश करे यह काढा ज्वर रहित अतिसारहीपर चलता है ॥

विल्वादिकाढा ।

विल्ववालकभूनिवगुडूचोधान्यनागरैः॥

कुटजद्वामृताक्वाथोज्वरातीसारशूलनुत् ॥

अर्थ—बेलगिरी, नेत्रवाला, चिरायता, गिलोय, धनिया, सोंठ, कूडाकी छाल, नागरमोथा और आमले इनका काढा, ज्वरातिसार और शूल इनका नाशक है ॥

पंचमूलादिकाढा ।

पंचांघ्रिवृक्ष्यब्दवल्लेद्रवीजत्वक्सेव्यतित्तामृतविश्वविल्वैः ॥

ज्वरातिसारान्त्वमीन्सकासान्स्वासाशूलाच्छमयेत्कपायः ॥

अर्थ—पंचमूल, फट्टेरी, नागरमोथा, खिरेटी, कूडाकी छाल इन्द्रजौ, नेत्र-
वाला, कुटकी, गिलोय सोंठ, वेलगिरी, इनका काढा ज्वरातिसार, वमन, खांसी,
श्वास और शूल इनको शमन करे है ॥

अरल्वादिकाढा ।

अरल्वातिविपासुस्ताशुंठीविल्वंसदाडिमम् ॥

सर्वज्वरहरः काथः सर्वातीसारनाशनः ॥

अर्थ—टेंदू, अतीस, नागरमोथा, सोंठ, वेलगिरी और अनारदाना इनका
काढा संपूर्ण ज्वर और संपूर्ण अतिसारोंका नाश करे ॥

उत्पलादिचूर्ण ।

उत्पलंदाडिमत्वचंसंचूर्ण्यपद्मकेसरम् ॥

पिवेत्तंदुलतोयेनज्वरातीसारनाशनम् ॥

अर्थ—कुल्लिजन, अनारकीछाल और कमलकी केशर इनको पीस चावलोंके
धोवनके साथ पीवे तो ज्वरातिसार नाश होय ॥

व्योपादिचूर्ण ।

व्योपवत्सकवीजानिनिवभूनिवमार्कवम् ॥ चित्रकंरोहिणीपाठादा

वींध्यतिविपासमम् ॥ श्लक्ष्णचूर्णाकृतानेतान्तत्तुल्यांवत्सक

त्वचम् ॥ सर्वमेकत्रसंयोज्यपिवेत्तंदुलवारिणा ॥ सक्षौद्रंवालि

हेदेवंपाचनं ग्राहिभेपजम् ॥ तृष्णारुचिप्रशमनंज्वरातीसारना-

शनम् ॥ कामलाग्रहणीरोगान्युल्मं प्रीहानमेवच ॥ श्वयथुंपां-

दुरोगंचप्रमेहंचविनाशयेत् ॥

अर्थ—सोंठ, मिरच, पीपल, इन्द्रजौ, नीमकीछाल, चिरायता, भांगरा,
चीतेकीछाल, कुटकी, पाट्टेकी जड, दारुहलदी, अतीस, इनकी समान भाग
मात्रा लेकर चूर्ण करे, तथा सब चूर्णकी बराबर कूटकी छालका चूर्ण लेवे
सबको एकत्र कर चावलके धोवनसे अथवा शहतसे देवे यह पाचन तथा ग्राह-
क है तथा तृषा, अरुचि, ज्वरातिसार, कामला, संग्रहणी, गौला, प्रीहा, सूजन,
पांडुरोग और प्रमेह इनका नाश करे ॥

इसवगोलयोग ।

इसवगोलइतिप्रथितोजनेहरतितज्ज्वरभाजमत्तिसृत्तिम् ॥

अनुभवाल्लिखितं न तु शास्त्रतो भवतु तद्भिपजामुपयोगिकम् ॥

अर्थ—जिसको मनुष्य इसवगोल कहते हैं वह ज्वरातिसार नाशक है यह मैं अपने अनुभवसे लिखता हूँ यह शास्त्रसे नहीं लिखा परंतु यह वैद्योंके उपकारार्थ होओ ॥

लाजमंड ।

उत्पलपट्टिकसिद्धं लाजकमंडादिकं पेयम् ॥

अर्थ—सांठी चावलकी खीलोंके मंडमें कमलकंदका चूर्ण मिलाय देवे तो ज्वरातिसारको शांति करे ॥

पृश्निपर्ण्यादिपेया ।

पृश्निपर्णीवलाविल्वानागरोत्पलधान्यकैः ॥

ज्वरातिसारीपेयांवापिवेत्साम्लांगृतांनरः ॥

अर्थ—पियवन, खिरेटी, बेलगिरी, सोंठ, कमल और धनिया इनकी खट्टी पकाई हुई पेया ज्वरातिसारवाले रोगीको पीनी चाहिये ॥

धातक्यादिपेया ।

धातकीकाथसंसिद्धा विश्वभेषजकल्पिता ॥

दाडिमाम्लयुतापेया ज्वरातिसारशूलिनाम् ॥

अर्थ—घायकेफूलोंका काढा, सोंठका कल्क और अनारदाने का रस इनकरके तैयार करी हुई पेया ज्वरातिसारमें शूलपर हितकारी है ॥

विजयायोग ।

एरंडविल्वयवगोक्षुरकारनालैः स्वित्नांलिहंति विजयामधुना-

न्वितांये ॥ तेषांप्रणाशमुपयांत्युदरामयास्तु सर्वैस शूलविप-

मज्वरकासहिक्काः ॥

अर्थ—अंडकीजड, बेलगिरी, इन्द्रजौ, गोखरु, इनके पेयामें भांग अथवा मोचरस सहित मिलायके सेवन करनेसे संपूर्ण उदररोग, संपूर्ण शूल, विषमज्वर, खांसी और हिचकी ये संपूर्ण उपद्रव नाश हों ॥

पंचामृतपपैटीरस ।

सूतायसीचताम्राभ्रसमंद्भिगुणगंधकम् ॥ लोहपात्रेवाद्दरामौमृदुपा

कोभवेद्रसः ॥ लेपयेत्कदलीपत्रकर्तव्यारसपर्पटी ॥ पंचामृताप-
पर्पटीचरसोवह्निप्रदीपनः ॥ ज्वरातिसारकासघ्नीकामलापांडु
मेहजित् ॥ अनुपानंमलेवद्धेज्वरेजीर्णैचमूत्रकम् ॥ पलंपथ्यं-
तुतैलाम्लवर्ज्यमन्यच्चयुक्तितः ॥

अर्थ-पारा, लोहकी भस्म, तामेकी भस्म और अभ्रककी भस्म, ये समान भाग लेवे, गंधक दो भाग ले, सबकी चारो क कजली करके लोहेके कडछलेमें रखके वेरकी लकडीकी धीमी २ अग्निसे तपायके एक जीव करे, फिर पृथ्वीमें फलेका पत्र विछायके ऊपरसे इस कजलीके रसको अथवा पंचामृत पर्पटीको ताप के ढालदेवे, यह पर्पटी अग्निदीपक है और ज्वरातिसार, खांसी, कामला, पांडुरोग और प्रमेह इनका नाश करे। यह मलावष्टंभ होनेसे अथवा जीर्णज्वर होनेसे चकरीके चार तोले मूत्रसे देवे इसपर पथ्यमें तेल और खटाई वर्जित है बाकीके युक्तिसे जानने चाहिये ॥

दरदादिपुटपाक ।

दरदश्चैकभागोहिसार्धभागोहिफेनकः ॥ अर्धभागोभवेदृंकःपि
ष्टिकांचप्रलेपयेत् ॥ जातीफलंचविन्यस्यसर्वंचपुटपाचितम् ॥
मुद्गमात्रंपिवेत्रित्यंपयसाचगवांहितम् ॥ ज्वरातिसारेमांथेच
निद्रानाशेरुचौतथा ॥ योजयेद्भिपजानित्यंत्रलपुष्टिकरंपरम् ॥

अर्थ-हर्षगुलू ४ तोले, अफीम ६ तोले, मुहागा २ तोले और जायफल २ तोले, इन सबको एकत्र कर पुटपाक करे, फिर मूंगके समान गोली बनाये १ गोली गौके दूधसे देवे तो ज्वरातिसार, मंदआमि, निद्रानाश, अरुचि, इनको नष्ट करे तथा यह औषध बल और पुष्टता करती है ॥

दुग्धयोग ।

विवद्धवातोविटशूलपरीतःसप्रवाहिकः ॥ सरक्तपित्तश्चपयः
पित्रेत्तृष्णासमन्वितः ॥ यथामृतंतथाक्षीरमतीसारेषुपूजित-
म् ॥ सरक्तोत्थेषुतप्तोऽयमपांभागेषुसंस्कृतम् ॥

अर्थ-आधा जल और आधा दूध मिलायके दूध मात्र रहने पर्यंत औटोवे इसको पेटकी बादी और शूल, प्रवाहिका, रक्तपित्त और प्यास, इनपर देना

चाहिये जैसे अमृत होता है ऐसा यह दूध है इसको संपूर्ण रक्तविकारोंपर देना चाहिये ॥

कट्टफलादिचूर्ण ।

कट्टफलमधुकंलोध्रस्त्वग्दाडिमफलस्यच ।

सतंदुलजलंचूर्णवातपित्तातिसारनुत् ॥

अर्थ—कायफल, मुलहठी, लोध और अनारकी छाल इनका चूर्ण चावलोंके धोवनके जलसे पीवे तो वातपित्तातिसार नष्ट हो ॥

पित्तकफातिसारनिदान ।

द्विदोषलक्षणैर्विद्यादतीसारंद्विदोषजम् ॥

तेपांचिकित्साप्रोक्तैवविशिष्टाचनिगद्यते ॥

अर्थ—दो दोषके लक्षणोंसे द्विदोषज अतिसार रोग जानना, उस द्विदोषजोंकी चिकित्सा कह आए हैं परंतु इसजगमे कुछ विशेष चिकित्साको कहतेहैं ॥

मुस्तादिकाढा ।

मुस्तासातिविषामूर्वावचाचकुटजःसमः ॥

एपांकपायःसक्षौद्रःपित्तश्लेष्मातिसारहृत् ॥

अर्थ—नागरमोथा, अतीस, मूर्वा, वच, और कूडाकी छाल इनका काढा कर सहत मिलायके सेवन करे तो पित्तकफातिसारका नाश करे ॥

समंगादिकाढा ।

समंगाधातकीविल्वमात्रास्थयंभोजकेसरम् ॥ विल्वमोचरसंलो-

ध्रंकुटजस्यफलत्वचौ ॥ पिवेत्तंदुलतोयेनकपायंकल्कमेवच ॥

श्लेष्मपित्तातिसारघ्नरक्तवाथनियच्छति ॥

अर्थ—खिरेटीकी जड़, धायके फूल, वेलगिरी, आमकी गुठली, कमलकेशर, वेलकी छाल, मोचरस, लोध, कूडाकी छाल और इन्द्रजव इनका काढा अथवा चूर्ण चावलके धुले हुए पानीसे पीवे तो कफपित्तातिसार और रक्तातिसार इनका नाश करे ॥

वातकफातिसारनिदान ।

रसैःस्वादुकटुप्रायेरुभौवातकफौनृणाम् ॥ कुरुतस्तावतीसा

रंरौद्रौवह्निनिहत्यच ॥ द्रवंसफेनंपुरिपंतत्वतोह्यामगांधिकम् ॥
सशब्दवेदनावच्चतत्रसंपरिपच्यते ॥ नित्यंगुडगुडायंतंतंद्रामू
छाभ्रमकृमैः ॥ प्रसक्तंसक्थिकक्ष्यूरुजानुपृष्ठास्थिशूलिनः ॥

अर्थ—मिष्ट और तीखे रसोंके अत्यंत सेवनसे वातकफ दोनों कुपित होते हैं और अग्निको शांत करके अतिसाररोगको प्रगट करे हैं वह पतला, झागदार, कच्ची दुर्गंधयुक्त, शब्दयुत और शूल, आम, गुडगुडाहटशब्दयुक्त होवे तथा तन्द्रा, मूर्च्छा, भ्रम, ग्लानि और कमर, जंघा, पिंडरी, पीठकी हड्डी इनमें पीडा इन लक्षणोंकरके युक्त हो उसको वातकफातिसार जानना ॥

वातकफातिसारित्र ।

धान्यपंचकसंसिद्धोधान्यविश्वकृतोथवा ॥

आहारोभिपजायोज्योवातश्लेष्मातिसारिणे ॥

अर्थ—वातकफातिसारी रोगीको धान्यपंचकके काठमें अथवा धनिया और सोंठ इनके काठमें सिद्ध करेहुए भोजनके पदार्थ वेद्य खानेको देवे ॥

चित्रकादिकाढा ।

चित्रकातिविपामुस्तंवलाघिल्वंसनागरम् ॥

वत्सकत्वक्फलंपथ्यावातश्लेष्मातिसारनुत् ॥

अर्थ—चाँतेकी छाल, अतीस, नागरमोथा, खैरटी, वेलगिरी, सोंठ, कूडाकी छाल, इंद्रजी और हरड इनका काढा वातकफातिसारको दूर करे ॥

उपचारक्रम ।

वातातिसारेयच्चोक्तंपाचनंग्राहिभेषजम् ॥

तदत्रापिचयुंजातसपित्तकफमारुते ॥

अर्थ—जो वातातिसारमें औषधी फही हैं अथवा पाचन और ग्राही औषधी फही हैं वो इस पित्तयुक्त वातकफातिसारमें भी देनी चाहिये ॥

विल्वादिकाढा ।

विल्वचूतास्थिनिर्यूहः पीतःसक्षौद्रशर्करः ॥

निहन्याच्छर्द्यतीसारवैश्वानरइवाहुतिम् ॥

अर्थ—वेलगिरी, आमकी गुठलीका रस, मिश्री और सहत इन सबको

मिलायके सेवन करे तो वाँति और अतिसार इनका नाश करे जैसे अमि
सवका नाश करे है ॥

प्रियंग्वादिकाढा ।

प्रियंग्वंजनमुस्तारख्यंपाययेत्तुयथावलम् ॥

तृष्णातिसारछर्दिघ्नसक्षौद्रंतदुलांबुना ॥

अर्थ—फूलप्रियंगु, सुरमा और नागरमोथा, इनका चूर्ण अथवा कल्कको
चावलोंके धोवनके साथ सहत मिलायके बलाबल देखकर देवे तो तृषा, अति-
सार और वाँति इनका नाश करे ॥

आम्रादि काढा ।

आम्रास्थिमध्यमालूरफलकाथःसमाक्षिकः ॥

शर्करासहितोहन्याच्छर्द्यतीसारमुल्बणम् ॥

अर्थ—आमके भीतरकी गुठली और वेलगिरी इनका काढा सहत और
मिश्री मिलायके देवे तो वमन, अतिसार, तृषा, दाह, ज्वर और भ्रम इनका
नाश होय ॥

मुद्गकपाय ।

कपायोभृष्टमुद्गानांसलाजमधुशर्करः ॥

निहन्याच्छर्द्यतीसारंतृष्णांदाहंज्वरंभ्रमम् ॥

अर्थ—भुनीहुई मूंगका काढा, खील, सहत और मिश्री मिलायके देवे तो
छर्दि, अतिसार, तृषा, दाह, ज्वर और भ्रम इनका नाश करे ॥

पटोलादि काढा ।

पटोलयवधान्याकक्काथःपीतःसुशीतलः ॥

शर्करामधुसंयुक्तश्छर्द्यतीसारनाशनः ॥

अर्थ—पटोलपत्र, इन्द्रजौ और धनिया इनका काढा शीतल करके सहत
और मिश्री डालके पीवे तो छर्द्यतिसारनाशक होय ॥

जंवादि काढा ।

जंवाप्रपल्लवोशीरंवटशृंगावरोहकम् ॥ रसःकाथोथवाचूर्णक्षौद्रे
णसहयोजितम् ॥ छर्दिज्वरमतीसारंमूर्च्छांतृष्णांचदुर्जयाम् ॥

नियच्छत्यचिराद्धंतिस्मृतिवानेकहेतुकाम् ॥

अर्थ—जामुन और आम इन दोनोंके कोमल पत्ते, नेत्रवाला, बडकीकली, और सिंघाड़े इनका काटा अथवा चूर्ण अथवा रस सहतसे सेवन करे तो ओकरियोंका आना, ज्वर, अतिसार, मूर्च्छा और प्यास ये यदि दुर्जयभी होवे तथापि इनका नाशक है और अनेक प्रकारका अतिसारकाभी नाशक है ॥

पुरीपातिसारऊपर ।

दीप्ताग्निभिःपुरीपंयत्सार्यतेफेनिलंशकृत् ॥

सपिवेत्फाणितंशुंठीदधितैलंपयोवृतम् ॥

अर्थ—दीप्ताग्नि पुरुषको ज्ञागयुक्त और मलमिला दस्त होवे वह रात्र, सोंठ, दही, तेल, दूध, घी ये पदार्थ भोजन करे ॥

पुरीपक्षयऊपर ।

बलाविश्वशृतंक्षीरंगुडतैलानुयोजितम् ॥

दीप्ताग्निपाययेत्प्रातःसुखदं वर्चसःक्षये ॥

अर्थ—दीप्ताग्निवाले पुरुषके मलक्षय होनेसे उसको खिरेदी, सोंठ इनके योगसे तपाहुआ दूध, तेल, और गुड, डालके प्रातःकाल पिलावे, तो सुखकारक होय ॥

दूसराप्रकार ।

रंभासंडंरुचिकरंसघृतंदधिमिश्रितम् ॥

खादेत्सेवेचमृद्भ्रन्नंतद्धितंशकृतःक्षये ॥

अर्थ—केलाकी गहरका टुक, घी और दही इनमें मिलायके भक्षण करे तथा मृदु अन्न भोजन करे तो पुरीपक्षयपर अत्यंत हितकारी होय ॥

शोफातिसारपरदेवदाव्यादिकाढा ।

सदेवदारुःसाविपःसपाठःसर्जतुशत्रुःसवनःसतीक्ष्णः ॥

सवत्सकःक्वाथउदाहृतोसौशोफातिसारांशुधिकुंभजन्मा ॥

अर्थ—देवदारु, अतीस, पाठ, वायविडंग, नागरमोषा, फालीमिरच, फुडाकी छाल, इनका काटा शोफातिसाररूप समुद्रकी अगस्त्य ऋषिके समान है ॥

विडंगादिकाढा ।

विडंगातिविपामुस्तादारुपाठाकलिंगकम् ॥

मरीचेनसमायुक्तंशोथातीसारनानशम् ॥

अर्थ-वायविडंग, अतीस, नागरमोथा, देवदारु, पाठ, कूडाकी छाल और कालीमिरच इनका काढा शोथातिसार नाशक है ॥

किरातादिकाढा ।

किराताब्दामृताविश्वचंदनोशीरवत्सकैः ॥

शोथातीसारश्मनंविशेषाज्ज्वरनाशनम् ॥

अर्थ-चिरायता, नागरमोथा, गिलोय, सोंठ, चंदन, खस और कूडाकी छाल इनका काढा शोथातिसार और विशेषकरके ज्वरका नाश करे है ॥

पाठादिकाढा ।

पाठाविपावत्सकमेघदारुविडंगकामोचरसैःकपायम् ॥

कृतंप्रभातेप्रपिबेद्द्रदातिशोफातिसारार्णववाडवाग्निः ॥

अर्थ-पाठ, अतीस, कूडाकी छाल, नागरमोथा दारुहलदी, वायविडंग और मोचरस इनका काढा प्रातःकाल पीवे तो शोफातिसारसमुद्रके सोखनेका वाडवामिरूप है ॥

शोथघ्नादिकाढा ।

शोथघ्नांद्रयवापाठाविडंगातिविपाचनाः ॥

क्वथित्वासोपणाःपीताःशोथातीसारनाशनाः ॥

अर्थ-पुनर्नवा, इन्द्रजव, पाठ, वायविडंग, अतीस और नागरमोथा इनका काढा सोठ, मिरच और पीपलका चूर्ण मिलाकर पीवे तो शोथातिसार नाश होवे ॥

भस्त्रातिसारनिदान ।

कोष्ठाग्निःशीतपवनेनपच्यतेनवारितृपार्तःसमयेनपिबतिजं-

तुः ॥ शैथिल्यस्निग्धसदृशंद्रवमामयुक्तंभस्त्रातिसारकगदः

खलुएपादिष्टः ॥

अर्थ-शीतवायुके योग करके कोष्ठाग्नि आहारका उत्तम रीतिसे पचावे नहीं तथा तृपा लगे उस समय पानी पीवे नहीं उसके शिथिल, चिकना, पतला, और आमयुक्त ऐसा भस्त्रा शौचका होता है उसको भस्त्रातिसार कहा है ॥

शाल्मलिचूर्ण ।

शाल्मलीशुष्कनिर्यासयवानीधातकीशिफा ॥ तिलासर्जर

सःसर्पिलोभ्रंसमविचित्रितम् ॥ तद्द्रक्षणमतीसारंनिहंतिभसरापहम् ॥

अर्थ—मोचरस, अजवायन, धायके फूल, तिल, राल और लोध इनका चूर्ण घृतके साथ सेवन करे तो यह भस्त्रातिसारको नाश करे ॥

हिंग्वादिजलयोग ।

हिंयुशुंठीविडंगंचसौवर्चलसमन्वितम् ॥

कर्पयुग्ममितंतोयंभक्षितंभसरापहम् ॥

अर्थ—हींग, सोंठ, वायविडंग और संचलनिमक इनका चूर्ण दो तोले जलसे दे तो भस्त्रातिसारका नाश होय ॥

रोहिण्यादिपाचन ।

रोहिण्यतिविपापाठावचाकुप्टसमुद्भवः ॥

काथःपीतोनिहंत्येवसर्वातीसारजारुजम् ॥

अर्थ—कुटकी, अतीस, पाठ, वच और कूठ इनका काढा पीवे तो यह संपूर्ण अतिसारको नाश करे ॥

हीवेरादिकाढा ।

हीवेरधातकीलोभ्रपाठालज्जालुवत्सकैः ॥ धान्यकातिविपा

मुस्तगुडूचीविल्वनागरेः ॥ कृतःकपायःशमयेदतीसारंचिरो

त्थितम् ॥ अरोचकामशूलास्रज्वरघ्नःपाचनःस्मृतः ॥

अर्थ—नेत्रवाला, धायके फूल, लोध, पाठ, लज्जालू, कूंडेकी छाल, धनिया, अतीस, नागरमांथा, गिलोय, कौमलबेलफल और सोंठ इन चारह औषधोंका काढा पीनेसे बहुत दिनका अतिसार, अरुचि, आमशूल और ज्वर इनको दूर करे [उसीप्रकार बेलकी छाल तथा बड़े आमकी छाल इनका काढा करके उसमें शहत और मिथी डालके पीवे तो सर्व अतिसार नष्ट हो देसे ग्रंथांतरमें लिखा है] ॥

धातक्यादिकाढावालकोंकेसर्वातिसारऊपर ।

धातकीविल्वलोभ्राणिवालकंजगपिप्पली ॥ एभिःकृतंशृतंशी

तंशिशुभ्यःशौद्रसंयुतम् ॥ प्रदद्याद्वलेहंवासर्वातीसारशांतये ॥

अर्थ—धायकेफूल, बेलगिरी, लोध, नेत्रवाला और गजपीपल इन पांच

औपधोंका काढा करे फिर शीतल होनेपर उसमें शहत डालके पिवावे अथवा चटनी बनायके देवे तो बालकोंके सर्व अतिसार दूर होवे ॥

आनंदभैरवरस ।

दरदंवत्सनाभंचमरिचंटकणंकणा ॥ चूर्णयेत्समभागेनरसोद्घा-
नंदभैरवः ॥ गुंजैकावाद्रिगुंजवावलंज्ञात्वाप्रयोजयेत् ॥ मधुना-
लेहयेच्चानुकुटजस्यफलंत्वचम् ॥ चूर्णितंकर्पमात्रं तु त्रिदोषो-
त्थातिसारनुत् ॥ दध्यन्नंदापयेत्पथ्यंगवाज्यंतक्रमेवच ॥ पि-
पासायांजलंशीतंविजयाचहितानिशि ॥

अर्थ—शुद्धकरा सिंगरफ, शुद्धकरा बच्छनागविष, कालीमिरच, सुहागा, और पीपल ये पाँच औषध समान भाग लेकर सबको एकत्र खरल कर वारीक चूर्ण करे इसको (आनंदभैरवरस) कहते है यह आनंदभैरव इन्द्रजौ और कूडाकी छाल दोनों १ तोले लेकर चूर्णकरके इसके साथ रोगीका बलावल विचारके १ रत्तीके अनुमान देवे, अथवा दो रत्ती प्रमाण शहतसे देवे तो त्रिदोषसें हुआ अतिसारको नष्ट करे इसपर पथ्यमें गौका दही, भात, अथवा घी भात अथवा छाँछ भात देवे और जब २ प्यास लगे तब २ शीतल जल पीनेको देय तथा रात्रिमें थोड़ी भाँग शुद्धकर घोंट छानके पीवे तो यह भाँग अतिसारवालेको हितकारी होती है ॥

आनंदरस ।

जातीफलंसेंधवाहिंगुलंचवराटशुंठीविपहेमवाजम् ॥ सपिप्पली
कंवटिकांचकुर्याद्गुंजाप्रमाणंजठरामयघ्नीम् ॥ निहंतिवातंकफ
शूलमात्रमामातिसारग्रहणीविकारम् ॥ निहंतिशुष्कंसितया
समेतंरसोयमानंदइतिप्रदिष्टः ॥

अर्थ—जायफल, सैधानिमक, हाँगलू, कौडीकी भस्म, सोंठ, बच्छनागविष, धतूरेके बीज, पीपल ये सब एकत्र करके खरल करे फिर १ रत्तीकी गोली बना वे १ गोली मिश्रीके साथ देवे तो पेटका रोग, वादी, कफ, शूल, आमाति-सार, संग्रहणी और योनिरोग इनका नाश करे इसको आनंदरस ऐसे कहते है ॥

दाडिमाष्टक ।

कपोन्मितातुगोक्षीरीचातुर्जातंत्रिकर्पिकम् ॥ यवानीधान्य-

काजाजीग्रंथीव्योपपलांशकम् ॥ पलानिदाडिमान्यष्टौसि-
तायाश्चैकतःकृतम् ॥ गुणैःकपित्थाष्टकवच्चूर्णतद्दाडिमाष्टकम् ॥

अर्थ—वंशलोचन १ तोला दालचीनी, पत्रज, इलाइचीके दाने, नागकेशर,
सबको मिलायके ३ तोले लेवे, अजवायन, धनिया, जीरा, पीपरमूल, सोंठ,
कालोमिरच, पीपर सब मिलाकर चार तोले लेवे. अनारदाना बत्तीसतोले,
मिश्री ३२ बत्तीस तोले सबको एकत्र करके चूर्ण करे इसको (दाडिमाष्टक)
चूर्ण कहते हैं यह गुणोंमें कपित्थाष्टकके समान है ॥

लघुगंगाधरचूर्ण ।

मुस्तमिंद्रयवंविल्वंलोध्रमोचरसंतथा ॥ धातकींचूर्णयेत्तक्रगु-
डाभ्यांपाययेत्सुधीः ॥ सर्वातिसारशमनंनिरुणद्धिप्रवाहि-
काम् ॥ लघुगंगाधरंनामचूर्णग्राहकरंपरम् ॥

अर्थ—नागरमोथा, इन्द्रजव, वेलगिरी, लोध, मोचरस और धायके फूल
इन छः औषधोंका चूर्णकरके छालमें गुड मिलायके उसमें इस चूर्णको
मिलायके पंचे तो संपूर्ण अतिसारोंको दूरकरे तथा प्रवाहिकाको बंद करे इस
चूर्णको (लघुगंगाधर) कहते हैं तथा यह चूर्ण मलको अवग्रंभ करता उत्तम है
ऐसा जानना ॥

वृद्धगंगाधरचूर्ण ।

मुस्तारलुकशुंठीभिर्धातकीलोध्रवालकैः ॥ विल्वमोचरसा-
भ्यांचपाठेद्रयवत्सकैः ॥ आम्रबीजंप्रतिविपालज्जालूरि-
तिचूर्णितम् ॥ क्षौद्रतंदुलपानीयैःपीतैर्यातिप्रवाहिका ॥ सर्वाति
सारग्रहणीप्रशमंयातिवेगतः ॥ वृद्धगंगाधरंचूर्णसरिद्वेगविवंधकम् ॥

अर्थ—नागरमोथा, टैट्ट, सोंठ, धायके फूल, लोध, नेत्रवाला, वेलगिरी,
बरस, पाद, इन्द्रजव, फुडाकी छाल, आमकी गुठली, अर्तीस और लजालू
चौदह औषधोंका चूर्ण चौबलके धोवनमें सहत मिलायके इस पानीके
५ पंचे तो प्रवाहिका और सर्वप्रकारके अतिसार तथा संग्रहणी तत्काल
दूर होवे इस चूर्णको (वृद्धगंगाधर) कहते हैं यह चूर्ण नदीसमान घेगवाले
अतिसारकोभी स्तंभन करे है ॥

अजमोदादिचूर्ण ।

अजमोदामोचरसंसंशृंगवेरंसधातकीकुसुमम् ॥

गोदधिर्मथितयुक्तं गंगामपिवाहिनीरुंध्यात् ॥

अर्थ-अजमोदा, मोचरस, अदरस और धायके फूल इन चार औषधोंके चूर्णको बिना पानीके मर्थाहुई गौकी छाँछमें मिलायके पीवे तो गंगाके समान वेगवालाभी अतिसारको स्तंभन करताहै अर्थात् अत्यंत प्रबल अतिसारभी धम जावे ॥

बृहदाडिमाष्टक ।

दाडिमस्यफलान्यष्टौशर्करायाःपलाष्टकम् ॥ पिप्पलीपिप्प-
लीमूलंयवानीमरिचंतथा ॥ धान्यकंजीरकंशुंठीप्रत्येकंपल-
संमितम् ॥ कर्पमात्रातु गोक्षीरित्वक्पत्रैलाश्वकेसरम् ॥प्रत्येकं
कोलमात्राःस्युस्तच्चूर्णंदाडिमाष्टकम् ॥अतीसारंक्षयंगुल्मंग्र-
हणींचगलग्रहम् ॥ मंदाग्निपीनसंकासंचूर्णमेतद्व्यपोहति ॥

अर्थ-अनारदाना ८ पल, मिश्री ८ पल, पीपल, पीपरामूल, अजमोदा कालीमिरच, जीरा और सोंठ ये सात औषध एक २ पल लेंवे तथा वंशलो चन १ तोले, दालचिनी, पत्रज, इलायची और नागकेशरथे चार औषध एक एक कोल लेंवे सब औषधोंको कूट पीस चूर्ण करे, इसको (बड़ा दाडिमाष्टक चूर्ण) कहते हैं यह सेवन करनेसे अतिसार, क्षय, गोला, संग्रहणी, कंठरोग, मंदाग्नि, पीनस और खाँसी इनको नष्ट करे ॥

धातक्यादिचूर्ण ।

श्रीधातकीमोचरसाब्दलोध्रकलिंगविश्वौषधचूर्णमेतत् ॥

पेर्यंगुणाब्द्यंगुडतक्रयुक्तंगार्ढवतीसारकनाशकंच ॥

अर्थ-बलगिरी, धायके फूल, मोरच, नागरमोथा, लोध, कूडाकी छाल और सोंठ इनका चूर्ण गुड और छाल इनसे पीवे तो अतिसार नाश होवे ॥

भल्लातादिचूर्ण ।

भल्लातानांद्विखंडानांद्विपलेभर्जितेक्षिपेत् ॥ शुंठ्याःपलंतुचे-
तक्याःपलार्धसुमनापलम् ॥ कर्पमेथिवेल्लजीराःसर्पपाःकोल
मात्रतः ॥ ततोयवान्यर्धपलंपिप्पलीरामठोपणम् ॥ विडंसैध-
वजीरंचकिर्माणिसंज्ञिकंतथा ॥ कर्पप्रमाणंविज्ञेयवैद्यविद्या
विशारदैः ॥ सर्वमेकत्रसंचूर्णयथासात्पर्यंतुभक्षयेत् ॥ दध्नासह-
तथा खादेत्सर्वातीसारनाशनम् ॥

अर्थ—भिलाये दौड़ूक करके भुनेहुए ८ तोले, सोंठ ४ तोले, हरड २ तोले, मेथी, कालीमिरच और जीरा ये एक तोले, सरसों २ मासे, अजवायन २ तोले, और पीपल हाँग, चीता विडनोन, सेंधा, जीरा, तथा किरमानी अजवायन ये प्रत्येक एक एक तोले लेय, इस प्रमाण सब औषध एकत्र कर चूर्ण करलेवे; इसमेंसे प्रकृतिके अनुसार दहीके साथ देवे तो यह सर्व अतिसारोंका नाश करे ॥

लघुलाईचूर्ण ।

सूतंगंधंत्रिकटुकंदीप्यकंजीरकद्रयम् ॥ सौवर्चलसैधवंचरामठं
विडमेवच ॥ शक्राह्वस्यचचूर्णतुचूर्णतुल्यंप्रदापयेत् ॥ संग्रहं
शूलमानाहंहन्यान्नानातिसारकम् ॥

अर्थ—शुद्धपारा, शुद्धगंधक, सोंठ, मिरच, पीपल, अजवायन, जीरा, काला जीरा, संचलनिमक, सेंधा, हाँग और विडनोन ये सब समान भाग लेवे और सब चूर्णके बराबर कूडाकी छालका चूर्णले, सबको एकत्र करे इसको (लघुलाई) चूर्ण कहते हैं यह संग्रहणी, शूल, अफरा और नानाप्रकारके अतिसार इनका नाश करे ॥

यवान्यादिचूर्ण ।

यवानीपिप्पलीमूलचतुर्जातकनागरैः ॥ मरीच्याग्निजलाजा-
जीधान्यसौवर्चलैःसमैः ॥ वृक्षाम्लधातुकीकृष्णाविल्वदाडि-
मदीप्यकैः ॥ त्रिगुणैःपङ्गुणासीतैःकपित्याष्टगुणीकृतैः ॥ चू-
र्णातिसारग्रहणीक्षयगुल्मानलामयान् ॥ कासश्वासारुचि-
हिक्कांकपित्याष्टमिदंजयेत् ॥

अर्थ—अजवायन, पीपलामूल, दालचीनी, पत्रज, इलायचीके दाने और नाग केशर, सोंठ, मिरच, चाँतेकी छाल, नेत्रवाला, जीरा, धनिया और संचल निमक ये सब समान भाग लेवे और तंतडीक, धापके फूल, पीपर, बेलगिरी, अनारदाना और पीलाजीरा ये त्रिगुने लेवे, खाँड छःगुनी, और कैयफागूदा आठगुना, इनका चूर्ण एकत्र करे इसको (कपित्याष्टक) चूर्ण कहते हैं यह अतिसार, संग्रहणी, क्षय, गोला, गलेकारोग खाँसी, श्वास, अहचि और हिचकी इनका नाश करे ॥

वत्सकादिघृत ।

वत्सकस्यचवीजानिदाव्याश्वैवत्वगुत्तमा ॥ पिप्पलीशृंगवेरं

चलाक्षाकटुकरोहिणी ॥ पद्भिरैतैर्घृतं सिद्धं पेयं मण्डविमिश्रितम् ॥

अर्थ—इन्द्रजव, दारुहलदी, पीपल, सोंठ, लाख और कुटकी इन छः औषधोंसे घीको सिद्धकर मण्डके साथ पीवे तो अतिसार शमन होवे ॥

विल्वतैल ।

तुलासंकुट्यविल्वस्यपचेत्पादावशेषितम् ॥ सक्षीरंसाधयेत्तैलं
श्लक्ष्णपिष्टैरिमैःसमैः ॥ विल्वंसधातकीकुपुंशुठीरास्नापुन-
र्नवा ॥ देवदारुवचामुस्तालोध्रमोचरसान्वितम् ॥ एतन्मृद्वाग्नि-
नापकं ग्रहण्यशौविकारनुत् ॥ विल्वतैलमितिख्यातमत्रि-
पुत्रेणभापितम् ॥ ग्रहण्यशौविकारेयेस्त्रेहाःसमुपदर्शिताः ॥
प्रयोज्यास्तेतिसारेपित्रयाणांतुल्यहेतुता ॥

अर्थ—बेलगिरी ४०० चारसौ तोलेको कूटकर उसका चतुर्थांश काढाकरे उसमें दूध और तैल ये मिलायके फिर बेलगिरी, धायके फूल, कूड, सोंठ, रास्ना, पुनर्नवा, देवदारु, वच, नागरमोथा, लोध और सेमरका गोंद इनका कल्क मिलावे, फिर अग्निपर धरके आँटावे जब तैलमात्र शेष रहे तब उतारले यह (विल्वतैल,) अत्रिपुत्रने कहा है यह संग्रहणी, बवासीर और अतिसार इन पर योजनाकरे तथा संग्रहणी और अर्शरोगपर कहे हुए तैलादि उपचार वो तीनोंपरही सदृश हेतुहै अतएव उनको संपूर्ण अतिसारोंपर योजना करनेचाहिये.

शंखोदररस ।

सूतभस्मबलीलोहंविपत्रिकटुकंसमम् ॥ पिष्ट्वानिबुजतोयेनश
ङ्खेसर्वचतुर्गुणे ॥ क्षिप्त्वामृदंशुकैर्लिप्त्वाभडिगजपुटेपचेत् ॥
शीतेचप्राग्विपक्षिप्त्वावल्लमात्रंप्रयोजयेत् ॥ जातीफलंचविज-
यामधुनातिसृतौददेत् ॥ ग्रहण्यांचित्रकार्दाबुविजयाविश्वभे-
षजम् ॥ पृथक्देयंसमधुनामरिचैश्चघृतान्वितम् ॥ वह्निमांश्चक्ष-
येतद्बुदुरात्यंनिलामये ॥ पथ्यंदग्नाचतक्रेणक्षीरशकैश्च
संयुतम् ॥

अर्थ—पारिकीभस्म, गंधक, सिंगियाविप, सोंठ, मिरच और पीपल ये समान भाग लेनाँवूके रसमें खरलकर सबसे चौगुने शंखमें भर उसपर सात कप-

डमिष्टी करके किसीपात्रमें रखके गजपुटमें रखके फूंक देवे जय स्वांगशीतल होजावे तब उसमें एक भाग सिंगिया विष मिलायके सबका चूर्ण कर किसी शीशी आदिपात्रमें भरके धर देवे फिर २ रत्ती यह रसको जायफल, भाँग, और शहत इनसे अतिसार और संग्रहणी इनपर देवे तथा चीतेकी छाल, अदरख, नेत्रवाला, भाँग और सोंठ, मिरच इनका चूर्ण, घी और शहत इनके साथ मंदाभि, क्षय, उदर और वायु इनपर देवे, तथा पथ्यमें दही, छाँछ, दूध और शाग, ये पदार्थ देवे ॥

मूलिकाबंध ।

रक्तसूत्रैःकटौबध्वासर्पाक्षीवाट्यमूलकैः ॥

सुह्यावासहदेव्यावामूलंस्यादतिसारजित् ॥

अर्थ—लालसूत करके गिलोयको, खिरेटी, थूहर, अथवा सहदेई इनकी जडको बंधे तो अतिसारका नाश करे। इस जगे सर्पाक्षी करके गिलोयकाही ग्रहण है ॥

दाडिमीवटी ।

शुंठीजातीफलंचाहिफेनकंद्विगुणंभवेत् ॥ अपक्वदाडिमीवी-

जंसर्वतुल्यंप्रदापयेत् ॥ अपक्वदाडिमीवीजंकोशेक्षिस्वामृदालि

पेत् ॥ पुटपाकविधानेनपक्त्वाकोशसमन्वितम् ॥ पिष्ट्वाकल्कं

विधायथगुटिकाःसंप्रकल्पयेत् ॥ वादरास्थिप्रमाणेनतक्रेण

सहदापयेत् ॥ पक्वातिसारशमनीदाडिमीवटिकामता ॥

अर्थ—सोंठ और जायफल, इनकी दुगनी अर्फाम और इनके समान हरे अनारके दाने कच्चे अनारमें डालके कपडमिष्टी करके पुटपाककी विधिसे पाक करके पीसके कल्क कर केरके समान गोली बनावे १ गे ली छाँछके साथदेय तो अतिसारका नाश करे ॥

वव्वूल्यादिस्वरस ।

स्थूलवव्वूलिकापत्ररसःपानाद्द्रव्यपोहति ॥

सर्वातिसाराञ्छयोनाककुटजत्वग्रसोथवा ॥

अर्थ—कटिरेहित बडे वव्वूलके पत्तोंका स्वरस पीनेसे संपूर्ण अतिसार दूर होते हैं अथवा टेंडूकी छालका स्वरस अथवा लुडाकी छालका स्वरस इनमेंसे कोईसा स्वरस पीनेसे संपूर्ण अतिसार दूर होवे ॥

न्यग्रोधादिपुटपाक ।

न्यग्रोधादेश्चकल्केनपूरयेद्गौरतित्तिरैः ॥ निरंत्रमुदरसम्यक्पु
टपाकेनतत्पचेत् ॥ तत्कल्कःस्वरसक्षौद्रयुक्तःसर्वातिसारनुत् ॥

अर्थ—बड, गूलर, पीपल, पाखर और जलवेत इनकी छालका चूर्ण करके पानीमें पीस कल्क करे फिर इस कल्कको आँते रहित सपेद तीतरके पेटमें भरके पूर्वाक्त पुटपाककी विधिसे अग्नि देकर पुटपाक करे, जब सिद्ध होजावे तब उस गोलेको बाहर निकाल मट्टी पत्ते आदिको ढर कर उस तीतरके पेटमेंसे कल्क निकाल लेवे, उस रसमें शहत मिलायके पीवे तो संपूर्ण अतिसारके रोग दूर होते है ॥

अहिफेनयोग ।

अहिफेनंसुसंभृष्टंस्वर्परमृदुवह्निना ॥

पक्वातिसारशमनंभेपजंनास्त्यतः परम् ॥

अर्थ—खिपडेमें अफीम डालके मंदी २ अग्निसे भूने फिर बलावल विचारके देवे इसके समान पक्वातिसार शमनकर्ता दूसरी औषध नहीं है ॥

मुक्ताभस्मयोग ।

मुक्ताभस्मेतिनामेदं दोषं दृष्ट्वा प्रदापयेत् ॥ गुंजार्धमेकगुंजं वाक
पूरैण सुवासितम् ॥ जातीफलादिसंयुक्तं रहस्यं परमं मतम् ॥

अर्थ—मोतीकी भस्म, दोषोका बलावल विचारके एक रत्ती अथवा आध रत्ती अथवा डेढ रत्ती कपूर और जायफल आदिके साथ देवे यह अतिसार रोगपर परम रहस्य प्रयोग कहा है ॥

जातीफलादिवटी ।

जातीफलंचखर्जूरमहिफेनंतथैव च ॥ समभागानिसर्वाणिना
गवल्लीरसेन च ॥ बल्लमात्रावटीकार्यादेयात्क्रानुपानतः ॥ अ-
तिसारं जयेद्द्वारं वैश्वानर इवाहुतिम् ॥

अर्थ—जायफल, छुहारा और अफीम, ये पदार्थ समान भाग लेकर नाग-बेलपानके रसमें २ रत्ती गोली बनायके छॉछके साथ देवे तो घोररूप अतिसारका नाश करे जैसे अग्नि आहुतिका नाश करे है ॥

मरीचादिवटी ।

मरीचंखर्परंनागफेनंतंदुलतज्जलैः ॥ मर्द्यंतंदुलतोयेनगुटीस
र्वातिसारजित् ॥ जीरकंविजयाविल्वंनागफेनंसमांशकम् ॥ द
धिनीरेणसाकार्यागुटीसर्वातिसारजित् ॥

अर्थ—मिरच, खपरिया और अफीम इन तीनों औषधोंको चाबलके धोव-
नेसे घोटके गोली बनावे इसके सेवन करनेसे सर्वप्रकारके अतिसारोंका नाश
करे । अथवा जीरा भाँग बेलगिरी और अफीम, ये पदार्थ समान ले दहीके
जलमें घोटके गोली बनावे यह गोली सर्वप्रकारके अतिसारोंका नाश करे है ॥

अंकोलकल्क ॥

अंकोलमूलकल्कश्चसक्षौद्रस्तंदुलांबुना ॥

अतिसारहरःप्रोक्तस्तथाविपहरःस्मृतः ॥

अर्थ—अंकोल वृक्षकी जड़को पीसके कल्क करे उसमें शहत मिलाय चाव-
लोंके धोवनके साथ पीवे तो अतिसार दूर होय, तथा बच्छनागादिक विष
तथा सर्पादिकका विष दूर होय ॥

कपित्थकल्क ।

मध्यंलीढाकपित्थस्यसव्योपक्षौद्रशर्करम् ॥

कट्फलमधुयुक्तंवासुच्यतेजठरामयात् ॥

अर्थ—केयका गूदा, सोंठ, मिरच, पीपल और शहत, मिश्री, ये एकत्र करके
भक्षण करे अथवा कापफलके चूर्णको शहतके साथ चाटे ता पेटका रोग नष्ट होय

आर्द्रकुटजावलेह ।

कुटजत्वक्तुलामाद्रीद्रोणनीरेविपाचयेत् ॥ पादशेषंशृतंनीत्वा
चूर्णान्येतानिदापयेत् ॥ लज्जालुधातकीविल्वंपाठामोचरस
स्तथा ॥ मुस्तंप्रतिविपाचैवप्रत्येकंस्यात्पलंपलम् ॥ ततस्तुवि
पचेद्भूयोयावद्दूर्वाप्रलेपनम् ॥ जलेनछागदुग्धेनपीतोमंडेनवाज
येत् ॥ सर्वातिसारान्वोरांस्तुनानावर्णान्सवेदनान् ॥ असृ
ग्दंसमस्तंचसर्वांशांसिप्रवाहिकाम् ॥

अर्थ—कुडाकी गोलीछाल १ तुला ले जब कुट करके उसमें १ द्रोण पानी

डालके काढा करे जब चतुर्थांश शेष रहे तब उतारके कपडेमें छान लेवे फिर लज्जालू, धायके फूल, बेलगिरी, पाठ, मोचरस, नागरमोथा और अतीस ये सात औषध एक २ पल प्रमाण लेके चूर्ण कर उस काढेमें डाल देवे फिर इस काढेको कडाहीमें चढायके फिर औटावे जब गाढा होकर कलछीसे लिपटने लगे तब उतार लेवे. इस अवलेहको पानीके साथ अथवा बकरीके दूधके साथ अथवा मंडके साथ पीवे तो पीडा युक्त तथा नीलपीतादिक अनेक प्रकारके वर्णवाला अतिसार, तथा घोररूप संपूर्ण अतिसार दूर होवे । तथा स्त्रियोंके संपूर्ण प्रकारके रक्तप्रदर तथा संपूर्ण बवासीर और प्रवाहिका जो अतिसारका भेद है ये सब रोग दूर होवे ॥

दाडिमपुटपाक ।

पुटपाकेनविपचेत्सपक्वंदाडिमीफलम् ॥

तद्रसोमधुसंयुक्तःसर्वातीसारनाशनः ॥

अर्थ—पके हुए अनारको पूर्वोक्त पुटपाककी विधिसे पुटपाक करके फिर उसके पत्ते और मिट्टी आदिको दूर करके अनारको निकाल लेवे फिर उसको दाबकर उसका रस निकाल लेवे इसको पीवे तो संपूर्ण अतिसार दूर होवे ॥

जातीफलादिपुटपाक ।

जातीफलंसर्पफेनंतंकंगंधकजीरके ॥ एतानिसमभागानिवा

लदाडिमबीजकैः ॥ पेपयेत्तेनकल्केनपूरयेद्दाडिमीफलम् ॥

अंगारेतच्चगोधूमचूर्णेनालेपितंपचेत् ॥ अतीसारस्तंभनस्या

त्परं दीपनपाचनम् ॥

अर्थ—जायफल, अफीम, सुहागा, गंधक और जीरा ये समान भाग लेवे और इनकी बराबर तज्जाअनारदाना लेवे सबको एकत्र खरल करे फिर इस घुटी हुई पिट्टीको अनारके भीतर भरके बाहर चून लगायके अंगारोंपर भूने तो यह अतिसारको स्तंभन करे दीपन और पाचन होवे रोगीका बलाबल विचारके २ रत्ती या चार रत्ती देवे ॥

मोचरसादिपुटपाक ।

समोचसारंसहनागफेनंसतीनसस्यंपुटपाकयोगात् ॥

निहंतिमालूरफलंनराणांसर्वातिसारेह्यनुभूतमेतत् ॥

अर्थ—मोचरस, अफीम, जायफल और वेलगिरी, इन सबको एकत्र कूट पीस विजोरेमें (नींबूका भेद है) भरके पुटपाककी विधिसे पुटपाक करे यह सर्वातिसार नाशक अजमाया हुआ प्रयोग है ॥

लघ्वीमाईचूर्ण ।

लघ्वीमाईमोचरसमाप्रवीजाश्मभेदकम् ॥ धातकीपुष्पकंचै
वतथातिविपकंस्मृतम् ॥ १ ॥ सर्वाणिज्ञानमानानिपृथ
ग्राह्याणिपंडितैः ॥ अहिफेनंद्विशाणस्याद्वैरिकंचद्विशाण
कम् ॥ २ ॥ सूक्ष्मचूर्णविधायथमापमानंतुदापयेत् ॥ तंदुलानांज
लैवह्यामशूलातिसारके ॥ ३ ॥ रक्तजेपिविशोपेणदेयंसर्वाति
सारके ॥ प्रेमाख्यपंडितेनैवह्यनुभूतंपुनःपुनः ॥ ४ ॥

अर्थ—छोटीमाई, मोचरस, आमके भीतरकी गुठली, पाखानभेद, धायके फूल, अतीस, ये प्रत्येक चार २ मासे ले, और अफीम ८ मासे, गेरू ८ मासे सबका बारीक चूर्ण करे फिर इसमेंसे १ मासे चावलोंके धोवनके साथ देवे तो आमका शूल, और आमातिसार, रक्तातिसार एवं संपूर्ण अतिसारोंमें देवे यह प्रेम पंडितका वारंवार अनुभव करा हुआ चूर्ण है ।

दूसरीदाडिमीवटी ।

विश्वाचशतपुष्पाचयपृचाहं चाहिफेनकम् ॥ खजूरस्यफलंवि
ल्वंतथामोचरसंस्मृतम् ॥ १ ॥ समभागानिसर्वाणिसूक्ष्मचूर्णा
निकारयेत् ॥ अपक्वदाडिमीबीजंसर्वतुल्यंप्रदापयेत् ॥ २ ॥
अपक्वदाडिमीबीजकोशोक्षिष्वाखिलंहितत् ॥ पुटपाकविधा
नेनपक्त्वाकोशसमन्वितम् ॥ ३ ॥ पिष्ट्वाकल्कंविधायथगुटि
काः संप्रकल्पयेत् ॥ कर्कधूवत्प्रमाणेनतत्रेणसहदापये
त् ॥ ४ ॥ पक्वातीसारश्मनीदाडिमीवटिकास्मृता ॥

अर्थ—सोंठ, सौफ, मुलहटी, अफीम, खजूरकेफल, अर्थात् छुहार, कच्चावेल फल और मोचरस ये सब बराबर ले सबका बारीक चूर्ण करे फिर इसमें सबकी बराबर कच्चे अनारके बीज मिलावे सबको कूट पीस कच्चे अनारके फल खाली करके भर देवे ऊपर उसके कपडमिट्टी देकर पुटपाककी विधिसे परिपक करे जब पुटपाक होजावे तब आगसे निकालके उस अनारकी कपडमिट्टी दूर कर-

के खरलमें डालके उस अनारको पीस कल्ककर वेरके बराबर गोली बनावे एक गोलीको छाँछके साथ देवे यह पक्कातिसारके शमनकरनेवाली दाडिमी गुटिका कही है ।

शतपुष्पादिचूर्ण ।

शतपुष्पाचविश्वचश्वेताजाजीहरीतकी ॥ खाससस्यफलंचै
वपलार्थतुपृथग्पृथक् ॥ १ ॥ सूक्ष्मचूर्णविधायथघृतभृष्टं
कारयेत् ॥ सर्वाद्भ्रातुसितादेयापलाद्दधिंसंयुतम् ॥२॥ प्रातः
कालेभक्षयेत्सर्वातीसारनाशनम् ॥ पथ्यंकुर्याद्विशेषेणशा
लिभक्तंसतक्रकम् ॥ ३ ॥

अर्थ—सौंफ, सोंठ, सपेदजारा, हरड, पोस्तके डोडा, ये प्रत्येक दो दो तोले लेवे सबका बारीक चूर्ण करके धीमें भूनलेवे और सब चूर्णसे आधी सपेद कच्ची खांड मिलावे इस चूर्णको २ तोले लेके दहीके साथ प्रातःकाल खाय तो सर्वप्रकारके अतीसार दूर होंगे तथा इसके ऊपर दहीभातका पथ्य देना चाहिये ।

लीलावतीवटी ।

मस्तंगीतीक्ष्णलोध्रोदककुटजमदाश्वाभ्रमजामधूकं साभापु
ष्पसजातीफलमथकलिकामुद्रितासारजाता ॥ वांसीपित्सा
थमाजूफलमपिलघुरंवटिकाज्ञानमेपा प्रत्येकंखादिरंविस्त्व
थपिचुयुगलंसोमकावीजमजः ॥ १ ॥ एकीकृत्वाप्रमर्द्यस
कलमिदमथोयामयुग्मंनवीनैर्नारैः पोस्तप्रभूतैर्लघुवदरमिता
संविधेयावटीसा ॥ सर्वातीसारहंत्रीवलजट्टरशिखीप्रोद्यदोजःप्र
कर्त्रीतक्रयामाकलाजाकरकदधिहितंपटिकाकोद्रवाश्च ॥२॥

अर्थ—रूमीमस्तगी, राई, कालीमिरच, लोध, नेत्रवाला, कुडाकीछाल, आम की गुठली, महुआ, साभपुष्प जायफल, सेमरकी सुँहसुदीकली, वंशलोचन, माजूफल, छोटीमाई, ये प्रत्येक चार २ मासे लेवे खैरसार तीनतोले कोहफलके बीज इन सबको एकत्र कर पीस ले फिर नएपोस्तके डोकानके जलसे दो प्रहर खरल करके छोटे वेरके समान गोली बनावे यह संपूर्ण अतिसारको नष्ट करे बल बढ़ावे उदरकी जठराधिकी प्रबल करे इसके ऊपर पथ्यमें छाँछसामखिया खाए अनार दही सांठी चावल और कौदो ये देवे ॥

नृसिंहपोटलीरस ।

रसश्चगंधपापाणःप्रत्येकःकर्पमात्रकः ॥ शुष्णचूर्णद्वयोःसम्य
 कुर्याद्वैद्येननिश्चितम् । १ । तच्चूर्णपीतवर्णाभाकपर्दाभ्यंतरकृ
 तम् ॥ शरावपुटकेन्यस्यलित्वासंभृतगोमयैः ॥ सुदुह्याग्रौपचे
 तावद्यावद्गच्छतिभस्मताम् ॥ समुद्धृत्याश्मनासर्वचूर्णितंसकप
 र्दकम् ॥ गव्येनसर्पिपानित्यंभक्षयेद्रक्तिकाद्वयम् ॥ ज्वराति
 सारकंसर्वहन्याचूर्णचदुर्जयम् ॥ ४ ॥ अतीसारंसमग्रंचग्रहणीस
 र्वजांतथा ॥ चिरज्वरंचमंदाग्निक्षीणज्वरहरंचतत् ॥ ५ ॥ रस
 एपनृसिंहस्यमतापोटलिकाहिता ॥ हितासर्वज्वरीणांतुसर्वा
 तीसारिणांशुभा ॥

अर्थ-पारा, गंधक, प्रत्येक एक २ तोले, दोनोंका बारीक चूर्ण करे इस चूर्ण
 को पीली कौडियोंके भीतर भरे, फिर उन कौडियोंका शरावसंपुटमें रस कप-
 डमिट्टी करके आरनेउपलोंमें रखके फूंकदेवे, जब भस्म होजावे तबशरावमेंसे उन
 कौडियोंको निकाल खरलमें डालके पीस डाले, इस भस्ममेंसे २ रत्ती ले गौके
 घासे नित्य भक्षण करे तो यह ज्वरातिसार दुर्जयको भी शीघ्र दूर करे तथा सर्व
 प्रकारके अतिसार, सर्वदोषोंकी संग्रहणी, प्राचीनज्वर, मंदाग्नि, क्षीणज्वर, इन सर्व
 रोगोंको यह नृसिंहपोटलीरस दूर करे है । यह सर्वप्रकारके ज्वरोंमें तथा सर्वप्र-
 कारके अतिसारोंमें हितकारी है ।

गंगाधररस ।

मुस्तामोचरसंलोभ्रंकुटजत्वक्तथैवच ॥ विल्वास्थिधातकी
 पुष्पमहिफेनंचगंधकम् ॥ १ ॥ शुद्धंहिपारदंचैवसर्वमेकत्रमर्दये
 त् ॥ रसोगंगाधरोनाम्नामापमानंप्रयोजयेत् ॥ २ ॥ वल्लमात्रमि
 दंखादेद्दुडतक्रसमन्वितम् ॥ सर्वातिसारग्रहणीप्रशमंयातिवेग
 तः ॥ ३ ॥ पथ्यंतक्रौदनंदेयंसात्म्यंज्ञात्वाभिपग्वरः ॥

अर्थ-नागरमोथा, मोचरस, लोध, कूडाकीछाल, बेलगिरी, धायकेफूल, अफी
 म, गंधक और शुद्धपारा प्रत्येक समान भाग लेकर खरल करे तो यह गंगाधर-
 रस सिद्ध होय इसमेंसे १ महिनेपर्यंत ३ रत्ती गुड और छौंछके साथ खाय

तो सर्वप्रकारके अतिसार दूर होवे । और संग्रहणी दूर हो इसके ऊपर छाँछ भात खानेको वैद्य देवे परंतु उस रोगीका सात्म्यभी जानना जरूर है अर्थात् इस रोगीको क्या २ वस्तु पचती है ।

अतिसारमेंलवणनिपेध ।

सर्वेषुमलभेदेपुलवणंनप्रयोजयेत् ॥

तद्धितैक्षण्यात्सरत्वाच्चदोषक्षोभायकल्पते ॥

अर्थ—संपूर्ण मलभेदोंमें अर्थात् दस्तकी विमारीमें निमक खानेको नहींदिना चाहिये, क्योंकि निमक तीक्ष्ण है और दस्तावर है इसवास्ते इसके सेवन करनेसे दोष क्षुभित होते हैं ॥

प्रवाहिकासंप्राप्ति ।

वायुःप्रवृद्धोनिचितंबलासंनुदत्यधस्तादहिताशनस्य ॥

प्रवाहतोल्पंवहुशोमलाक्तंप्रवाहिकांतांप्रवदंतितज्ज्ञाः ॥

अर्थ—अपथ्य सेवन करनेवाले पुरुषके कुपित हुई जो वात से संचित हुए कफको मलसंयुक्त करके वारंवार गुदाके मार्गसे बाहर निकाले और मरोटाके साथ थोड़ा थोड़ा मल निकाले इसको प्रवाहिका कहते हैं। प्रवाहिका और अतिसार इन दोनोंका एकसा धर्म है इसीसे अतिसाररोगमें प्रवाहिका कही है । परंतु अतिसारमें अनेक प्रकारके द्रवधातु निकले हैं और प्रवाहिकामें केवलकफ निकले है । इतना भेद है इसमें (निचितंबलासं) ये जो पद कहा अर्थात् कफसे मिलकर सो ये केवल कफका तो उपलक्षण है अर्थात् कफके कहनेसे पित्त और रुधिरभी जानना । भोजने इस रोगका नाम विवर्सी कहा है, पराशर-ऋषिने इसको अन्तरग्रंथी कहा है, हारीतऋषिने निश्चारक कहा है, कोई आचार्य निर्वाहिका कहते हैं ॥

प्रवाहिकावातकृतासशूलापित्तात्सदाहासकफाकफाच्च ॥

सशोणिताशोणितसंभवाचताःस्नेहरूक्षप्रभवामतास्तु ॥

अर्थ—वातकी प्रवाहिकामें शूल होताहै, पित्तकी दाहयुक्त, कफकी कफयुक्त और रक्तसे रक्तयुक्त होतीहै, यह चिकने और रुखे पदार्थ भोजन करनेसे होय है अर्थात् चिकने पदार्थसे कफकी, रुखे पदार्थसे वातकी, तुशब्दकरके तीक्ष्ण और खट्टे पदार्थसे क्रमसे पित्तकी और रुधिरकी होतीहै ऐसे जानना ॥

प्रवाहिकालक्षणादि ।

तासामतीसारवदादिशेच्चलिंगंक्रमंचामविपक्वतांच ॥

अर्थ—इस प्रवाहिकाके लक्षण क्रम आम और पक्कावस्था ये अतिसार निदानके सदृश जानना ॥

अतिसारनिवृत्तिलक्षण ।

यस्योच्चारंविनामूत्रंसम्यग्वायुश्चगच्छति ॥

दीप्ताग्नेर्लघुकोष्ठस्यस्थितस्तस्योदरामयः ॥

अर्थ—जिस मनुष्यको मूत्र करतेसमय दस्त न होय और अपानवायु जिसकी शुद्ध निकले और अग्नि देदीप्यमान होवे, कोठा हल्का होवे, उस मनुष्यका अतिसार गया जानिये ॥

वालविल्वकल्क ।

कल्कःस्याद्वालविल्वानांतिलकल्कश्चतत्समः ॥

दध्नःसारोम्लस्नेहाढ्योहन्याद्वैतत्प्रवाहिकाम् ॥

अर्थ—कौमल बेलफलोंको कूटकर कल्क तथा कल्कके समान तिलकल्क दहीकी मलाई तथा स्नेहयुक्त खटाई ये सब एकत्र करके भक्षण करे तो प्रवाहिका का नाश करे ॥

मुद्गयूपादि ।

मुद्गयूपरसंतक्रंधान्यजीरकसंयुतम् ॥ तत्पद्गुणमितिप्रोक्तंसैध-

वेनसमन्वितम् ॥ अग्निसंदीपनंप्रोक्तंग्रहणीदोपनाशनम् ॥

अरोचकंज्वरंचैवश्रेष्ठमेतत्प्रवाहिके ॥

अर्थ—मूंगकायूप, रस, छाँछ, धनिया, जीरा और सैधानिमक, इनके यूप, को पद्गुण यूप कहते हैं यह अग्नि दीपन करता है, संग्रहणी, अरुचि ज्वर और प्रवाहिका, इनपर उत्तम है ॥

वालविल्वादियोग ।

वालविल्वंगुडतैलंपीतंवामरिचोद्भवम् ॥

त्र्यहात्प्रवाहिकांहन्याच्चिरकालानुबंधिनीम् ॥

अर्थ—कच्चाबेलफल और कालीमिरच, इसका फाटा गुड और तेल डालके सेवन करे तो तीन दिनमें बहुत दिनकीभी प्रवाहिकाका नाश करे ॥

विल्वपेश्यादिकाढा ।

विल्वपेशीगुडलोध्रतैलमरिचसंयुतम् ॥

लिह्यात्प्रवाहिकाक्रांतःसत्वरंसुखमाप्नुयात् ॥

अर्थ—बेलगिरी, गुड, लोध, तेल और कालीमिरिच, ये पदार्थ समान भाग ले चूर्ण करके चाटे तो प्रवाहिकावाले रोगीको सुख होय ॥

धातक्यादियोग ।

धातकीवदरीपत्रंकापित्थरसमाक्षिकम् ॥

सलोध्रमेकतोदध्रापिवेन्निर्वाहिकादितः ॥

अर्थ—धायकेफूल, बेरकीपत्ती, अथवा कैयका रस, शहत और लोध, इनको दहीमें मिलायके प्रवाहिका रोगवाले प्राणीको पीवावे तो प्रवाहिकाका दुःख दूर हो ॥

मुस्तावत्सकादियोग ।

मुस्तावत्सकवीजंमोचरसोविल्वधातकीलोध्रम् ॥

भृगुमथितसंप्रयुक्तंगंगामपिप्रवाहिकारुंध्यात् ॥

अर्थ—नागरमोथा, इन्द्रजव, मोचरस, बेलगिरी, धायके फूल और लोध ये पदार्थ एकत्र करके इनमें दही डाल रईसे थोडा मथकर उस दहीको पीवे तो गंगाके समान प्रवाहवाले प्रवाहिकाको नष्ट करे ॥

तैलादियोग ।

तैलसर्पिर्दधिक्षौद्रंविपाविश्वंसफाणितम् ॥

सर्वमालोडचपातव्यंसद्योनिर्वाहिकारहरेत् ॥

अर्थ—तेल, घी, दही, शहत, अतीस, सोंठ और गुडकी राव, ये सब एकत्र कर पीवे तो प्रवाहिकाको नष्ट करे ॥

त्र्यूपणादिघृत ।

त्र्यूपणात्रिफलाचैवचित्रकोगजपिप्पली ॥ विल्वकर्कटिका

हिस्त्राविडंगसनिदिग्धिकम् ॥ घृतप्रस्थंपचदेभिर्गवांमूत्रेचतु

गुणे ॥ तत्प्रयोगापिवेत्कोलंहन्यात्तेनप्रवाहिकाम् ॥

अर्थ—सोंठ, मिरिच, पीपल, हरड, बहेडा, आंवला, चीतेकोछाल, गजपीपल, बेलगिरी, काकडासांगी, जटामांसी, वायाविडंग और कंटरी, इनका काठा एक

भाग तथा गोमूत्र चार भाग, गौका घी६४ तोले डाले मधुरी अमिपर रखके घीको सिद्ध करे फिर इसमेंसे छः मासे सेवन करे तो प्रवाहिका नष्ट हावे ॥

मुस्तादिगुटी ।

मुस्तंमोचरसंलोघ्रंधातुकीविल्वकौटजम् ॥ अहिफेनरसगंधंसू
क्ष्मचूर्णानिकारयेत् ॥ वल्लमात्रमिदंखादेद्गुडतक्रसमन्वित
म् ॥ अतिसारेप्रवाहेचग्रहण्यांचविशेषतः ॥

अर्थ—नागरमोथा, मोचरस, लोध, धायक्फूल, बेलगिरी, इन्द्रजौ, अफीम पारा और गंधक ये एकत्र कर चूर्ण करे इसमेंसे ३ रत्तीकी गोली गुड तथा छाँड़, इनसे अतिसार और प्रवाहिका इनपर विशेष करके देवे, तथा संग्रहणी परभी देवे तो उक्तरोग निश्चय दूर होवे ॥

पथ्य ।

वमनंलंघननिद्रापुराणाःशालिपट्टिकाः ॥ विलेपीलाजमंड-
श्वमसूरस्तुवरीरसः ॥ शशिवैलावहरिणकर्पिजलभवारसाः ॥
सर्वक्षुद्रझपाशृंगीडिडिशौमधुरालिका ॥ तैलच्छागघृतक्षीरं
दधितक्रंगवामपि ॥ दधिजंवापयोजंवानवनीतंगवांजयेत् ॥
नवंरंभाफलंपुष्पंक्षौद्रंजंबुफलानिच ॥ भव्यंसहार्द्रकंविश्वंशा
लूकंचविकंकतम् ॥ कपित्थंवदरंविल्वंतिदुकंदाडिमद्वयम् ॥
तालंवटफलंवापिचांगेरीविजयाकणा ॥ जातीफलमफेनंचजी-
रकंगिरिमल्लिका ॥ कुस्तुंबुरुमहानिंबकपायःसकलोरसः ॥
अन्नपानानिसर्वाणिदीपनानिलघूनिच ॥ नाभेद्र्चगुलतोध-
स्ताच्छस्त्रेणार्धेन्दुवद्देहेत् ॥ तथावंशास्थिमूलेपिपथ्यवर्गो-
तिसारिणाम् ॥

अर्थ—उलटीकरना, लंघनकरना, निद्रा, पुराने सांठी चावल और शालिचावल स्त्रीलौका मंड, मसूर, अरहर इनका रस, तथा ससा, लवा, हिरण, संपद-तीतर इनका मांस, सर्वप्रकारकी छोटीमल्लो, तथा शृंगिजातिकी मल्लो देहसका फल, शहत, राल, तेल, बकरीका और गौका घी, दूध, दही, छाँड़, तथा गौके दहीकी एवं दूधकी लोनी, नवीनकेलाकी गहर, मद्य, जामुन, फरोदा, अदरस, सोठ, कमलकद, विकंकत, पैथ, बैर, बेलकाफल, तेंदू, खट्टा अनार

और मोठा अनार, तालके फल, बडके फल, चूका, भांग, पीपल, जायफल, अफीम, जीरा, कुडा और धनिया, बकायन, संपूर्ण कसेले पदार्थ तथा दीपन, हलके ऐसे अन्न और पान तथा नाभिके नीचे और ऊपर दो दो अंगुलपर अर्धचंद्राकार तथा वंशास्थिके नीचे अर्धचंद्राकार लोहेकी सलाईसे दाग देना यह अतिसार रोगीको पथ्यवर्ग कहा है ॥

जल ।

दशांशंपोडशांशंवाशतांशंवाशृतंजलम् ॥ सुशीतंपाचनंग्रा
हिदीपनंदोपनाशनम् ॥ यथायथाशृतंतोयंज्वरातीसारिणो
भवेत् ॥ दीपनंपाचनंग्राहिआरोग्यंचतथातथा ॥

अर्थ—दशांश, पोडशांश, अथवा शतांश, औटायके शीतल करा हुआ जल ग्राहक, दीपन और सर्व दोपनाशक होता है, एवं जैसे२ पानीको अधिक औटाय जावे उसी २ प्रकार अधिक गुणकारी होता है तथा आरोग्य देनेवाला है ॥

अतीसारपरअपथ्य ।

स्नानावगाहमभ्यंगगुरुस्निग्धान्नभोजनम् ॥ व्यायाममग्निसंता-
पमत्तिसारीविवर्जयेत् ॥ नवात्रोष्णंगुरुस्निग्धंभोजनंनहितंन-
वम् ॥ व्यायामंमैथुनंचितामत्तिसारीविवर्जयेत् ॥ स्वेदोजनंरु-
धिरमोक्षणमंबुपानंस्नानंव्यवायमपिजागरधूमनस्यम् ॥ अभ्यं
जनंपल्लवेगविधारणंचरूक्षाण्यसात्म्यशयनंचविरुद्धमन्नम् ॥
कूष्मांडतुंविदरंगुरुचात्रपानंतांबूलमिक्षुगुडमद्यसुषोदिकां
च ॥ द्राक्षाम्लवेतसफलंलशुनंचधात्रीदुष्टांबुमस्तुगृहवारि
चनारिकेलम् ॥ संस्नेहनंमृगमदासिलपत्रशाकाक्षारंरसानिस
कलानिपुनर्नवाच ॥ उर्वारुकंलवणमम्लमविप्रकोपंवज्यो-
तिसारगदपीडितमानवेषु ॥

अर्थ—स्नान, अवगाहन, टवटना, भारी और चिकनापेसा भोजन, दंड फसरत, अत्यंत अम्लिका संताप, नवीन अन्न, टप्पण, भारी, म्निग्ध, अपथ्य पदार्थ, व्यायाम, मैथुन करना, चिता, पसीने फाटना, अंजन, रुधिर निकालना, जल पीना, स्नान, स्त्रीगमन, जागरण, धूमपान, नस्य, अभ्यंजन, मांस, मलमृत्रादि वेगका धारण, तथा रुक्ष और असात्म्य ऐसा भोजन, विरुद्ध भोजन, गेहूं टढद,

वयुआ, मकोय, चौरा, शहत, सहंजना, आंव, पूडी, पूरन पोली, पेठा, सेप-
दतूवा, बेर, भारी अन्न अथवा भारी पदार्थका भोजन और भारी जलका
पीना, बीडा, ईख, गुड, मद्य, पोईका साग, दाख, अमलवेत, लहसन, आंवले,
दूषितजल, छौंल, घरका पानी, नरियल, स्नेहन, कस्तूरी, सर्वप्रकारके पत्तोंका
साग, खार, संशुर्ण रस, मूषपदार्थ, पुनर्नवा, (सांठ,) कांकडी, खीरा,
निमक, खट्टेपदार्थ और क्रोधका करना यह अतिसार रोगवालेको वर्जित
करना चाहिये ॥

ज्योतिःशास्त्राभिप्रायेण अतिसाररोगस्य कारणमाह

जलराशौयदालग्रजलक्षैलग्ननायकः ॥

गुदेशेसूर्यसंयुक्तेसभवेदतिसारवान् ॥ १ ॥

अर्थ—यदि जलराशि (कुम्भ मीन आदि) लग्नमें होय और लग्नका पति
जलराशिमें होवे, एवं गुदास्थानका पति सूर्य करके युक्त होय तो वो प्राणी
अतिसारवाला होवे ॥

एवंक्षितिजसंयोगेरक्तातीसारकारकः ॥

अर्थ—यदि पूर्वोक्त ग्रह मंगलके साथ बैठे होय तो उस प्राणीके रक्तातिसार
अर्थात् रुधिरका दस्त होनेवाला होवे ॥

मृत्युयोग ।

मारकेणयुतेविद्धेऽतीसारेणमृतिर्वदेत् ॥ २ ॥

अर्थ—यदि पूर्वोक्त ग्रह मारके शकरके युक्त अथवा विद्धे होवे तो उस प्राणीकी
अतिसाररोग करके मृत्यु कहनी चाहिये ॥

लग्नेशेकफराशिस्थेकफग्रहसमन्विते ॥

पण्डेशेजलराशिस्थेछर्द्यतीसारकारकः ॥ ३ ॥

अर्थ—लग्नेश कफराशिस्थ होकर कफकर्त्ताग्रहोंकरके युक्त होवे तथा पण्डेश
(रोगश) ग्रह जलराशिमें स्थित होय तो वमन और अतिसारकारक जानना ॥

मृतीशेस्वल्पराशिस्थेजलराशिगतेथवा ॥

लग्नेशनतथायुक्तेऽतीसारेणमृतिर्वदेत् ॥ ४ ॥

अर्थ—यदि अष्टमेश उन राशिमें हों अथवा जलराशिमें होय और वह लग्ने-
शकरके युक्त होय तो उसका अतिसाररोग करके मृत्यु जाननी ॥

लग्नेशरिपुभावेशशशुद्धपृथाविशेषतः॥

लग्नेमंदयुतेदृष्टेज्वरातीसारकारकः ॥६॥

अर्थ—लग्नेश और रिपुभावेश आपसमें शशु दृष्टि करके देखते हो और लग्न शनि करके युक्त हो अथवा दृष्ट होय तो वो ज्वरातिसारकारक जानना ॥

इति बृहन्निघण्टुरत्नाकरे अतिसारप्रवाहिकाचिकित्सासमाप्ता ।

संग्रहणी ।

ज्योतिःशास्त्राभिप्रायसेसंग्रहणीरोगकानिदान

तहां सप्तधातुओंकेस्वामी

स्नायवस्थयसृक्त्वगथशुक्रवसाचमज्जा-

मंदार्कचंद्रबुधशुक्रसुरेज्यभौमाः ॥ १ ॥

अर्थ—स्नायु, हड्डी, रुधिर, त्वचा, शुक्र, वसा, मज्जा, इन सात धातुओंके स्वामी क्रमसे शनि, सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, बृहस्पती और भौम कहिये मंगलहै॥

अथग्रहणीकर्त्तृयोग ।

शनिशुक्रौसप्तमस्थौनिर्वलौलग्नपुत्रपौ ॥

विद्वंधग्रहणीचित्तवैकल्याद्यतिकष्टदौ ॥ २ ॥

अर्थ—शनि और शुक्र ये दोनोंग्रह सप्तममें स्थितहों तथा लग्नेश और पंचमेश निर्वल होवें तो विद्वंध (मलका न उतरना) संग्रहणी, चित्तमें बकली और अतिकष्ट होय ॥

गदेशेगदराशिस्थेगदभावनिरीक्षिते ॥

क्षीणचंद्रोभवेत्तस्यग्रहणीदुःखकारिणी ॥ ३ ॥

अर्थ—रोगेश (छठेघरका स्वामी) छठेघरमें अर्थात् रोगघरमें बैठे होवे, अथवा अन्य स्थानमें बैठके रोगघरको देखता होय और चंद्रमा जिसका क्षीण होय तो उसके दुःखकर्ता संग्रहणी रोगहोय ॥

लग्नस्थेक्षीणशीतांशुशनिभौमतमैर्युते ॥

ग्रहणीरोगवान्जातअथवाकटिशूलवान् ॥ ४ ॥

अर्थ-क्षीणचंद्रमा जन्मलग्नमें बैठा होय और शनि भौम तथा राहूकरके युक्त होय तो उस प्राणीको संग्रहणीका रोगहोय अथवा कमरमें पीडा होय ॥

रोगाधीशोमृत्युभावेरोगसञ्ज्ञेश्वरस्तनौ ॥

ग्रहणीगदतोमृत्युर्जायतेनात्रसंशयः ॥ ५ ॥

अर्थ-रोगका मालिक अष्टमघरमें बैठाहोय और छठेघरका मालिक लग्नमें बैठा होय तो उस मनुष्यकी संग्रहणी रोगसे मृत्यु होय इसमें संदेह नहीं है ॥

एवंरविसमायोगेग्रहणीपित्तसंभवा

गुरुणाकफकोपेनजायतेनात्रसंशयः ॥ ६ ॥

अर्थ-इसी प्रकारके योगमें यदि सूर्यका समागम होय तो पित्तजन्य संग्रहणीका रोग होय और बृहस्पतिका संयोग होवे तो कफजन्य संग्रहणी होय इसमें संदेह नहीं है ॥

रोगसञ्ज्ञेश्वरोमंदभूपुत्राभ्यांसमन्वितः ॥

वातामयोत्थाग्रहणीजायतेनात्रसंशयः ॥ ७ ॥

अर्थ-रोगघरका मालिक शनैश्वर और मंगलकरके युक्तहोवे तो उस प्राणीको वादीकी संग्रहणी होती है इसमें संदेह नहीं है ॥

ग्रहणीरोगकाकर्मविपाक ।

साध्वीभार्याचयोमर्त्यःपरित्यजतिकामतः॥

ग्रहणीरोगसंयुक्तःसदाभवतिमानवः ॥ ८ ॥

अर्थ-जो प्राणी विनाकारण अपनी सुशीलास्त्रीका परित्याग करताहै वह प्राणी सदैव संग्रहणी रोगकरके पीडित होताहै ॥

अनन्यगतिकांभर्यामदुष्टांकारणंविना ॥

परित्यजति यःसोऽपिग्रहणीरोगवान्भवेत् ॥ ९ ॥

अर्थ-जो दुष्टपुरुष अनन्यगतिक (जिसको दूसरेका आसरा न हो) और पवित्र ऐसी सुशीला अपनी स्त्रीको कारणके विना त्याग देवे इस अपराधसे इस प्राणीको संग्रहणी रोग होताहै ॥

संग्रहणीरोगकीशांति ।

शिवसंकल्पसूक्तस्यजपःस्यात्तत्रशांतये ॥ अष्टोत्तरसहस्रं हि
हिरण्यंचतथामधु ॥ दद्याद्द्वितानुसारेणसौरमंत्रजपस्तथा ॥
धेनुंसलक्षणांदद्याद्ब्रह्माभरणसंयुताम् ॥ पयस्विनींगुणोपेतां ब्रा
ह्मणायकुटुंबिने ॥ वत्साभरणसंयुक्तां वस्त्रेणाभरणेन च ॥

अर्थ—उस पापकी शांति करनेको शिवसंकल्प सूक्तको १००८ एकहजार
आठ पाठ करावे और ब्राह्मणको सुवर्ण और शहत अपने वित्तानुसार देवे,
तथा सौर मंत्रका जप करावे, तथा सुन्दर लक्षण युक्त और वस्त्राभरण करके
युक्त ऐसी गौका दान कुटुंबवाले विद्वान् ब्राह्मणको देवे तथा उस गौके बछड़ेको
भी वस्त्र आभरणोंसे भूषित करना चाहिये ॥

पद्मपुराणैगौतमः ।

धेनुंपयस्विनींदद्याद्दंटाभरणभूषिताम् ॥ हेमशृंगीरौप्यसुरां
वासोभिर्वेष्टितानरः ॥ नवधान्यैःसमायुक्तामेकैकंद्रोणपंचक
म् ॥ सहिरण्यांतुगांदद्याद्ब्राह्मणायकुटुंबिने ॥ अलोलुपायशां
तायधर्मज्ञायविशेषतः ॥ १ ॥

अर्थ—पद्मपुराणमें गौतम ऋषिका वाक्यहै कि संग्रहणी रोगवाला प्राणी घंटा
और भूषणोंसे भूषित सुवर्णके सांग चांदीके तुर और वस्त्रोंसे आच्छादित और
दूधके देनेवाली गौका दानकरे तथा नवधान्य पांच = द्रोण उसके साथ तथा
सुवर्ण सहित कुटुंबी ब्राह्मण जो लोलुप न हो तथा शांतस्वभाववाला और
धर्मज्ञ ऐसको दान देवे ॥

होमंचपूर्ववत्कुर्यात्समिदाज्यचरूत्कटैः ॥ तस्मैहुतवतेदद्यात्पू
जितायांगुलीयकैः ॥ गांकृष्णांकृष्णरूपायमंत्रेणानेनरोगवान् ॥

अर्थ—संग्रहणीरोगवाला ढाकरी समिधा, घृत, चरू इनसे पूर्वोक्तक्रमसे हव-
नकरे, फिर हवनकरानेवाले ब्राह्मणका पूजनकर उसको सुवर्णकी अंगूठी और
काले रंगकी गौ, कृष्णस्वरूपी ब्राह्मणको नीचे लिखे मंत्रको पढ़कर देवे ॥

मंत्र ।

देवकीपुत्रचाणूरकंसारिएविनाशन ॥

• नाशयग्रहणांकृष्णगोपीजनमनोहर ॥

अर्थ—हे देवकीपुत्र ! हे कंसअरिष्टासुरके नाशक ! हे कृष्ण ! हे गोपीजनम-
नोहर ! मेरे इस संग्रहणी रोगको नष्टकरो ॥

मंत्रेणानेनदानेनग्रहणीशांतिमृच्छति ॥

तस्मादेतच्चकर्त्तव्यग्रहणीरोगिणांसदा ॥

अर्थ—इस मंत्रकरके करे हुए दानसे संग्रहणीरोग शांति होताहै इसीवास्ते
यह गोदान संग्रहणी रोगवालेको अवश्य कर्त्तव्य है ॥

ग्रहण्याःस्वरूपमाह ।

ग्रहण्यग्निधराकला ।

अर्थ—जठराग्निके धारण करनेवाली कलाको ग्रहणी इसप्रकार कहते हैं ॥

यदाहचरकः ।

अग्न्यधिष्ठानमन्नस्यग्रहणाद्ग्रहणीमता ॥

अपक्वंधारयत्यन्नंपक्वंत्यजतिचाप्यधः ॥

अर्थ—जैसे चरकमें लिखाहै कि अन्नका अग्नि अधिष्ठान है और उस अन्नके
ग्रहण करनेसे उसको ग्रहणी कही है, यह ग्रहणी अपक्व (कच्चे) अन्नको धारण
करती है और पके अन्नको नीचे गेर देतीहै ॥

ग्रहण्यावलमग्निर्हिसचापिग्रहणीश्रितः ॥ तस्मादग्नौप्रदुष्टे-

तुग्रहण्यपिविदुष्यति ॥ तस्मात्कार्यः परोहारोर्द्धतीसारेविर-

क्तवत् ॥ विरक्तेनेव विरक्तवत्

अर्थ—और भी लिखाहै ग्रहणीका बल अग्नि है वह ग्रहणीस्थानके आश्रयीभूत
है, इसीकारण अग्निके दूषित होनेसे ग्रहणीभी दूषित होतीहै इसीवास्ते अति-
सारमें विरक्त (वैराग्यवान्) पुरुषके समान पथ्याचरण करना चाहिये ॥

अन्यच्च ।

पक्वामाशयमध्येपित्तधरानामयाकलाकथिता ॥

साग्रहणीत्युपदिष्टादुष्टाग्रहणीगदंकुरुते ॥

अर्थ—तथा अन्यवाग्भटादिग्रंथोंमें लिखाहै कि पक्वामाशयके

१ अतिसाररोग संग्रहणीरोगमें इतनाही भेद है कि अतिसारमें द्रवघातु निकलेहें
और संग्रहणीमें बंधा हुआ भी मल निकलेहै ॥

बीचमें जो पित्तधरा नामक कलाहै उसीको ग्रहणी ऐसा कहा है वह दुष्ट होकर संग्रहणी रोगको करती है ॥

ग्रहणीकास्थान ।

पृष्ठीपित्तधरानामयाकलापरिकीर्त्तिता ॥

पक्वामाशयमध्यस्थाग्रहणीसाप्रकीर्त्तिता ॥

अर्थ—छठी पित्तधरा नामक जो कला पक्वामाशय और आमाशयके बीचमें है उसीको संग्रहणी वैद्योंने कहाहै ॥

संग्रहणीनिदान ।

अतीसारेनिवृत्तेपिमन्दाग्नेरहिताशिनः ॥

भूयःसंदूपितोवह्निर्ग्रहणमिभिदूपयेत् ॥

अर्थ—पहले मनुष्यके अतिसाररोग होकर जातारहा होय, फिर उस मनुष्यके कुपथ्य करनेसे मन्द हुई जो अग्नि सो पुरुषके उदरमें रहनेवाली जो पित्तधरानामक छठी कला जिसको ग्रहणी कहते हैं, उसको विगाड अपिशब्द करके अतिसार न भया होय तो भी अपने कारणकरके पूर्वोक्त ग्रहणीको विगाडकर संग्रहणीरोगको प्रगट करे यह सूचना करी । कोई आचार्य ऐसे कहते हैं, कि अतिसार न गया होय बीचमेंही ग्रहणीरोग होताहै (मन्दाग्निः) इसपद करके ये सूचना करी कि जिस पुरुषकी अग्नि तर्क्षण है वो कुपथ्यभी करे तथापि कुछ औगुन नहीं होय, अन्नको ग्रहण करे है इसीसे इसको ग्रहणी कहे हैं । अतएव ग्रहणके विगडनेसे अन्नका परिपाक अच्छे प्रकार नहीं होय अर्थात् चारंवार आमामिश्रित मल गुदाके मार्गसे गिरता है ।

ग्रहणीकीसंप्राप्तिवालक्षण ।

एकेकशःसर्वशश्चदोषैरत्यथमृच्छितेः ॥ सादुष्टावहुशोभुक्तमाम

मेवविमुंचति ॥ पक्वमासरुजंपूतिमुहुर्वह्निमुहुर्द्रवम् ॥ ग्रहणीरो-

गमाहुस्तमायुर्वेदविदोजनाः ॥

अर्थ—अत्यंत कुपित इष्ट पृथक् पृथक् दोष (वात पित्त कफ) और सर्व दोष मिलकर ग्रहणीको दुष्ट करे, सो ग्रहणी दुष्ट होकर कश्च अथवा पके अन्नको गुदाके मार्ग होकर निकाले और पीडा होय, तथा उस मलमें दुर्गंधि आवे, वादीसे

पतला मल और पित्तसे गाढा दस्त वारंवार होंवे और कभी कफसे पानी सरीखा अधोवायु युक्त निकले इसको आयुर्वेदके जाननेवाले वैद्य संग्रहणी रोग कहते हैं ॥

अन्यच्च ।

सामंसात्रमजीर्णेत्रेजीर्णैपक्कंतुनैववा ॥ अकस्माद्वा
मुहुर्वद्धमकस्माच्चोपवेशयेत् ॥ साचतुर्द्धापृथग्दोषैः
सन्निपाताच्चजायते ॥

अर्थ—अजीर्ण अन्नमें आमसहित और कच्चे अन्नसहित दस्त हो और वही भोजन कराहुआ अन्न जीर्ण होजावे तथा पक होजावे तब न गिरे तथा अकस्मात् वारंवार दस्त बँधा हुआ होय और अकस्मात् पतला तथा अकस्मात् दस्तबंद होजावे ऐसा संग्रहणीरोग चारप्रकारका है जैसे १ वातका २पित्तका ३ कफका और चतुर्थ संनिपातका ॥

संग्रहणीकेपूर्वरूप ।

प्राग्रूपंतस्यसदनंचिरात्पवनमम्लकः ॥ प्रसेकोवक्त्रवैरस्यमरु
चिस्तृक्कुमोभ्रमः ॥ आनद्धोदरताछर्दिः कर्णच्छेदोत्रकूजनम् ॥
सामान्यंलक्षणंकार्यधूमकस्तमकोज्वरः ॥ मूर्च्छाशिरोरुग्नि
घंभःश्वयथुःकरपादयोः ॥

अर्थ—अब उस ग्रहणीरोगका पूर्वरूप कहतेहैं जैसे देहका थकासा हो जाना और बहुत देरमें खट्टी डकार आवे, मुखसे, लार बहे मुखमें सवाद नरहे, अरुचि, प्यास, कुम, भ्रम, पेटकातनासाहोना, वमन, कानमें घाव, आँतोंका बोलना, देहकृश, घुंफका मुखसे निकलना, तमक, श्वास, ज्वर, मूर्च्छा, मस्तकमें पीडा, अफरा, हाथ पैरोंमें सूजन, ये ग्रहणीरोगके सामान्य लक्षण हैं ॥

पूर्वरूपंतुतस्येदंतृष्णालस्यंचलक्षयः ॥

विदाहोन्नस्यपाकश्चचिरात्कायस्यगौरवम् ॥

अर्थ—प्यास, आलस, चलनाश, अन्नका दाह, (पाकके समय अग्निसीजले) और अन्नका पाक देरमें होय, देह भारी होय, यह ग्रहणीरोगका पूर्वरूप है ॥

पक्षाद्वापिदशाहाद्वाविंशतेर्वादिनात्परम् ।

मासाद्वापिभवेत्कोपोग्रहणीरुजमानवे ॥

अर्थ—इस प्राणीके पंद्रह दिनमें दश दिनमें बीस दिनमें अथवा एक महीनेमें ग्रहणरोग कुपित होताहै ॥

वातिकग्रहणीकेकारण ।

कटुतिक्तकपायातिरूक्षसंदुष्टभोजनैः ॥ प्रमितानशनात्यध्व
वेगनिग्रहमैथुनैः ॥ मारुतः कुपितोर्वाहिसंछाद्यकुरुतेगदान् ॥

अर्थ—चरपरा, बडुआ, फसैला, अतिरूखा और संयोगविरुद्ध ऐसे भोजनसे तथा थोड़े भोजनसे, उपवाससे, बहुत चलनेसे, मलमूत्रादि वेगोंके रोकनेसे, अत्यंत मैथुनसे, कुपित हुई जो वात सो अधिको दूषित कर रोगोंको प्रगट करे है ॥

वातिकग्रहणीकेरूप ।

तस्यान्नपच्यतेदुःखंशुक्तपाकंखरांगता ॥ कंठास्यशोषः क्षुत्तृ
ष्णातिमिरंकरणयोः स्वनः ॥ पार्श्वोरुवंक्षणग्रीवारुगभीक्ष्णंवि
पूचिका ॥ हृत्पीडाकाश्यदौर्बल्यैवैरस्यंपरिकर्तिका ॥ गृद्धिः-
सर्वरसानांचमनसःस्यंदनंतथा ॥ जीर्णैर्जीर्यतिचाध्मानंभुंक्ते
स्वास्थ्यमुपैतिच ॥ सवातगुल्महृद्रोगप्लीहाशंकीचमानवः ॥
चिरादुःखंद्रवंशुष्कंतन्वामंशब्दफेनवत् ॥ पुनःपुनःसृजेद्वर्चः
कासश्वासादितोऽनिलात् ॥

अर्थ—उस वातग्रहणीवालेके अन्न दुःखसे पचे, अन्नका पाक खट्टा होय, अंगमें कर्कशता (यह वायुको त्वचाके चिकनापन शोखनेसे होताहै) कंठ, मुखका सूखना, भूँरा, प्यास लगे, मग्द दीखे, कानोंमें शब्द हो, पैसवाड़े जांघ पेड़ और कंधेमें पीडा होवे, विपूचिका हो (अर्थात् दोनों द्वारसे कच्चे अन्नकी प्रवृत्ति होवे) हृदय दुखे, देह दुबला होजाय, जीभका स्वाद जाता रहे, गुदामें फतरनी कीसी पीडा हो, मीठसे आदि ले सर्व रसोंके खानेकी इच्छा, मनमें ग्लानि, अन्न पचने उपरांत पेटका फूलना, भोजन करनेसे स्वस्थता, पेटमें गोला, हृद्रोग, तापति झीकीसी शंका, वातके योगसे खाँसी, श्वाससे पीडित बहुत देरमें बड़े कष्टसे कभी पतला कभी गाढा थोडा शब्द और ज्ञागमिला वारंवार दस्त जाय ॥

वातसंग्रहणीकाचिकित्साक्रम

ग्रहणीरोगमेंपाचन ।

धान्यविल्ववलाशुंठीशालपर्णीशृतंजलम् ।

स्याद्वातग्रहणीदोषेसानाहेसपरिग्रहे ॥

अर्थ—धनिया, बेलगिरी, खिरेटी, साँठ, और सालवन इनके काढेको वातकी संग्रहणीमें अफरामें और मलकी दुष्टतामें पीवे तो ये दूर हो ॥

दारुनागरनिशासुवासकंकुंडलीमगधयाज्ञाठीवनम् ॥

रास्नाभांगर्यशरलाभपौष्करंपाचनंभवतिवातकेग्रहे ॥

अर्थ—देवदारु, साँठ, हलदी, अड्डसा, गिलोय, पीपल, कचूर, नागरमोथा, रास्ना, भारंगी, शरल, पुहकरमूल, यह काथ वादीकी संग्रहणीमें पाचन कहा है ॥

यवान्यादिचूर्ण ।

यवानीव्योपसिंधूत्यंजीरकेद्वेचहिंशुकम् ।

आद्यग्रासाशितंसाज्यंचूर्णंवातनुदग्निकृत् ॥

अर्थ—अजवायन, साँठ, मिरच, पीपल, सेंधानिमक, सपेदजीरा, कालाजीरा और हींग इनका चूर्ण करके भोजनके प्रथम ग्रासमें धी मिलायके खाय तो अग्निकी प्रबल करे यह यवानीचूर्ण है परंतु वास्तवमें हिंशाष्टक चूर्ण है ॥

ग्रंथिकाचाभयाकृष्णाविडंगात्तेघटेस्थितम् ।

मासंतक्रंयग्रहण्यार्शकासगुल्मकृमीहरम् ॥

अर्थ—पीपरामूल, जंगीहरड, पीपल, वायविडंग, इनको पीसके एक कोरे घडेमें लपेट देवे; फिर इसमें छौंछको भरदेवे इस छौंछको १ महीने पर्यंत पीवे तो संग्रहणी, बवासीर, खौंसी, गोला और कृमिरोग, इनको हरण करे ॥

रामठादिचूर्ण ।

रामठातिविपापथ्यावचेन्द्रयवचूर्णकम् ।

वारिपीतंनिहंत्येवग्रहणींवातसंभवाम् ॥

अर्थ—हींग, अतीस, हरड, वच और इन्द्रजी इनका चूर्णकर जलके साथ पीवे तो वातकी संग्रहणीको नष्ट करे ॥

चूर्णंहिंश्वदिकंचापिवातिकेपट्टघृतान्वितम् ।

स्नेहाम्ललवणैर्युक्तं बहुवातस्यशस्यते ॥

अर्थ—हिंगाष्टक चूर्णको थोड़ेसे घीमें मिलाय, स्नेह, खटाई और निमकके साथ जिस संग्रहणीवालेके अधिववादी होवे उसको सेवन करना चाहिये ॥

शुंठीघृत ।

घृतनागरकल्केनसिद्धंवातानुलोमनम् ॥

ग्रहणीपांडुरोगघ्नंघ्नीहकासज्वरापहम् ॥

अर्थ—सोंठके कल्कमें घी डाल अभिषर सिद्धकर, यह घृत वादीको अनुलोमन करे तथा संग्रहणी, पांडुरोग, घ्नीहा, खांसी और ज्वर इसको नष्ट करे ॥

पंचमूलघृत ।

पंचमूलाभयाव्योपपिप्पलीमूलसैधवैः ॥ रास्नाक्षारद्वयाजा
जीविडंगशाठिभिर्घृतम् ॥ पक्केनमातुलुंगस्यस्वरसेनार्द्रक-
स्यच ॥ शुष्कमूलककोलांबुचुक्रिकादाडिमस्यच ॥ तक्रम-
स्तुसुरामंडसौवीरकतुपोदकैः ॥ कांजिकेनचतत्पक्त्वापीत-
मग्निकरंपरम् ॥ शूलगुल्मोदरानाहकाश्यांनिलगदापहम् ॥

अर्थ—पंचमूल, जंगीहरद, सोंठ, मिरच, पीपल, पीपरामूल, सैधानिमक, रास्ना, सजीखार, जवाखार, जीरा, वायविडंग और कचूर इन सब औषधोंके कल्कमें घी सिद्ध करे फिर उस घीको पके हुए विजोरेके रसमें अदरकके रस में, मूखी हुई मूलीके कोठेमें, मूखे हुए बेरके कोठेमें चूकके रसमें अनारके रसमें छाँड़, दहीका तोर, सुरा, जवकी पेया, तुपोंके काढा और कांजी इन प्रत्येकमें पचाय २ के सिद्धकरे तो यह अभिकारक, शूल, गौला, उदर, अफरा, देहकी कृशता और वादीके रोग इन सबको नाशकरे ॥

संग्रहणीकाचिकित्साक्रम ।

ग्रहणीमाश्रितंदोषमज्जीर्णवदुपाचरेत् ॥ लंघनेदीपनीयैश्च
सदातीसारभेषजेः ॥ दोषंसामनिरामंचविद्यादत्रातिसारवत् ॥
अतिसारोक्तविधिनातस्यचामंविपाचयेत् ॥ पेयादिपटुलघ्व
त्रंपंचकोलादिभिर्युतम् ॥ दीपनानिचतक्रंचग्रहण्यांयोजयेद्भिषक् ॥

अर्थ—संग्रहणीके रोगमें अजीर्णके समान औषध करे अर्थात् जो औषधी अजीर्णपर फही हैं वही इस संग्रहणीपरभी फरे तथा लंघन, दीपन, और अतिसारपर फही हुई औषधोंको देवे अतिसारके समानही दोष आम सहित किंवा

आम रहित है यह प्रथमही देख लेवे और अतिसारपर उक्तविधिके अनुसार आमका पाचन करे, पेया इत्यादि क्षार, पंचकोलादिक करके युक्त ऐसे हलके अन्न सेवन करे, दीपन पदार्थ तथा तक्र (छांछ) देना चाहिये ॥

ज्ञात्वातुपरिपक्वचातजंग्रहणीगदम् ॥

दीपनैर्भेषजैःपक्वैःसर्पिभिःसमुपाचरेत् ॥

अर्थ—परिपक्व वातसंग्रहणीकी परीक्षा करके उसको दीपन और घृत इन करके उपचार करे ॥

शालिपर्ण्यादिकाढा ।

शालिपर्णावलाविल्वंधान्यशुंठीकृतःशृतः ॥

आध्मानशूलसहितांवातजांग्रहणींजयेत् ॥

अर्थ—शालपर्णी, खिरेटीको जड़, वेलगिरी, धनिया और सोंठ, इन पांच औषधोंका काढा करके पीवे तो पेटका फूलना और शूलयुक्त वातसंग्रहणीको दूर करे ॥

मधुपक्वहरीतकी ।

हरीतकीनांचशतंदोलायंत्रेशनैःपचेत् ॥ सुस्विन्नंगोमयेनीरेसं-

सृष्टंवापुनस्ततः ॥ पश्चात्क्षुद्रशलाकाभिश्छिद्रितंतत्समंत-

तः ॥ शतंपलानांमधुनोवस्त्रपूतंविनिःक्षिपेत् ॥ क्षिग्धभा-

डेविनिःक्षिप्यक्षौद्रंदेयंतथातथा ॥ यथायथाहिमधुनोजलत्वं

यातिनिश्चितम् ॥ पुनर्देयंमधुतथायावन्नायातिविक्रियाम् ॥

तिष्ठत्येवंतथापथ्याकपायगुणवर्जिता ॥ पिप्पलीमरिचंशुंठी-

लवंशंशूलोन्नम् ॥ प्रत्येकं कर्पमात्रं हि तूर्णितंतत्तानिःक्षिपेत् ॥

मधुपक्वभिधापथ्यावलवर्णाग्निदीपनी ॥ एकैकांभक्षयेत्प्रातः

सर्वरोगनिवारिणीम् ॥ दुष्टवातंसंग्रहंचतथामंदुष्टशोणितम् ॥

जीर्णज्वरंप्रतिश्यायंत्रणांविस्फोटकंतथा ॥ वातशूलंसंग्रहणीं स-

रुजांनाशयत्यपि ॥

अर्थ—बडी २ सो हरडोंको लेकर गीके गोबरके पानीमें दोलायंत्रकी विधिसे नरम होनेपर्यंत औटावे जब नम्र होजावे तब टटारकेउनमें सलाईसे छिद्र करके युक्तिसे उनकी गुठली निकाले, फिर ४०० तोले शहत घीके

चीकने वासनमें भरके उसमें उन हरडोंको गेर देवे, फिर वह शहत जैसे जलरूप होता जाय उसीप्रकार उसमें और नवीन शहत डालता जावे इसप्रकार जबतक शहत जैसाका तैसा बना रहे तबतक डाले, इस क्रियाके करनेसे हरडोंका कपेलापना नहीं रहे, फिर सोंठ, मिरच, पीपल, लौंग वंशलोचन, ये प्रत्येक तोले २ ले चूर्ण करके उसमें गेर देवे इसे (मधुपक्कहरीतकी) कहते हैं यह हरड बल वर्ण करे है और अमिको दीपन करे है । नित्यप्रति प्रातःकाल एक एक भक्षण करे तो दुष्टवात, संग्रहणी, आमांश, दुष्टरक्त, जीर्णज्वर, सरकमा, व्रण (घाव) विस्फोटक, वादीका शूल और सशूल संग्रहणी इत्यादि सर्वरोगोंका नाश करे ॥

मुद्गयूप ।

मुद्गयूपरसंतक्रंधान्यजीरकसंयुतम् ॥

संधवेनान्वितंदद्यात्पडचूपमितिकीर्तितम् ॥

अर्थ—मूंगकायूप, मूंगकारस, छाँल, धनिया और जीरा, इनके यूपमें संधानिमक मिलावे, इसे पडचूप कहते हैं यह संग्रहणी नष्ट करे है ॥

कपित्थादियवागू ।

कपित्थविल्वचांगेरीतक्रदाडिमसाधिता ॥

यवागूःपाचयत्यामंशकृत्संवर्तयत्यपि ॥

अर्थ—केय, बेल, चुका, छाँल, और अनार इनके शाकमें यवागू सिद्ध करे यह आमको पचावे और मलको सारण करे अर्थात् निकाले ॥

पित्तसंग्रहणीनिदान ।

कटुजीर्णविदाह्यम्लक्षाराद्यैःपित्तमुल्बणम् ॥ आप्लावयद्धंत्य-

नलंजलंतप्तमिवानलम् ॥ सोजीर्णनीलपीताभंपीताभंसार्यतेद्र-

वम् ॥ सधूमोद्गारहृत्कंठदाहारुचितृडर्दितः ॥

अर्थ—जो पुरुष कटु, अजीर्ण, मिरच आदि तीखी, दाहकारक (वंश-करी-लकी कोपल आदि) सट्टीखारी (आंगा आदिका सार) आदिशब्दसे नोनका गरम पदार्थ, भक्षण करे इनकारणसे रुपित हुआ जो पित्त सो जठरामिको दुष्प्रायदे, जैसे तत्ता जल अमिको शांति करदे ओ फच्चाही नीले पीले रंगके पतले मलको निकाले, तथा धूमयुक्त डकार आवे, हिये और कंठमें दाह होवे अरुचि और प्यासकरके पीडित होवे यह पित्तकी संग्रहणीके लक्षण है ॥

पित्तसंग्रहणीकीचिकित्सा ।

वन्हेःप्रदूपकंपित्तमेकेनवमनेनवा ॥

कृत्वाभोज्येलघुग्राहिदीपनैरविदाहिभिः ॥

तिक्तकैर्वृहयेद्रहित्चूर्णैःस्नेहैश्चतिक्तकैः ॥

अर्थ—जठरामिके दूषित करनेवाले पित्तको जुलाव करके तथा घमन करके निकाल देवे फिर हलके, ग्राही, दीपनकर्त्ता और जो दाह न करे ऐसा भोजन करावे तथा तिक्तचूर्ण और तिक्त स्रहोंसे जठरामिको बढावे ॥

नलवेणुकुशानांचकाशेक्षणांचमूलकम् ।

क्वाथपानंहितंचात्रपाचनंपैतिकेग्रहे ॥

अर्थ—सरपते, बांस, कुशा, कास और ईख इनकी जड़ोंका फाटा करके इस पित्तकी संग्रहणीमें देवे तो इसका पाचन करे तथा हितकारी है ॥

द्राक्षादिक्षीरम् ।

द्राक्षाक्षीरेणसंपाच्ययावदाव्युपलेपनम् ॥ पश्चाद्द्याद्रिपक्त्रा
ज्ञोऽपधानिपृथक्पृथक् ॥ पर्पटातिविपामूर्वापटोलंधनवा
लकम् ॥ तथाभयानांचूर्णतुसमंशर्करयायुतम् ॥ तेनक्षीरेण
संयोज्यविदार्याःकन्दमेवच ॥ घनेननवनीतेर्नापिंडंकृत्वातुभ
क्षयेत् ॥ ग्रहणींपित्तजांपांडुकामलार्तितृपापहम् ॥ भ्रमंमू
च्छीतथाहिक्कांतथोन्मादमपस्मृतिम् ॥ महत्पित्तंचकुष्ठंचना
शयत्याशुनिश्चितम् ॥

अर्थ—दारुणको दूधमें औटावे जब औटते २ फलछीसे लिपटनेलगे तब आगेलिखीहुई औपध पृथक् २ मिलावे । पित्तपापडा, अर्तीस, मूवा, पटोलपत्र, नागरमोथा, नेत्रवाला, और अंगीहरड इनको समान भाग ले चूर्ण करके मिलाय देवे । तथा सब चूर्णकी बराबर खोंड डाले । एवं विदारीकंदका चूर्ण एक औपधके बराबर उसदूधमें मिलावे फिर मक्खन मिलायके गोली बनायलेवे इस गोलीके भक्षणकरनेसे पित्तकी संग्रहणी, पांडुरोग, कामला, प्यास, भ्रम, मूच्छा, हिचकी, वन्माद, मृगी, पौरपित्त, और कौट, इनकी तत्काल नाशकरे ॥

तंडुलोदकम् ।

जलमष्टगुणंदत्त्वापलकंडिततंडुलान् ।

भावयित्वाततोदेयंतदुलोदककर्मणि ॥

अर्थ—१ पल विने चुने चावलमें आठ पल जल मिलावे और उनको थोड़ी देर भीगने दे फिर हाथोंसे मसलके जलको छानले, यह तंदुलोदक जहाँ २ इसका प्रयोजन पड़े उस जगे सर्वत्र देवे ॥

भूनिवाद्यंचूर्णम् ।

भूनिवकटुकाव्योपमुस्तकेन्द्रयवान्समान् ॥ द्वौचित्रकाद्रत्सक-
त्वक्भागान्पोडशचूर्णयेत् ॥ गुडःशीतांबुनापीतोग्रहणीदोष-
गुल्मनुत् ॥ कामलाज्वरपांडुत्वमेहारुच्यतिसारनुत् ॥

अर्थ—चिरायता, कुटकी, सोंठ, मिरच, पीपल, नागरमोथा, ओर इन्द्रजौ ये प्रत्येक समान भाग ले, चीतेकी छालके दो भाग और कुडाकी छाल सोलह भाग ले, सबका चूर्ण करे फिर इसमें गुड मिलायके सीतल जलसे पीवे तो संग्रहणी, गोला, कामला, ज्वर, पांडुरोग, प्रमेह, अरुचि और अतिसार इनको दूर करे ॥

द्वितीय भूनिम्वाद्यंचूर्णम् ।

एकैकंभागमादायभूनिम्बव्योपमुस्तकम् ॥ कटुकेंद्रयवोपेतं
द्वौभागौचित्रकस्यच ॥ कुटजस्यत्वचोभागान्पोडशात्रविनि-
क्षिपेत् ॥ सर्वमेकीकृतंचूर्णंशीताम्बुगुडसंयुतं ॥ पिवेत्संग्रहणी
पांडुज्वरातीसारनाशनम् ॥

अर्थ—चिरायता, कुटकी, सोंठ, मिरच, पीपल, नागरमोथा, कटुए इन्द्रजौ, ये प्रत्येक एक २ भाग ले, चित्रककी छाल दो भाग, कुडाकी छाल सोलह भाग, सबको एकत्र कर गुड और शीतलजलके साथ पीवे तो संग्रहणी, पांडुरोग, ज्वर, और अतिसार रोग इनको नाश करे इन दोनों भूनिवादि चूर्णोंमें पाठोतरहे औषधी दोनोंमें एकही है ॥

पाठाद्यंचूर्णम् ।

पाठान्विल्वानलव्योपंजंबुदाडिमधातकी ॥
कटुकातिविषामुस्तदावींभूनिववत्सकैः ॥
सर्वे रतेःसमंचूर्णकोटजंतडुलांबुना ॥
सक्षौद्रेणपिवेच्छर्दिज्वरातीसारशूलवान् ॥
हृदाहग्रहणीदोषारोचकानलसादजित् ॥

अर्थ—पाठ, छोटाबेलफल, चीतेकीछाल, सोंठ, मिरच, पीपल, जामुन

अनारदाना, धायकेफूल, कुटकी, अतीस, नागरमोथा, दारुहलदी, चिरायता, और कुडाकीछाल, ये समान भागले और सबको बराबर इन्द्रजव मिलावे इसको चावलके धोवनके साथ शहत मिलायके पीवे तो वमन, ज्वर, अतिसार, शूल, हृद्रोग, दाह, संग्रहणी, अरुचि और मंदाग्निको नाश करे ॥

कटुकेन्द्रयवापाठाकुटजत्वग्रसांजनम् ॥ धातुक्यतिविपाशुंठी
मुस्तापिप्पलाचवारिणा ॥ विष्टंभमरुचिरक्तंदाहंचगुदवेदनाम् ॥

पित्तोत्थांग्रहणीहन्तिमधुनासहभक्षितः ॥

अर्थ—कुटकी, इन्द्रजव, पाठ, कुडाकीछाल, रसोत, धायकेफूल, अतीस, सोंठ, नागरमोथा, इन सबको जलमें पीसके पीवे तो अफरा, अरुचि, रक्तका दाह, गुदाकी पीडा, पित्तजन्य संग्रहणीका विकार, इनको दूर करे परंतु इसमें शहत और मिलाय लेना चाहिये ॥

चंदनादिघृत ।

चंदनंपद्मकोशीरपाठामूर्वाकटुत्रयम् ॥ पद्मंथासारिवास्फीता
सप्तपर्णीपरूपकम् ॥ पटोलोदुंबराश्वत्थवटप्लक्षकपित्थकम् ॥
कटुकारोहिणीमुस्तानिंबंचद्विपलांशकम् ॥ द्रोणंभसिक्षिपेत्पा
दशेपेप्रस्थंघृतंपचेत् ॥ किराततिक्तेंद्रयवावीरामागधिकोत्प
लैः ॥ कल्कैरक्षसमैः पेयंतत्पित्तग्रहणीगदे ॥

अर्थ—चंदन, पद्मास, खस, पाठ, मूर्वा, सोंठ, मिरच, पीपल, वच, सरिवन, उपलसिरी, सातवन, फालसे, पटोलपत्र, गूलर, पीपल, वड, पाखर, कैथ, कुटकी, हरद, नागरमोथा और नीमकी छाल ये प्रत्येक औषध आठ ८ तोले लेय सब १०२४ तोले जलमें डालके काढा करे जब चतुर्थांश शेष रहे तब उतारके छान ले फिर इसमें ६४ तोले घी डालके फिर चुल्हेपर चढाय उसमें चिरायता इन्द्रजी, काशोली, पीपल, कमल, इनका एक २ तोला कल्क डालके घृत सिद्ध करे, इस घृतको बलावल विचारके १ तोले देवे तो पित्तकी संग्रहणीका नाश होय ॥

तित्तादिकाढा ।

तित्तामहौपधरसांजनधातुकीभिः पथ्येंद्रवीजघनकौटजभंगु
राभिः ॥ काथोहरेद्रहुविधंग्रहणीविकारंपित्तोद्भवंसगुदशूलम
तिप्रवृद्धम् ॥

भावयित्वाततोदेयंतदुलोदककर्मणि ॥

अर्थ—१ पल विने चुने चावलमें आठ पल जल मिलावे और उनको थोड़ी देर भीगने दे फिर हाथोंसे मसलके जलको छानले, यह तंदुलोदक जहाँ २ इसका प्रयोजन पड़े उस जगे सर्वत्र देवे ॥

भूनिवाद्यंचूर्णम् ।

भूनिवकटुकाव्योपमुस्तकेन्द्रयवान्समान् ॥ द्वौचित्रकाद्वत्सक-
त्वक्भागान्पोडशचूर्णयेत् ॥ गुडःशीतांबुनापीतोग्रहणीदोष-
गुल्मनुत् ॥ कामलाज्वरपांडुत्वमेहारुच्यतिसारनुत् ॥

अर्थ—चिरापता, कुटकी, सोंठ, मिरच, पीपल, नागरमोथा, ओर इन्द्रजी ये प्रत्येक समान भाग ले, चीतेकी छालके दो भाग और कुडाकी छाल सोलह भाग ले, सबका चूर्ण करे फिर इसमें गुड मिलायके सीतल जलसे पीवे तो संग्रहणी, गोला, कामला, ज्वर, पांडुरोग, प्रमेह, अरुचि और अतिसार इनको दूर करे ॥

द्वितीय भूनिम्वाद्यंचूर्णम् ।

एकैकंभागमादायभूनिम्बव्योपमुस्तकम् ॥ कटुकेंद्रयवोपेतं
द्वौभागौचित्रकस्यच ॥ कुटजस्यत्वचोभागान्पोडशात्रविनि-
क्षिपेत् ॥ सर्वमेकीकृतंचूर्णंशीताम्बुगुडसंयुतं ॥ पिवेत्संग्रहणी
पांडुज्वरातीसारनाशनम् ॥

अर्थ—चिरापता, कुटकी, सोंठ, मिरच, पीपल, नागरमोथा, कडुए इन्द्रजी, ये प्रत्येक एक २ भाग ले, चित्रककी छाल दो भाग, कुडाकी छाल सोलह भाग, सबको एकत्र कर गुड और शीतलजलके साथ पीवे तो संग्रहणी, पांडुरोग, ज्वर, और अतिसार रोग इनको नाश करे इन दोनों भूनिवादि चूर्णोंमें पाठांतरहे औषधी दोनोंमें एकही हैं ॥

पाठाद्यंचूर्णम् ।

पाठाविल्वानलव्योपंजंबुदाडिमधातकी ॥
कटुकातिविषामुस्तदार्षीभूनिववत्सकैः ॥
सर्वं रतेःसमंचूर्णकोटजंतंडुलांबुना ॥
सक्षौद्रेणपिवेच्छर्दिज्वरातीसारशूलवान् ॥
हृदाहग्रहणीदोषारोचकानलसादजित् ॥

अर्थ—पाठ, छाटाबेलफल, चीतेकीछाल, सोंठ, मिरच, पीपल, जामुन

अनारदाना, धायकेफूल, कुटकी, अतीस, नागरमोथा, दारुहलदी, चिरायता, और कुडाकीछाल, ये समान भागले और सबकी बराबर इन्द्रजव मिलावे इसको चावलके धोवनके साथ शहत मिलायके पीवे तो वमन, ज्वर, अतिसार, शूल, हृद्दोग, दाह, संग्रहणी, अरुचि और मंदागिको नाश करे ॥

कटुकेन्द्रयवापाठाकुटजत्वग्रंसांजनम् ॥ धातक्यतिविपाशुंठी
मुस्तापिद्वाचवारिणा ॥ विष्टंभमरुचिरक्तंदाहंचगुदवेदनाम् ॥
पित्तोत्थांग्रहणीहन्तिमधुनासहभक्षितः ॥

अर्थ—कुटकी, इन्द्रजव, पाठ, कुडाकीछाल, रसोत, धायकेफूल, अतीस, सोंठ, नागरमोथा, इन सबको जलमें पीसके पीवे तो अफरा, अरुचि, रक्तका दाह, गुदाकी पीडा, पित्तजन्य संग्रहणीका विकार, इनको दूर करे परंतु इसमें शहत और मिलाय लेना चाहिये ॥

चंदनादिघृत ।

चंदनपद्मकोशीरपाठामूर्वाकटुत्रयम् ॥ पटुग्रंथासारिवास्फीता
सप्तपर्णीपरूपकम् ॥ पटोलोदुंबराश्वत्थवटप्लक्षकपित्थकम् ॥
कटुकारोहिणीमुस्तानिंबंचद्रिपलांशकम् ॥ द्रोणंभसिक्षिपेत्पा
दशेपेप्रस्थंघृतंपचेत् ॥ किराततिक्तेन्द्रयवावीरामागधिकोत्प
लैः ॥ कल्कैरक्षसमैः पेयंतत्पित्तग्रहणीगदे ॥

अर्थ—चंदन, पद्मास, खस, पाठ, मूर्वा, सोंठ, मिरच, पीपल, वच, सरिवन, उपलसिरी, सातवन, फालसे, पटोलपत्र, गूलर, पीपल, वड, पाखर, कैथ, कुटकी, हरड, नागरमोथा और नीमकी छाल ये प्रत्येक औषध आठ ८ तोले लेय सब १०२४ तोले जलमें ढालके फाटा करे जब चतुर्थांश शेष रहे तब उतारके छान ले फिर इसमें ६४ तोले घी ढालके फिर चुल्हेपर चढाय उसमें चिरायता इन्द्रजौ, कावोली, पीपल, कमल, इनका एक २ तोला कल्क ढालके घृत सिद्ध करे, इस घृतको बलाबल विचारके १ तोले देवे तो पित्तकी संग्रहणीका नाश होय ॥

तिक्तादिकाढा ।

तिक्तामहौषधरसांजनधातुकीभिः पथ्येन्द्रवोजघनकौटजभंगु
राभिः ॥ काथोहरेद्रुहुविधंग्रहणीविकारंपित्तोद्भवंसगुदशूलम
तिप्रवृद्धम् ॥

अर्थ-कुटकी, सोंठ, रसोत, धायके फूल, हरड, इन्द्रजव, नागरमोथा, कुडाकी छाल और सपेद अतीस इनका काढा अनेक प्रकारकी संग्रहणी, गुदाकी पीडा और पित्तसंग्रहणी इन सब रोगोंको नाश करे ॥

श्रीफलादिकल्क ।

श्रीफलशलाटुकल्कोनागरचूर्णेनमिश्रितःसगुडः ॥

ग्रहणीगदमत्युग्रंतक्रभुजाशीलितोजयति ॥

अर्थ-कच्चे बेलगिरीके कल्कमें सोंठका चूर्ण और गुड डालके देवे तथा छांछ भात पथ्यमें देवे तो संग्रहणीका नाश करे ॥

नागरादिचूर्ण ।

नागरातिविषामुस्ताधातर्कासरसांजनम् ॥ वत्सकत्वक्फलंवि
ल्वंपाठातिक्तकरोहिणी ॥ पिबेत्समांशकंचूर्णसक्षौद्रंतंदुलांबु
ना ॥ पित्तजेग्रहणीदोषेरक्तंयश्चोपवेश्यते ॥ अर्शांसिद्धद्रव्यशू
लंजयेच्चैवप्रवाहिकाम् ॥ नागराद्यमिदंचूर्णकृष्णात्रेयेणभापितम् ॥

अर्थ-सोंठ, अतीस, नागरमोथा, धायके फूल, रसोत, कुडाकी छाल, इन्द्रजौ, बेलगिरी, पाठ, चिरायता और कुटकी, ये समान भाग लेवे सबको कूट पीस चूर्ण कर चावलके धोवनमें शहत मिलायके इसका सेवन करे तो पित्तकी संग्रहणी, रक्तसंग्रहणी बवासीर, हृद्रोग, गुदाके रोग, शूल और प्रवाहिका इनको नष्ट करे यह नागरादिचूर्ण कृष्णात्रेयने कहा है ॥

यवान्यादिचूर्ण ।

यवानोपिप्पलीमूलंचातुर्जातकनागैः ॥ धातुकीतित्तिणी-
कृष्णावालकश्चैकभागिकः ॥ सितापइभागसंयुक्तंसर्वचूर्णप्र
कल्पयेत् ॥ कर्पकंभक्षयेन्नित्यमजाक्षीरंपिबेदनु ॥ नाशयेद्ग्र-
हणीरोगंपित्तोत्थंसप्रवाहिकम् ॥

अर्थ-अजमायन, पीपरामूल, चातुर्जात, सोंठ, धायके फूल, इमली पीपर और नेत्रवाला ये प्रत्येक तोले २ भरलेवे तथा मिश्री छः तोले डाले इन सबका चूर्ण कर नित्य १ तोले खाय, इसके ऊपर बकरीका दूध पीवे तो पित्त संग्रहणी और प्रवाहिका इनका नाश करे ॥

चंदनादिकाढा ।

चंदनंपद्मकोशीरपाठामूर्वाकुटंनटम् ॥ सौराष्ट्रचतिविपापत्रत्व
गेलादेवदारुच ॥ मरिचंचूर्णयेत्तुल्यंमधुनालेहयेदनु ॥
अजाक्षीरंजलाधेनक्वाथ्यदुग्धावशेषकम् ॥ पिवेत्पित्तहरंरात्रौ
क्षीरिणीशाकमाचरेत् ॥ दध्यन्नंदापयेत्पथ्यं दुग्धैर्वालाजमंडकम् ॥

अर्थ—चंदन, पद्मास, खस, पाठ, मूर्वा, टेंद्र, फिटकरी, अतीस, पत्रज,
दालचीनी, इलायची, देवदारु और कालीमिरच, सब समान भाग लें ।
सबका चूर्ण कर शहतसे सेवन करे और इसके ऊपर बकरीके दूधमें आधा
पानी डालके औटावे जब दूध मात्र शेष रहे तब उतारके इस पित्तहरण
करनेवालेको रात्रिमें पीवे, खिरनीका साग पथ्यमें देवे, तथा दही भात अथवा
स्त्रीलौका मंड पथ्यमें देना चाहिये ॥

रसांजनादिचूर्ण ।

रसांजनंप्रतिविपावत्सकस्यफलत्वचौ ॥ नागरंधातकींचैत-
त्सक्षौद्रंतंदुलांबुना ॥ पित्तग्रहणिदोपार्शरक्तपित्तातिसारनुत्

अर्थ—रसोत, अतीस, इन्द्रजां, कुडाकी छाल, सोंठ और धायके फूल ए
समान भाग लेवे सबका चूर्णकर चावलके पानीमें शहत मिलायके इसके साथ
सेवन करे तो पित्तसंग्रहणीके दोष और बवासीर, रक्तपित्त और पित्तातिसार
इनको नाश करे ॥

भूनिवादिपुटपाक ।

भूनिवरोहिणीपथ्यापटोलनिवपपटम् ॥ तुल्यंमहिपिमूत्रेणम-
र्द्यमंतःपुटेदहेत् ॥ कर्पकंलेहयेदाज्यैर्वन्दिदीपनमुत्तमम् ॥
दीपनंबहुपित्तस्यतिक्तंमधुरसंयुतम् ॥

अर्थ—चिरायता, कुटकी, हरड, पटोलपत्र, नीमकीछाल और पित्तपापडा ए
समान भाग ले सबको भैसके मूत्रमें पीस पुटपाक विधिसे भूनके इसको १
तौले पीके साथ सेवन करे तो यह अमिका दीपन करे यदि पित्तरोगपर लेना
होवे तो कुटकी और शहत इनके साथ लेवे ॥

आम्रादियोग ।

आम्रास्थिविश्वागोशृंगवत्सश्चाभ्रसेनतु ॥ मर्दयेच्चिदिनंसम्य-

विसतयासहयोजयेत् ॥ तस्यपित्तोद्भवांहंतिग्रहणीरोगकारिणी ॥ ज्वरातिसारंतीव्रं चरुत्स्रावंसशूलनुत् ॥

अर्थ—आमकी गुठली, सोंठ, बबूर और कुडाकी छाल, ये सब पदार्थोंकी आमके रससे तीनदिन खरलकर इसमें मिश्री मिलायके सेवन करे तो पित्तकी संग्रहणी, ज्वरातिसार, रक्तस्राव और शूल इनका नाश करे ॥

आम्रादिपेया ।

आम्राम्रातकंजंबूत्वक्कपायेपचेद्भिपक् ॥

यवागूशालिभिर्युक्तांभुक्त्वातांग्रहणींजयेत् ॥

अर्थ—आम, अंबाडा और जामुन इनकी छालका काढा करके उस काढेमें शाली चावलोंकी यवागू सिद्धकरे, चावल सहित सेवन करे तो पित्तकी संग्रहणी नष्टहोवे ॥

कफसंग्रहणीकी उत्पत्ति ।

गुर्वतिस्त्रिग्धशीतादिभोजनादतिभोजनात् ॥ भुक्तमात्रस्य च स्वप्नाद्धंत्यग्निंकुपितः कफः ॥ तस्यान्नंपच्यतेदुःखं हृच्छासच्छर्शरोचकाः ॥ आस्योपदेहमाधुर्यकासघ्नीवनपीनसाः ॥ हृदयेमन्यतेस्त्यानमुदरंस्तिमितंगुरु ॥ दुष्टोमधुरमुद्गारः सदनस्त्रीष्वहर्षणम् ॥ भिन्नामश्लेष्मसंसृष्टगुरुवर्चःप्रवर्तनम् ॥ अकृशस्यापिदोर्वल्यमालस्यंचकफात्मके ॥

अर्थ—भारी, अत्यंत चिक्ना, शीतल आदि पदार्थके खानेसे अति भोजनसे तथा भोजन करके सोनेसे, इनकारणोंसे कुपित हुआ कफजठराग्निको शांत करे तब इसके खाया अन्न कष्टसे पचे, हृदयमें पीडा होय, वमन, अरुचि, मुखका कफमें लिपासा, तथा मुखका मीठा रहना, खांसी कफ थूके सरेकमा होय हृदय पानीसे भरा सदृश होय, पेट भारी और जड़ हो, दुष्ट और मीठी बकार आवें, अग्निशक्ति हो, स्त्रीरमणमें अरुचि, पतला आम कफ मिला और भारी पेशा मल निकले, बल बिना शरीर पुष्ट दीरसे, आलस्य बहुत आवे यह कफकी संग्रहणीके लक्षण हैं ॥

पंचकोलाभयाधान्यपाठागंधपलांशकैः ॥ वीजपूरप्रवालैश्चसिद्धैः
पेयादिकल्पयेत् ॥ ग्रहण्यांश्लेष्मदुष्टायां वमितस्य यथाविधि ॥

अर्थ—पीपर, पीपरामूल, चव्य, चीतेकी छाल, सोंठ, हरड, धनिया, पाठ और गंधक ये प्रत्येक एक २ पल लेवे; फिर विजोरके पत्तों करके सहित पेया बनावे, इस पेयाके पीनेसे कफकी दुष्ट संग्रहणी और वमनका रोग ये दूरहोवे ॥

ग्रहण्यांकफदुष्टायां तीक्ष्णैः प्रच्छर्दनेकृते ॥

कट्हुम्ललवणक्षारैस्तिक्तैश्चाग्निविवर्द्धयेत् ॥

अर्थ—कफके दूषित होनेसे जो संग्रहणी हुई हो उसको तीक्ष्ण वमनकी औपधी करके कटु, अल्म, निमक, क्षार और तिक्त (कटुए) रसों करके इस रोगीकी आग्निको वैद्य चढावे ॥

चित्रकं ग्रंथिकं पथ्याकुण्डप्रतिविपां वचाम् ॥ शुंठीमुस्तविडंगंचसु
रातक्रोष्णवारिभिः ॥ श्लेष्मिकेग्रहणीदोषेपीतं चाग्निविवर्द्धनम् ॥

अर्थ—चीतेकी छाल, पीपरामूल, हरड, कूट, अतीस, वच, सोंठ नागरमोथा, बापविडंग, इनका चूर्णकरके दारु, छाँछ, गरमजल इनके साथ कफके संग्रहणी में पीवे तो संग्रहणी दूर होय और जठराग्नि बढे ॥

हिगुक्षारौ समौ पथ्याशुंठीपिप्पालिचित्रकाः ॥

द्वयंशास्तत्पूर्ववत्पीतश्लेष्मग्रहणदोषनुत् ॥

अर्थ—हींग, जवाखार, दोनों समान ले, हरड, सोंठ, तथा पीपर, और चित्ररुकी छाल, ये दोदो भागलेके चूर्णकरे और दारु, छाँछ, अथवा गरम जलके साथ पीवेतो कफकी संग्रहणीका विकार नष्ट होय ॥

अभयातिविपां शुंठीवचामुस्ताकणाशिफा ॥ विडादिलवणं व
ह्लिकुण्डारुसमांशतः ॥ सुश्लक्ष्णचूर्णमेतेषां भक्षितं तप्तवारिणा ॥
श्लेष्मजां ग्रहणीं हंति रक्तमाभ्यां सहाचिरात् ॥

अर्थ—जंगीहरड, अतीस, सोंठ, वच, नागरमोथा, पीपरामूल, विडादिपंचनिमक चीतेकी छाल, कूट, देवदारु ये प्रत्येक समान भागलेवे सबका चूर्णकर गरम जलके साथ भक्षण करे तो कफजन्य संग्रहणी, तथा रक्त और आमयुक्त संग्रहणीभी शीघ्र दूर होवे ॥

पलांशंचित्रकंचव्यं मातुलुंगं हरीतकी ॥ पिप्पलीपिप्पलीमूलं

पाठाधान्यकनागरम् ॥ कार्पिकान्युदकप्रस्थेपक्त्वापादावशे
पितम् ॥ पानीयार्थेप्रयुंजीतयवागूतैश्चसाधिताम् ॥

अर्थ—ढाकके बीज, चीतेकीछाल, चव्य, विजोरा, हरड, पीपल, पीपरामूल, पाठ, धनिया और सोंठ ये प्रत्येक एक २ तोले लेवे, सबको जवट करके १ सेर जल डालके औटावे, जब चतुर्थांश शेष रहे तब उतारके छानलेवे, इस काथमें यवागूसिद्धकरे इस यदागूके सेवन करनेसे कफजन्य संग्रहणी नष्टहोवे ॥

पथ्याशुंठीकणावाह्नितूर्णमेपांसमासतः ॥

तक्रपीतंध्रुवंहंतिग्रहणींश्छेप्ससंभवाम् ॥

अर्थ—हरड, सोंठ, पीपल, चीतेकी छाल इनका चूर्णकरके छाँड़के साथ पीवे तो कफकी संग्रहणी दूर होय ॥

समूलांपिप्पलीक्षारौद्रौपंचलवणानिच ॥ मातुलुंगाभयाराम्ना
सठीमरिचनागरैः ॥ कृत्वासमांशंतच्चूर्णपिवेत्प्रातः सुखां
बुना ॥ श्लेष्मिकेग्रहणीदोषेवलमांसाग्निवर्द्धनम् ॥ एतैरेवौष
धैःसिद्धंसार्षिः पेयंसमारुते ॥

अर्थ—पीपर, पीपरामूल, सजीखार, जवाखार, पांचोनिमक, विजोरा, हरड, राम्ना, कचूर, कालीमिरच, सोंठ इनका समानभाग चूर्ण करके प्रातःकाल सु-खोष्ण जलके साथ पीवे तो कफकी संग्रहणीको नष्ट करे तथा वल और मांसको बढावे यदि वादीकी संग्रहणी होयतो इन्हीं पूर्वोक्त औषधोंसे धी सिद्धकरकेपीवे.

सव्यादिचूर्णं ।

सठीव्योपाभयाक्षारौग्रथिकंबीजपूरकम् ॥

लवणाम्लांबुनापेयंश्लेष्मिकेग्रहणीगदे ॥

अर्थ—कचूर, सोंठ, कालीमिरच, पीपर, हरड, जवाखार, सजीखार, पीपरामूल और विजोरा इनका चूर्ण संधानिमक और निनूका रस इनके साथपीवे तो यह कफसंग्रहणी नाश करे ॥

राम्नादिचूर्णं ।

राम्नापथ्यासठीव्योपंद्वौक्षारौलवणानिच ॥ ग्रंथिकंमातुलुं
गंचसममेकत्रचूर्णयेत् ॥ पिवेदुष्णेनतोयेनश्लेष्मिकेग्रहणीगदे ॥

अर्थ—रास्ना, हरड, कचूर, सोंठ, मिरच, पीपल, सजीखार, जवाखार, सेंधानिमक, संचर, विडनोन, पीपरामूल और विजोरेकी केशर, इनका चूर्ण गरम जलके साथ पीवे तो कफकी संग्रहणीको नाश करे ॥

पथ्यादितक्रयोग ।

पथ्याकणानागरवह्निचूर्णतक्रेणपीतंग्रहणीगदग्म ॥

तक्रेणहन्यात्किलकेवलंवाशुंठीकणाभ्यांग्रहणींसशूलाम् ॥

अर्थ—हरड, पीपल, सोंठ और चीतेकी छाल, इनका चूर्ण छॉछसे पीवे तो शूलयुक्त संग्रहणी और कफसंग्रहणी इनका नाश करे । अथवा केवल सोंठ और पीपलका चूर्ण छॉछसे पीवे तो कफकी संग्रहणीको नाश करे ॥

चतुर्भद्रादिकाढा ।

गुडूच्यातिविपाशुंठीमुस्तैःक्वाथःकृतोजयेत् ॥

आमानुपक्तांग्रहणींग्राहीदीपनपाचनः ॥

अर्थ—गिलोय, अतीस, सोंठ और नागरमोथा इनका काढा सेवन करनेसे आम संग्रहणीका नाश करे तथा ग्राहक अग्निदीपक और पाचन है ॥

कठिनमलकीचिकित्सा ।

कृद्रेणकठिनत्वेनयःपुरीपंविमुंचति ॥

सघृतंलवणंतस्यपाययेत्क्लेशशांतये ॥

अर्थ—जिस प्राणीका कष्टसे और कठोर ऐसा मल उतरे उसको घीमें निमक मिलायके पिवावे तो उसका कष्टयुक्त कठोर दस्त होना दूर होवे ॥

विडंगादियोग ।

विडंगवानीविष्टंभेपिवेदुष्णेनवारिणा ॥

अर्थ—वायुविडंग और अजवायन इनके चूर्णको गरम जलसे पीवे तो विष्टंभ (कष्टसे मलका उतरना) नाश होय ॥

वातश्लेष्मसंग्रहणी ।

वातश्लेष्माधिकेयोज्याकुटजाद्यवलेहिका ॥ पर्पटीरसगुंजा

ष्टौलिहेन्मध्वाज्यकेनया ॥ सहिगुजीरकंव्योपनिष्कार्धभक्षये-

दनु ॥ ग्रहणीकफवातोत्थांशमयेत्तक्रभोजने ॥

अर्थ-वातकफाधिक्य संग्रहणीपर कुटजावलेह देनी चाहिये अथवा पर्पटीरस रत्ती ८ लेकर शहत और घीसे देवे । और इसके ऊपर हींग, जीरा, सोंठ मिरच और पीपल इनका चूर्ण २ मासे देवे तथा छोंछ भातका उसको भोजन करावे तो कफवातजन्य संग्रहणीका नाश होय ॥

कर्चूरादिचूर्ण ।

कर्चूरोलवणंपंचरास्त्राञ्चूंपंहरितकी ॥ सर्जिंक्षारंयवक्षारंमातु
लुंगंसमंसमम् ॥ चूर्णमुष्णांशुनापेयंवलवर्णाग्निवर्धनम् ॥
श्लेष्मिकंग्रहणीदोषंसवातंचविनाशयेत् ॥

अर्थ-कर्चूर, पांचोनिमक, रास्त्रा, सोंठ, कालीमिरच, पीपल, हरड, सजी-
खार, जवाखार और विजोरेका जीरा ये समान भाग लेवे इनका चूर्ण गरम जलसे
पीवे तो बल तथा अग्नि इनको बढ़ावे और कफवातजन्य संग्रहणीका नाश करे ॥

तालीसादिवटी ।

तालीसपत्रचविकामरिचानापलंपलम् ॥ कृष्णातन्मूलयोद्वेद्रे
पलेगुंठीपलत्रयम् ॥ चातुर्जातमुशीरंचकर्पाशंसूक्ष्मचूर्णितम् ॥
चूर्णस्यत्रिगुणेनैवगुडेनवटिकाकृता ॥ भक्षयेत्तुपलार्धचवातश्ले
ष्मोत्थितेगदे ॥ उत्कटांग्रहणीछादिकासंश्वासंज्वरारुची ॥
शोफगुल्मोदरंपांडुंतालीसाद्येननाशयेत् ॥

अर्थ-तालीसपत्र, चव्य, कालीमिरच, ये प्रत्येक चार २ तोले लेवे, पीपल
और पीपरामूल ये आठ २ तोले लेवे, सोंठ वारह तोले, चातुर्जात तथा नेत्रवाला
ये एक एक तोले लेकर सबका चूर्ण करे और चूर्णसे तिगुना गुड मिलाय दो २
तोले की गोली बनावे । इसके भक्षण करनेसे कष्टतर संग्रहणी, वमन, खांसी,
श्वास, ज्वर, अरुचि, सूजन, गोला, उदरका गेग, तथा पांडु (पीलियाका)
रोग इनको नाश करे इसको (तालीसादि वटी) कहते हैं ॥

कफपित्तसंग्रहणीऊपररसादिवटिका ।

शुद्धंसूतंत्रिधागंधंज्वरैर्मंदयेद्दिनम् ॥ सर्वांशंजीवशंवृकमरीचिम
धुसंयुतम् ॥ निष्ककेननिहंत्याशुग्रहणीकफपित्तजाम् ॥

अर्थ-शुद्धपारा १ तोले और शुद्धगंधक ३ तोले, इन दोनोंकी कजली

करके इसमें सबकी बराबर जीवसहित छोटा शंख डालके जंभीरीके रससे एकदिन खरल करे और भिरचके चूर्ण तथा शहतसे चारमासेकी मात्रा देवे तो कफपित्तजन्य संग्रहणीको नष्टकरे ॥

मुसल्यादियोग ।

मुसलीपेपयेत्तत्रेअथवातंडुलोदकैः ॥

कर्पूकंयोजयेच्चानुपथ्यंतक्रौदनंहितम् ॥

अर्थ—मूसलीके चूर्णको छाँछमें अथवा चावलके धोवनमें पीसके एक तोले देवे तथा पथ्यमें छाँछ और भात देय तो यह संग्रहणीको नाश करे ॥

वातपित्तसंग्रहणीऊपरमुंड्यादिगुटिका ।

मुंडीशतावरीमुस्तावानरीदुग्धिका मृता ॥ यष्टीकसैंधवंतुल्यं
सूक्ष्मचूर्णप्रकल्पयेत् ॥ चूर्णस्यद्विगुणंयोज्याविजयामृदुभजि
ता ॥ घृतस्निग्धेपचेद्रांडेद्दुग्धंदशगुणंगवाम् ॥ यावत्पिंडत्वमा
पन्नातावन्मृद्भिनापचेत् ॥ पिंडतुल्यंतुसत्क्षौद्रंमिश्रीनिष्कत्र
यंत्रयम् ॥ भक्षयेद्विजयेदेवद्रंद्रजग्रहणीगदम् ॥ पित्तवातेश्लेष्म
पित्तेसम्यक्पित्तेचयोजयेत् ॥

अर्थ—गोरखमुंडी, शतावर, नागरमोथा, कौचके बीज, दूधी, गिलोय और सैंधानिमक इनका बारीक चूर्ण कर चूर्णसे दुगनी भुनी हुई भांग मिलायके घीके वासनमें गौके दसगुने दूधमें मंदापिसे पककरे जब गोला बंधने लगे तब उतारके इसमें गोलके समान शहत मिलाय देवे फिर इसमेंसे १ तोले को तीन तोले मिश्रीके साथ भक्षण करे तो द्रंद्रजसंग्रहणी, पित्तवात, श्लेष्मपित्त और पित्त इनका नाश करे, यह मुंड्यादिगुटिका कहाताहै ॥

सन्निपातग्रहणीनिदानलक्षण ।

पृथग्वातादिनिर्दिष्टहेतुलिङ्गसमन्विते ॥

त्रिदोषनिर्दिशेदेनंतस्यवक्ष्यामिलक्षणम् ॥

अर्थ—वातादि तीनों दोषोंके जो लक्षण कह आयेहैं वे सब जिसमें मिलते होय उसको त्रिदोषकी संग्रहणी जानिये (तेषां वक्ष्यामि भेषजम् ?) ये पद केवल पादपूरणार्थ लिखा है ॥

आमं बहुसपैच्छिल्यंसशब्दंमदवेदनम् ॥

पक्षान्मासाद्दशाहाद्धानित्यं चापि विमुञ्चति ॥

अर्थ—त्रिदोषसंग्रहणी रोग अपक्व, बहुत लहसदार, मंदपीडा और शब्द इन करके युक्त ऐसे मलको १५ पंद्रह दिनमें किवा १ महीनेमें अथवा दश-दिनमें तथा नित्य प्रति गुदाद्वारा त्याग करे ॥

असाध्यलक्षण ।

दिवाप्रकोपो भवति रात्रौ शान्तिं व्रजत्यपि ॥

दुर्विज्ञेया दुर्निवारा चिरकालानुबंधिनी ॥

अर्थ—जो संग्रहणी दिनमें कुपित हो और रात्रिमें यत्किंचित् शान्ति हो जावे वह अत्यंत दुज्ञेय (जो जाननेमें न आवे) और दुर्निवार (जो दूर न हो सके) तथा बहुत काल पर्यंत रहनेवाली जाननी ॥

घटीयंत्रग्रहणीलक्षण ।

प्रसुप्तिः पार्श्वयोः शूलं तथा जलघटीध्वनिः ॥

तंबदंतिघटीयंत्रमसाध्यग्रहणीगदम् ॥

अर्थ—जिस संग्रहणीमें अंगमें नोचनेसे मालूम न हो, ऐसा शून्यता होवे तथा दोनों कूर्खोंमें शूल होवे पेटमें गुडगुडाहटशब्द हो उस व्याधिको घटीयंत्रसंग्रहणी कहते हैं [घटीनाम घडेका है उस भरे घडेको रीता करनेके समान शब्द होनेसे वैद्योंने इसका घटीयंत्रनाम रक्खा है] यह असाध्य है ऐसा जानना ॥

लिङ्गैरसाध्यो ग्रहणी विकारो यैस्ते रतीसारगदो निपिध्येत् ॥

वृद्धस्य नृनं ग्रहणी विकारो हत्वात्तनुनो विनिवर्तते च ॥

अर्थ—जिन लक्षणों करके अतिसार रोग असाध्य कहा है यदि वे लक्षण संग्रहणीमें मिले तो वह संग्रहणीरोग असाध्य जानना । तथा वृद्धमनुष्यके संग्रहणीका रोग हुआ होय तो बिना प्राणहरण करे नहीं छोड़े यह निश्चय है ॥

अतिसारस्य रिष्टानि ग्रहण्यामपि लक्षयेत् ॥

अर्थ—अतिसाररोगमें जो उपद्रव होते हैं वोदी प्रायः संग्रहणीमें होते हैं ऐसा वैद्यको जानना चाहिये ॥

अथ तस्याश्चिकित्सा माह ।

सर्वजायां ग्रहण्यां तु सामान्यो विधिरिप्यते ॥ दीपनान्यन्नपाना

निचूर्णारिष्टघृतानिच ॥ प्रविभज्ययथावस्थंसर्वजेवस्तिकर्मच ॥

अर्थ—अब संपूर्ण दोषोंसे होनेवाली संग्रहणीकी सामान्य विधि कही जाती है यावन्मात्र दीपनकर्ता अब्र, पान, चूर्ण, अरिष्ट, घृत है उनको यथायोग अवस्था विचारके देवे तथा सन्निपातजन्य संग्रहणीमें वस्तिकर्म करना चाहिये ॥

शतावरीघृत ।

शतावरीचंदनचोत्पलंचप्रियंगुपाठामगथास्थिराभिः ॥विल्वा
जमोदातिविपासभंगाजीवंतिवह्नीन्द्रयवैःसुपिष्टैः॥घृतंकपायेतु
कलिंगकानांपक्वनिहन्याद्ग्रहणींत्रिदोषाम् ॥ पित्तातिसारंरुधिर
प्रवाहंतथार्शसांदोषसमुद्रवंच ॥

अर्थ—शतावर, चंदन, कमल फूल, प्रियंगु, पाठ, पीपर, सालपर्णी, बेलगिरी-अजमोद, अतीस, मंजीठ, जीवंती, चीतेकी छाल, इन्द्रजी, इन सबको समान, भाग लके काठा करे इस काठसे घृत बनावे यह घी त्रिदोषकी संग्रहणीको, पित्तातिसारको, रुधिरके प्रवाहको, तथा बवासीर इन सबको नष्ट करे ॥

अरुष्करघृतम् ।

अरुष्करं हिंशुकणा सयष्टी भूतीक शुंठी मरिचं शताव्हा ॥
अजाजिचव्यारुचकंसर्वान्ह विडंविडंगं सहदीप्यकंच ॥ सक्षा-
रहिंशुत्रिकटूअगंधापलार्धभागैर्विपचेद्विधिज्ञः ॥ अजाधान्य-
कचांगेरीदशमूलीशृतैः पृथक् ॥ हविः प्रस्थनिहंत्याशुग्रहणीं
सर्वजां नृणाम् ॥ विष्टंभमामजात्रोगान्कृमिजान्कुक्षिजां
स्तथा ॥ मंदानलभवान्सर्वात्रभस्वानिववारिदम् ॥

अर्थ—भिलाये, हींग, पीपल, मुलहठी, रोहिपतृण, सोंठ, मिरच और शता-वर, सपेदजीरा, चन्प, संचरनिमक, चीतेकी छाल, विडनिमक, वायविडंग, अज-वापन, जवाखार, हींग, त्रिकटु, वच, ये प्रत्येक दो दो तोले लेंवे इनको बफरीका मूत्र, धनिया, चूका और दशमूल इनके कांठमें पृथक् २ पचाय १ प्रस्थघृत सिद्ध करे यह घी सर्वदोषजन्य संग्रहणीको दूर करे, तथा अफरा आमवातके रोग, कृमिजन्यरोग, फूँसकेरोग, मंदाग्निसे होनेवाले रोग इन सबको जैसे पवन बहलौकी नष्टकरे इसप्रकार यह नष्ट करे कोई आचाप अरुष्कर करके अम-लतासका ग्रहण करते हैं ॥

सामस्तथानिरामो दोषोऽग्रहणीमुपाश्रितोद्विविधः ॥

प्रोक्तोऽतिसारिणांच विज्ञेयोपाचरेद्वैद्यः ॥

अर्थ—संग्रहणी दो प्रकारकी है एक साम दूसरी निराम यह भेद अतिसार रोगमें कह आयेहै उसके अनुसार सामनिरामके लक्षण विचारके वैद्य चिकित्साकरे.

अतिसारिणोऽतिसारे यदभिहितं पाचनादि तदभिज्ञैः ॥

अत्राप्यनुसंधेयं किन्तु विशेषः क्वचित्तत्रे ॥

अर्थ—अतिसारवालेको अतिसाररोगमें जो विद्वान् वैद्योंने पाचनादि कहे है वो सब इस संग्रहणीरोगमेंभी देना चाहिये तथा किसी २ तत्रमें जो विशेष औषध कही है वो देवे ॥

तक्रसेवन ।

दुःसाध्योऽग्रहणीरोगोभेषजैर्नैवशाम्यति ॥ सहस्रशोपिविहि

तैर्विनातक्रस्यसेवनात् ॥ दोषधातुवलापेक्षोऽग्रहण्यांतक्रमापिवेत् ॥

अर्थ—संग्रहणी रोग दुःसाध्य है वह हजारों औषधोंके सेवन करनेपर भी शांत नहीं होता अतएव दोष, धातु और बल इनके सामर्थ्यके अनुसार छाँडका सेवन करे, क्योंकि विना तक्र(छाँड) सेवन करनेके ग्रहणीरोग शांत नहीं होवे ॥

तक्रसेवन ।

ग्रहणीरोगिणांतक्रंसंग्राहिलघुदीपनम् ॥ सेवनीयंसदागव्यंत्रिदोष

शमनंहितम् ॥ तक्रंचमधुरंशुंठीचूर्णयुक्तंपिवेत्सदा ॥ शनैःशनैर्ह-

रेदन्नंतक्रंतुपरिवर्धयेत् ॥ तक्रमेवयथाहारोभवेदन्नविवर्जितः ॥

तक्रसात्स्म्यंयथाकुर्यान्नैवात्रंतत्रभक्षयेत् ॥ बुभुक्षायांपिपासा-

यांपिवेत्तक्रंसनागरम् ॥ मौनंचकुर्याद्बहुशोनकुर्याद्बहुभाषणम् ॥

नकुर्यान्मैथुनंतक्रपानेक्रोधंविबर्जयेत् ॥ एवंयःसेवतेतक्रंग्र-

हणीतस्यनश्यति ॥ शीघ्रमेवनसंदेहःश्रीर्यथानृतकारिणः ॥

अर्थ—संग्रहणीवाले रोगीको छाँड पाना लघु और दीपन है । गौरी छाँड त्रिदोष नाशक, तथा हितकारी है, इसमें सोंठका चूर्ण मिलायके पीवे और धीरे २ क्रमसे अन्नको घटाता जाय और छाँडको बढ़ाता जावे, इस प्रकार करते २ घेवल छाँड मात्र रह जावे अन्न सर्वथा छूट जाय वहाँ तक करे। इसपर अन्न न खाय, जब २ भूख और प्यास लगे तभी २ सोंठका चूर्ण डालके छाँड पिला

नी चाहिये, और जहांतक होसके मौन रहे, बहुत बोलना इसपर निषेध है तथा छाँछ पीने वालेको भैयुन करना तथा क्रोध करना वर्जित है, इस प्रकार छाँछ पीनेसे शीघ्र संग्रहणी रोग नाश होवे ॥

दूसराप्रकार ।

वातेम्लसैधवोपेतापित्तेस्वादुसर्शकरम् ॥ पित्तेत्तक्रकफेचापि
क्षारत्रिकटुसंयुतम् ॥ हिंगुजीरयुतंघोलसैधवेनावधूलितम् ॥
ग्रहण्यशौतिसारग्रंभवेद्रातहरंपरम् ॥

अर्थ—वातसंग्रहणीपर खट्टी छाँछमें सैधानिमक डालके देवे । पित्तकी संग्रहणीपर मिष्ट छाँछमें सपेद बूरा वा सपेद खाँड मिलायके पीवे । कफकी संग्रहणीमें क्षार, तथा त्रिकटु डालके देवे, और हींग, जीरा, तथा सैधानिमक मिलायके दहीकी मर्था हुई छाँछ देवे तो यह संग्रहणी, बवासीर, अतिसार और वायु इनको नाश करे ॥

तक्रयोग्यगौ ।

चारयेद्विपिनेदोग्नीलताशाद्रलसंकुले ॥ पीतांभसंगतायासां
कामगांतांगृहंनयेत् ॥ दुग्ध्वादुग्धमुपादद्यात्ततस्तक्रेकृते
कृती ॥ अशृतंतद्धितंवाते पित्तोकिंचिच्छृतंस्मृतम् ॥ सन्निपा
तरुजिश्चेप्मण्यपिपादोनसंसृते ॥

अर्थ—जिस गौका तक्र (छाँछ) बनाना हो उसको जिस वनमें अनेकप्रकारकी लतापता (वनस्पति) हो उसमें चरावे फिर सायंकालके समय जल पीके और परिश्रम दूर होगया हो उसको उसकी इच्छा पूर्वक धीरे २ घरमें लावे, फिर उसका दूध दुहके छाँछ बनानेकी विधिसे तक्र (छाँछ) बनावे । वादीके रोगमें कच्चे दूधको जमायके छाँछ बनावे, पित्तके रोगमें कुच थोडासा औ टायके छाँछ बनावे, और सन्निपातके रोगमें तथा कफके विकारमें एक हिस्सा दूध जल जावे तब छाँछ बनावे ॥

पक्व और अपक्व तक्रकेगुण ।

तक्रमामंकफकोष्ठे हन्तिकंठकरोतिच ॥

पीनसश्वासकासादौपक्वमेवावशिष्यते ॥

अर्थ—रूची छाँछ कोंठके कफको नष्ट करे और कंठमें कफको करे है, तथा पीनस, श्वास, खांसी, इनमें पक (पकी) छाँछ देनी चाहिये ॥

ज्वालालिंगरस ।

शुद्धं सूतं मृतं स्वर्णमरिचं तु त्थकंसमम् ॥ ज्वालामुख्याग्निजैर्द्रवैर्जलं मंदं विपाचयेत् ॥ दिनैकं मर्दयेत् त्वल्वे गुंजामात्रं च भक्षयेत् ॥

ज्वालालिंगरसो नाम त्रिदोषे योजयेत्सदा ॥ कर्पकं वह्निमूलं तु तक्रैपि द्वापिवेदनु ॥ तक्रारिष्टयुतं पथ्यं शाल्यन्नं भक्षयेत्सदा ॥

अर्थ—शुद्धपारा, सुवर्णकी भस्म, कालीमिरच, और नीला थोथा, ये समान भाग लेंवे सबको खरलकर ज्वालामुखी, और चीतेकी रससे मंदाग्नि पचन करे फिर एक दिन खरल करे (इससेसे एकरती त्रिदोषपरदेवे ऊपरसे चीतेकी जड़की छाँछमें पीसके वह १ तोले छाँछ पीनेको देवे तथा पथ्यमें छाँछ और भात और मद्य देय तो यह त्रिदोषजन्य संग्रहणीको नष्ट करे ॥

ग्रहणीकपाटरस ।

तारमौक्तिकहेमानिसाराश्चैकैकभागिकाः ॥ द्विभागोगंधकः सूतद्विभागो मर्दयेद्विपक्व ॥ कपित्थस्वरसैर्गाढं मृगशृंगेतु तत्क्षिपेत् ॥ पुटेन्मध्यपुटेनैव तत उत्तृप्त्यमर्दयेत् ॥ बलारसैः सतवेळमपामार्गरसैस्त्रिधा ॥ मापमात्रं रसो देयो मधुना मरिचैस्तथा ॥ हन्यात्सर्वानतीसारान् ग्रहणीं सर्वजामपि ॥ कपाटो ग्रहणीरो-गेरसोयं वह्निदीपनः ॥

अर्थ—रूपेकी भस्म, मोतीकी भस्म, सुवर्णभस्म, कांतलोहकी भस्म, ये प्रत्येक एक एक तोले लेंवे तथा गंधक २ तोले लेंवे और पारा ३ तोले, इन सबको एकत्र कर के धूपे रसमें खरलकर हरणकें सींगमें भरके मध्यम पुटेमें धरके फूंक देंगे, जब स्थांग क्षीतल होजावे तब निफालके रंगेटीके रसकी सात भावना देवे तथा आंगाके रसकी तीन भावना देय तो यह (ग्रहणी कपाटरस) तयार हो, इससेसे १ मास रस शत तथा कालीमिरचोका चूर्ण इनके साथ देवे तो संपूर्ण अतिसार और सन्निपातात्मक संग्रहणी इनका नाश करे तथा अमिकों दीपन करे ॥

दूसरा प्रकार ।

रसेन गंधातिविपाभयाभ्रं दशत्रयं मोचरसं वचाच्च ॥

जयाचजंवीररसेनपिष्टःपिंडीकृतःस्याद्ग्रहणीकपाटः ॥

अर्थ—शुद्धपारा, शुद्धगंधक, अतीस, हरड और अभ्रकभस्म ये प्रत्येक दश २ तोले लेवे और मोचरस, वच और भांग ये प्रत्येक तीन २ तोले लेय सबको एकत्र कर खरलमें डाल नीचूके रसमें घोटके गोली बनावे इसको (ग्रहणीकपाटरस) कहते हैं, यह संग्रहणीरूप दरवाजोंके बंदकरनेको किवाड रूप है ॥

तीसराप्रकार ।

शुद्धैःकर्कवराटकैर्गणनयाभल्लातकातत्समान्घोतान्वव्वुलकं-
टकैर्लघुपुटैस्तस्यांघ्रिभागस्यच॥ लेलीतेनसमंविचूर्ण्यजयथा-
सप्तानुभाव्यंशिवप्रोक्तोयंग्रहणीकपाटकरसश्चैवल्लकः स्वौपधैः ॥

अर्थ—उत्तम सपेद बडी २ कौडी लेवे, जितनी कौडी होवे उन्हींके समान भिलाये लेय, उनकी चबूलके कांटोंसे छेदकर लघुपुटमें उनका तेल निकास लेवे इसप्रकार भिलाएका निकालाहुआ तेल चतुर्धाश ले, तथा गंधक कौडी-योंकी बराबर लेवे इन सबको एकत्र खरल करे और इसमें सात पुट भांगकी देवे तो यह (ग्रहणीकपाट) शिवका कहा हुआ अनुमानसे तीन वल्ल देवे तो संग्रहणीको दूर करे ॥

वज्रकपाटरस ।

मृतसूताभ्रकंगंधयवक्षारंसटकणम् ॥ अग्निमंथवचांकुर्यात्सूत
तुल्यानिमान्सुधीः ॥ ततो जयंतीजंवीरमृगद्रावैर्विमर्दयेत् ॥
त्रिवासरंततोगोलंकृत्वासंशोप्यसाधयेत् ॥ लोहपात्रेशरावेचद-
त्वोपरिचमुद्रयेत् ॥ अधोवह्निशनैःकुर्याद्यामार्धततउद्धरे-
त् ॥ रसतुल्यांप्रतिविपांदद्यान्मोचरसस्तथा ॥ कपित्थविज
याद्रावैर्भावयेत्सप्तधापृथक् ॥ धातकींद्रयवामुस्तालोध्रविल्व
गुडूचिका ॥ एतैर्द्रवैर्भावयित्वावल्लकैकंतुशोपयेत् ॥ रसंवज्र
कपाटाख्यंमापैकंमधुनालिहेत् ॥ वह्निशुंठीविडंबिल्वंलवणं
चूर्णयेत्समम् ॥ पिवेदुष्णांबुनाचानुसर्वजांग्रहणींहरेत् ॥

अर्थ—पारेफी भस्म, अभ्रक भस्म, गंधक, जवाखार, सुहागा, अरनी और वच ये प्रत्येक समान भाग लेवे चूर्ण करे उसमें भांग, नीचू और भांगरा इनके

रसमें तीन दिन खरल करे । फिर इसका गोला करके धूपमें सुखाय ले फिर इसको लोहके पात्रमें अथवा शरावसंपुटमें रखके मुद्रा करे फिर इसको अमिपर चढायके चार घडी पचन करावे फिर उतारके संपुटमेंसे औषधोंको निकाल समान भाग अतीसका चूर्ण और मोचरस मिलायके कैथ और भांगके रसकी सात २ भावना देवे पश्चात् धायके फूल, इन्द्रजौ, नागरमोथा, लोध, वेलगिरी और गिलोय इनके कोठमें अथवा इनके रसमें एक एक भावना देवे फिर २ अथवा ३ रत्तीकी गोलियां बनावे तो यह (वज्रकपाटरस) तयार होवे, यह एक मासे रस शहतसे देय और इसके ऊपर चीता, सोंठ, वायविडंग, वेलगिरी और निमक इनका चूर्ण कर गरम जलसे पीवे तो सर्व प्रकारकी संग्रहणीको नष्ट करे ॥

ग्रहणिकामदवारणसिंह ।

सुरभिपारदाहिंगुलचित्रकान्गगनभृष्टसुटंकणजातिकान् ॥
 कनकबीजमथोतिविपाकटुत्रयहरीतकिभस्मसुदीप्यकान् ॥
 गरलविल्वकालिगकपित्थकान्नलदमोचकदाडिमधातकी ॥
 जलदशाल्मलिपिच्छयुतान्समान्कनकसाम्यमफेनमिदं दृढम् ॥
 कनकपत्ररसैःपरिमर्दयेन्मरिचमानवटीमधुसंयुता ॥ विनिहरेद्ब्र
 हणीगदमुत्कटंज्वरयुतामसतींचविपूचिकाम् ॥ अग्निमांघ-
 मथशूलविवंधंगुल्मशूलमथपांडुममंदम् ॥ सरुधिराममतीव-
 समुत्कटंग्रहणिकामदवारणसिंहः ॥

अर्थ—शुद्धपारा, शुद्ध हिंगुल, चीता, अभ्रकभस्म, भुना सुहागा, शुद्ध धतूरेके बीज, अतीस, सोंठ, मिरच, पीपल, जंगीहरड, आरनेउपलोंकी राख, अजवायन, सिंगिया विष, वेलगिरी, इन्द्रजौ, कैथ, नेत्रवाला, मोचरस, अना-
 रकी छाल, धायके फूल, नागरमोथा, सेमरके फूल, धतूरा और अफीम ये
 समान भाग लेवे सबको धतूरेके पत्तोंके रससे खरल करे कालीमिरचके समान
 गोली बनावे १ गोली शहतसे देवे तो ज्वरयुक्त संग्रहणी, ट्टृविपूचिका, मंदाभि
 शूल, अनेक प्रकारके गोला, तीव्र पांडुरोग और रक्तस्रावी आमका रोग इन
 सबको नाश करे अतएव इसको (ग्रहणिकामदवारणसिंह) कहते हैं ॥

पारदादिवटी ।

पारदगंधकंतरामृतंचानुशुत्वकम् ॥ त्रिफलात्रिसुगंधीचचि-

त्रकोशीररेणुकाः ॥ रजनीद्रयसंयुक्तसंपिष्यवटकीकृतम् ॥

ग्रहण्यष्टविधंशूलंशोथातीसारनाशनम् ॥

अर्थ—पारा, गंधक, रूपेकी भस्म, विष, तामेकी भस्म, त्रिफला, त्रिसुगंध, चीता, नेत्रवाला, पित्तपापडा, हलदी और दारुहलदी ये सब एकत्र करके घोंटे फिर गाढा होनेपर गोली बनाय लेय तो यह संग्रहणी, आठ प्रकारका शूल रोग, मूजन और अतिसार इनका नाश करे ॥

सज्जीक्षारादियोग ।

सर्जिकायवशूकंवाविजयातिविपासमम् ॥ दीप्यकंपारदंगंधं

निंबुनारेणभावयेत् ॥ मापार्धमधुनादेयंसितयावाघृतान्वितम् ॥

अनुदद्याद्ग्रहण्यातिज्वरातीसारशांतये ॥ सशूलशोथसहितां

ग्रहण्यातिप्रणाशयेत् ॥

अर्थ—सज्जीखार, जवाखार, भांग, अतीस, अजमायन, पारा और गंधक ये सब औषध समान भाग लेवे सबका एकत्र चूर्ण करके नींबूके रसकी भावना देवे, इसमेंसे ४ रत्ती रस शहतमें मिलायके देवे और ऊपरसे खांड और घी, मिलायके भक्षण करे तो यह योग संग्रहणी और ज्वर, अतिसार, शूल और मूजन इन करके युक्तसंग्रहणीको नाश करे ॥

पारदादिवटी ।

दग्ध्वावराटकान्पीतान्त्र्यूपणंटकणविपम् ॥ गंधकंशुद्धसूतं

चसमंजंवीरजैर्द्रवैः ॥ मर्दयेद्भक्षयेन्मापंमरीचाज्यलिहेदनु ॥

निहंतिग्रहणीरोगान्पथ्यंतक्रौदनंहितम् ॥

अर्थ—पारा, गंधक, रूपेकीभस्म, सिंगियाविष, ताम्रभस्म, त्रिफला, त्रिसुगंध, चीतेकी छाल, पीलेरंगकी कौडी लेकर अग्निमें राख कर ले, उस कौडीकी राखके समान, सोंठ, मिरच, पीपल, सुहागा, विष, गंधक और पारा ये समान भाग लेवे इनको नींबूके रसमें खरल कर इसमेंसे १ मास रस काली मिरच और घीके साथ देवे पथ्यमें छाँछ भात देय तो संग्रहणीका नाश करे, तथा ज्वरप्रकरणमें व्याधिगजकेसरी रस कहा है उसको भी देवे ॥

सुवर्णरसपर्पटी ।

शुद्धसूतंपलमितंतुयींशस्वर्णसंयुतम् ॥ मर्दयेन्निंबुनारेणयावते

कत्वमाप्नुयात् ॥ प्रक्षाल्योष्णांबुनापश्चात्पलमात्रेसुगंधके ॥
 द्रुतेलोहमयेपात्रेवादरानलयोगतः ॥ प्रक्षिप्यचालयेल्लौह्यामं-
 दंमंदंविभक्तयुक्तं ॥ ततःपाकंविदित्वातुरंभापत्रेविनिःक्षिपेत् ॥
 गोमयस्थेतदुपरिरंभापत्रेणयंत्रयेत् ॥ शीतंतच्चूर्णितंगुंजाक्र-
 मवृद्धयानिपेवयेत् ॥ मापमात्रंभवेद्यावत्ततोमात्रानवर्धयेत् ॥
 सक्षौद्रिणोपणेनैवलेहयेद्भिपगुत्तमः ॥ ग्रहणीहंतिशोपंचसुवर्णर
 सपर्पटी ॥ सद्योवलकरीशुक्रवर्धनीवह्निदीपनी ॥ क्षयकास
 श्वासमोहशूलतीसारपांडुनुत् ॥

अर्थ—शुद्धपारा ४ तोले और सुवर्णके बर्क १ तोले एकत्र करके नीचूके रससे खरल करे, जब मिलके एकरूप होजावे तब इसको गरम जलसे धोयकर इसमेंसे चार तोले शुद्ध गंधक डालके लोहेके पात्रमें बेरकी अग्निपर रखके पतली करे उसमें शुद्ध सुवर्णके पत्र और पारा मिलायके लोहकी कलछीसे धीरे २ चलाकर जब परिपक्व होजावे तब गोवरमें केलाका पत्ता बिछाय उस-पर उसको ढाल देवे और तत्काल दूसरे पत्तेसे ढककर गोवरकी पोटलीसे दाव देवे, जब शीतल होजावे तब निकास लेवे यह पपडीके माफिक होजावेगी, इसमेंसे १ रत्तीसे लेकर छःरत्ती पर्यंत बलावल देखकर वैद्य रोगीको देय तथा शहत और त्रिकुटाके चूर्णमें मिलायके लेवे तो संग्रहणी, शोष, क्षय, रांसी, श्वास, प्रमेह, शूल, अतिसार और पांडुरोग इनकी नाश करे तथा यह सुवर्णप-पर्पटी रस तत्काल बल, शुक्र और अग्निको बढ़ावे है ॥

पर्पटी ।

शुद्धपारदगंधाभ्यांकृतापर्पटिकानृणाम् ॥

निहंतिग्रहणीक्षौद्रयुक्तांपथ्यभुजांभृशम् ॥

अर्थ—शुद्धपारा और गंधक इन दोनोंकी कजली कर पर्पटी करके शहतके साथ भक्षण करे तो यह संग्रहणीका नाश करे इस पर्पटीके सेवन करनेवालेको पथ्य करना चाहिये ॥

ग्रहणीगजकेसरीरस ।

गंधपारदमभ्रकंचदरदंलोहंचजातीफलंविल्वंमोचरसंविपंप्रति
 विपंव्योपंतथाधातकी ॥ भ्रष्टामप्यभ्यांकपित्थजलदोदीप्या

नलौदाडिमंटकाद्रस्मकालिंगकात्कनकजंवीजंचयक्षेक्षणम् ॥
 एतत्तुर्यमफेनमेतदखिलंसंमर्द्यसंचूर्णयेद्भूतूरच्छदजैरसैः सुम-
 तिमान्कुर्यान्मरीचाकृतिम् ॥ दत्तासाग्रहणीगदंसरुधिरंसामंस
 शूलंचिरातीसारंविनिहंतिजूर्तिसहितांतीत्रांविषूचीमपि ॥ सा
 ध्यासाध्यमपिस्वयंपरिहरेदुक्तानुपानैरपिनाम्नातुग्रहणीमतंग-
 जमदध्वंस्येपकंठीरिवः ॥

अर्थ—गंधक, पारा, अश्रकभस्म, हिंगुल, लोहभस्म, जायफल, बेलगिरी, मोचरस, सिंगियाविष, अतीस, सोंठ, कालीमिरच, पीपल, धायके फूल, भुनी-
 हुई हरड, कैथ, नागरमोथा अजमायन, चीतेकी छाल, अनारदाना, कुडाकी
 छालकी राख १ तोले, धतूरेके बीज तथा लताकरंज ये समान भाग लेवे और
 अफीम चार भाग ले सबको एकत्र खरल कर धतूरेके रससे मिरचके समान
 गोली बनावे इसके देनेसे संग्रहणी, रक्त, आम, शूल, बहुत दिनोंका अतिसार
 ज्वर, विषुविका (हैजा) तथा साध्यासाध्य संग्रहणी इन सबका नाश करे
 इस रसको (ग्रहणीगजकेसरी) रस कहते हैं ॥

अग्निसुतरस ।

भागोदग्धकपर्दकस्यचतथाशंखस्यभागद्वयंभागोगंधकसूत
 योर्मिलितयोःपिष्टामरीचादपि ॥ भागस्यत्रितयंनियोज्यस
 कलंनिवूरसेचूर्णितंनान्नावाहिसुतोरसोयमचिरान्माद्यंजयेद्वा-
 रुणम् ॥ घृतेनखंडैःसहभक्षितोसौक्षीणान्नरानाशुसमीकरोति ॥
 समागधीचूर्णघृतेनलीढोनरःप्रमुंचेद्ग्रहणीविकारात् ॥ शोष
 ज्वरारोचकशूलगुल्मान्पांडूदराशांग्रहणीविकारान् ॥ तक्रानु
 पानोजयतिप्रमेहान्युत्त्याप्रयुक्तोग्निसुतोरसेंद्रः ॥

अर्थ—कौडीकीभस्म १ भाग, शंखभस्म २ भाग, गंधक और पारा दोनों
 मिलाकर १ भाग, कालीमिरचका चूर्ण ३ भाग ले सबका एकत्रित चूर्ण कर नाँवूके
 रसमें खरल करे, यह अग्निसुत रस युक्तिके साथ घी और मिश्रीके संग सेवन
 करनेसे बहुत दिनोंकी मंदाग्नि, क्षीणता इनका नाश करे तथा पीपलके चूर्ण
 और घी इनके साथ सेवन करनेसे संग्रहणीविकार तथा छाँछके साथ शोष,
 ज्वर, अरुचि, शूल, गोला, पांडुरोग, उदर, बवासीर, संग्रहणी विकार इनका नाश
 करे इसको प्रमेहपर भी वैद्य अपनी युक्तिसे देवे तो प्रमेहको दूर करे ॥

ग्रहणीकपाटरस ।

पारदाद्विगुणोगंधस्ताभ्यांतुल्यंकटुत्रयम् ॥ अजाजीटकणं
धान्यांहंगुजीरयवानिकाः ॥ प्रत्येकं द्विगुणं सूताद्रुचकंचचतुर्गु
णम् ॥ सर्वेषांचसमाज्ञेयादग्धासुज्ञैर्वराटिका ॥ सर्वमेकीकृतंचूर्णं
मापद्वयमितंततः ॥ तत्रेणालोड्यमतिमान्भक्षयेत्सततंनरः ॥
ग्रहणीकपाटो ह्येपहितः स्याद्ग्रहणीगदे ॥

अर्थ—पारा १ तोले, गंधक २ तोले, त्रिकुटा ३ तोले, जीरा, सुहागा, धनिया, हींग, कालाजिरा और अजमायन ये प्रत्येक दो दो तोले लेवे और पांगा निमक ४ तोले तथा इन सबके चूर्ण समान कौडीकी भस्म लेके ये संपूर्ण एकत्र खरलकरे तो यह ग्रहणीकपाटरस तैयार हो, इसमेंसे दो मासे रस छालके साथ पीवेतो यह संग्रहणीरोगका नाश करे ॥

सूतादिगुटी ।

सूतकंगंधकं लोहं विपंचित्रकपत्रकम् ॥ विडंगरेणुकामुस्तमेला
ग्रंथिककेसरम् ॥ फलत्रिकं त्रिकटुकं शुल्बभस्मतथैव च ॥
एतानिसमभागानि दीयते द्विगुणो गुडः ॥ कासेश्वासेक्षये गुल्मे प्र
मेहे विपमज्वरे ॥ लूतायां ग्रहणीमांघ्रेशूले पार्श्वामये तथा ॥
हस्तपादादि रोगेषु गुटिकेयं प्रशस्यते ॥

अर्थ—पारा, गंधक, लोहभस्म, सिंगियाविप, चीतेकी छाल, पत्रज, घायविडंग, पित्तपापडा, नागरमोथा, इलायची, पीपरामूल, नागकेशर, त्रिफला, त्रिकुटा और ताम्रभस्म ये समान भाग लेवे और गुड इसमें दो भाग मिलावे सबको फूट पीस गोली बनावे यह खांसी, श्वास, क्षय, गोला, प्रमेह, विपमज्वर, लूता, संग्रहणी, मंदाग्नि, शूल कूखका रोग और हाथ पैरोंका रोग इनपर देवे यह परमोत्तम है ॥

कणादिलेह ।

कणानागरपाठाभिस्त्रिवर्गद्वितयेन च ॥ विल्वचंदनद्विवैः स
वांतीसारनुन्मतः ॥ सर्वोपद्रवसंयुक्तामपि हंति प्रवाहिकाम् ॥
नानेन सदृशो लेहो विद्यते ग्रहणीहरः ॥

अर्थ—पीपर, सोंठ, पाठ, त्रिफला, त्रिकुटा, वेलगिरी, चंदन, और नेत्रवाला,

इनका अवलेह बनायके सेवन करे तो संपूर्ण उपद्रवयुक्त, संग्रहणी और प्रवाहिका इनको नाश करे इससे बढिया दूसरा प्रयोग संग्रहणीरोगपर नहीं है ॥

अभ्रकादिवटी ।

रसगंधविपंव्योपंटकणलोहभस्मकम् ॥ अजमोदाहिफेनंचसर्व
तुल्यंमृताभ्रकम् ॥ चित्रकत्वक्कपायेणमर्दयेद्याममात्रकम् ॥
मरीचाभांवटीकृत्वाखादेदेकांजयेदसौ ॥ चतुर्विधांचग्रहणीं
रहस्यंतदिदंस्मृतम् ॥

अर्थ—शुद्धपारा, शुद्धगंधक, सिगियाविष, सोंठ, मिरच, पीपल, सुहागा, लौहकी भस्म, अजमोद और अफीम ये समान भाग ले सबकी बराबरकी अभ्रक भस्म लेवे, सबको एकत्र कर चीता, दालचीनी इनके काटेमें एक प्रहर खरल करे फिर काली मिरचके समान गोली बनावे १ गोली नित्य खाय तो चार प्रकारकी संग्रहणीका नाश करे यह गुप्त प्रयोग कहा है ॥

सूतराज ।

रसगंधाभ्रकाणांचभागानेकद्रिकाष्टकान् ॥ संचूर्ण्यसर्वरोगेषु
युंज्याद्बल्लचतुष्टयम् ॥ ग्रहणीक्षयगुल्मार्शोमेहधातुगतज्वरान् ॥
निहंति सूतराजोयमंडलस्यचसेवनात् ॥

अर्थ—शुद्धपारा १ तोले, शुद्धगंधक २ तोले, अभ्रक भस्म ८ तोले, इस प्रमाणसे लेकर सबकी कजली करे फिर इसमेंसे ४ बल्ल अर्थात् ८ रत्ती एक मंडल पर्यंत सेवन करे तो यह सूतराज संग्रहणी, क्षय, गोला, अर्श (बवासीर) प्रमेह और धातुगतज्वर इन सबको नाश करे ॥

पूर्णचंद्ररसेंद्र ।

सूतंगंधंचाश्वगंधागुडूचीयष्टीतोयैर्मर्दयेदेकवस्त्रम् ॥ क्षुद्रंशंखमौ
क्तिकंलोहकिट्टंभस्मीभूतंसूततुल्यंतुदद्यात् ॥ भूकृष्णार्द्धैर्वा
सरसंविमर्द्यगोलंकृत्वाभूधरेतंपुटेच्च ॥ चूर्णकृत्वानागवल्लीर
सेनदद्यादेतंमर्दयित्वैक्यामम् ॥ मध्वाज्याभ्यांपूर्णचंद्रोरसेंद्रः
पुष्टिर्वीर्यदीपनंचैवकुर्यात् ॥ प्रायोयोज्यःपित्तरोगेग्रहण्यामक्षी
रोगेपित्तजघोलयुक्तम् ॥ स्त्रीणांतापेशाल्मलीनीरयुक्तंयोज्यंचा
ज्यंवाशताह्वाविपकम् ॥

अर्थ-पारा, गंधक, इन दोनोंको असंगंध, गिलोय, और मुलहदी, इनके काठेमें एक दिन खरल करे; फिर छोटे शंख, भोती, और मंडूर, इनकी भस्म पारेके समान मिलायके विदारी कंदके रसमें एक दिन खरल कर उसका गोला बनायके भूधर यंत्रमें रखके फूंक देवे, जब शीतल होजावे तब उसको निकाल वारीक पीस नागर वेलपानके रसमें १ प्रहर खरल करे तो यह पूर्णचंद्रसवनके तयार हो, इसको धी और शहतसे सेवन करे तो पुष्टता वीर्यको और जठरामि को प्रबल करे इसको पित्तरोग में संग्रहणी और नेत्र रोगमें घोलके साथ देवे स्त्रियों के ज्वर में सेमरके रस से वा शतावरके रस से सिद्ध करे घृतके साथ सेवन करे ॥

दंभ ।

नाभौद्व्यंगुलकादधोर्धशाशिवदंशास्थिमूलैतथा ॥

दाहःप्रज्वलितायसस्यकथितोदंभोग्रहण्यातुरे ॥

अर्थ-संग्रहणी रोगवालेके नाभि (टूटीके) ऊपर दो अंगुलपर तथा नाभि के नीचे अंगुलपर अर्धचंद्राकार और उसीप्रकार वंशास्थि मूलके विषे लोहके टुकड़ेको अग्निमें तपायकर दाग देवे ॥

दूसराप्रकार ।

दंभंताम्रशलाकयाग्रहणिकांलोहस्यवास्वर्णयोर्दैनानाभिरधस्थ-

द्व्यंगुलमितं वस्तिद्वयोर्मध्यगम् ॥ पूयस्त्रावमपथ्यमेवविहितपेयं

जलंशीतलंवातोत्थामपिपित्तजामपिचिराद्द्व्याद्रलासादिकम् ॥

अर्थ-संग्रहणीपर ताम्र, लोह, अथवा सुवर्ण इनकी शलाईसे नाभिके नीचे दो अंगुलपर तथा नाभिके ऊपर दो अंगुलपर, नाभि और वस्ति इनमें दाग देवे और पूयस्त्राव होवे ऐसा पथ्य करे और शीतल जल पीवे तो वातपित्त कफात्मक बहुत दिनोंकी संग्रहणी नाश होवे ॥

सिंहेनपुरीचूर्ण ।

एकःप्रदेयोरुचकस्यभागोह्यधौजमोदस्यचसैधवस्य ॥ शुंठ्या-

स्त्रयोद्वौमरिचस्यभागौचूर्णचतुर्थसितजीरकस्य ॥ तत्रेणपाना

त्कफवातरोगांस्तद्भोजनांतेखलुदीपनाय ॥ सिंहेनराज्ञाक

थितंचूर्णंश्रीहोदराजीर्णविपूचिकासु ॥

अर्थ-संचरानिमक १ तोले, अजमोद ६ मासे, सैंधानिमक ६ मासे, सोंठ घाडकी ३ तोले, कालीमिरच २ तोले, सपेदजीरा ४ तोले सबका चूर्ण करके छौंछके साथ सेवन करे तो कफवातके रोग नष्ट होवे, यदि भोजनके पश्चात् इस का सेवन करे तो अमिको दीपन करेहै; सिंहन राजाने यह चूर्ण कहाहै यह तापतिह्नी, उदररोग, अजीर्ण और विषुचिका इन रोगोंमें देवे तो सबको नष्टकरे ॥

द्वितीयसिंहनपुरीचूर्ण ।

रुचकसैंधवहिंशुयवानिकासमघृताद्विगुणोपणवेतसाः ॥ जरणा
गरसागरसंयुतः पिवतितक्रयुतांचितुर्गुणम् ॥ हरतिमंदहविभुं
जमंजसागुदगदान्द्रहणीमतिदुर्जयाम् ॥ विपमशूलरुजामरुचिं
तथाविविधवारिकृतानखिलामयान् ॥ विरचितंखलुसिंहनभूभु-
जारुचिरचूर्णमिदंकृपयानृणाम् ॥

अर्थ-संचरानिमक, सैंधानिमक, हींग, अजवायन, ये सब समान भाग लेवे, और कालीमिरच एक औषधसे दूनी लेवे, तथा मिरचोंके बराबर अमलवेत लेवे तथा जीरा और सोंठ ये चार २ भाग ले, सबको फूट पीस चूर्ण बनावे, इस को चौगुनी छौंछके साथ पीवे तो मंदापि, गुदाके रोग, दुर्जय संग्रहणी, विपम शूल का रोग, अरुचि, तथा अनेक प्रकार के संपूर्ण जल विकार इन सब रोगोंके यह दूर करे, यह चूर्ण सिंहनराजाधिराजने प्राणियों की कृपा विचार निर्माण करा है, इसीसे यह सिंह पुरी चूर्ण विख्यात है ॥

तृतीयसिंहनपुरीचूर्ण ।

एकांशोरुचकादुभौमरिचतः ॥ शुंब्ध्यास्त्रयोजीरतश्चत्वरोद्धयु
तः समुद्रलवणोभागस्तथासैंधवः ॥ चूर्णसिंहनभूभुजाहिकथि
तंतक्रेणसेसेवितंगुल्मानाहविपूचिकागुदरुजः श्वासानिला-
न्नाशयेत् ॥

अर्थ-संचरानिमक १ पल, कालीमिरच २ पल, सोंठघाडकी ३ पल, सपेद-
जीरा ४ पल, समुद्रलवण २ तोले, सैंधानिमक २ तोले ले सबको फूट पीस
चूर्ण बनावे यह सिंहन महाराजने कहा है इसीसे इसको (सिंहनपुरी) चूर्ण
कहते हैं इसको छौंछके साथ सेवन करे तो गोला, अफरा, विषुचिका (हेजा)
बवासीर, श्वास (दमा) और चादी इन सब रोगोंका नाश करे ॥

लार्इचूर्ण ।

सूतगंधंत्रिकडुकंदीप्यकंजीरकद्वयम् । सौवर्चलसैंधवतुराम

ठेविडमेवच ॥ शक्राशनस्यचूर्णेतुसर्वतुल्यंप्रदापयेत् ॥ संग्रहं
शूलमानाहंहन्यान्नानातिसारजित् ॥

अर्थ—शुद्धपारा, शुद्धगंधक, त्रिकटु (सोंठ, मिरच, पीपल,) अजवायन,
सपेद्र जीरा, कालाजीरा, संचरनिमक, सैधानिमक, हींग, विडानिमक, ये सब औ-
षधी बराबर भाग लेवे और सब औषधोंकी बराबर भागलेवे सबको कूट पीसकर
सेवनकरे तो मलके संग्रहको शूल अफरा और अनेक प्रकारके अतिसारोंको दूर करे

ज्वालामुखचूर्ण ।

शक्राशनंसप्तपलंसितायाः पलत्रयंछिन्नरुहाशताह्वा । तथैवमू-
लंगिरिकर्णिकायाःपलंपलंवैकथितंत्रयाणाम् ॥ सर्वतुचूर्णवरभृं-
गराजद्रवेणचालोडचपुनःपुनस्तु ॥ घर्मेपुसंशोप्यचसप्तवारंनि-
त्यंलिङ्गेत्कर्पप्रमाणकंतत् ॥ वितुल्यसर्पिमंधुभिःसमेतंस्निग्धाम्ल-
सुद्राहितभोजनंच ॥ करोतिवह्निग्रहणीचहन्यात्सामातिसारान-
रुजोविकारान् ॥ कुष्ठामवातंपिट्कान्विसर्पज्वालामुखंनामहितं-
नराणाम् ॥ व्याधीन्समस्तानपिहंतिशीघ्रंयानंत्रभृताञ्जटरोद्भवांश्च ॥

अर्थ—भाग ७ पल, सोंठ, ३पल, गिलोय, सनावर, अपराजिता, ये प्रत्येक
एकएक पल, लेवे सबका चूर्ण करके भांगरे के रमर्षी मात भावना देवे और
प्रत्येक भावना दे देकर घर्मे सुगायल फिर इम चूर्णमें १ तोले प्रमाण नित्य
घी और महत विषम भाग लेकर इसमें चूर्ण मिलाय के सेवन करे इसके ऊपर
चिहने, गट्टे, मूंगके पदार्थ इत्यादि दित भोजन करे तो यह जटरापि को घटावे
संप्रदर्षी, आम्रातिमार, रुषिर के विहार, कुष्ठरोग, आमयात्र, पिडका, विषम
रोग, तथा आंतडेंके और उदर रोगों को यह ज्वाला मुख चूर्ण शीघ्र दूर करे ॥

नारायणचूर्ण ।

गुडूर्वावृद्धदारुचकुटजस्यफलंनथा ॥ विलंचानिविपंचवभृं
गराजंचनागरम् ॥ शक्राशनस्यचूर्णचसर्वमेकत्रमेलयेत् ॥ चूर्ण-
मेनत्ममंघ्राद्यंकुटजस्यत्वचोऽपिच ॥ गुडेनमधुनावापिलेदये-
द्रिग्नजांघः ॥ शीघ्रं गतमनीमांश्चिग्नं दुर्जनंनया ॥ ज्वरं रु-
जं च ॥ मंदानलंप्रमेहंचशूलंचापि-

त्रिदोषजम् ॥ अरुचिगुदजंचैवहन्यादेवनसंशयः ॥ एतन्नाराय
णंचूर्णश्रीनारायणभाषितम् ॥

अर्थ-गिलोय, विधायरो, इन्द्रजौ, वेलगिरी, अतीस, भांगरा, सोंठ घाडकी, और भांग ये सब समान भाग ले और सब चूर्ण की बराबर कूड़ाकी छाल लेंवे, सबका चूर्ण करे इस चूर्ण को गुडमें मिलायके सेवन करे अथवा सहतके साथ चूर्ण करे तो सूजन, रुधिरातिसार, धोर और दुर्जय अतिसार, ज्वर, तृष्णा, खांसी, पांडुरोग, हलीमक, मंदाभि, प्रमेह, त्रिदोष जन्य शूल, अरुचि, गुदाके रोग, इन सब को यह दूर करे यह नारायण चूर्ण श्रीनारायण का कहा हुआ है ॥

चित्रावररस ।

शुद्धंसूतंमृतंचाभ्रंगंधकंमर्दयेत्समम् ॥ लोहपात्रेघृताभ्यक्तेक्षणं
मृद्भिनापचेत् ॥ चालयेल्लोहदण्डेन अवतार्यविभावयेत् ॥ त्रिदि
नंजीरकक्काथैर्मापैकंभक्षयेत्सदा ॥ ग्रहणीशांतिमायातिसर्वा
पद्रवसंयुता ॥ रसश्चित्रावररोनामग्रहणीग्रहहन्मतः ॥ शमयेदनु
पानेन आमशूलंप्रवाहिकाम् ॥

अर्थ-शुद्धपारा और गंधक दोनोंकी कजली तथा अभ्रकभस्म ये सब पदार्थ लोहेके पात्रमें अभ्रपर रस मंदर अभ्रसे पचावे, तथा लोहेके मूसलेसे घोटता जावे, फिर इस को उतार के तीनदिन जारे के काठे का भावना देवे तो यह (चित्रावररस) बनके तयार हो। यह अनुपान के साथ एक मासे खाये तो संपूर्ण उपद्रव सहित संग्रहणी को आमशूल और प्रवाहिका का नाश करे ॥

अगस्तिमूतराजरसः ।

रसवलिसमभागंतुल्यहिं गूलयुक्तं द्विगुणकनकबीजनागफेनेन
तुल्यम् ॥ सकलविहितचूर्णं भावयेद्भ्रंगनीरैर्ग्रहणिजलधिशोषे
सूतराजोह्यगस्तिः ॥ त्रिकटुकमधुयुक्तोसर्ववांतिचशूलंकफप
वनविकारंवह्निमांघंचनिद्राम् ॥ घृतमरिचयुतोऽयंगुजमात्रः
प्रवाहीहरतिपडतिसाराञ्जोरजाजीफलैः ॥

अर्थ-पारा, गंधक और हींगलू ये तोले २ लेंवे, धनूरे के बीज और अफीम ये दो दो तोले लें, सबकी एकत्र कर के भांगरे के रस की भावना देवे, यह (अगस्ति मूतराज) सोंठ, मिरच, पीपल और सहत इन के अनुपान से १ रत्ता देय तो

वांति, शूल, कफ, वात संबंधी विकार, मंदाग्नि और निद्रा इनको दूरकरे तथा छःप्रकार के अतिसारपर जीरा और जायफलके साथ देना चाहिये ॥

कनकसुंदररस ।

हिंगुलंमरिचंगंधपिप्पलीटंकणंविषम् ॥ कनकस्यचवीजानिस
मांशंविजयाद्रवैः ॥ मर्दयेद्याममात्रंतुचणमात्रावटीकृता ॥ भक्ष
णाद्ग्रहणींहंतिरसःकनकसुंदरः ॥ अग्निमांद्यंज्वरंतीव्रमतीसा
रंचनाशयेत् ॥ दध्यंत्रंदापयेत्पथ्यंतथातक्रौदनंचरेत् ॥

अर्थ—हींगलू, कालीमिरच, गंधक, पीपल, सुहागा, हिंगियाविष और धतूरेके बीज सबको समान भाग लेकर भाँगेके कोठेमें १ प्रहर खरलकर चनेके बराबर गोली बनावे तो यह संग्रहणी, मंदाग्नि, ज्वर और अतिसार इनको नाश करे । इसपर दही भात, अथवा छौंछ भात ये पथ्य है ॥

क्षारताम्ररस ।

शंखक्षारार्कभूतिचवराटलोहभस्मकम् । अयोमलयवक्षारंटं
कणंक्षारमेवच ॥ त्रिकटुं सैधवंतुल्यंभृगतोयेनमर्दयेत् ॥ आट
रूपरसैर्मर्द्यमाद्रिकस्वरसेनच ॥ चणमात्रावटीकृत्वारसोऽयंक्षार
ताम्रकः ॥ श्वासेकासेप्रतिश्यायेपुराणज्वरपोडिते ॥ मंदाग्रौग्रह
णीदोषेत्वनुपानंयथोचितम् ॥ सेवयेत्सप्तरात्रेणनाशयेन्नात्रसंश
यः ॥ चिरकालानुबंधेचसेवयेन्मंडलावधि ॥ तत्तद्व्याधिहरंप
थ्यं नियमेनसमाचरेत् ॥

अर्थ—शंखकी भस्म, जवाखार, तामेकी भस्म, कौडीकी भस्म, लोहभस्म, मडूर, जवाखार, सुहागा, सोंठ, मिरच, पीपल, सैधानिमक, ये सब समान भाग लेवे सबको भाँगेके रससे, अडूसेके रस से और अदरसके रससे पृथक् २ खरल करके चनेके बराबर गोली बनावे यह [क्षारताम्ररस] श्वास, खाँसी, पीनस, जीर्णज्वर, मंदाग्नि और संग्रहणीका दोष, इनपर रोगानुरूप अनुपानके साथ देवे तो सातदिनमें गुण दिसावे यह बहुत काल की व्याधिपर १ मंडल पर्यंत देवे तथा जिस २ व्याधिपर दे उसपर जो जो वस्तु पथ्य कही है वो करनी चाहिये ॥

चित्रकादिगुटी ।

चित्रकंपिप्पलीमूलंद्रौक्षारौलवणानिच ॥ व्योषिंहिग्वजमोदाच

चव्यमेकत्रचूर्णयेत् ॥ गुटिकामातुलुंगस्यदाडिमस्यरसेनवा ॥
कृताविपाचयत्वामं दीपयत्याशुचानलम् ॥

अर्थ—चीतेकीछाल, पीपरामूल, सजीसार, जवाखार, निमक, सोंठ, मिरच, पीपल, हींग, अजमोद, चव्य, इन सबको एकत्र कर कूट पीस विनोरेके रससे अथवा अनारदानेके रससे घोंटकर गोली बनावे, इसको बलाबल विचारके देवे तो यह आमका पाचन करे और मंदाग्निको दीपन करे है ॥

शंबूकयोग ।

दग्धशंबूकसिंधूत्थंतुल्यंक्षौद्रेणलेहयेत् ॥

निष्कैकैकंनिहंत्याशुग्रहणारोगमुत्कटम् ॥

अर्थ—शंखकी भस्म और संधानिमक दोनों समान भाग लेवे चूर्णकर तीन मासे शहतके साथ चाटे तो घोर संग्रहणी रोग दूर करे ॥

कांकायनगुटी ।

पथ्यापंचपलान्येकमजाज्यामरिचस्यच ॥ पिप्पलीपिप्पलीमूलं
चव्यचित्रकनागैः ॥ पलाभिवृद्धैः क्रमशोयवक्षारंपलद्वयम् ॥ भिला
तकपलान्यष्टौसूरणोद्विगुणोमतः ॥ द्विगुणेनगुडैर्नैपावटिका
चाक्षसंमिता ॥ एकैकांभक्षयेत्प्रातस्तक्रममूलं पिबेदनु ॥ वह्नि
तं दीपयत्याशुग्रहणीपांडुरोगजित् ॥ कांकायनेनशिष्येभ्यः
शस्त्रक्षाराग्निभिर्विना ॥ कथितागुटिकाचैपागुदजानांविनाशिका ॥

अर्थ—बड़ीहरद २० तोले, तथा जीरा, मिरच, पीपल, पीपरामूल, चव्य, चित्रक, सोंठ, ये प्रत्येक चार २ तोले बढतीके क्रमसे लेवे, तथा जवाखार ८ तोले, भिलाय ३२ तोले, जमीकंद ६४ तोले और गुड सब चूर्णसे दूना लेवे सबको कूट पीस एक तोले की गोली बनावे इसको प्रातःकाल एक एक देवे ऊपरसे खट्टी छौंछ पिवावे तो अग्निको दीपन करे तथा संग्रहणी और पांडुरोग इनका नाश करे यह कांकायन ऋषिने अपने शिष्यों को शस्त्र कर्म और क्षार कर्म के विना बवासीर और गुदा रोग नाश करने को कहा है ॥

महाकल्याणगुड ।

पिप्पलीपिप्पलीमूलंचित्रकंगजपिप्पली ॥ धान्यकंचविडंगानि
यवानीमरिचानिच ॥ त्रिफलाचाज्योदाचनलिनीजरिकस्तथा ॥

सैधवंरोमकंचापिसामुद्रंरुचकंतथा ॥आरग्वधश्चत्वक्पत्रंसूक्ष्मै
 लचोपकुंचिका ॥शुंठीशक्रयवाश्चैवप्रत्येकंकर्पसंमितम् ॥मृद्धी
 कायापलान्यत्रचत्वारिकथितानिहि ॥ त्रिवृतायाःपलान्यष्टौ-
 गुडस्यार्धपलंतथा ॥तिलतैलंपलान्यष्टौचामलक्यारसस्यतु ॥
 प्रस्थत्रयमिदंसर्वशनैर्मृद्धाग्निनापचेत् ॥उदुंबरंचामलकंवादरंवा
 यथाफलम् ॥ तावन्मात्रमिदंखादेद्भक्षयेद्वायथावलम् ॥ निखि-
 लान्ग्रहणीरोगान्प्रमेहांश्चैकविंशतिम् ॥उरोवातंप्रतिश्यायंदौर्व-
 ल्यंवह्निसंक्षयम् ॥ज्वरानपिहरेत्सर्वान्कुर्यात्कांतिमतिस्वरम् ॥
 यथावलंबद्धितासारक्तपित्तंचविडग्रहम् ॥धातुक्षीणोवयःक्षीणस्त्री-
 पुक्षीणः क्षयाचयः ॥ तेभ्योहितश्चवंध्यायैमहाकल्याणकोगुडः ॥

अर्थ-पीपर, पीपरामूल, चीता, गजपीपर, धनियाँ, वायविडंग, अजवायन
 कालीमिरच, हरड, वहेडा, आमला, अजमोद, कमलगट्टा, जीरा, सैधानिमक,
 साँझरानिमक, समुद्रनिमक, संचरनिमक, विडनिमक, अमलतासका गूदा डाल-
 चीनी, पत्रज, छोटीइलायची, बडीइलायची, सोंठ, इन्द्रजव, ये प्रत्येक औषध
 एक एक, तोले लेवे तथा कालीदास १६ तोले ले, निसोथ ३२ तोले गुड २००
 तोले, तिलोंका तेल ३२ तोले और आमले का रस ६४ तोले इन सबको एकत्र
 करके मधुरी २ आँचपर पचावे, फिर इसमेंसे गूलर, आवला, अथवा वेर
 इतनी बडी बलाबल विचारके गोली बनायके रोगीको देवे तो संपूर्ण संप्रहणी
 के रोग बीस प्रकारके प्रमेह, उरोवात (छातीकी चोट) पीनस, दुबलता,
 मंदाग्नि, संपूर्णज्वर, इनको नष्ट करे इसको थोडी २ शक्तीके अनुसार बढावे
 तो रक्तपित्त, विडग्रंथ, धातुकी क्षीणता, अवस्था की क्षीणता, स्त्री क्षीण और
 क्षय इनपर हितकारी है तथा महाकल्याण गुड वंध्याको हितकारी है ॥

कूप्मांडगुड ।

कूप्मांडानांसुपकानांस्विन्नानानिप्फलत्वचाम् ॥ सर्पिःप्रस्थे-
 पलशतंताम्रपात्रेशनैःपचेत् ॥ पिप्पलीपिप्पलीमूलंचित्रकंगज-
 पिप्पली ॥ धान्यकानिविडंगानिनागरंमरिचानिच ॥ त्रिफला-
 चाजमोदाचकालिगाजातिसैधवम् ॥ एकैकस्यपलंचैकंत्रिवृतौ-
 षौपलानिच ॥ तैलस्यचपलान्यष्टौगुडात्पंचदशैवतु ॥ आम-
 लक्यारसंचात्रप्रस्थत्रयमुदीरितम् ॥ तावत्पाकंप्रकुर्वीतम्

दुनाविह्निनाभिपक्व ॥ यावद्दर्वीप्रलेपःस्यात्तदेनमवतारयेत् ॥
 औदुंबरंचामलकंबदरंवायथावलम् ॥ तावन्मात्रमिदंखादेद्भक्षये
 द्वायथावलम् ॥ अनेनैवविधानेनप्रयुक्तस्यदिनेदिने ॥ निहंतिग्र
 हणरीोगान्कुष्ठमशौभगंदरम् ॥ ज्वरमानाहृद्द्रोगगुल्मोदर-
 विपूचिकाः ॥ कामलांपांडुरोगंचप्रमेहांश्चैकविंशतिम् ॥ वात-
 शोणितवीसर्पदद्रुयक्ष्महलीमकान् ॥ वातपित्तकफान्सर्वा-
 न्कुष्ठान्सर्वान्समाहरेत् ॥ व्याधिक्षीणावयःक्षीणास्त्रीपुक्षीणाश्च-
 येनराः ॥ तेभ्योहितोगुडोयंस्याद्ब्रह्म्यानामपिपुत्रदः ॥ वृष्यो-
 बल्योवृंहणश्चवयःसंस्थापनः परः ॥

अर्थ—उत्तम पकाहुआ तथा लिला और सीजाहुआ पेटके टुकड़े ४०० तोले
 लेवे इन को चौसठ तोले उत्तम घीमें डाल तामेके पात्रमें मंदरअमिसे पचावे
 फिर पीपल, पीपरामूल, चित्तेकीछाल, गजपीपल, धनिया, वायविडंग सोंठ
 मिरच, पीपल, हरड, बहेडा, आवला, अजमोद, कूड़ाकी छाल, जीरा और सें
 धानिमक ये प्रत्येक चार२ तोले ले और निसोय ३२ तोले, और तेल ३२ तोले
 गुड ६० तोले और आवले का रस १९२ तोले सबको एकत्र करके मंदाभि
 पर रखके जबतक कलछीसे लिपटे तबतक पचावे, फिर उतार शीतल करके
 किसी उत्तम पात्रमें भरके रखदेवे, इसमें से गुंलर, आवला अथवा बेर की घरा
 वर बलावल विचार के देय इसी प्रकार नित्य प्रति देनेसे, संग्रहणीरोग, कोठ,
 बवासीर, भगंदर, ज्वर, अफरा, हृदय के रोग, गाला, उदर, विपूचिका, कामला,
 पांडुरोग, इक्कीस प्रकार की प्रमेह, वातरक्त, विसर्प, दाद, खई, हलीमक, वादी-
 के रोग, पित्तके रोग संपूर्ण कफके रोग, संपूर्ण कोठ, इन सब रोगोंको नष्टकरे,
 तथा जो रोगोंसे क्षीण हुए हैं, अवस्था करके क्षीण, स्त्रीसंभोग करके जो क्षीण हैं
 उनको यह प्रयोग परम हितकारी है, तथा बंध्या स्त्रियोंको पुत्रका देनेवाला है
 वृष्य, बलकारी, पौष्टिक, और वयस्थापक (अर्थात् गुडापेका समीप नहीं
 आनेदेवे) ऐसा है ॥

कल्याणगुड ।

पाठाधान्यवान्यजाजिह्वुपाचव्याग्निंसंधूद्रवः सथ्रेयस्यज-

१ यद्यपि प्रमेह रोग बीस प्रकारके हैं परंतु भेदादि ग्रंथोंके अनुसार इक्कीस प्रकारके
 हैं । और किसी के मतसे छत्तीस प्रकार के हैं ॥

मोदकीटरिपुभिःकृत्वाजटासंयुतैः॥ सव्योपैः सफलत्रिकैःसत्रु-
 टिभिस्त्वक्पत्रजैरौपथैः प्रत्येकंपलिकैः सुतैलकुडवैः सार्द्ध-
 त्रिवृन्मुष्टिभिः ॥ सर्वैरामलकीरसस्यतुलयासार्धंतुलार्धगुडः
 संपाच्योभिपजावलेहवदयंप्राग्भोजनाद्भक्ष्यते ॥ येकेचिद्ब्र-
 ह्णीगदाः सगुदजाः कासाः सशोपामयाः सश्वासश्वयथु-
 श्चिरोदररुजः कल्याणकस्ताञ्जयेत् ॥

अर्थ—आमलेकारस ४०० तोले, और गुड २०० तोले, इन दोनों का पाक करके इस पाक में पाठ, धनिया, अजवायन, जीरा, हाऊवेर, चव्य, चित्रक, सैधानिमक, गजपीपल, अजमोद, वायविडंग, पीपरामूल, सोंठ, कालीमिरच, पीपल, हरड़, बहेड़ा, आवला, इलायची, दालचीनी, पत्रज, ये औषध चार २ तोले ले, फिर १६ तोले तेल और चार तोले निसोथ डालके सबको एकत्र करके पचावे जब अवलेह के समान हो जावे तब उतार के चिकने वासन में भरके धर रखे इसको भोजनके पूर्व एक तोले नित्य भक्षण करे इसको कल्याणगुड कहते हैं, यह संग्रहणी, बवासीर श्वास, खाँसी, शोष, सूजन और उदर इन सबको नाश करे ॥

भूनिम्बादिचूर्ण ।

भूनिंबकौटजकटुत्रिकमुस्ततित्ताः कर्पाशकाः सशिखिमूल-
 पिचुद्रयाश्च ॥ त्वक्कौटर्जांपलचतुष्कमितांगुडांभः पतितृ-
 णामिहहरेद्रहणीविकारान् ॥

अर्थ—चिरायता, इन्द्रजौ, सोंठ, कालीमिरच, पीपर, नागरमोथा और कुटकी ये औषध प्रत्येक एक २ तोले लेवे, चीतेकीछाल दो तोले और कुडाकी छाल, १६ तोले इनका चूर्ण एकत्र करके गुडके जलसे भक्षण करे तो संग्रहणी जनित विकार संपूर्ण नाश होवे ॥

अतिविपादिकाढा ।

अतिविपाधनवालकधातकीकुटजदाडिमलोध्रमथोदकी ॥ वि-
 हितमेभिरिदंसलिलंपिवेद्ब्रह्णिकाविजितः प्रसभंनरः ॥
 सर्वज्वरहरंज्ञेयंग्रहणीवेगनाशनम् ॥ अरोचमांघदलनंघातुवर्ध-
 नकारकम् ॥

अर्थ-अतीस, नागरमोथा, नेत्रवाला, धायके फूल, कूडाकी छाल, लोथ और पाठ इनका काढा करके पीवे तो संग्रहणी, सर्वज्वर, अरुचि और मंदाग्नि इनको नाश करे तथा धातुकी वृद्धि करे है ॥

नागरादिकाढा ।

नागरोशीरधनिकायवान्यतिविपाधना ॥

श्रीपण्यौचशृतंचैपांदीपनंपाचनंस्मृतम् ॥

अर्थ-सोंठ, खस, धनिया, अजवायन, अतीस, नागरमोथा, सालपर्णी, पृष्ठपर्णी, इनका काढा दीपन और पाचन है ॥

पुनर्नवादिकाढा ।

पुनर्नवावल्लिजवाणपुंखाविश्वाग्निपथ्याचिरिविल्वविल्वैः ॥

कृतः कपायः शमयेदशेषान्दुर्नामगुल्मग्रहणीविकारान् ॥

अर्थ-साँठकीजड, कार्लीमिरच, सरफोंका, सोंठ, चितेकी छाल, जंगीहरड, कंजेकीछाल, बेलगिरी इनका काढा करके पीवे तो बवासीर और गोला, तथा संग्रहणी इन सबका नाश करे ॥

शुंठ्यादिकाढा ।

शुंठीसमुस्तातिविपांगुडूचींपिवेजलेनकथितांसमांशाम् ॥

मंदानलत्वेसततामवातेसामानुबंधेग्रहणीगदेच ॥

अर्थ-साँठ, नागरमोथा, अतीस और गिलोय, इनका काढा मंदाग्नि, आमवात और आमसहित संग्रहणी इनका नाशक है ॥

तालीसादिचूर्ण ।

तालीसौत्रनिशापडूपणनिशाविल्वजमोदाशठीचातुजातिलर्ष-

गधातकिविपाजातीफलंदीप्यकम् ॥ पाठामोचंरसाम्लपंचल-

वणाजातीद्वयंवेहकंवृक्षाम्लाम्लवरापलाशतरुजंमांस्यवुंदंवा-

लकम् ॥ ऐंद्रीत्रह्नसुवर्चलादृढपदाकुपुंसमस्तैःसमंवल्ल्यासर्व-

समाजयाखिलसमामत्स्यंडिकावासिता ॥ चूर्णोयंग्रहणीश्या-

दिकसनश्वासारुचिष्ठीहृद्दुर्नामातिसृतिज्वरातिपवनस्थौल्य-

प्रमेहप्रणुत् ॥ तीन्नापस्मृतिपांडुगुल्मजठरश्लेष्मोत्पित्तोद्-

वोन्मादाध्मानविपूचिहंतिसकलमासार्धसंसेवनात् ॥ एवन्ता-
लिसयुक्तमेवविहितचूर्णसुसिद्धभुविवालानांचविशेषतोहितक-
रंसंस्पर्शवाणिप्रदम् ॥ मांद्यध्वंसविधायकंविजयतेसर्वामयध्वं-
सकंपुष्ट्यायुर्वलकांतिधीस्मृतिमहामेधाविलासप्रदम् ॥

अर्थ—तालीसपत्र, वच, हलदी, सोंठ, कालीमिरच, पीपल, पीपरामूल, चीतेकीछाल, चव्य, आमियाहलदी, बेलगिरी, अजमोद, कचूर, चातुर्जात, लौंग धायकेफूल, अतीस, जायफल, अजवायन, पाठ, मोचरस, तंतडीक, पाँचोनिमक जीरा, कालाजीरा, वायविडंग, अमलवेत, इमली, त्रिफला, पलाशपापडा, जटामांसी, खाखसा, नेत्रवाला, इलायची, ब्राह्मी, इन्द्रजव, भूय आवला और कूठ, ये सब औषध, समान भाग लेवे तथा सबकी बराबर खिरेटीकी छाल तथा इसको भी मिलायके सबके समान हरड का वक़ल लेवे और सब चूर्णके समान मिश्री लेनी चाहिये इन सबको चूर्णकर बलाबल विचारके १५ दिनपर्यंत सेव न करे तो संग्रहणी, क्षय, खांसी, श्वास, अरुचि, ग्रीहा, बवासीर, पित्तव्याधि, उन्माद, पेटका फूलना और विपूचिका, इनको नष्टकरे । इस प्रकार यह ताली-सादिचूर्ण इस पृथ्वीमें सिद्ध औषध है तथा बालकों को यह परमोपयोगी होता है यह वाणीका देनेवाला है तथा मंदामि और संपूर्ण रोग इनका नाश करे तथा पुष्टि, आयुष्य, बल, कांति, बुद्धि और स्मरण तथा धारण शक्तिको देय है ॥

व्योषादिचूर्ण ।

व्योषंदीप्याजमोदाकृमिरिपुदहनंरामठंचाश्वगंधसिंधूत्थंजीर-
केद्वेरुचककलयुतंधान्यकंतुल्यभागम् ॥ भृंगीचूर्णलवंगघृत-
मधुसहितंशाणमात्रंचदद्याद्दीप्तिपुष्टिचकांतिवलमपिकुरुतेना-
शयेत्संग्रहारुयम् ॥

अर्थ—सोंठ, मिरच, पीपल, अजवायन, अजमोद, वायविडंग, चीतेकी छाल, हींग, असगंध, सैधानिमक, जीरा, कालाजीरा, कालानोन, बरकीछाल धनियों इन सबकी बराबर भाँगका चूर्ण लेवे तथा लौंगका चूर्ण मिलायके एकत्र करे इसमें से तीन मासे धी और सहत इनके साथ देवे तो अमिको दीप्ति करे, पुष्टि, कांति और बल करे तथा संग्रहणी का नाश करे ॥

विल्वादिदुग्ध ।

विल्वाब्दशक्रयववालकमोचसिद्धमाजंपयः पिवतियोदिवस-

त्रयंच ॥ सोतिप्रवृद्धचिरकृद्ग्रहणीविकारंमासंसशोणितमसा
ध्यमपिक्षिणोति ॥

अर्थ-बेलगिरी, नागरमोथा, इन्द्रजव, नेत्रवाला, और मोचरस ये औषध
मिलायके औटाया हुआ बकरीका दूध तीनदिन पीवे तो उसके संग्रहणी संबं-
धी विकार नाश होवे यदि १ महीने पर्यंत सेवन करे तो असाध्य दुष्ट रुधिर
को नष्ट करे ॥

दशमूलादिकाढा ।

विश्वौषधस्यगर्भेणदशमूलजलंशृतम् ॥

निहन्यात्तेनश्वयथुंग्रहणींसाममामयम् ॥

अर्थ-दशमूल और सोंठ इनका काढा करके पीवे तो मृजन और आम
संग्रहणी इनको नष्ट करे ॥

मसूरादियोग ।

मसूरायाः कपायेणविल्वगर्भविपाचयेत् ॥

हंतिकुक्ष्यामयान्सर्वान्ग्रहणीपांडुकामलान् ॥

अर्थ-मसूरके काठमें बेलगिरी को डालके औटावे जब बेलगिरी सीज जाय
तब उतारके कपडेसे छानके पीवे तो संपूर्ण फूटके रोग, संग्रहणी, पांडुरोग
और कामला इनका नाश करे ॥

कुटजावलेह ।

कुटजस्यतुलांदत्वाचतुर्द्रोणांभसापचेत् ॥ द्रोणशेपेरसेत-
स्मिन्पूतेगुडतुलार्धकम् ॥ घृतंचटंकवत्तत्रक्षिस्वामृद्गग्निना-
पचेत् ॥ समंगाविल्वकशिलाविल्वार्धचपुनर्नवा ॥ मुस्ता-
भल्लातकंचापिधातकीगजपिप्पली ॥ अंबष्टावालकंचैवद्वे-
वृहत्यौसचित्रकम् ॥ सद्गंगापिप्पलीमूलंविडंगानिहरीतकी ॥
नागकेसरयष्टीकार्लुकापत्रकंतथा ॥ विश्वाचंद्रयवाः पाट-
सूक्ष्मैलाजीरकद्वयम् ॥ जातिपत्रीजानिफलंलवंगंतगरंत-
था ॥ सुतोद्विपालिकैर्भगैर्लेहोयंसाधयेत्ततः ॥ तत्रेणव-
सुतक्रंवापथ्येदेयंविचक्षणैः ॥ अनेनग्रहणीरोगानतिसारान्सु-

दारुणान् ॥ रोगानीकविघातायकुटजोलेहउच्यते ॥

अर्थ—चारसौ तोले कूडेकी छालको १६३८४ सोलह हजार तीनसौ चौरासी तोले जलमें डालके आँटावे जब चतुर्थांश शेष रहे तब उतारके छानलेय और इसमें गुड २०० तोले घी १टांक डालके मंदाग्निसे पचन करावे और इसमें खिरंदी, बेलगिरी और शिलाजीत ये औषध दो दो तोले लेय, तथा सोंठ, नागर-मोथा, भिलाये, धायकेफूल, गजपीपर, चूका, नेत्रवाला, कटेरी, बडीकटेरी, चीतेकीछाल, भारंगी, पीपरामूल, वायविडंग, जंगीहरड, नागकेशर, मुलहठी सलालू, पत्रज, सोंठ, इंद्रजौ, पाठ, छोटीइलायची, जीरा, कालाजीरा, जावित्री, जायफल, लवंग, और तगर, इन सब औषधोंका चूर्ण प्रत्येक आठ २ तोले लेके अवलेह बनावे इस अवलेहको छाँड़से देय और पथ्यमें छाँड़ पिवावे तो संग्रहणी, घोर अतिसारके रोग और अनेक प्रकारके अन्य रोगोंको दूर करे इसको कुटजावलेह कहते हैं ॥

द्राक्षासव ।

मृद्रीकायाः पलशतंचतुर्द्रोणांभसापचेत् ॥ द्रोणशेषेतुशी
तेचयुतेतस्मिन्प्रदापयेत् ॥ द्विशतेक्षौद्रखंडाभ्यांघातक्याः
प्रस्थमेवच ॥ कंकोलंचलवंगंचफलंजात्यास्तथैवच ॥ प-
लांशकानिमरिचंत्वगेलापद्मकेसरम् ॥ पिप्पलीचित्रकंचव्यंपि-
प्पलीमूलरेणुकम् ॥ घृतभांडस्थितमिदंचंदनागुरुधूपितम् ॥
कर्पूरवासितोह्येपत्रहणीदीपनः परः ॥ अर्शसांनाशनः श्रे-
ष्ठउदावर्तान्मृगुल्मनुत् ॥ जठरंकृमिकुष्ठानित्रणांश्वविविधां-
स्तथा ॥ अक्षिरोगशिरोरोगगलरोगविनाशनः ॥ ज्वरमा-
ममहाव्याधिपांडुरोगंसकामलम् ॥ नाम्नाद्राक्षासवोह्येपवृंह-
णोवलवर्णकृत् ॥

अर्थ—४०० तोले मुनक्कादाखमें ८१९२ तोले जल डालके काढा करे जब चतुर्थांश शेष रहे तो उतारके छान लेय जब शीतल हो जावे तब इसमें शहत १०० तोले, मिश्री १०० तोले और धायकेफूल ६० तोले तथा कंकोल लौंग, जायफल, फालीमिरच, दालचीनी, इलायची, पत्रज, नागकेशर, पीपल, चव्य, चित्रक, पीपरामूल, पित्तपापडा, ये प्रत्येक औषध चार २ तोले मिलायके इसको घीके

चिकने पात्रमें भरके उसको चंदन और अगर, इनकी धूनी देवे तथा भीमसेनी कपूर इसके भीतर डालके वासित करे यह द्राक्षासव सेचन करनेसे दीपनकरे है, और संग्रहणी, बवासीर, उदावर्त, गोला, उदर, कृमिरोग, कुष्ठ, व्रण, नेत्र रोग, शिरारोग, गलेके रोग, ज्वर, आम, घोरव्याधि, पांडुरोग और कामला इनका नाश करनेमें श्रेष्ठ है ॥

विल्वाग्निघृत ।

विल्वाग्निचव्यार्द्रकशृंगबेरकाथेनकल्केनचसिद्धमाज्यम् ॥

सच्छागदुग्धंग्रहणीगदोत्थंशोफाग्निसादारुचिनुद्धरंतत् ॥

अर्थ—वेलगिरी, चीतेकी छाल, चव्य, अदरख और साँठ, इनका काठा और कल्क तथा बकरीका दूध इनसे सिद्ध करा हुआ घृत, संग्रहणीरोग, मूजन, मंदाग्नि और अरुचि इनका नाश करनेमें उत्तम है ॥

चित्रकघृत ।

चित्रककाथकल्काभ्यांग्रहणीघ्नंशृतंहविः ॥

गुल्मशोथोदरप्लीहाशूलशोभ्रंप्रदीपनम् ॥

अर्थ—चीतेकी छालका काठा और कल्कसे सिद्ध करा हुआ घी सेवन करनेसे गोला, मूजन, उदररोग, प्लीहा, गूल और बवासीर, इनको नष्ट करे तथा दीपन है ॥

चाङ्गेरीघृत ।

पाठागोक्षुरकंशुंठीपिप्पलीचूर्णयेत्समम् ॥ सर्वेपांपोडशगुणै-

स्तोयैः काथंप्रकारयेत् ॥ पादशेषं वस्त्रपूतमादायैत्समं-

घृतम् ॥ घृतांशंचांगेरिद्रावंत्रथाणांत्रिगुणंदधि ॥ गंडारी-

पिप्पलीमूलंश्रूपणंचव्यचित्रकम् ॥ प्रत्येकं द्विफलं चूर्णाक्षित्वा

सर्वविचूर्णयेत् ॥ मृद्भिनाघृतं यावत्तत्तमवतारयेत् ॥ योज-

जयेद्भोजनेपानेग्रहण्यामातिसारके ॥ अग्निसंदीपनं रुच्यंचां

गेरीघृतमुत्तमम् ॥

अर्थ—पाठ, गोरख, साँठ, और पीपल, इनका समान भाग चूर्णकर इसका सोलह गुने पानीमें चढायके काठा करे जब चतुर्थांश शेष रहे तब उतारके छान लें फिर इस काठे में समान भाग घी मिलावे और जितना घी होय उतनाही चूकाका रस तथा इन तीनोंसे तिगुना दही तथा रक्तकाचन, पीपरामूल,

सोंठ, कालीमिरच, पीपर, चव्य, चित्रककी छाल, प्रत्येक आठ २ तोले कल्क करके मिलावे सबको एकत्र करके मंदाभिपर रखके पचन करावे, जब घृत मात्र शेष रहे तब उतार लेवे इसको भोजन में अथवा इसको पीवे तो यह उत्तम चांगिरीघृत संग्रहणी और अतिसार, इनका नाश करे और अग्नि दीपन तथा रुचिकारक है ॥

दाडिमाष्टक ।

पलद्वयंदाडिमस्यव्योपस्यचपलद्वयम् ॥ त्रिगंधस्यपलंचैकं-
खंडस्याष्टपलानिच ॥ सर्वमेकीकृतंचूर्णप्रशस्तंदाडिमाष्ट-
कम् ॥ दीपनंरुचिदंकंठयंसंग्राह्यंग्रहणीहरम् ॥

अर्थ—अनारदाना, सोंठ, कालीमिरच, पीपल, ये प्रत्येक आठ २ तोले ले, त्रिजातक ४ तोले, तथा मिश्री ३२ तोले इन सबका चूर्ण करे इसको दाडि-
ष्टक कहते हैं यह दीपन, रुचिकारी, कंठको हितकारी, तथा ग्राहक है और संग्र-
हणीका नाश करे ॥

दूसरापाठ ।

दाडिमस्यपलान्यष्टौपलंसौगंधिकस्यच ॥ अजाजीनांपलं
चार्षपलार्धधान्यकस्यच ॥ पृथक्पलांशकान्भागान्त्रिकटु-
श्रथिकस्यच ॥ त्वक्क्षीरीवालकंचैवदद्यात्कर्पसमंभिपक् ॥
शर्करायापलान्यष्टौतदेकस्थंविचूर्णयेत् ॥ आमातिसार-
शमनंकासहृत्पाश्वशूलनुत् ॥ हृद्रोगमरुचिगुल्मंग्रहणीम-
ग्निमार्दवम् ॥

अर्थ—अनारदाना ३२ तोले, त्रिसुगंध ४ तोले, जीरा २ तोले, धनिया २
तोले, त्रिकटु १२ तोले, पीपरामूल ४ तोले दालचीनी, वंशलोचन, और
नेत्रवाला ये प्रत्येक एक २ तोले लेवे तथा मिश्री=२तोले लेकर सबका एकत्र
चूर्ण करे तो यह (दाडिमाष्टक) चूर्ण तयार हो-यह आमातिसार, खाँसी और
हृदय, पसवाडे इनकी पीडा और हृदय रोग, अरुचि, गोला, संग्रहणी तथा
मंदाभि इनका नाश करे ॥

लाईचूर्ण ।

कर्पगंधकमर्धंपारदमुभेकुर्याच्छुभांकजलीमक्षत्र्यूपणतश्चपं-

चलवणं सार्धं च कर्पपृथक् ॥ भृष्टं हि गुचजीरकद्वययुतं सर्वार्धभं-
गायुतं स्वादेष्टुं कमितं प्रवृत्तिगदवान्तक्रस्यविल्वेन च ॥

अर्थ—गंधक १ भाग पारा अर्धभाग दोनोंकी कजली करे तथा सोंठ, मिरच, पीपल सब मिलायके १ तोले, पाँचों निमक प्रत्येक डेढ़ तोले और भुनी हुई हींग, जीरा, कालाजीरा, ये एक २ तोले तथा सब चूर्णसे आधा भाँगका चूर्ण लेवे सबका चूर्णकरे इसमेंसे १ तोले चूर्ण ४ तोले छाँछसे पीवे तो संग्रहणी नष्ट होवे ॥

मुस्तादिचूर्ण ।

मुस्तकातिविपाविल्वकुटजसूक्ष्मचूर्णितम् ॥

मधुना च समालीढं ग्रहणीं सर्वजां हरेत् ॥

अर्थ—नागरमोथा, अतीस, बेलगिरी और इन्द्रजव इनका चूर्ण करके शह-
तसे देवे तो यह संनिपात और संग्रहणी इनका नाश करे ॥

लवङ्गादिचूर्ण ।

लवंगकंकोलमुशीरचंदनं तांसनीलोत्पलकृष्णजीरकम् ॥

एलासकृष्णागरुभृंगकेसरंकणासविश्वानलदंसहांबुना ॥

कर्पूरजातीफलवंशरोचनासिद्धार्थभागाः सहसूक्ष्मचूर्णितम् ॥

सरोचनंतर्पणमग्निदीपनं बलप्रदं वृष्यतमं त्रिदोषनुत् ॥

अशौविबंधंतमकंगलग्रहंसकासाहिकारुचियक्ष्मपीनसम् ॥

ग्रहण्यतीसारमथासृजक्षयंप्रमेहगुल्मांश्च निहंतिसत्वरम् ॥

अर्थ—लौंग, कंकोल, नेत्रवाला, चंदन, तगर, नीले कमल, कालाजीरा, इलायची, पीपर, अगर, भाँगरा, नागकेशर, पीपर, सोंठ, जटामांसी, खस, कपूर, जायफल, वंशलोचन और सपेद सरसों सब औषधी समान भाग लेवे सबका चूर्णकरे यह रोचन, तृप्तिदायक, अग्निदीपक, अरुचि, क्षय, पीनस, संग्रहणी, अतीसार, रक्तक्षय, प्रमेह और गोला इनका नाश करे ॥

पाठादिचूर्ण ।

पाठाविपाकुटजवृक्षफलत्वग्दत्तिका मदारसजनागरविल्वचू-

र्णम् ॥ सक्षौद्रतंदुलजलंग्रहणीप्रवाहिरक्तप्रवाहगुदरुगुदजे-

पुदघात् ॥

अर्थ—पाठ, अतीस, इन्द्रजव, कूडाकी छाल, नागरमोथा कुटकी, धायके फूल, रसोत, सोंठ, बेलगिरी इनका चूर्ण चावलोंके धोवनमें शहत मिलायके पीवे तो संग्रहणी, प्रवाहिका, गुदाके रोग और बवासीर इनको दूर करे ॥

तक्रसेवन ।

ग्रहणीरोगिणांतक्रंदीपनंग्राहिलाघवात् ॥

पथ्यमम्लमपाकीचरक्तपित्तस्यकोपनम् ॥

अर्थ—संग्रहणीरोगवालेको छाँछका पीना दीपन, ग्राहक और हलका है तथा पथ्यकारक. एवं खट्टी छाँछ होय तो अपाकी और रक्तपित्तको कुपित करता जाननी ॥

महालुंगादितक्रयोग ।

अरुचौमातुलिंगस्यकेसरसार्द्रसैंधवम् ॥

दद्याद्भोजनकालेतुप्रातस्तक्रंचरोगिणे ॥

अर्थ—संग्रहणी रोगमें यदि अरुचि होनेसे महालुंग (विजोरे) की केशर अद-
रख और सैंधानिमक ये भोजनकालमें देवे और प्रातःकालमें छाँछ पीवे ॥

चित्रकादितक्रयोग ।

दहनाजमोदसैंधवनागरमरिचंपिबाम्लतक्रेण ॥

सप्ताहादग्निबलंग्रहण्यतीसारशूलघ्नम् ॥

अर्थ—चीतेकी छाल, अजमोद, सैंधानिमक, सोंठ और कालीमिरच ये संपूर्ण वस्तु खट्टी छाँछमें पीसके पीवे तो सातही दिनमें अग्नि दीपन होकर संग्रहणी अतिसार और शूल इनका नाश होय ॥

अन्ययोग ।

त्रिकांसंतक्रस्याद्विकुडवपटोः पष्टिरभयाः पचेत्प्रस्थः सार्धं
घृततिलजविश्वान्निकुडवैः ॥ समावाप्याजार्जामरिचचपला
दीप्यकपलैलिहेन्नान्यंवाह्निदृढयतिविकारांश्चजयाति ॥

अर्थ—७६८ तोले छाँछ, निमक ३२ तोले और हरड़, ६० तोले डालके पचन करावे, फिर उसमें घी, तिल, सोंठ और चीता ये प्रत्येक १६ तोले तथा जोरा, कालीमिरच, पीपल और अजवायन ये प्रत्येक ४ तोले मिलायके

अवलेह सिद्धकरे जब सिद्ध होजावे तब रोगीको देवे तो आमिको बढावे और चिकारोंका नाश करे ॥

शंखवटी ।

चिंचाक्षारपलंपटुत्रयपलंनिंबूरसेकलिकतंतस्मिञ्छंखपलंप्रतप्त-
मसकृत्रिवाप्यशीर्णावाधि ॥ हिंगुव्योपपलंरसामृतवाल्लिनिःक्षिप्य
निष्कांशकान्दध्वाशंखवटीक्षयेग्रहणिकारुकपंक्तिशूलादिषु ॥

अर्थ—इमलीका खार ४ तोले, सेंधानिमक, विडनोन, काला निमक ये प्रत्ये-
क औषध चार चार तोले लेवे इन सबका नींबूके रसमें कल्क करके उसमें चार
तोले शंखके टुकड़ेको तपायके बुझावे, फिर गरम करे और फिर बुझावे इस
प्रकार करनेसे जब शंखकी भस्म होजावे तबतक करे फिर हींग, सोंठ, काली-
मिरच, पीपल, पारा, सिंगियाविष और गंधक ये चार २ मासे लेवे सबको
पीसकर गोली बनावे यह क्षय, संग्रहणी पंक्तिशूल इनका नाश करे ॥

जातीफलादितक ।

जातीफलौषधशिवाविडहिंगुजीरगंधद्विशामथितकलिकतरा-
जिकाच ॥ अंगारभर्जितसुहिंगुमारिष्टकंचतक्रेणकोलमित
मामगदग्रहण्याम् ॥

अर्थ—जायफल, सोंठ, आमला, वायविडंग, हींग जीरा ये प्रत्येक समान
भाग लेवे, गंधकरभाग, तथा छोंछमें पिसाडुई राई और लहसन ये सब एक-
त्र करके उस छोंछमें हींग भूनके मिलावे, इस छोंछमेंसे चार मासे देय तो
आम संग्रहणी दूर होवे ॥

वार्ताकवटी ।

चतुःपलंसुधाकाण्डं त्रिपलं लवणत्रयम् ॥ वार्ताकाः कुडवंचा
कमूलाद्विल्वेतथानलात् ॥ दग्ध्वाद्रवेणवार्ताकैर्गुंटिकाभो-
जनोत्तरम् ॥ भुक्ताभुक्तंपचेच्चाशुनाशयेद्ग्रहणीगदम् ॥ कासं
श्वासंतथाशीसिविपूचींचहृदामयम् ॥

अर्थ—१६ तोले धूरका टुकड़ा तथा सेंधानिमक, विडनिमक, कचियादि
ये सब १२ तोले लेवे और बंगन १६ तोले; आककी जड़ ८ तोले, इन सबको

एकत्र कर अग्निमें भस्म करलेवे फिर बेंगनके रसमें इसकी गोली बनायलेवे इस-
मेंसे एक गोली भोजनके पश्चात् भक्षण करे तो भोजन कराहुवा अन्न तत्काल पचे
और संग्रहणी, खांसी, श्वास, बवासीर, विपूचिका और हृदयके रोग ये सब दूरहों ॥

भल्लातकक्षार ।

भल्लातकं त्रिकटुकं त्रिफलालवणत्रयम् ॥ अंतर्धूमं द्विपलकंगो
पुरीषाग्निनादहेत् ॥ सक्षारः सर्पिपापीतोभोज्योवाथविचू-
र्णितः ॥ हृद्रोगपांडुरहणीगुल्मोदावर्तशूलनुत् ॥

अर्थ—भिलाए, सोंठ, मिरच, पीपल, हरड, बहेडा, आंवला, सेंधानिमक,
खारीनिमक, कालानिमक तथा घरका धूआ ये प्रत्येक आठ २ तोले लेवे सब-
को आरने उपलोंमें रखके फूंकदेवे जब जलके क्षारहो जावे, इसको धीके
साथ भक्षण करे अथवा भोजनके पश्चात् तो हृदयरोग पांडुरोग, संग्रहणी,
गोला, उदावर्त और शूल इनका नाश करे ॥

चव्यादिचूर्ण ।

चूर्णचव्यकचित्रश्रीविश्वभेषजनिर्मितम् ॥
तत्रेणसहितंहंतिग्रहणीदुःखकारिणीम् ॥

अर्थ—चव्य, चीतेकी छाल, बेलगिरी और सोंठ, इनका चूर्ण छाँछके साथ
सेवन करे तो अत्यंत दुष्ट संग्रहणीका नाश होवे ॥

रुचकादिचूर्णम् ।

रुचकाग्निमरीचानांचूर्णतत्रेणसेवितम् ॥
ग्रहण्युदरगुल्माशः क्षुन्मांद्रग्नीहनाशनम् ॥

अर्थ—कचियानिमक, चीतेकी छाल और कालीमिरच इनका चूर्ण फरके
छाँछके साथ सेवन करे तो संग्रहणी, उदर गोला, बवासीर, मंदाग्नि और ग्रीह
इनको नाश करे ॥

कपित्थाष्टकचूर्णम् ।

अष्टौभागाः कपित्थस्यपट्टभागाशर्करामता ॥ दाडिमंति-
तिडीकंचश्रीफलंधातकीतथा ॥ अजमोदाचपिप्पल्यः प्र-
त्येकंस्युस्त्रिभागिकाः ॥ मरिचंजीरकंधान्यंप्राथिकंवालकं
तथा ॥ सौवर्चलयवानीचचातुर्जातंसचित्रकम् ॥ नागरंचैक

भागाः स्युः प्रत्येकंसूक्ष्मचूर्णितम् ॥ कपित्थाष्टकसंज्ञं स्याच्चूर्णमेतद्गलामयान् ॥ अतिसारं क्षयं गुल्मं ग्रहणीं च व्यपोहति ॥

अर्थ—कैथक गुदा ८ भाग खांड ८ भाग और अनारदाना, इमलीकी छाल, वेलगिरी, धायकेफूल, अजमोद और पीपल यह छः औषध तीनतीन भाग, लेवे तथा कालीमिरच, जीरा, धनिया, पीपरामूल, नेत्रवाला, संवरनिमक, अजमोद, दालचीनी, इलायची, पत्रज, नागकेशर, चीतेकीछाल और सोंठ ये तेरह औषध एक एक भाग लेवे फिर सब औषधोंका बारीक चूर्णकरे इसको (कपित्थाष्टक चूर्ण) कहतेहैं यह कपित्थाष्टक चूर्णके सेवन करनेसे कंठके रोग तथा अतिसार, क्षय, गोला और संग्रहणी ये रोग दूर होंगे ॥

दूसरा लाहीचूर्ण ।

त्रिजातकव्योपवरारसैद्रगंधाजमोदाभिश्शिवेष्टरात्र्यः ॥ विल्वानलाजाजिलवंगधान्यगजोपकुल्यामधुकंपटूनानि ॥ हिंगुः कुबेराह्वयमोचसारौक्षारौजयासर्वचतुर्थभागाः ॥ इदं हि चूर्णं विनिहंति नूर्णं प्रसूतिकासंग्रहणीविकारम् ॥ समस्त रोगांत कमग्निकारिभ्राजिष्णुताकारिसुतक्रपातम् ॥ इमंप्रयोगंबहुधानुभूतंचकारधात्रीकिलकापिलाही ॥

अर्थ—दालचीनी, पत्रज, इलायची, सोंठ, मिरच, पीपल, हरड, बहेड आँवला, पारा, गंधक, अजमोद, सोंफ, वायविडंग, हलदी, वेलगिरी, चीतेकी छाल, जीरा, लोंग, धनिया, गजपीपल, मुलहठी, पांचों निमक, हींग, पाठ, सेमरकागोंद, सजीखार, जवाखार और सबसे चौगुनी शुद्धकरी भांग लेवे सबका बारीक चूर्ण करके छाँलके साथ सेवन करे तो संग्रहणी रोग, प्रसूतके रोग, भंदाभि इत्यादि सब रोगोंका हितकारी है यह प्रयोग किसी लाईनामक दाईने बहुतवार अनुभवकरके निर्माण कराहै इसीसे इसको लाही चूर्ण कहते हैं ॥

जातिफलादिचूर्ण ।

जातीफलवंगैलापत्रत्वङ्नागकेसरैः ॥ कर्पूरचंदनतिलैस्त्वक्क्षीरिनागरामलैः ॥ तालीसपिप्पलीप्रस्थस्थूलजीरकचित्रकैः ॥ शुंठीविडंगमरिचैः समभागेन चूर्णितैः ॥ यावंत्येतानिसर्वाणि

कुर्याद्भ्रंशान्चतावतीम् ॥ सर्वचूर्णसमादेयाशर्कराचभिपग्वरैः ॥
 कर्पमात्रंततःखादेन्मधुनाप्लावितंसुधीः ॥ अस्यप्रभावाद्ब्रह्मणी
 कासश्वासारुचिक्षयाः ॥ वातश्लेष्मप्रतिश्यायाः प्रशमंयांतिवेगतः ॥

अर्थ—जायफल, लौंग, इलायची, पत्रज, दालचिनी, नागकेशर, भीमसेनी
 कपूर, सपेद चंदन, कालेतिल, वंशलोचन, तगर, आमले, तालीसपत्र, पीपल,
 हरड, कालाजीरा, चित्तकी छाल, सोंठ, वायविडंग और कालीमिरच ये बीस
 औषध समान भाग लेवे तथा इन सब औषधोंके बराबर शुद्धकरी दुई भांग लेवे
 फिर सबका चूर्ण करके उस चूर्णके समान भाग मिश्री मिलाके फिर इसमेंसे
 १ कर्ष चूर्णको सहतमें मिलायके लेवे तो संग्रहणी, खांसी, श्वास, अरुचि, क्षय,
 वात कफके विकार और पीनस ये रोग तत्काल दूर हो ॥

बेलफलादिचूर्ण ।

श्रीघनवालकमोचकशक्रंचूर्णमजापयसापरिपेयम् ॥

हंतिचतद्ब्रह्मणीभयमाशुसामगदंरुधिरेणविमिश्रम् ॥

अर्थ—बेलगिरी, नागरमोथा, नेत्रवाला, मोचरस और इन्द्रजी इनके चूर्ण
 को बकरीके दूधसे पीवे तो संग्रहणी तथा आमरक्त इनका नाश होवे ॥

जातीफलादिचूर्णका पाठांतर ।

जातीफलामिहिमवेल्लतिलेंदुजीरवंशीत्रिकत्रयमनक्क्षामिभोनतंचा ॥

तालीसदेवकुसुमेअपिचूर्णमेपांद्रिःशर्करंचसमगंजमिदंग्रहण्याम् ॥

अर्थ—जायफल, चित्तकी छाल, नेत्रवाला, वायविडंग, तिल, कपूर, जीरा,
 वंशलोचन, त्रिसुगंध, बहेडेके बिना त्रिफला, त्रिकुटा, गजपीपर, तगर, ताली-
 सपत्र और लौंग इनका समान भाग चूर्ण तथा चूर्णसे दूगनी मिश्री मिलावे
 यह चूर्ण संग्रहणीका नाशकहै ॥

ग्रहणीरोगमेंपथ्य ।

निद्राछर्दनलंघनंचिरभवायः शालयः पष्टिकामंडोलाजकृतोम

सूरतुवरीमुद्गप्रभूतारसाः ॥ निःशेषंहतसारमेवदधिजंगोक्षी

रजातंगवांछागंवानवनीतमेवधिमलंतद्रत्पयःसंभवम् ॥ छाग

ल्याजपयोदधीनितिलजंतैलंसुरामाक्षिकंशालूकंलकुचंचदाडि

मयुगंनव्यानिभव्यानिच॥ रंभायाः कुसुमंफलंचतरुणंविल्वंचगुं

गाटकं चांगेरीविजयाकपित्थकुटजाजाजीकसेरूणिच ॥ न्यग्रो
धस्यफलंचतक्रममलंजातीफलंजांवंधान्याकानिचर्तितुका-
निचमहानिवोरुणाफेनवत् ॥ ऋव्यालांबुशशैणतित्तिररसाःक्षु
द्राङ्गपाःसर्वशोडिडीशोमधुरालिकाचखलिपाःसर्वःकपायोरसः॥

अर्थ—निद्रा, वमन, लंघन, पुराने सांठीचावळ, खिलोंका मंड और मसूर
अरहर, मूंग इनका रस तथा निःशेष मक्खन निकाली हुई छौंछ, गौका
वकरीका और भेड़का दूध, मक्खन दही, तथा तिलीका तेल, मद्य, शहत,
कमलकंद, (भसीडा) बडहर, खट्टे और मीठे अनार, केलेका फूल, पुरानाकेला,
बेलका फल, सिंघाडे, चूका, भांग, कैथ, कुड़ा, जीरा, कसेरू, बड़ेके फल, उत्तम
छौंछ, जायफल, जामुन, धनिया, तेंदू, कुचला, बकायन, अरुणा (मँजीठ)
अफीम, मांस, सपेद घीया, शशा, हरिण, तीतरपक्षी इनका मांसरस, संपूर्ण
प्रकार की छोटी मच्छी, डेड़स, साली, कोकिल, बिलमें रहनेवाले जीवोंका
मांस और संपूर्ण कपेले पदार्थ ये संग्रहणी रोगपर पथ्य कहै ॥

ग्रहणीरोगमेंअपथ्य ।

रक्तसृतिंजागरमंबुपानंस्नानंस्त्रियंवगविनिग्रहश्च ॥ नस्यांजनं
स्वेदनधूमपानंश्रमंविरुद्धांजनमातपंच ॥ गोधूमनिष्पावक
लायमापयवार्द्रकंछत्रकराजमापाः ॥ उपोदकीवास्तुकका
कमाचीकूप्मांडतुम्बीमधुशियुर्कदान् ॥ तांबूलमिक्षुंबदरंरसा
लउर्वारुर्कपूगफलंरसानाम् ॥ धान्याम्लसौवीरतुपोदकानिद्रुग्धं
गुडंमस्तुचनारिकेलम् ॥ पुनर्नवावाहृतवैल्वकानिसर्वाणिशा
कानिचयत्रवंति ॥ दुष्टांगगोवारिकुरंगनाभीशारंसमस्तानि
सराणिचापि ॥ द्राक्षामथाम्लंलवणरसंचगुर्वत्रपानंसकलंचपू
गम् ॥ वैद्यश्चिकित्सेद्ग्रहणीविकारंविवर्जयेत्संततमप्रमत्तः ॥

अर्थ—रक्तस्राव, (फस्तखोलना) जागना, जल पीना, स्नान, स्त्रीसंग मल-
मूत्र आदिका वेग धारण, नस्य, अंजन, पसीने निकालना, धूमपान (हुक्कापीना)
श्रमकरना, विरुद्ध अन्न भक्षण, अंजन, धूपमें रहना, गेहूँ, चौरा, मटर, उडद,
जौ, अदरक, छतोना, राजमाप, पोईकासाग, वथूआ, मकोय, पेठा, तुंवा,
मीठासहंजना, जमीकंद, रतालू आदिकद, पान, ईख, बेर, आंख, ककडी,
सुपारी, रसमें धान्याम्ल, सौवीर, तुपोदक, दूध, गुड़, दहीकी मलाई, नारियल

सोंठ, कटेरी, बेलगिरी, संपूर्ण, पत्तोंका साग, दुष्ट (रोगी) गौका दूध, कस्तूरी, क्षार संपूर्ण दस्तकारक द्रव्य, दास, खट्टे पदार्थ और निमकीन पदार्थ ये रस, भारीअन्न, पान, सुपारी ये पदार्थ संग्रहणी रोगवालेको वैद्य कदाचित् न देवे ॥

इति श्रीबृहन्निघण्टुरत्नाकरेग्रहणीरोगकर्मविपाक
निदानचिकित्सासमाप्ता ॥

अर्श-ववासीर ।

ज्योतिःशास्त्राभिप्रायेण अर्शरोग निदानम् ।

योगार्णवतः ।

निर्वलीयदिशोतांशुःशुभेतरसमन्वितः ॥

सप्तमेतुगुदांशस्थेसभवेदर्शरोगवान् ॥ १ ॥

अर्थ-निर्वली चंद्रमा अशुभग्रहों के साथ सप्तम घरमें गुदांशमें स्थित होय तो उस प्राणीके अर्श (ववासीर) का रोग होय ॥

निर्वलीहृदयाधीशोगुदाधीशोऽपितादृशः ॥

गुदांकुराभवंतीतिजातस्यनतुसंशयः ॥ २ ॥

अर्थ-हृदयाधीश (कर्कराशिका अधिपति) और गुदाधीश ये जिसकी लग्नमें निर्वल होके पड़ेहो उस प्राणीके जन्मसे ही गुदांकुर (गुदामें मस्से)होवे इसमें संदेह नहीं है ॥

हृदयाधीशसंयुक्तनवमांशकनायकः ॥

गुदाधीशेनेत्यशालीसर्वैरक्तार्शदायकः ॥ ३ ॥

अर्थ-नवमांशकाधिपति हृदयाधीश करके युक्तहो, अथवा गुदाधीशके साथ इत्यशाल करता होवे तो यह ग्रहरक्तार्श अर्थात् खूनीववासीर का करनेवाला जानना ॥

गुदाधीशदृकाणेशनवांशेशोयदाशनिः ॥

गुदामध्येमशककृद्रलवात्रक्तजार्शकृत् ॥ ४ ॥

अर्थ-यदि शनैश्चर गुदाधीश द्रेष्काणका अधिपति और नवमांशका अधिपति होवे तो गुदामें मस्सोंको करे और वही पूर्वोक्त शनि बलवान् होवे तो खूनीबवासीरको करता है ॥

वातार्शकारकोज्ञेयोगुदेशेशुष्कराशिगे ॥

शुभेतरसमायोगेगुदाभ्रष्टोभवेन्नरः ॥ ५ ॥

अर्थ-गुदाका अधिपति यदि शुष्कराशिमें बैठा होवे तो वातार्श अर्थात् वादीकी बवासीर करे है और वही गुदाधीश पापग्रहोंके साथ बैठा होयतो उसकी गुदा भ्रष्ट अर्थात् फांच निकलनेका रोग होवे ॥

रुधिरेरुधिरस्थानेरुधिरांशोधरागृहे ॥

यस्ययोगेत्वियंरीतोरक्तार्शासनरोभवेत् ॥ ६ ॥

रक्तांशेणमृतिस्तस्यशून्यमार्गेशुभग्रहाः ॥

अपेशेशनिवर्गेवाशस्त्रौपधकृतामृतिः ॥ ७ ॥

अर्थ-यदि शून्य मार्गमें शुभ ग्रह बैठे होवे तो उस प्राणीकी खूनी बवासीर करके मृत्यु होवे ॥

बवासीरकाकर्मविपाक ।

दत्वाथवेतनंयोध्येत्यादायापिचवेतनम् ॥

ध्यापयेच्चजुहुयाद्वाजपेद्वाशौयुतोभवेत् ॥

अर्थ-जो प्राणी वेतन (नौकरी, तनखा) देकर पढताहै अथवा तनखा लेकर पढताहै किंवा नौकरी ठहरायकर हवन अथवा जप करता है वह अर्श (बवासीर) रोगी होताहै ॥

सामान्यबवासीरकानिदान ।

पृथग्दोषैःसमस्तैश्चशोणितात्सहजानिच ॥

अर्शासिपट्प्रकाराणिविद्याद्बद्धवलित्रये ॥

अर्थ-वादी, पित्त, कफ, सन्निपात, रक्तज और सहज, ऐसे छः प्रकारकी बवासीर रोग गुदाकी त्रिवलियोंमेंसे किसी एक बलीमें होताहै ॥

ववासीरकीसंप्राप्ति और रूप ।

दोपास्त्वङ्मांसमेदांसिसंदुप्यविविधाकृतीन् ॥

मांसांकुरानपानादौकुर्वत्यशांसिताज्जगुः ॥

अर्थ—वातादि दोष कुपितहो त्वचा, मांस और मेद इनको दूषितकर अनेक प्रकारके मांसांकुर (मस्ते) गुदामें उत्पन्न करते हैं उसको अर्श अर्थात् ववासीर कहते हैं ॥

ववासीर का पूर्वरूप ।

विष्टंभोगस्यदौर्वल्यंकुक्षराटोपएवच ॥ काश्यमुद्गारवा

दुल्यंसक्थिसादोल्पविट्कता ॥ ग्रहणीदोपपांडुरोराशंका

चोदरस्यच ॥ पूर्वरूपाणिनिर्दिष्टान्यशंसामभिवृद्धये ॥

अर्थ—मलका प्रतिबंध, शरीरकी दुर्बलता, कूखमें गुडगुडाहट शब्द कृशता अत्यंत डकारोंका आना, पैरोंकी जांघोंका रहजाना, मल होनेपर भी थोडा उतरना, तथा संग्रहणी, पांडुरोग तथा उदर रोग होगया ऐसा प्रतीत होना, इत्यादि लक्षण ववासीर होनेवालेके प्रथम होते हैं ॥

चिकित्साक्रम ।

अशौतिसारग्रहणीविकाराः प्रायेणचान्योन्यनिदानभूताः ॥

सन्नेनलेसंतिनसंतिदीप्तेरक्षेदतस्तेपुविशेषतोभिः ॥

अर्थ—ववासीर, अतिसार और संग्रहणी ये विकार प्रायः अन्योन्यके आश्रयसे होतेहैं तथा ये रोग अग्नि प्रदीप्त होनेसे नहीं होते किंतु मंदाग्नि होनेसे होतेहैं इसवास्ते इन विकारोंमें विशेषता करके जठराग्निका संरक्षण वैद्यको करना चाहिये ॥

तथा दूसराक्रम ।

दुर्नाम्नांसाधनोपायोचतुर्धापरिकीर्तितः ॥

भैषजक्षारशस्त्राग्निसाध्यत्वंप्याप्यमुच्यते ॥

अर्थ—ववासीरका पत्र (इलाज) चार प्रकारके हैं, अर्थात् चार प्रकारसे ववासीर अच्छाहो सकताहै जैसे, औषध (जडीबूटीआदि) क्षार (जवाखारादि) शस्त्र (चीरना फाटना) और अग्नि (दागना आदि) है ॥

तथाअन्यक्रम ।

अर्शसामौषधैर्भारैःशस्त्रेणचयथाग्निना ॥

चिकित्सास्याच्चतुर्ध्वंमुख्यंतत्रौषधंविधिः ॥

अर्थ—अर्श रोगकी औषध, क्षार, शस्त्र और अग्नि इस प्रकार चतुर्विध चिकित्सा है परंतु इन चतुर्विधमें औषध मुख्य है ॥

तथा ।

शस्त्रैर्वाथजलौकाभिः प्रोच्छूनकठिनार्शसः ॥

शोणितंसंचितंतद्द्वाहरेत्प्राज्ञःपुनःपुनः ॥

अर्थ—शस्त्रसे अथवा जोंखसे सूजी हुई कठोर मस्सोंका संचित रुधिरको चारवार कठाना चाहिये ॥

वातादिजन्यअर्शौकायत्न ।

यद्वायोरनुलोमस्याद्यदग्निबलवृद्धये ॥

अन्नपानौषधंसर्वतत्सेव्यंनित्यमर्शसः ॥

अर्थ—अर्श रोग पर जो वादीको अनुलोमन करे तथा जो अग्निको बढ़ावे ऐसे अन्न पान और औषध सेवन करे ॥

स्नेहस्वेदादयोवातेपित्तेपुरेचनादयः ॥ कफेवांत्यादयोर्शस्सु-

मिश्रेमिश्राप्रतिक्रिया ॥ पित्तवद्रक्तजेकार्यःप्रतीकारोर्शसोधुवम् ॥

अर्थ—स्नेह, तथा पसीने निकालना ये वादीको और पित्तको दस्त कराने एवं कफको वमन कराना तथा मिश्रित दोषोंपर मिश्रित चिकित्सा करे और खूनी बवासीर पर पित्तके समान यत्न करने चाहिये ॥

अर्शासिभिन्नवर्चासिवातातीसारवद्दिशेत् ॥

उदावर्तविधानेनगाढविट्कान्युपाचरेत् ॥

अर्थ—जिस बवासीरमें रेच और शौच इत्यादि होते हो, उसपर वातातिसारके समान और गाढ विट्क बवासीर पर उदावर्तके समान औषध क्रिया करे ॥

वातकीबवासीरकेलक्षण ।

गुदजाञ्छोणितवहान्पित्तशोणितनाशनैः ॥

योगैरुपाचरेत्तत्तुविद्बन्धेतुप्रशस्यते ॥

अर्थ—रुधिर बहनेवाले अर्श रोगपर रक्त पित्त नाशक उपाय और विड्वंध होय तो विड्वंधका उपचार करे ॥

वातार्शकैलक्षण ।

कपायकटुतिक्तानिरूक्षशीतलघूनिच ॥ प्रमिताल्पाशनंतीक्ष्णं
मद्यंमैथुनसेवनम् ॥ लंघनंदेशकालौचशीतौव्यायामकर्मच ॥
शोकोवातातपस्पर्शोहेतुवातार्शसोमतः ॥

अर्थ—कपेले, चरपरे, कडुवे, रुखे, शीतल, हलके, अनुमानके तथा अत्यंत अल्प भोजन और तीक्ष्ण पदार्थ, मद्य, मैथुन, लंघन, शीतल, देश, तथा शीतल काल, अत्यंत दंड कसरत, शोक, हवा, धूप इनका स्पर्श इत्यादिक वातार्श होनेके कारण हैं ॥

तथा ।

गुदांकुरावह्वनिलाःशुष्काश्चिमिचिमान्विताः ॥ म्लानाःश्या
वारुणास्तब्धविशदाःपरुपाःखराः ॥ मिथोविसदृशावक्रास्ती
क्ष्णाविस्फुटिताननाः ॥ विंवीकर्कधुखर्जूरकार्पासीफलस
न्निभाः ॥ केचित्कदंबपुष्पाभाःकेचित्सिद्धार्थकोपमाः ॥ शि
रःपार्श्वसकटचूरुवंक्षणाभ्यधिकव्यथाः ॥ क्ष्वथूद्गारविष्टंभट्ट
द्रहारोचकप्रदाः ॥ कासश्वासाग्निवैपम्यकर्णनादभ्रमावहाः ॥
तैरातोऽग्रथितंस्तोकंसशब्दंसप्रवाहिकम् ॥ रुक्फेनविच्छानु
गतंविचद्ममुपवेश्यते ॥ कृष्णत्वङ्गनखविण्मूत्रनेत्रवक्रंचजाय
ते ॥ गुल्मप्लीहोदराष्टीलासंभवस्ततएवच ॥

अर्थ—वातादिक गुदाके मस्से, सावरहित, चिनामिनेवाले, पीडायुक्त, निर्जोव, (कुमलाद्गुण) श्याम और अरुणवर्ण स्तब्ध फेलेद्गुण, कठोर, खर-दरे, विपम अर्थात् एकसे नहीं, टेढे, तीक्ष्ण, फटेद्गुण मुखके, कंदूरी, बेर, खिजूर कपास इनके फलके समान, कोई कदंब फूलके समान गोल, कोई मरसोंके समान, इस बयासीरके होनेसे मस्तक, पैसवाडे, कमर, ऊरु, वंक्षण इन में अत्यंत पीडा होवे, तथा छोक, डकार, मलका अवरोध, हृदय पकड़ेके समान पीडा और अरुचि ये होतेहैं तथा खांसी, श्वास, अन्न कभी पचे कभी न पचे, कानोंमें शब्द हुआकरे तथा भ्रम ये होय, ऐसे बयासीरसे पीडित मनुष्यका

गांठदार, थोडा शब्द युक्त और पीडा, झाग, चिकना इन करके युक्त अल्प २ ऐसा दस्त होवे, तथा उस मनुष्यकी त्वचा, नख, मल, मूत्र, नेत्र और मुख कुछ २ फाले होवे और गोला, ग्रीहा, उदर, अग्नीला, अर्थात् वातग्रंथी इनकी उत्पत्ति इस बवासीरसे होती है अब इसका यत्र लिखते हैं ॥

अर्कक्षार ।

तरुणान्यर्कपत्राणिपंचैवलवणानिच ॥ युक्तानितैलेनाम्लेन

दहेत्क्षारश्चयुक्तितः ॥ उष्णोदकेनमद्यैर्वापीतोवाताशंसाहितः ॥

अर्थ—पुराने पके हुए आकके पत्ते और पांचोंनिमक इनको तेल और खटाई-के साथ जलायके युक्तिसे खार निकाल ले, इसको गरम जलके साथ अथवा मद्यके साथ पीवे तो अर्श रोगीवालेको हितकारी होय ॥

विडंगादितक्रयोग ।

विडंगत्रिफलात्र्युपत्रिसिताचोपकर्णिका ॥ कं पिच्छं नलिनीचूर्णं

तुल्यक्षौद्रं लिहेदतु ॥ गुडेनसितयावाथवातोत्थानशंसाञ्जयेत् ॥

अर्थ—वायविडंग, त्रिफला, त्रिकुटा, मिश्री, मूपाकर्णी, निसोथ और नलिनी (पवारी) इनका चूर्ण सहतसे अथवा गुडसे अथवा खांडके साथ खाय तो वादीकी बवासीर दूर होवे ॥

लवणादिचूर्ण ।

लवणोत्तमवह्निकलिंगयुजंविडविल्वमहापिचुमंदयुतम् ॥

पिबसप्तदिनंमथितंलुलितंयदिमर्दितुमिच्छसिवायुरुजम् ॥

अर्थ—संधानिमक, चीतेकीछाल, इन्द्रजव, विडनिमक, वेलगिरी और नीमकीछाल इनका चूर्ण मिलाय सप्तदिन, मद्देको पीवे तो वात संबंधी बवासीरकी पीडा नाश होय ॥

मरीचादिचूर्ण ।

मरिचंपिप्पलीकुपुंसैध्वंजीरनागरम् ॥ वचाहिंशुविडंगानिपथ्या

वन्यजमोदकम् ॥ एतेपांकारयेच्चूर्णचूर्णस्यद्विगुणं गुडम् ॥ स्वादे

त्कर्षमितंचापिपिवेदुष्णजलं ततः ॥ सर्वाण्यशांसिनश्यंतिवा

तजानिविशेषतः ॥

अर्थ—कालीमिरच, पीपल, कूठ, संधानिमक, जीरा, सोंठ, वच, हींग, वाय-

विडंग, हरड, चीतेकी छाल और अजमायन इनका चूर्ण करके दूनागुड मिलावे फिर इसमेंसे १ तोले नित्य सेवन करे ऊपरसे गरम जल पीवे तो संपूर्ण बवासीर नष्ट होवे इनमें भी विशेष करके वादीकी बवासीर नष्ट करे है ॥

सूरणमोदक ।

शुष्कात्सूरणकंदजोयमिलितंव्योपंतथाचित्रकंश्रेष्ठाजीरकरामठंसमलवंदीप्याजमोदान्वितम् ॥ सर्वस्यांघ्रिकसिंधुजंपरिभवे त्रिवृद्धवैवासरंसिद्धःसूरणमोदकोगदहरःश्रेष्ठोभवेत्प्राणिनाम् ॥ शूलसंग्रहणीगदंत्वतिसृतिंदुष्टांप्रवाहींजयेदीप्तांगिकुरुतेबलं वितनुतेगुल्मप्रणाशंतथा ॥ अशांस्युद्धतमारुतामयहरोवालेच वृद्धेहितोगर्भिण्यांचनशस्यतेननिपुणैर्नैरक्तपित्तेपिच ॥

अर्थ—पुराने सूके हुए सूरण(जमीकंद) के रसमें कालीभिरच, पीपल, सोंठ, चीतेकी छाल उत्तम जीरा, हींग, अजमायन और अजमोद ये समान भाग लेवे तथा सबका चौथाहिस्सा सैंधानिमक मिलायके सुखाय लेवे फिर नींबूके रससे एकदिन भावना देवे, तो यह सूरणमोदक सिद्ध होवे यह प्राणियोंके व्याधि नाश करनेमें श्रेष्ठ है तथा शूल, संग्रहणी, अतिसार, प्रवाहिका गोला, बवासीर और वादीका प्रकोप इनकी दूर करे तथा अग्नि प्रदीप्त करे, एवं बल देवे, यह सूरणमोदक निपुण वैद्य गर्भिणी और रक्त पित्तवाले रोगीको न देवे ॥

बाहुशालनामकगुड ।

इंद्रवारुणिकामुस्तंशुठीदंतीहरीतकी ॥ त्रिवृत्सटीविडंगानिगोक्षीरश्चित्रकस्तथा ॥ तेजोह्लाचद्रिकर्पाणिपृथक्द्रव्याणिकारयेत् ॥ सूरणस्यपलान्यष्टौवृद्धादारुचतुष्पलम् ॥ चतुःपलंस्याद्द्रष्टातःकाथयेत्सर्वमेकतः ॥ जलद्रोणेचतुर्थांशंगृहीयात्काथमुत्तमम् ॥ काथद्रव्यात्रिगुणितंगुडंक्षिप्वापुनःपचेत् ॥ सम्यक्पक्वंचविज्ञात्वाचूर्णमेतत्प्रदापयेत् ॥ चित्रकस्त्रिवृतादंतीतेजोह्लापलिकापृथक् ॥ पृथक्त्रिपलिकाःकार्याव्योषैलामरिचत्वचः ॥ निक्षिपेन्मधुशोतेचतस्मिन्प्रस्थप्रमाणितम् ॥ एवंसिद्धंभवेच्छ्रीमान्बाहुशालगुडः शुभः ॥

जयेदर्शासिसर्वाणिगुल्मंवातोदरंतथा ॥ आमवातंप्रतिश्यायं
ग्रहणीक्षयपीनसान् ॥ हलीमकंपांडुरोगंप्रमेहंजरसायनम् ॥

अर्थ—इन्द्रायनकागूदा, नागरमोथा, सोंठ, दंती की जड़, छोटी हरड़, निसोथ, कचूर, वायविडंग, गोखरू, चींतेकीछाल, तेजवल, ये ग्यारह औषध दो २ कर्पले, मूरण (जमीकंद) आठपल, तथा विधापरा चारपल तथा मिलावें ४ पल ले सबको कूट कर उसमें दो द्रोण जल डालके औटावे जब चतुर्थांश जल रहे तब उतारके उस जलको छान लेवे पश्चात् इस जल में संपूर्ण औषधों से तिगुना गुड डालके औटावे जब पाक होजावे तब आगे लिखी हुई औषधें मिलावे जैसे—चींतेकी छाल, निसोथ, दंती, तेजवल ये चार औषध एक २ पल लेवे सबको कूट पीस उसपाक में मिलायके एक जीवकर देवे इसके सेवन करनेसे संपूर्ण बवासीर दूर होवे, गोलिका रोग, वातोदर आमवादीसे अंगोंका जिकडना, तथा सरेकमां संग्रहणी, क्षय, पीनस, हलीमक, पांडुरोग, प्रमेह ये सर्व रोग दूर होवे तथा यह बाहुशाल गुड रसायन है ।

पित्तकीववासीरकाकारण ।

कट्फल्लवणोष्णानिव्यायामान्यातपश्रमाः ॥ देशकालाव-
शिशिरौक्रोधोमद्यमसूयनम् ॥ विदाहितीक्ष्णमुष्णंचसर्वपाना-
न्नभोजनम् ॥ पित्तोल्बणानांविज्ञेयः प्रकोपेहेतुरर्शासाम् ॥

अर्थ—तीक्ष्ण, खट्टा, खारी और गरम इत्यादि पदार्थोंके सेवन, व्यायाम अग्नि, तथा धूप इन का सेवन और उष्ण देश, उष्ण काल, क्रोध, मद्य, दूसरेका उत्कर्ष (बढवार) का असहन, तथा विदाही, तीक्ष्ण, गरम ऐसे अन्न पानका सेवन इत्यादि पित्तार्श होनेके कारण जानने ।

पित्तकीववासीरकेलक्षण ।

पित्तोत्तरानीलमुखारक्तपीतासितप्रभाः ॥ तन्वस्त्रस्राविणो
विस्रास्तनवोमृदवःश्लथाः ॥ शुक्रजिह्वायकृत्खंडजलौ-
कावक्रसन्निभाः ॥ दाहपाकज्वरस्वेदतृणमूर्च्छारुचिमो
हदाः ॥ सोष्माणोद्रवनीलोष्णपीतरक्तामवर्चसः ॥ यव-
मध्यहरित्पीतहारिद्रत्वङ्गनखादयः ॥

अर्थ—मस्सोंका मुख नीला, लाल, पीला और सुपेदाई लिये होवेउन

मस्सोमसे महीनधारसे रुधिर बुचाय और रुधिरकी वास आवे. महीन और कोमल तथा सिथिल हां और उनका आकार तोताकी जीभ कलेजा और जोंकके मुखके समान हो और देहमें दाह हो गुदाका पकना, ज्वर, पसीना, प्यास, मूर्च्छा, अरुचि और मोह ये होवे और हातके स्पर्श करनेसे गरम मालूम होवे और जिसके मलका द्रव नीला, पीला, लाल, गरम, आमसंयुक्त होय जबके समान बीचमें मोटे हो और जिसके त्वचा, नख, नेत्रादिक हरे पीले हरतालके समान और हलदीके समान होवे ये लक्षण पित्ताधिक बवासीरके हैं ॥

तिलादिचूर्ण ।

चूर्णतिलानांसितयासमेतहैमान्नवीजंगजकेसरंच ॥

लिहेन्नरांयोनिहितस्यदुष्टान्यशांसिपित्तप्रभवाणिजातु ॥

अर्थ—तिलोंका चूर्ण लाल रतालूके बीज और नागकेशर, इनका चूर्ण कर खांडके साथ देवे तो उसको पित्तकी बवासीर कदापि नहीं होवे ॥

तथा अन्यप्रयोग ।

तिलभल्लातकक्वाथमनुपित्तार्शनाशकृत् ॥ सक्षौद्रःकुटजक्वाथो

नित्यंरात्रौचपाययेत् ॥ पथ्यंमुद्गरसैदेयंशालितंडुलसंयुतम् ॥

अर्थ—तिल और भिलाए इनका काढा अथवा इन्द्रजोका काढा सहत डालके पीवे और पथ्यमें मूँगकी दाल और भात देवे तो पित्तकी बवासीर नष्टहोवे ॥

भल्लातामृत ।

गुट्टचीलांगलीशृंगीमुंडीगुंजाचेतकी ॥ पण्णांपत्ररसैर्मर्द्यै

वालभल्लातबीजकम् ॥ दिनैकमर्दयेद्राठनिष्कार्थभक्षये

त्सदा ॥ भल्लातामृतयोगोयं सर्वांशान्पित्तजाञ्जयेत् ॥

अर्थ—गिलोय, कल्यारी, काकडासिंगी, मुँडी, घूँघची और फेतकी इन छःवनस्पतियाके पत्तोंके रस में हरे भिलायोंको एकदिन खूब घोटें, इसमेंसे ४ मासे नित्य भक्षण करे तो यह भल्लातामृतयोग संपूर्ण पित्तजन्य बवासीरोंका नाश करे ॥

धत्तूरादिचूर्ण ।

धत्तूरस्यफलंपक्वंपिप्पलीनागराभया ॥ बालकंगुडसंयुक्तंभक्ष्यं गुं

जाष्टकंनिशि ॥ सितामध्वाज्यकर्पकंपिबेत्पित्तार्शसांजये ॥

अर्थ—घनूरेके पके हुए फल, पीपल, सोंठ, हरड और नेत्रवाला इनका चूर्ण रात्रिमें आठ रत्तीको तोले भर धी और खांडके साथ सेवन करे तो पित्तकी बवासीर शांति होवे ॥

भल्लातकादिमोदक ।

भल्लातकंतिलंपथ्याचूर्णगुडसमन्वितम् ॥

मोदकोभक्षयेत्कर्ममासात्पित्तार्शसांजये ॥

अर्थ—भिलाए, तिल और हरड इनके चूर्णकी गुड से १ तोले की गोली बनावे नित्य प्रति एक महीने पर्यंत सेवन करे तो पित्तकी बवासीर शांति होवे ॥

बोलवद्धरस ।

गुडूचिकासत्वसमंरसेंद्रगंधसमांशनिखिलेनवर्वरः ॥ विमर्दये

च्छाल्मलिकाभवाद्भिःस्याद्बोलवद्धोमधुयुक्तिरमापः ॥ रक्ता

र्शसांनाशकृदेपसूतःपित्तार्शसांपित्तजविद्रधेश्च ॥ रक्तप्रमे

हस्यसुडस्यचापिस्त्रीणांप्रवाहस्यभगंदरस्य ॥

अर्थ—गिलोय सत्व, पारा और गंधक, ये समान भाग लेवे, तथा तिगुनी लाल बोल लें सबको एकत्रकर इसको सेमरकी छालके रसमें खरल करे यह बोलवद्ध रस तीन मासे सहत में मिलायके सेवन करे तो रक्तार्श, पित्तार्श, पित्तविद्रधि, रक्तप्रमेह, रक्तपित्त और स्त्रियोंके रक्तप्रदर तथा भगंदर, इनका नाश होवे ॥

लोहादिमोदक ।

मृतलोहमिंद्रयवंशुंठीभल्लातचित्रकम् ॥ विल्वमज्जाविडंगानि

पथ्यातुल्यंविचूर्णयेत् ॥ सर्वतुल्योगुडोयोज्यःकर्मभुक्त्वार्श

संजयेत् ॥

अर्थ—लोह भस्म, इन्द्रजी, सोंठ, मिलाय, चीतेकी छाल, बेलगिरी, घाय-विडंग और जंगी हरड ये समान भाग लेकर चूर्ण करे तथा सब चूर्णकी बराबर गुड मिलावे इसमें से १० मासे बवासीर नष्ट होनेके वास्ते नित्य भक्षण करे ॥

तीक्ष्णमुखरस ।

मृतसूताभ्रलोहार्कतीक्ष्णमुंडचंगंधकम् ॥ मंडूरंचसमंताप्यं

मर्दकन्याद्रवैर्दिनम् ॥ अंधमूपागतंपाच्यंत्रिदिनंतुपवाह्निना ॥

चूर्णितंसितयामापंखादेत्पित्तार्शसांजये ॥ रसस्तीक्ष्णमुखोनाम
ह्यनुयोज्यमधुत्रयम् ॥

अर्थ—पारेकी मम्म अन्नक भस्म, लोह भस्म, ताम्रभस्म कांतिलोह, मुंडलोह इनकी भस्म, गंधक, मंडूर भस्म और सुवर्ण माक्षिककी भस्म ये समान भाग लेवे एकदिन घागुवारके रसमें खरल कर मुखायके मूसमें भरे उसको तीनदिन तुपामिदेवे जब शीतल हो जावे तब इसमें से १ मासेभर लेके खाडके साथ देवे यह (तीक्ष्णमुख रस) सेवन करके ऊपरसे मधुत्रय सेवन करे तो पित्तकी बवासीर शांत होवे ॥

कफकीबवासीरकाकारण ।

मधुरस्निग्धशीतानिलवणाम्लगुरुणिच ॥ अव्यायामोदिवास्व
प्रःशय्यासनसुखरतिः ॥ ७ ॥ प्राग्वातसेवाशीतौचदेशकाला
वचित्तनम् । श्लेष्मोत्वणानामुद्दिष्टमेतत्कारणमर्शसाम् ॥ ८ ॥

अर्थ—मीठा, चिकना, शीतल, खारी, स्रष्टा, भारी ऐसे भोजनसे व्यायामके न करनेसे दिनमें सोनेसे, सज गद्दी इनके सेवन करनेसे पूर्वकी हवा खानेसे शीतल देश, शीतकाल, चित्तारहित होनेसे ये कफकी बवासीर होनेके हेतुहै ॥

कफकीबवासीरकेलक्षण ।

श्लेष्मोत्वणामहामूलाघनामन्दरुजःसिताः ॥ उत्सन्नोपचिताः
स्निग्धाःस्तब्धावृत्तगुरुस्थिराः ॥ पिच्छिलास्तिमिताः
श्लक्ष्णाःकंडाढ्याःस्पर्शनप्रियाः ॥ करीरपनसास्थ्याभास्तथा
गोस्तनसन्निभाः ॥ वंक्षणानाहिनःपायुवस्तिनाभिविकारिणः
कः ॥ संधासकासहृष्टासप्रसेकारुचिपीनसाः ॥ मेहकृ-
च्छ्राशिरोजाड्यशिशिरज्वरकारिणः ॥ कुंव्याग्निमार्दवच्छ-
दिरामप्रायविकारदाः ॥ २२ ॥ वसाभाःसकफप्रायपुरीपाः
स्रप्रवाहिकाः ॥ नस्रवंतिनभिद्यन्तेपाण्डुस्निग्धत्वगादयः ॥ २३ ॥

अर्थ—कफकी बवासीरके लक्षण ये हैं जैसे कि गुदांक मस्से महामूल[दूर धातुके प्रति जानेवाले] फटिन मट पीडांक करनेवाले सपेद, लंबे, मोटे, चिपने, फरडे, गोल, भारी, स्थिर, गाढे कफसे लिपटे, मणीके समान स्वच्छ खुजली बहुत होय और प्यारी लगे करील फटहर इनके कटिके समान होय गापके धनेके सदृश होय पैडमें अफरा करनेवाल गुदा, मूत्रस्थान और नाभि इनमें पीडा करनेवाले

श्वास, खांसी, खाली, ओकी, लारका टपकना, अरुचि, पीनस इनका करने-
वाले, प्रमेह, मूत्रकृच्छ्र, मस्तकका भारी होना, शीतज्वर, नपुंसकपना, अम्लिका
मन्द होना, वमन और आम जिनमें बहुत ऐसे अतिसार, संग्रहणीआदि रोगके
करनेवाले, वसा (चर्बी) और कफ मिला दस्त होवे प्रवाहिका उत्पन्न करने
वाले और मस्तीमेंसे रुधिर न निकले गाढा मल होनेसेभी मस्से न फूटे और
शरीरका रंग पीला और चिकना होय ये कफकी ववासीरके लक्षण हैं ॥

कफार्शकीचिकित्सा ।

श्लेष्मार्शसोगुदेषार्शैरक्तगोक्षोजलूकया ॥

कृत्वाचारैरसैलपदाहंवात्रापिशस्यते ॥

अर्थ—कफजन्य ववासीरमें गुदका और गुदाके और पासका रुधिर जोंक
लगायके निकाले तथा आकके रसमें औषधोंका लेपकरे अथवा इस जगेभी
गरम सलाई से दाग देना उत्तम है ॥

सामान्यचिकित्सा ।

सूरणकासमदैचशिशुवार्ताकवालुकम् ॥ सुपक्वयोजयेच्छा
कपथ्यंगोधूमतंडुलम् ॥ कुसुंभमृदुपत्राणिआरनालेनपेपयेत् ॥
भक्षयेच्छाकवच्छांत्यैस्वयमग्निरसंतथा ॥ निष्कत्रयंत्रयनिं
त्यंगुंजवानंदभैरवम् ॥ काकतुंडीद्रवापूरादेवदाल्याश्वबीज
कम् ॥ सगुडंगुदलेपेनशूलरोगहरंपरम् ॥

अर्थ—जमीकंद, कसोंदि, सहजन, बैगन और वालुक (खीरा) इनके
शाकका पककर सेवन करे, पथ्यमें गेहूँ और चावल खाय, तथा कसूमके नरम
पत्ते काँजीमें पीस शाकके समान खाय तथा स्वयमग्निरस चार मासे अथवा
एकरत्ती आनंदभैरवरस देवे और काकतुंडीके रसमें बंदालके बीज और गुडको
पीसके गुदामें लेप करे तो पीडा दूर होवे ॥

ववासीरकाभेदललितरोग ।

गुदद्वारात्पृष्ठदेशेजायंतेपांडुरांकुराः ॥ ललितास्तेविशुप्यंतेशूल
रोगस्यलक्षणम् ॥ श्लेष्मार्शसामयंभेदोहन्याल्लेपरसायनैः ॥

अर्थ—गुदाद्वारके पिंडाडी सेपेद ववासीरके समान मस्सेहोतेहैं उनको
ललित कहतेहैं इनके सूखने पर शूल रोग होता है यह भेद कफकी ववामें
है इसको लेपकरके अथवा रसायन द्वारा शांति करे ॥

वंदाललेप ।

देवदाल्याश्ववीजानिसैधवेनसुचूर्णितम् ॥

आरनालेनलेपोयंशूलरोगनिवृत्तये ॥

अर्थ—वंदालके बीजोंको सैधेनिमकके साथ काँजीमें पीस लेप करे तो शूल रोग नष्ट होवे ॥

कांचनीलेप ।

कंचनीकुसुमंचूर्णशस्त्रचूर्णमनःशिला ॥ गजपिप्पलिसंतोयैले

पोह्यशोनिपातकः ॥ पूर्ववन्निःक्षिपेद्ब्रह्मेलिस्वानागस्यना-

लिकम् ॥ घृतसैधवसंयुक्तंकटुविट्बंधनाशनम् ॥

अर्थ—हलदी और लौंग, इनका चूर्ण, मनसिल और गजपीपल, एकत्र जलमें पीसके लेप करे तो बवासीरके-मस्से टूटके गिरपड़े, अथवा पूर्व कहे प्रमाण गुदामें शीशिकी नलीसे घी और सैधानिमक युक्त कटुपदार्थोंका काठा भरे तो विट्बंध अर्थात् मलका न उतरना दृग्होवे ॥

सूरणादिलेप ।

सूरणंरजनीवन्दिटकणंगुडमिश्रितम् ॥

पिष्ट्वारनालकैलेपोहंत्यशोसिमहांत्यपि ॥

अर्थ—जमोफंद, हलदी, चीतेकी छाल, सुहागा और गुड इनको एकत्र पीस काँजी से गुदामें लेप करे तो अशके बड़े २ मस्सेभी नष्ट होवे ॥

कटुतुंव्यादिलेप ।

आरनालेनसंपिष्टासवीजकटुतुंविका ॥

सगुडाहंतिलेपेनअशोसिमूलतोध्रुवम् ॥

अर्थ—गोली कटुई तुंवोंको काँजीमें पीसे उसमें गुड मिलाय गुदामें लेप करे तो बवासीर जडमे टखाडके निश्चय गिरपड़े ॥

पीलुतेलवर्ती ।

पीलुतेलेनसंलिप्तवर्तिकागुदमध्यगा ॥

पातयत्यशोसांसिद्धंनवलीवेदनाक्वचित् ॥

अर्थ—कपड़ेकी अथवा रुईकी मोटी चत्ती (काँकडा) घनाय उसको अखरो-

टके तेलमें ढबोकर गुदामें धररक्खे तो बवासीरके मस्सों को उखाड डाले और गुदाकी वलीमें कदाचित् पीडा नहीं करे ॥

दंत्यासव ।

दशमूलाग्निदंतीनांप्रत्येकंचपलंपलम् ॥ जलद्रोणेत्ततः का
थ्यंपादशेषंसमुद्धरेत् ॥ गुडैलातुपलैकंतुशीतभूतंविमिश्रये-
त् ॥ घृतभांडेस्थितंपक्षयथाशक्तिपिवेत्ततः ॥ अयंदंत्यासवःख्या
तःशमनेचार्शसांकिल ॥ ग्रहणीपांडुरोगंचसर्वव्याधिहरंपरम् ॥

अर्थ—दशमूल, चीतेकी छाल और दंतीकी जड ये चार२ तोले लेवे उनको २०४८ तोले जलमें औटावे जब चतुर्थांश काढा होजावे तब उतारके छान लेवे जब शीतल होजावे तब गुड और इलायची चार२ तोले डालके घीके चिकने वासनमें पंद्रह दिन धर रक्खे यह दंत्यासवको बलाबल विचारके देवे तो बवासीर, संग्रहणी, पांडुरोग और सर्व व्याधि इनका नाश करे ॥

पथ्यादिगुड ।

द्वात्रिंशत्पलपथ्यानांतदर्धामलकीफलम् ॥ कपित्थंस्याद्दशपलं
विशालापलपंचकम् ॥ विडंगंपिप्पलीलोभ्रंमरिचसैंधवालुकम् ॥
द्विपलांशंतुप्रत्येकंजलद्रोणचतुष्टयम् ॥ काथंपादावशेषंतुशीती
भूतेक्षिपेद्गुडम् ॥ पलानांद्भिश्चतंचैवधातकीपलपंचकम् ॥ घृत
भांडेस्थितेतस्मिन्यथाशक्तिपिवेत्ततः ॥ अर्शांसिग्रहणीपांडुहृद्रो
गृहीहगुल्मनुत् ॥ मंदाग्निचोदरंशोथंकुष्ठप्रंपरमौषधम् ॥

अर्थ—बडीहरड १२८ तोले, आंवले ६४ तोले, कैथ ४ तोले, इन्द्रायनकी जड २० तोले और वायविडंग, पीपल, लोध, कालीमिरच, सैधानिमक, आलु ये प्रत्येक आठ २ तोले लेवे, सबको जबकुटकर २०४८ तोले जलमें औटावे जब चतुर्थांश रहे तब उतारके छानलेय, जब शीतल होजावे तब ८०० तोले गुड और धायके फूल २० तोले डालके धर रक्खे इसको यथा शक्ति सेवन करे तो बवासीर, संग्रहणी, पांडुरोग, हृदयरोग, श्लेहा, गोला, मंदाग्नि, उदर, सूजन और कुष्ठ इन सबका नाश होवे ॥

भल्लातकहरीतकी ।

भल्लातकहरीतक्योपाठाकटुकरोहिणी ॥ यवान्यजाजिकुष्ठंच

चित्रकोटिविपावचा ॥ कचोरंपौष्करंमूलंहिंगुइंद्रयवंतथा ॥
शुंठीसौवर्चलंतुल्यंगवांमूत्रेणपेपयेत् ॥ छायाशुष्काचवटि
कामापमात्रंचभक्षयेत् ॥ पिबेदुष्णोदकंपश्चात्कफोत्थानर्श
साञ्जयेत् ॥

अर्थ—भिलाये, जंगीहरड, पाठ, कुटकी, अजवायन, जीरा, कूट, चीतिकी छाल, अतीस, वच, कचूर, पुहकरमूल, हींग, इन्द्रजव, सोंठ और संचरनिमक, ये औषध सब समान भाग लेवे सबको गौके मूत्रमें पीसके छायामें सुखायले इसकी एक मासेकी गोली नित्य भक्षण करे और ऊपरसे गरम जल पीवे तो कफकी बवासीर नष्ट होवे ॥

लाङ्गल्यादिमोदक ।

लांगलीद्रयवाकृष्णावन्ह्यपामार्गतंडुलाः ॥ भूनिवसैधवंतुल्यं
सर्वस्यद्विगुणंगुडम् ॥ भक्षयेत्कर्पमात्रंतुष्टेष्मोद्भूतार्शसांजये ॥

अर्थ—कल्यारी, इन्द्रजव, पीपल, चीतिकी जड़, अंगीके चावल, चिरायता और सैधानिमक ये औषध समान भाग ले और सब चूर्णसे दूना गुड डाले इसमें से दश मासे सेवन करे तो यह लांगल्यादि मोदक कफकी बवासीरको नाशकरे ॥

पथ्यादिमोदक ।

पथ्याशुंठीकणावह्निप्रत्येकंचूर्णयेत्पलम् ॥ त्वगेलापत्रकंचाथ
प्रत्येकंकर्पमात्रकम् ॥ गुडंदशपलंयोज्यंकर्पभुक्त्वार्शसांजये ॥

अर्थ—हरडकी छाल, सोंठ, पीपल और चीता ये प्रत्येक चार २ तोले लेय, तथा दालचीनी, इलायची, पत्रज, ये प्रत्येक एक २ तोले सबका चूर्णकर इसमें गुड ४० तोले डाल कूट पीस १० मासेकी गोली बनावे १ गोली नित्य सेवन करे तो बवासीर दूर होवे ॥

यवान्यादिमोदक ।

यवान्यक्षभयाजाजीपिप्पलीचूर्णयेत्समम् ॥

चूर्णाद्द्विगुणंयोज्यंकर्पभुक्त्वार्शसांजये ॥

अर्थ—अजवायन, बहेडा, हरड, जीरा और पीपल, इनको समान भाग ले चूर्णकरे तथा सब चूर्णसे दूना गुड मिलावे सबको एक जीवकर दश मासेकी गोली बनावे एक गोली नित्य सेवनकरे तो बवासीरको नष्ट करे ॥

भल्लातकादिलेप ।

भल्लातकगजास्थीनिदंतीनिवकपोतविट् ॥

गुडसौराष्ट्रचमृतजैलेपः श्लेष्मार्शसांजये ॥

अर्थ—भिलौंचे, हाथीकीहड्डी, तथा दंती, नोम, कन्नूतरकी बीद, गुड, फिटकरी और सिंगियाचिप, इनको जलमें पीसके लेपकरे तो कफकी बवासीर नष्ट होय

शृंगवेरकाथ ।

कफजेशृंगवेरस्यकाथोनित्योपयौगिकः ॥

अर्थ—कफकी बवासीरपर अदरखका काढा नित्य उपयोगी है ॥

रक्तार्शनिदान ।

रक्तोल्बणागुदेकीलाःपित्ताकृतिसमन्विताः ॥ वटप्ररोहसदृशागुं

जाविद्रुमसन्निभाः ॥ तेत्यर्थदुष्टमुष्णचगाढविट्कप्रपीडिताः ॥

स्रवंतिसहस्रांरक्तस्यचातिप्रवृत्तितः ॥ भेकाभःपीड्यतेदुः

खैः शोणितक्षयसंभवैः ॥ हीनवर्णवलोत्साहोहतौजाःकलुषेन्द्रियः ॥

विट्श्यावंकठिनंरूक्षमधोवायुर्नगच्छति ॥

अर्थ—गुदाके मस्सोंका रंग चिरमिटीके रंगके समान न होवे अथवा वटके अंकुरसे हो और पित्तकी बवासीरके लक्षण जिसमें मिलते हो। मूँगाके सदृश हो और दस्त कठिन उतरनेसे मस्से दबे तब उन मस्सोंमेंसे दुष्ट और गरमागरम रुधिर पडे और रुधिरके बहुत पडनेसे वर्षाऋतुके मेडकोंके समान पीला रंग होजाय रुधिरके निकलनेसे (जो प्रगट त्वचाका कठोरपना, नाडीका शिथिलपना और खट्टीघस्तु तथा शीतकी इच्छादि दुःख तिनसे पीडित होय) हीनवर्ण, बल, उत्साह, पराक्रमका नाश होय, सम्पूर्ण इन्द्रियोंका व्याकुल होना, उसका काला, कठिन और रूखा ऐसा मल होय, अपानवायु सरे नहीं, यह लक्षण रुधिरकी बवासीरके जानने चाहिये ॥

वातादियुक्तरक्तार्शकेलक्षण ।

तनुचारुणवर्णचफेनिलंचासृगंशंसाम् ॥ कटचूरुगुदशूलंचदौ

र्वल्यंयदिचाधिकम् ॥ तत्रानुबंधोवातस्यहेतुर्यदिचरूक्षणम् ॥

शिथिलंश्वेतपीतंचविट्स्निग्धंगुरुशीतलम् ॥ यद्यर्शसांधनंचा

सृक्तंतुमत्पांडुपिच्छलम् ॥ गुदंसपिच्छंस्तिमितंगुरुस्निग्धंच
कारणम् ॥ श्लेष्मानुबंधोविज्ञेयस्तत्ररक्ताशसांबुधैः ॥

अर्थ—ववासीरमेंसे रुधिर थोडा, अरुणवर्ण और ज्ञागसंयुक्त निकले और कमर, जांघ और गुदा इनमें दर्द होवे । यदि दुर्बलता विशेष होजावे और उसमें कोई रुक्षहेतु पहुंचा होवे तो इस रक्ताशको वातका सम्बंध है ऐसे जानना । जिसमेंसे शिथिल, संफेद, पीला, चिकना, भारी और शीतल ऐसा दस्त होवे और जिसका रुधिर गाढा, तंतुयुक्त, पीला तथा बंबुलेयुक्त निकले और गुदा बंबूले युक्त गीली होवे और भारी चिकनी ऐसे कोई कारण होवे तो उस रक्ताशको कफका सम्बन्ध जानना ॥ शंका—क्योंजी ! पित्तके अनुबन्धकी ववासीर क्यों नहीं कही ? उत्तर—रक्तके और पित्तके प्रायःकरके समान लक्षण होनेसे नहीं कहे, क्योंकि पहले २४ के श्लोकमें कहीआयेहैं कि (पित्ताकृतिसमन्विताः) इति ॥

सामान्यचिकित्सा ।

स्वयमग्निरसोप्यत्रभक्षयेदर्शसांजये ॥

सितामध्वाज्यकर्पिकमनुपानंपिवेत्सदा ॥

अर्थ—रक्ताश पर स्वयमग्निरस देवे और इसके ऊपर खौड़, घी, शहत मिलायके एक तोले सेवन करे तो ववासीर नष्ट होवे ॥

अश्वगंधादिधूप ।

अश्वगंधोथनिर्गुडीवृहतीपिप्पलीफलम् ॥

धूपोयंस्पर्शपात्रेणद्वशंसांशमनेह्यलम् ॥

अर्थ—असगंध, निर्गुडी, कटेरी और पीपल, इनकी धूनी ववासीरको स्पर्श होतेही हितकारी है ॥

अर्कमूलादिधूप ।

अर्कमूलंशमीपत्रंनृकेशाःसर्पकंचुकी ॥

माजारचमंचाज्यंचगुदधूपोशंसांहितः ॥

अर्थ—आककी जड़, छीशुराके पत्ते, मनुष्यके बाल, सर्पकी फाँचली, विछीकी चमडी और घी, इन सबकी धूप गुदामें देनेसे हितकारी होतीहै ॥

पिपीलिकातेल ।

पिपीलीवदनं विल्वंचायष्टिकचूरकम् ॥ शताद्वापुष्करं कुण्ठं चि

त्रकंदेवदारुकम् ॥ तुल्यांशंकारयेत्कल्कंकल्कात्तैलंचतुर्गुणम् ॥
तैलात्क्षीरं द्विधा योज्यं पचेत्तैलावशेषकम् ॥ अर्शांसांवातयुक्तानां
तच्छ्रेष्ठमनुवासनम् ॥ पिपील्याद्यमिदं ख्यातं लेपने मर्दनोहितम् ॥

अर्थ—चैटी, मेनफल, बेलगिरी, वच, मुलहठी, कचूर, शतावर, पुहकरमूल, कूट, चीतेकी छाल और देवदारु, ये सब समान भाग लेकर कल्क करे और कल्क से चौगुना तैल, तथा, तैलसे दूना दूध ये सब एकत्र करके ओटावे जब तैलमात्र शेष रहे तब उतार लेय इस तैलकी अनुवासनवस्ती देना उत्तम है ॥

विपमुष्टिचूर्ण ।

विपमुष्टिभवं वीजं पट्टासप्ताष्टवापिच ॥ चूर्णितं ससितं भक्ष्यं रक्ता
शौविनिवारणम् ॥ महाप्रमेहशमनं त्वग्दोषकृमिनाशनम् ॥

अर्थ—कुचलेके छः सात अथवा आठ बीजोंका चूर्णकर बलावल विचार थोडा २ खांडके साथ देवे तो खूनी बवासीर, महामेह, त्वचाके दोष और कृमि इनका नाशकरे ॥

नवनीतादियोग ।

नवनीततिलाभ्यासात्केसरनवनीतशर्कराभ्यासात् ॥
दधिरसमथिताभ्यासाद्भुजङ्गदजाःशाम्यन्ति रक्तवाहाश्च ॥

अर्थ—मक्खन, तिल, अथवा नागकेशर, मक्खन, खँड, अथवा दहीकी मलाई, छाँड इनको बराबर सेवन करे तो खूनी बवासीर शांति होवे ॥

भल्लातकामृत ।

भल्लातकचतुःपाष्टिपलंदुग्धंचतत्समम् ॥ दुग्धाच्चतुर्गुणं वारिपा
च्यंदुग्धावशेषकम् ॥ दुग्धतुल्यं घृतं योज्यं घृतपादं सितं क्षिपे
त् ॥ मधुधात्रीसितातुल्यं सितार्थमभयारजः ॥ मृतलोहं गुडूर्ध्वं
चप्रत्येकमभयार्थकम् ॥ क्षिपेत्स्निग्धघटे सर्वधान्यराशौ निवेशये
त् ॥ सप्ताहादुद्धृतं तच्छुखादेन्निष्कत्रयं त्रयम् ॥ भल्लातकामृतं ना
महन्ति रक्ताशंसां किल ॥ क्षारं तीक्ष्णं न भोक्तव्यं तैलाभ्यंगं च वर्जयेत् ॥

अर्थ—भिलाए तोले २५६ और २५६ तोले दूध, तथा दूधकी अपेक्षा चौगुना जल

सूक्तंतुमत्पांडुपिच्छलम् ॥ गुदंसपिच्छंस्तिमितंगुरुस्निग्धंच
कारणम् ॥ श्लेष्मानुबंधोविज्ञेयस्तत्ररक्ताशंसांबुधैः ॥

अर्थ—बवासीरमेंसे रुधिर थोडा, अरुणवर्ण और झागसंयुक्त निकले और कमर, जांघ और गुदा इनमें दर्द होवे। यदि दुर्बलता विशेष होजावे और उसमें कोई रुक्षहेतु पडुंचा होवे तो इस रक्ताशंशको वातका सम्बंध है ऐसे जानना। जिसमेंसे शिथिल, सफेद, पीला, चिकना, भारी और शीतल ऐसा दस्त होवे और जिसका रुधिर गाढा, तंतुयुक्त, पीला तथा बंबुलेयुक्त निकले और गुदा बंबूले युक्त गीली होवे और भारी चिकनी ऐसे कोई कारण होवे तो उस रक्ताशंशको कफका सम्बन्ध जानना ॥ शंका—क्योंजी ! पित्तके अनुबन्धकी बवासीर क्यों नहीं कही ? उत्तर—रक्तके और पित्तके प्रायःकरके समान लक्षण होनेसे नहीं कहे, क्योंकि पहले २४ के श्लोकमें कहिआयेहैं कि (पित्ताकृतिसमन्विताः) इति ॥

सामान्यचिकित्सा ।

स्वयमग्निरसोप्यत्रभक्षयेदर्शसांजये ॥

सितामध्वाज्यकर्पकमनुपानंपिवेत्सदा ॥

अर्थ—रक्ताशं पर स्वयमग्निरस देवे और इसके ऊपर खंड, घी, शहत मिलायके एक तोले सेवन करे तो बवासीर नष्ट होवे ॥

अश्वगंधादिधूप ।

अश्वगंधोथनिर्गुंडीवृहतीपिप्पलीफलम् ॥

धूपोयंस्पर्शमात्रेणह्यशंसांशमनेह्यलम् ॥

अर्थ—असगंध, निर्गुंडी, कटेरी और पीपल, इनकी धूनी बवासीरको स्पर्श होतेही हितकारी है ॥

अर्कमूलादिधूप ।

अर्कमूलंशमीपत्रंनृकेशाःसर्पकंचुकी ॥

मार्जारचमंचाज्यंचगुदधूपोशंसांहितः ॥

अर्थ—आफकी जड़, छीकुराके पत्ते, मनुष्यके चाल, सर्पकी काँचली, चिछीकी चमडी और घी, इन सबकी धूप गुदामें देनेसे हितकारी होती है ॥

पिपीलिकातेल ।

पिपीलीवदनं विल्वंचायष्टिकचूरकम् ॥ शताह्वापुष्करंकुप्टंचि

त्रकंदेवदारुकम् ॥ तुल्यांशंकारयेत्कल्कंकल्कात्तैलंचतुर्गुणम् ॥
 तैलात्क्षीरं द्विधा योज्यं पचेत्तैलावशेषकम् ॥ अर्शसांवातयुक्तानां
 तच्छ्लेष्टमनुवासनम् ॥ पिपील्याद्यमिदं रूपांतलेपने मर्दने हितम् ॥

अर्थ—चैटी, मेनफल, बेलगिरी, वच, मुलहठी, कचूर, शतावर, एहकरमूल, फूट, चीतेकी छाल और देवदारु, ये सब समान भाग लेकर कल्क करे और कल्क से चौगुना तेल, तथा, तेलसे दूना दूध ये सब एकत्र करके ओटावे जब तेलमात्र शेष रहे तब उतार लेय इस तेलकी अनुवासनवस्ती देना उत्तम है ॥

विपमुष्टिचूर्ण ।

विपमुष्टिभवं बीजं पद्मासप्ताष्टवापिच ॥ चूर्णितं ससितं भक्ष्यं रक्ता
 शौविनिवारणम् ॥ महाप्रमेहशमनं त्वग्दोषकृमिनाशनम् ॥

अर्थ—कुचलेके छः सात अथवा आठ बीजोंका चूर्णकर बलाबल विचार थोडा २ खांडके साथ देवे तो खनी बवासीर, महामेह, त्वचाके दोष और कृमि इनका नाशकरे ॥

नवनीतादियोग ।

नवनीतातिलाभ्यासात्केसरनवनीतशर्कराभ्यासात् ॥
 दधिरसमथिताभ्यासाद्भुजःशाम्यति रक्तवाहाश्च ॥

अर्थ—मक्खन, तिल, अथवा नागकेशर, मक्खन, खोंड, अथवा दहीकी मलाई, छाँड इनको बराबर सेवन करे तो खनी बवासीर शांति होवे ॥

भल्लातकामृत ।

भल्लातकचतुःषष्टिपलंदुग्धंचतत्समम् ॥ दुग्धाच्चतुर्गुणं वारिषा
 च्यंदुग्धावशेषकम् ॥ दुग्धतुल्यं घृतं योज्यं घृतपादं सिताक्षिपे
 त् ॥ मधुधात्रीसितातुल्यं सिताधर्मभयारजः ॥ मृतलोहंगुडूर्चा
 चप्रत्येकमभयार्धकम् ॥ क्षिपेत्स्निग्धघटे सर्वधान्यराशौ निवेशये
 त् ॥ सप्ताहादुद्धृतं तच्छुखादेन्निष्कत्रयं त्रयम् ॥ भल्लातकामृतं ना
 महंति रक्ताशंसां किल ॥ क्षारं तीक्ष्णं न भोक्तव्यं तैलाभ्यगंच वर्जयेत् ॥

अर्थ—भिलाए तोले २५६ और २५६ तोले दूध, तथा दूधकी अपेक्षा चौगुना जल

तथा दूधकी बराबर घी डालके औटावे जब घी मात्र शेष रहे तब इसमें घीका चतुर्थांश मिश्री, शहत, आवले और मिश्रीसे आधा हरडका चूर्ण, हरडके चूर्ण से आधा लोहभस्म, तथा गिलोय का सत्व डालके घीके चिकने वासनमें भरके धान्यकी राशिमें ७ दिन गाढ देवे फिर काढके इसमें से १ तोले रोगीको देवे तो यह भङ्गातकामृत नामक औषध खूनी बवासीरको नाश करे इसपर खटाई, तथा तीखा पदार्थ न खाय तथा तेलकी मालिस न करे ॥

सिद्धघृत ।

द्वात्रिंशत्पलकंचाज्यंछागदुग्धंतथादधि ॥ छागमांसरसश्चैव
दाडिमस्यफलद्रवम् ॥ प्रत्येकंघृततुल्यांशंभांडेचूर्णमिदंक्षिपे
त् ॥ आम्राडंध्यूपणंमुस्तंमज्जाविल्वकपित्थयोः ॥ तित्तिणी
धातकीपुष्परक्तचंदनचंदनम् ॥ उशीरंवालकंलोभ्रंप्रियंगुंपद्मके
सरम् ॥ मंजिष्ठावदरीचव्यंत्वगेलापद्मकंबला ॥ यष्टिमोचरसं
चैवउत्पलंप्रतिकर्षकम् ॥ सर्वमेकीकृतंपाच्यंग्राह्यमाज्यावशे
पकम् ॥ योजयेदर्शसांहंतृग्रहणीकृच्छ्रपांडुपु ॥ ज्वरंस्त्रावमतीसा
रंकटिशूलंचनाशयेत् ॥ इदंसिद्धघृतंनामरक्तपित्ताशंसांहितम् ॥

अर्थ—घी १२८ तोले, बकरीका दूध- दही, बकरेके मांसका रस, और अनारका रस, सब घीके बराबर ले, अंवाडा, सोंठ, कालीमिरच, पीपल, नागर-मोथा, बेलगिरी, केथका गुदा, इमली, धायके फूल, लालचंदन, चंदन, नेत्रवाला, खस, लोप, फूलप्रियंगु, कमलकी केशर, मँजीठ, बेर, चव्य, दालचीनी, इला-यची, पन्नाख, खिरेटी, सुलहटी, मोचरस और कूट, ये प्रत्येक एक एक तोले लेवे सबको एकत्रकर औटावे जब घृत मात्र शेष रहे तब डतार लेवे यह घी बवासीर, संग्रहणी, मूत्रकृच्छ्र, पांडुरोग, ज्वर, कमरका दर्द और पित्ताश इनका नाश करे इसका सिद्धघृत नाम है ॥

शिवरस ।

सूतवैक्रांतशुल्वाभ्रंकांतभस्मसगंधकम् ॥ तुल्यांशंमर्दयेचादौ
दाडिमोत्थैरसेस्तथा ॥ भक्षयेन्मापमेकंतुहंत्यशांतिशिवोरसः ॥

अर्थ—पारा, वैक्रांतमणि (कांसुला) तांबा, अभ्रक, और फातलोह इनकी भस्म तथा गंधक ये सब समान भाग ले अनारके रसमें सरलकर एक मासकी गोली बनावे १ गोली रोगीको देवे. यह शिवरस बवासीर रोगका नाश करे ॥

अपामार्गवीजादिचूर्ण ।

अपामार्गस्यवीजानिवह्निशुंठीहरीतकी ॥ मुस्ताभूनिवतुल्यांशं
सर्वतुल्यंगुडंभवेत् ॥ कर्पूरकंभक्षयेच्चानुजीर्णतेतक्रभोजनम् ॥

अर्थ-ओंकाके बीज, चीतिकी छाल, सोंठ, हरड़, नागरमोथा और चिरायताये सब समान भाग लेके चूर्णकरे तथा सब चूर्णके समान गुड मिलावे इसमेंसे १ तोल रोगीको खानेकेवास्ते देवे, इस औषधिके जीर्ण होनेपर छाँड़ और भातका पथ्य देय तो सर्व प्रकारकी संग्रहणी दूर होवे ॥

लोहामृतरसः ।

संग्राह्यमृतलोहस्य पलान्यष्टादशानिच ॥ त्रिकटुत्रिफलादा
वींविह्निमुस्तादुरालभा ॥ किराततित्तकोनिवपटोलकटुकामृ
ता ॥ देवदारुविडंगानिपर्पटंप्रतिकर्पकम् ॥ मध्वाज्याभ्यांलिहे
त्कर्पमर्शांसिग्रहणींजयेत् ॥ वातपित्तकफरक्तनाशयेद्रोगसंच
यम् ॥ ख्यातोलोहामृतोनामदेहदाढ्यकरःपरः ॥

अर्थ-लोहभस्म ७२ तोले, तथा त्रिकुटा (सोंठ, मिरच, पीपल,) त्रिफला (हरड़ बहेडा, आंवला,) दारुहलदी, चीता, नागरमोथा, धमासा, चिरायता नीमकी छाल, पटोलपत्र, कुटकी, गिलोय, देवदारु, वायविडंग और पित्तपापडा, ये प्रत्येक तोला २ लेवे सबका चूर्णकर लोहकी भस्म मिलाय देवे फिर इसमें शहत १ तोला मिलावे और घी १ तोला मिलायके खानेको देवे तो यह लोहामृतरस बवासीर रोग, चादी, पित्त, कफ, रुधिरविकार अनेक रोगोंको नाशकरे, यह रस देहको लोहके समान दृढ करनेवालाहै ॥

विम्बीपत्रादिलेप ।

विश्वाश्वायरजैःपत्रैर्हितलेपनमर्शसाम् ॥

अर्थ-सोंठ, और देवदारुके पत्तोंको एकत्र कूट पीस बवासीरपर लेपकरे तो बवासीर नष्टहोवे ॥

ज्योतिष्कबीजलेप ।

ज्योजिष्कबीजकल्केनलेपोरक्तार्शसांहितः ॥

अर्थ-मालकाँगनीके बीजोंको पीसके लेपकरे तो खूनो बवासीर नष्ट होवे इसमें संदेह नहीं है ॥

गुंजाकूष्मांडलेप ।

गुंजाकूष्मांडवीजंचसूरणेनचवार्तिकाम् ॥

लेपयेच्छाययाशुष्कांगुदगाह्यर्शांसांजये ॥

अर्थ—घूंघची, पेठेके बीज और जमीकंद इनको एकत्र पीसके कपडे पर लेपदेवे फिर इसको छायामें सुखायके इसकी बत्ती बनावे इस बत्तीको गुदामें रखे तो बवासीर नष्ट होवे, यह प्रयोग मुख्य करके बादी बवासीरपर चलता है ॥

कनकार्णवरसः ।

नवंधात्रीभवंचूर्णंपलानांशतमात्रकम् ॥ विडंगंमरिचंपाठाचव्य
चित्रकवालकम् ॥ मंजिष्ठापिप्पलीमूलंलोध्रंपूगफलंतथा ॥
प्रत्येकंपलमात्रस्यात्पिप्पलीगजपिप्पली ॥ कुपुंदारुनिशामु
स्ताशताब्हासारिवाद्रयम् ॥ इंद्रवारुणिकामूलंचूर्णमर्धपलोन्मि
तम् ॥ चत्वारिनागपुष्पस्यपलानिचूर्णयेत्ततः ॥ चूर्णादष्टगु
णंतोयंकाथंपादावशेषकम् ॥ आदायवस्त्रपूतंतुतुल्यंद्राक्षारसः
कृतः ॥ सितापलशतंयोज्याक्षौद्रंचपलपोडशम् ॥ घृताक्तेनि
क्षिपेद्रांडेशर्करागुडधूपिते ॥ त्वगेलगंधपत्राणिउशीरंनाग
केसरम् ॥ बालकंकमुकंचूर्णप्रतिकर्षेचनिःक्षिपेत् ॥ मुखंरुद्धा
स्थितंपक्षंख्यातोयंकनकार्णवः ॥ यथेष्टंपाययेद्रव्यंदीपकःस-
र्वरोगहा ॥ अर्शांसिग्रहर्णापांडुंश्वयधुंचविनाशयेत् ॥

अर्थ—नवान आंवलोंका चूर्ण ४०० तोले और चायविडंग, कालीमिरच, पाठ, चव्य, चीतेकीछाल, नेत्रवाला, मंजीठ, पीपरामूल, पठानी लोप और सुपारी ये प्रत्येक चार २ तोले लेवे, पीपर, गजपीपर, कूट, देवदारु, हलदी, नागरमोथा, शतावर, गौरीसर, कालीसर, इन्द्रायनकी जड़, ये प्रत्येक दोतोलें लेवे, नागकेशर १६तोलें इन सबको एकत्र कूट पीस चूर्णकरे, चूर्णसे अठगुना पानी दालके काढा करे जब चतुर्थांश शेष रहे तब उतारके छानलेवे, फिर नितना काढा होवे ततना दास का रस मिलावे और चारसो तोलें मिर्ची तथा सहत चौसठ तोलें ले फिर उत्तम चिकने वासनमें प्रथम, खांड औरगुड इनकी धनी देकर सब औषध काडे सभत भरदेवे तथा उसमें दालचीनी छोटी इलायची, पत्रज, खसः

नागकेशर, नेत्रवाला और सुपारी ये प्रत्येक तोले २ चूर्ण उसमें डालके सुख बंदकरके किसी उत्तम स्थानमें धरा रहने दे, यह कनकार्णवरस कहलाताहै इसको रोगीका बलाबल विचारके वैद्य देवे और पथ्यमें यथेष्ट भोजनकरे किसी वस्तुका परहेज नहींहै यह अमिको दीपन करताहै, तथा सर्व रोग, बवासीर, संग्रहणी, पांडुरोग, और सूजन इसको नाशकरे ॥

योगराजगूगल ।

कणागजकणावन्हिविडंगेंद्रयवायवैः॥ कटुकापिप्पलीमूलंभां-
गीपाठाजमोदकम् ॥ मूर्वाशुंठीहिंगुचव्यंसमं सर्वांशुगुगुलुः ॥
चूर्णयेन्मधुनाखादेत्कर्पांशुयोगराजकम् ॥ रक्तवाताशंसोयुल्म
ग्रहणीपांडुजिद्रवेत् ॥

अर्थ—पीपल, गजपीपल, चीतेकी छाल, वायविडंग, इन्द्रजी, जवासा, कुटकी, पीपरामूल, भारंगीकी जड़, पाठकी जड़, अजवायन, मूर्वा, सोंठ, घाटकी हींग और चव्य ये बराबर लेवे और सबकी बराबर शुद्ध करी गूगल डाले सबको फूट पीस १ तोलेकी गोली बनायले १ गोली शहतके साथ स्नाय तो सूनी बवासीर, वादी बवासीर, गोलका रोग, संग्रहणी और पांडुरोग अर्थात् पीलिया इनको नष्ट करे इस औषधको योगराज कहते हैं ॥

रालयोग ।

रालचूर्णस्यतेलेनसार्पपेणयुतस्यच ॥

धूपदानेनयुत्तयाशौरक्तस्रावोनिवर्तते ॥

अर्थ—राल (राल) का चूर्ण तथा सरसों एकत्र कर धूनी देवे तो बवासीर और रुधिरका स्राव बंद होवे ॥

कर्पूरधूप ।

रक्तौघशांतयेदेयंगुदेकर्पूरधूपनम् ॥

अर्थ—यदि बवासीरवालेकी शुदासे रुधिर अधिक निकलताहोय तो कर्पूरकी धूनीदेय तो रुधिर गिरना बंद होवे ॥

पयसादियूप ।

पयसाशृतेन यूपैःसतिलमुद्गाढकिमसूराणां ॥

ओदनमद्यादम्भेमधुरैरीपत्सुगंधश्च ॥

अर्थ—तिल, गुड, अरहर और मसूर इनका काटा अथवा यूपमें थोड़ीसी खटाई डालके मधुरकर तथा सुगंधित करके उसके साथ भातको खाय तो रुधिर जाना बंद होवे ॥

कालकलांतकवटी ।

शुद्धसूतंमृतं वंगं तालांसिंधूत्थलांगली ॥ पलंतूरीपलैकैकं ल
सुनंचचतुःपलम् ॥ कारवल्ल्याद्रवैर्मर्द्यदिनैकंवटकीकृतं ॥ गुं
जामात्रंसदाखादेद्बुद्धरेचतांक्षिपेत् ॥ रक्तवातकफोत्थाना
मर्शांशमयेत्क्षुब्धम् ॥ वटीकालकलांतियमनुपानंचकथ्यते ॥
भल्लातत्रिफलादंतीवन्हिचूर्णसंसमम् ॥ सिंधवंसर्वतुल्यं स्याद्दर्ज
येत्खर्परोचिरम् ॥ मृद्गग्निनाभवेत्सिद्धं कर्पतक्रैःपिवेदनु ॥

अर्थ—पाराशुद्ध, वंगकी भस्म, हरताल, सिंधानिमक, कालियारी और अरहरये प्रत्येक चार चार तोले लेय तथा लहसुन १६ तोले ले सबको एकत्र कर करेलेके रससे एकदिन खरलकरे फिर इसकी एक एक रत्तीकी गोली घनावे नित्य प्रति एकएक गोली सेवनकरे तथा एक गोली गुदामें धररखे तो रक्तवात तथा कफसे प्रगट होनेवाली बवासीरोंका शीघ्र नाश होवे, इस कालकलांतकवटीका अनुपान कहताहूं, भिलौए, त्रिफला, जमालगोटा, चीता और सिंधानिमक ये समान भागले इनके चूर्णको खिपडेमें डालके मंदाग्निपर भूने, फिर इसमेंसे १ तोला छाँलक साथ पिलावे ॥

अपामार्गादिकल्क ।

अपामार्गस्यबीजानांकल्कस्तंदुलवारिणा ॥

पीतोरक्तांशानांशंकुरुतेनास्तिसंशयः ॥

अर्थ—ऑंगाके बीजोंको चाबलोंके धुले हुए पानीमें पीसके कल्क करे इस कल्कके पीनेसे खूनी बवासीर नष्ट होवे इसमें संदेह नहीं है ॥

पद्मकेशरयोग ॥

सपद्मकेशरक्षौद्रनवनीतं न वलिहन् ॥

सिताकेशरसंयुक्तं रक्तांशसुसुखीभवेत् ॥

अर्थ—कमलकी केशर, शहत, नवीन मक्खन (लोनी) खांड और नागके-

शर ये सब समान भाग लेकर गोली बनावे इसके भक्षण करनेसे खूनी बवासीरवाला माणी आनंद युक्त होवे ॥

समंगादिदूध ।

समंगोत्पलमोचाव्हतिरीटतिलचंदनैः ॥

सिद्धंछागीपयोदद्याद्भुदजेशोणितात्मके ॥

अर्थ—लजालू (लजावन्ती) कमल, मोचरस, पठानी लोध, तिल और चंदन, इनको बकरीके दूधमें डालके दूध सिद्धकरे इसे पीवेतो खूनी बवासीर नष्टहोवे ॥

खूनीबवासीरपरकथ ।

चंदनकिराततित्तकधन्वयवासाःसनागराः कथिताः ॥

रक्ताशसांप्रशमनादावींत्वगुशीरनिवाश्च ॥

अर्थ—चंदन, चिरायता, कुटकी, जवासा सोंठ, दारुहलदी, दालचीनी खस और नीमकी छाल इनका काढा करके पीवे तो खूनी बवासीरको नष्टकरे ॥

द्राक्षादियोग ।

द्राक्षाहरिद्रामधुकंमंजिष्ठानीलमुत्पलम् ॥

अजाक्षरिणसंपीतंरक्तजाशोविनाशनम् ॥

अर्थ—मुनकादाख, हलदी, सुलहदी, मंजीठ और नीला कमल इनका कल्क करके बकरीके दूधसे पीवे सो खूनी बवासीरका नाश करे ॥

त्रिकटादियोग ।

त्रिकटुत्रिफलादंतीवह्निभल्लातसैंधवम् ॥ सुवर्चलंचसामुद्रंलव

पंगुततैलकम् ॥ छागमज्जावसामूत्रंगोमूत्रंनरमूत्रकम् ॥ महि

पीगर्दभाश्वानामेपामूत्रैर्दिनत्रयम् ॥ भावयेच्छोपयेत्तच्चरुद्धा

गजपुटेपचेत् ॥ निष्कद्वयंपिवेच्चाज्यैरक्तवाताशसांजये ॥

क्षरैर्मांसरसेर्भोज्यंशूलगुल्मंचनाशयेत् ॥

अर्थ—त्रिकटु, त्रिफला, जमालगोटा, चीतकी छाल, भिलौण, सैंधानिमक, सोराफलमी, समुद्रका निमक, घी, तेल और बकरेकी मज्जा चर्चा, तथा मूत्र और गो, मनुष्य, भैंस, गधा और घोडा इनके मूत्रमें उक्त औषधोंको तीनदिन धरारहने देवे फिर सुस्तयके शरावसंपुटमें रखके गजपुटमें धरके फूंक देवे जब शीतल होजावे तब निकालके इसमेंसे आठ मासे औषध पीके साथ राये तो

अर्थ—तिल, गुड, अरहर और मसूर इनका काठा अथवा यूपमें थोड़ीसी खटाई डालके मधुरकर तथा सुगंधित करके उसके साथ भातको खाय तो रुधिर जाना बंद होवे ॥

कालकलांतकवटी ।

शुद्धसूतंमृतवंगंतालंसिंधूत्थलांगली ॥ पलंतूरीपलैकैकंल
सुनंचचतुःपलम् ॥ कारवल्ल्याद्रवैर्मर्द्यदिनैकंवटकीकृतं ॥ गुं
जामात्रंसदाखादेद्भुदद्वारेचतांक्षिपेत् ॥ रक्तवातकफोत्थाना
मर्शांशमयेत्क्षुवम् ॥ वटीकालकलांतेयमनुपानंचकथ्यते ॥
भक्ष्यातत्रिफलादंतीवन्हिचूर्णंसंसमम् ॥ सैधवंसर्वतुल्यंस्याद्दर्ज
येत्खर्परोचिरम् ॥ मृद्भग्निनाभवेत्सिद्धं कर्पतक्रैःपिवेदनु ॥

अर्थ—पाराशुद्ध, वंगकी भस्म, हरताल, संधानिमक, कालियारी और अरहरये प्रत्येक चार चार तोले लेय तथा लहसुन १६ तोले ले सबको एकत्र कर करेलेके रससे एकदिन खरलकरे फिर इसकी एक एक रत्तीकी गोली बनावे नित्य प्रति एकएक गोली सेवनकरे तथा एक गोली गुदामें धरकरले तो रक्तवात तथा कफसे प्रगट होनेवाली बवासीरोंका शीघ्र नाश होवे, इस कालकलांतकवटीका अनुपान कहताहूँ, भिलौण, त्रिफला, जमालगोटा, चीता और संधानिमक ये समान भागले इनके चूर्णको खिपडेमें डालके मंदाभिपर भूने, फिर इसमेंसे १ तोला छौंछक साथ पिलावे ॥

अपामार्गादिकल्क ।

अपामार्गस्यवीजानांकल्कस्तंदुलवारिणा ॥

पीतोरक्ताशंसांशंकुरुतेनास्ति संशयः ॥

अर्थ—ऑंगाके बीजोंको चावलके धुले हुए पानीमें पीसके फल्क करे इस फल्कके पीनेसे खूनी बवासीर नष्ट होवे इसमें संदेह नहीं है ॥

पद्मकेशरयोग ॥

सपद्मकेशरक्षौद्रनवनीतंनवंलिहन् ॥

सिताकेशरसंयुक्तरक्ताशींसुखीभवेत् ॥

अर्थ—कमलकी पेशर, शहत, नवीन मक्खन (लानी) सांड और नागके-

शर ये सब समान भाग लेकर गोली बनावे इसके भक्षण करनेसे खूनी बवासी-
रवाला प्राणी आनंद युक्त होवे ॥

समंगादिदूध ।

समंगोत्पलमोचाहतिरीटतिलचंदनैः ॥

सिद्धंछागीपयोदद्याद्दजेशोणितात्मके ॥

अर्थ—लजालू (लजावंती) कमल, मोचरस, पठानी लोव, तिल और चंदन,
इनको बकरीके दूधमें डालके दूध सिद्धकरे इसे पीवेतो खूनी बवासीर नष्टहोवे ॥

खूनीबवासीरपरकाथ ।

चंदनकिराततित्तकधन्वयवासाःसनागराः कथिताः ॥

रक्तांशुसांप्रशमनादावींत्वगुशीरनिवाश्च ॥

अर्थ—चंदन, चिरायता, फुटकी, जवासा सोंठ, दाहहलदी, दालचीनी खस
और नीमकी छाल इनका काठा फरके पीवे तो खूनी बवासीरको नष्टकरे ॥

द्राक्षादियोग ।

द्राक्षाहरिद्रामधुकमंजिष्ठानीलमुत्पलम् ॥

अजाक्षीरेणसंपीतंरक्तजाशोविनाशनम् ॥

अर्थ—मुनकादाख, हलदी, मुलहठी, मैजीठ और नीला कमल इनका कल्क
करके बकरीके दूधसे पीवे तो खूनी बवासीरका नाश करे ॥

त्रिकटादियोग ।

त्रिकटुत्रिफलादंतीवह्निभल्लातसंधवम् ॥ सुवर्चलंचसामुद्रंलव

पंघृततैलकम् ॥ छागमज्जावसामूत्रंगोमूत्रंनरमूत्रकम् ॥ महि

पीगर्दभाश्वानामेपांमूत्रैर्दिनत्रयम् ॥ भावयेच्छोपयेत्तत्ररुद्धा

गजपुटेपचेत् ॥ निष्कट्टयंपिबेच्चज्यैरक्तवातांशुसांजये ॥

क्षीरैर्मांसरसेर्भोज्यंशूलगुल्मंचनाशयेत् ॥

अर्थ—त्रिकटु, त्रिफला, जमालगोटा, चीतफी छाल, भिलौण, संधानिमक,
सोराफल्मी, समुद्रका निमक, घी, तेल और बकरेकी मज्जा चर्बी, तथा मूत्र और
गो, मनुष्य, भैस, गधा और घोडा इनके मूत्रमें उक्त औषधोंको तीनदिन धरीरहने
देवे फिर सुत्पायके शरावसंपुटमें रखके गजपुटमें धरके फूंक देवे जब शीतल
होजावे तब निकालके इसमेंसे आठ मासे औषध पीके साथ खाये तो

खूनी ववासीर तथा वादी ववासीर, शान्ति होवे इसपर दूध, तथा मांसरस ये भोजनमें पथ्य देवे तो यह त्रिकट्टादियोग शूल और गोला इनका नाशकरे ॥

विड्वंध ।

नागेननलिकांकृत्वाघृतसैधवलेपिताम् ॥

गुदद्वारेक्षिपेत्रित्यंमलरोधप्रशांतये ॥

अर्थ—शीशेकी नली करके उसमें सैधानिमक और घीका लेप करके नित्य-प्रति गुदामें रक्खे तो मलरोध अर्थात् दस्तका न उतरना दूर होवे ॥

रक्तस्राव ।

धूपनेलेपनेभ्यंगेप्रस्रवंतिगुदांकुराः ॥

सपित्तदुष्टंरुधिरंततःसंपद्यतेसुखम् ॥

अर्थ—ववासीरके मस्से धूप देनेसे लेप करनेसे अथवा अभ्यंग (मालिस) से पित्त सहवर्तमान नास लेनेसे रुधिर निकलताहै उस रुधिर निकलनेसे सुख होवे ॥

प्रकारांतर ।

विवंधेशंसिचोत्सिक्तेकंडूमद्रक्तवाहिनी ॥

जलौकापातनादन्यःप्रयोगोनास्तिकश्चन ॥

अर्थ—विड्वंधकर्ता, चारों तरफसे खुजली करता तथा रुधिर बहनेवाली ववासीर पर जोंक लगाकर रुधिर निकालनेके सिवाय दूसरा उपाय नहीं है ॥

सक्तुपिंडीबंधन ।

तेनैवंसुखमाप्नोतिमुच्यतेस्वेदपिंडिका ॥

घृततैलाक्तसकूनांपिंडिकाबंधयेद्भूदे ॥

अर्थ—सक्तुकी पिंडी (पोटली) के ऊपर घी अथवा तेल चुपडकर गुदाके ऊपर बांधे तो ववासीरमें से पसीने निकल जावे और तत्काल सुख होजाय ॥

नासार्शचिकित्सा ।

नासानाभिसमुत्थेतुतयामेद्राक्षिकर्णयोः ॥

क्रियामर्शस्सुकूर्वातत्रतत्रयथेदिताम् ॥

अर्थ—नाफ, नाभि, शिश्नोद्दी (लिंग) नेत्र और कान, इनमें ववासीर होने से उसमें उसी स्थानमें उचित क्रिया कही हुई करनी चाहिये ॥

रजनीचूर्णयोग ।

भावितंरजनीचूर्णसुहिक्षीरैःपुनःपुनः॥

बंधयेत्सुदृढंमूत्रंछिनत्त्यशोभगंदरम् ॥

अर्थ—हलदी और थूहरका दूध इनमें बारंबार मूतको भिगोकर सुखाय लेवे फिर इस मूतसे बवासीरके मस्से बांधे तो वो टूटके गिरजावे इसी प्रकार भगंदर रोगमें इस मूतको बांधे तो भगंदरका नाशकरे ये दोनों रोगोंपर प्रयोग अनुभूत है.

चामखील ।

चर्मकीलंतुसंस्विद्यदह्यःक्षारेणचाग्निना ॥

अर्थ—चर्मकील रोगको स्वेदन करके उसका क्षारसे अथवा अग्निसे दाग देवे तो मस्से दूर हो ॥

दुग्धिकादिघृत ।

दुग्धिकाकंटकारीभ्यांकल्कक्षीरैश्चतुर्गुणम् ॥ कल्कतुल्यंघृतंतयो

ज्यंघृतशेषंविपाचयेत् ॥ भोजनेलेपनेपानेजयेच्छित्ताशंसांकिल ॥

अर्थ—दूधी और कंटरी इनका कल्क तथा उस कल्कका चौगुना दूध और कल्कके समान उसमे घी डाले फिर इसके मट्टीपर चढायेके मंदाग्निसे पचन करावे, इस घीको भोजनमे मिलायेके भक्षण करनेको देवे तथा बवासीरमें लगावे तो उस बवासीरका नाश करे ॥

व्योपादिमोदक ।

गुडव्योपवरावेच्छतिलारुष्कारचित्रकैः ॥

अशांसिहंतिगुटिकात्वग्बिकारंचशीलिता ॥

अर्थ—गुड, सोंठ, मिरच, पीपल, हरड, बहेडा, आंवला, काले तिल, काली-मिरच, भिलयि और चित्रक इनके चूर्णकी गुडसे गोली बनावे और देवे तो बवासीर और त्वचाके विकाराको नष्ट करे ॥

गुडचतुष्क ।

गुडेनशुंठीमथवोपकुल्यांपथ्यांतृतीयामथदाडिमंच ॥

आमेप्वजीर्णपुगुदामयेपुवर्चोविवंधेपुचनित्यमद्यात् ॥

अर्थ—सोंठ, पीपल, हरड और अनार ये चार वस्तुक्रमसे गुडसे नित्यभक्षण करे तो आम, अजीर्ण, बवासीर, और मलकी कठोरता इनको नाश करे, अर्थात्

निमक, धनिया, सोनामक्खी, कचूर, अतीस, सुवर्ण, सजीखार, जवाखार, वच, नागरमोथा, तमालपत्र, दंती और इलायची, ये सब एकएक तोले लेंवे, सबका चूर्णकर शहतसे दशमासेकी गोली बनावे यह चंद्रमभावदी संपूर्ण प्रकारकी बवासीर, पांडुरोग, भगंदर, मूत्रकृच्छ्र प्रमेह, क्षय, (राजरोग) तथा खॉंसी ऐसे अनेक प्रकारके रोगोंका नाश करे ॥

सूरणपुटपाक ।

सौरणकंदमादायपुटपाकेनपाचयेत् ॥

सतैलगुडसंयुक्तोरसश्चाशौविकारनुत् ॥

अर्थ—जमोकंदको पुटपाककी विधिसे पुटपाक करके सरसोंके तेल और गुड, इनके साथ खानेसे बवासीरके विकारको दूर करे ॥

चित्रकादिदधि ।

त्वचंचित्रकमूलस्यात्पिङ्गाकुंभंप्रलेपयेत् ॥

तक्रंवादधिवातत्रजातमशौहरंपिबेत् ॥

अर्थ—चिंतिकी जड़की छालको कूटके जलसे पीस घडेके भीतर लेप करे, उसमें दही अथवा छाँछको भर देवे इसमें से बवासीरवाले रोगीको पिलावे ती बवासीर दूर होय ॥

कांचन्यादिविपयोग ।

कांचनीविपपापाणंयवक्षारंचहिंगुलम् ॥ जलेपिङ्गान्यसेद्धह्येए

वंकुर्याद्दिनत्रयम् ॥ क्षीरस्येदंतथाकुर्यात्क्षीराहारीघृतौदनम् ॥

अशौरोगानिहंत्याशुसिद्धयोगउदाहृतः ॥

अर्थ—हलदी, संखियाविप, जवाखार, हिंगूल, इनको जलमें पीसके गोली बनावे इस गोलीको गुदामें रक्खे और दूधकी वाफ गुदाको देवे, तथा दूध पिलावे, धी और भातका भोजन करावे इस प्रकार तीन दिन करने से बवासीरका नाश होय यह सिद्धप्रयोग कहा है ॥

बृद्धदारुमोदक ।

बृद्धदारुकभलातशुंठीचूर्णेनपेपितः ॥

मोदकःसगुडोहन्यात्पिङ्गिधाशःकृतारुजः ॥

अर्थ—विधायरा, भिलौण और सोंठ, इन तीन औषधोंको समान भाग ले

चूर्ण करे और सब चूर्ण से दूना गुड मिलायके गोली बनावे, इस वृद्धदारुमोदके भक्षण करनेसे छः प्रकारकी बवासीर दूर होवे ॥

सूरणवटक ।

शुष्कसूरणचूर्णस्यभागान्द्वात्रिंशदाहरेत् ॥ भागान्पोडशचित्रस्यशुंठ्याभागचतुष्टयम् ॥ द्वौभागौमरिचस्यापिसर्वाण्येकत्रकारयेत् ॥ गुडेनपिंडिकांकुर्यादर्शसांनाशिर्नापराम् ॥

अर्थ—जमीकंदको सुखायके चूर्णकर बचीस तोले लें, चित्रक. १६ भाग, कालीमिरच, दो भाग लें, सब औषधोंका चूर्णकर उसमें गुड सब औषधोंसे दूना मिलाय गोली करे इस गोलीको नित्य प्रति सेवन करे तो छः प्रकारकी बवासीर नष्ट होवे ॥

बृहत्सूरणवटक ।

सूरणोवृद्धदारुश्चभागैःपोडशभिःपृथक् ॥ मुसलीचित्रकौञ्जेयावष्टभागमितौपृथक् ॥ शिवाविभीतकौधात्रीविडंगनागरं कणा ॥ भल्लातःपिप्पलीमूलंतालीसंचपृथक्पृथक् ॥ चतुर्भागप्रमाणानित्वगेलामरिचंतथा ॥ द्विभागमात्राणिपृथक्ततस्त्वेकत्रचूर्णयेत् ॥ द्विगुणेनगुडेनाथवटकान्कारयेद्बुधः । प्रवलाग्निकरायेतेतथाशौनाशनाःपराः ॥ ग्रहर्णावातकफजांश्वासंकासंक्षयामयम् ॥ ष्ठीहानंश्लीपदंशोफंहिक्कामेहंभगंदरम् ॥ निहन्युःपलितंवृष्यास्तथामेघ्यारसायनाः ॥

अर्थ—जमीकंद १६ भाग, विधायरा १५, मूसलीसपेद ८ भाग, चीतेकी छाल ८ भाग, हरड, बहेडा, आमला, वायविडंग, सोंठ, पीपल, भिलाँए, पीपरामूल, तालीसपत्र, ये नौ औषधियोंके चारचार भाग लें, तथा दालचीनी, इलायची और कालीमिरच ये तीन औषध दो दो भाग लें फिर सब औषधोंको कूट पीसके चूर्णकरे इस चूर्णसे दुगुना गुड मिलावे सबको एक जीव परके गोली बनावे, इनके सेवन करने से अग्नि प्रदीप्त होवे, बवासीर, तथा घात कफसे उत्पन्न भईं संग्रहणी, श्वास, खाँसी, क्षय, पेटमें दहनीतरफ जो पिलहोका रोग होता है वह, श्लीपदरोग, मूजन, हिचकी, प्रमेह, भगंदर, पलितरोग (जिसमें इस प्राणीके संपूर्ण बाल सपेद हो जातेहैं) ये संपूर्ण रोग दूरहोवे तथा इस

गोलीके प्रभावसे स्त्रीगमनमें इच्छा होवे, तथा बुद्धि बढे और शरीरकी वृद्धा-
वस्था आदिको दूर करे ॥

कोशातकीघर्षण ।

कोशातकीरजोघर्षोन्निपतंतिगुदोद्भवाः ॥

अर्थ—कडवीतोरईका चूर्ण बवासीरके मस्तों पर घिसे तो बवासीरके मस्से-
दूटकर गिर पड़े ॥

निशादिलेप ।

निशाकोशातकीचूर्णस्नुक्पयःसंधवान्वितम् ॥

गोमूत्रेणसमायुक्तोलेपोदुर्नामनाशनः ॥

अर्थ—हलदी और कडवीतोरई इनका चूर्ण थूहरका दूध और संधानिमक
इन सबको एकत्र पीसके गोमूत्रमें मिलायके मस्तों के ऊपर लेप करे तो
बवासीरका नाश होवे ॥

तथा निशादिऔरअर्कमूलादिलेप ।

निशाकोशातकीलेपःसर्वदुर्नामनाशनः ॥

अर्कपत्रंशिशुमूलंलेपनंहितमर्शसाम् ॥

अर्थ—हलदी और कडवीतोरई इनका अथवा आकके पत्ते तथा सहजनेके
पत्तोंको पीसके लेपकरे तो बवासीरको नष्ट करे ॥

निम्बादिलेप ।

निंबाश्वत्थस्यपत्राणालेपोदुर्नामनाशनः ॥

आरनालेनवाहन्यात्सगुडाकटुतुंविका ॥

अर्थ—कडुये नीमके पत्ते और पीपलके पत्ते इनदोनोंको एकत्र पीसकर लेप
करे । अथवा कडवीतोरईके पत्तोंको और गुडको कौजीमें पीसके लेप करे तो
बवासीर नाश होवे इसमें संदेह नहीं है, परंतु यह मस्तोंमें लगतेहैं ॥

एरण्डमूलादि ।

एरण्डमूलंसुरदारुस्रायष्टीमधुकंमसृणंविचूर्ण्य ॥ पिष्टंयवानां

चचतुर्गुणंस्यात्साध्यंहिवह्नौपयसाप्तमस्तम् ॥ स्वेदोपनाहोव

हुतेनकुर्यादशीसिशूलंविलयंप्रयाति ॥

अर्थ—अंडकीजड, देवदारु, रासा, मुलहठी और मक्खन इन सबको एकत्र
पीस इसमें चौरुना जी का चून मिलाय दूधमें उसनेके अग्निपर रोटी वा अंगारक-

री बनावे इस गरम २ रोटीसे यदि बवासीरको सेके अथवा गरम २ बवासीर पर बांधे तो पीडायुक्त बवासीरका नाश होवे ॥

स्नुह्यादिलेप ।

स्नुह्यात्रिलंगलीदंतीमूलैर्लेपोर्शासांहितः ॥

अर्थ—थूहरकादूध, चीतेकी छाल, कलियारी, दंतीकी जड़ इनको जलमें पीसके लेपकरे तो बवासीर नष्ट होवे ॥

कृष्णशिरीपादिलेप ।

कृष्णशिरोपवीजार्कक्षीरैःसामरसैंधवैः ॥ हरिद्राऋक्षविड्गुंजा गोमूत्रैःपिप्पलीयुतैः ॥ एतल्लेपत्रयंयोज्यंशत्रिमर्शाविनाशनम् ॥

अर्थ—जटामांसी, शिरसके बीज, आककादूध, सेमरका मूसला, सेंधानिमक हलदी, रीछकीबीठ, धूँघची, गोमूत्र और पीपल इन सबको एकत्र पीसके तीनवार मस्सोंपर लेप करे तो बवासीर बहुत जल्दी नष्ट होवे ॥

अर्कादिलेप ।

आर्कपयःसुधाकांडंकटकालावुपलवाः ॥

करंजोवस्तमूत्रेणलेपनंश्रेष्ठमर्शासाम् ॥

अर्थ—आककादूध, थूहरका टुकड़ा, कुटकी, कहुई धीपाके पत्ते और कंजाके बीज इन सबको बकरेके मूत्रमें पीसके मस्सोंपर लेप करे यह लेप बवासीर पर उत्तम है ॥

गुआसूरणलेप ।

गुंजासूरणकूप्मांडवीजैर्वर्तिस्तथागुदे ॥

अर्थ—धूँघची, जमीकंद, पेंठके बीज इन सबको जलमें पीसके सपेद कपड़े पर लेप करे फिर उसको छायामें सुखाप बत्ती बनावे इस बत्तीको गुदामें रखे तो बवासीरका नाश होवे ॥

गौरीपापाणलेप ।

गौरीपापाणकर्पेकंसुहीकांडेविनिःक्षिपेत् ॥ पाचयेत्पुटपाके-
नततद्धृत्ययत्नतः ॥ रेवाचिनीचकुपंचकल्कीकृत्यत्रयंस-
मम् ॥ लेपयेत्तेनअर्शासिनिवार्यतेनसंशयः ॥

अर्थ—सोमल (संखिया) को थूहरकी गोली लकड़ामें भरे फिर उसको पुट

पाककी विधिसे पक करे पश्चात् रेवतचीनी और कूट ये समान भाग ले सबको पीसके बवासीरपर लेपकरे तो निःसंदेह बवासीर दूर होवे ॥

न्यग्रोधपत्रलेप ।

दग्ध्वान्यग्रोधपत्राणितैलेनसहलेपयेत् ॥

अर्थ—बडके पत्तोंकी भस्मकर उस राखको तेलमें सानके बवासीरपर लेप करे तो बवासीर नष्ट होवे ॥

कटुतुंव्यादिलेप ।

कटुतुंव्यास्तथादंत्याःशकृच्चकुक्कुटस्यच ॥ मुसल्याश्चाश्व-
गंधायाश्चित्रकस्यचयत्नतः ॥ मूलेस्तुल्यैःकृतंचूर्णमर्कक्षीरेण-
भावयेत् ॥ सुहीक्षीरेणमतिमान्वारिणापरिपेपयेत् ॥ वस्त्रव-
र्त्यागुदंतेनसमालिप्यसमंततः ॥ गुदेविनिक्षिपेद्यत्नात्प्रातः
सायंचबुद्धिमान् ॥ वेदनाचभवेत्तीव्रावह्निनास्वेदयेद्गुदम् ॥
नोपश्याम्येद्यदातेनतदाचैवोष्णवारिणा ॥ विनिवेश्यगुदंति
ष्टेद्रेदनाशमकारणात् ॥ अद्याद्दृष्यमथान्नंचशिशिरंजलमापि-
वेत् ॥ गुदजानांविनाशार्थसप्ताहंतुसमाहितः ॥ विधिमेनंप्रकु-
र्वीतगतशंकस्तुमानवः ॥

अर्थ—कडवी तूंबीके पत्ते, दंतोंकी जड़, मुरगेकी विद्या, सपेदमुसली, असगंध और चीता ये समान भाग लेवे सबका चूर्ण करके आकके दूधमें और थूहरके दूधकी भावना देवे फिर जलसे पीसके कण्डेपर लेपकर उसको सुखायके बत्ती बनावे, फिर इसी बत्तीसे प्रथम पूर्वोक्त औषधोंका लेपकरे फिर बत्तीको गुदामें रखदेवे इस प्रकार सायंकाल और प्रातःकाल दोनों बख्त बत्तीको धरे, इसके धरनेसे गुदामें घोर पीडा होती है उसके शांति करनेको गुदामें स्वेदन-विधि करे, यदि स्वेदन करनेसे भी पीडाशांति न होवे तो गरम जलमें बैठजावे, तथा बृष्य (पुष्टकर्ता) अन्नका सेवन करे अर्थात् मधुर, चिकने और मनको प्रसन्नकारी पदार्थ सेवन करे, शीतल जल पीवे इस प्रकार सात दिन करनेसे बवासीरका नाश होय यह यत्र प्राणीको शंकारहित होकर करना चाहिये ॥

देवदालीबीजलेप ।

सिंधूत्थदेवदाल्याश्चबीजकांजिकपेपितम् ॥

गुदांकुरप्रलेपेनपाटयेत्पर्वतानपि ॥

अर्थ-सैधानिमक, और वंदाल (घरघेल) के बीज इन दोनोंको कांजमिं पीसके बवासीरके मस्सोंके मुसपर लेपकरे तो मस्से गलकर गिरपडे, इस लेपसे पर्वतभी टूट पडते है ॥

चव्यादिघृत ।

चव्यंत्रिकटुकंपाठाक्षाराःकुस्तुंवखणिक ॥ यवानीपिप्पलीमूल-
मुभेचविडसैंधवे ॥ चित्रकंविल्वमभयापिद्धासर्पिर्विपाचयेत् ॥
सकृद्वातानुलोमार्यजातेदधिचतुर्गुणम् ॥ प्रवाहिकांगुदभ्रंशमूत्र
कृच्छ्रंपरिस्रवम् ॥ गुदवंक्षणशूलचघृतमेतद्वचपोहति ॥

अर्थ-चव्य, सोंठ, मिरच, पीपल, पाद, सर्वप्रकारके क्षार, धनिया, अज-
वायन, पीपरामूल, विडनिमक, सैधानिमक, चीतेकी छाल, बेलकाफल और
हरड इन सबको एकत्र पीसके कल्क करे इस कल्कसे घी सिद्ध करे, यह घी
बादीको अनुलोमनकरेहै और चौगुणा दही डालके इस घीका सिद्धकरे वह प्रवा-
हिका, गुदभ्रष्ट, मूत्रकृच्छ्र, गुदसाव और गुदा, पेडु इनका दर्द इनका नाश करे ॥

शुंठीघृत ।

त्रिंशत्पलानिशुंठीनांजलद्रोणेविपाचयेत् ॥ तेनपादावशेषेण
कल्केनान्यंपचेद्घृतम् ॥ दुर्नामश्वासकासघ्नंघ्रीहपांड्वामयापह
म् ॥ विषमज्वरशांत्यर्थैतृष्णारोचकनाशनम् ॥ शुंठीघृतमि
तिख्यातंकृष्णात्रेयेणपूजितम् ॥ नागरेणजलेपकंवस्तिकुक्षि
गदापहम् ॥

अर्थ-सोंठ एक सौ बीस तोलेको एक सौ बीसतोले जलमें काडा करे जब
चतुर्थांश शेष रहे तब उतारके छानलेवे, फिर इसमें सोंठका कल्क मिलायके
घृत पचनकरे, वह बवासीर, श्वास, खोंसी, घ्रीहा, पांडुरोग, विषमज्वर, प्यास
और अरुचि इनका नाशकरे यह कृष्णात्रेय करके मान्य ऐसा शुंठीघृतहै, यही
अदरखके रसमें सिद्ध करा हुआ घृत वस्ति (मूत्रस्थान,) और कूख इनके
रोगोंको नष्टकरे है ॥

लघुचव्यादिघृत ।

चव्यातिक्ताकलिगानिशताह्वालवणानिच ॥

सर्पिरशोविकारग्रहणीदीपनंपरम् ॥

अर्थ—चव्य, कुटकी, इन्द्रजौ, सतावर और पांचों निमक इन औषधोंसे सिद्धकराहुआ घृत बवासीर और संग्रहणी इनको नष्टकरे तथा दीपनविषयमें उत्तम है ॥

द्वीवेरघृत ।

द्वीवेरमुत्पलंलोभ्रंसमंगाचव्यचंदनम् ॥ यवासातिविपाविल्वं
धातकीदेवदारुच ॥ दावीत्वङ्नागरमांसीमुस्ताक्षारोयवाग्र
जः ॥ चित्रकश्चेतिपेप्याणिचांगेरीस्वरसेघृतम् ॥ एकत्रसाध-
येत्सर्वतत्सर्पिःपरमौषधम् ॥ अशोतिसारग्रहणीपांडुरोगेज्वरेरु-
चौ ॥ मूत्रकृच्छ्रेगुदभ्रंशेवस्त्यानाहप्रवाहिके ॥ पिच्छास्त्रावेशं
सामूलेयोज्यमेतन्निदोपहृत् ॥

अर्थ—नेत्रवाला, कूट, लोध, मँजीठ, चव्य, चंदन, धमासा, अतीस, बेलफल, धायकेफूल, देवदारु, दारुहलदी, दालचीनी, सोंठ, जटामांसी, नागरमोथा, जवा-
खार तथा चींतेकीछाल ये सब वस्तुओंको चूकाके रसमें पीसके कल्ककरे फिर
कल्कके समान घी लेकर घृत सिद्ध करनेकी विधिसे बनावे यह (चांगेरीघृत)
उत्तम औषधीहै यह बवासीर, अतिसार, संग्रहणी, पांडुरोग, ज्वर, अरुचि,
मूत्रकृच्छ्र, गुदभ्रंश, (कौंचका निकलना) वस्ति, अफरा, प्रवाहिका, रक्तस्राव
बवासीरके मस्से और त्रिदोष इनपर हितकारी है तथा त्रिदोषनाशक है ॥

रोहितारिष्ट ।

रोहीतकतुलामिकांचतुर्द्रोणेजलेपचेत् ॥ पादशेपेरसेंशीतेपू-
तेपलशतद्रयम् ॥ दद्याद्बुडस्यधातक्याःपलपांडशिकामताः ॥
पंचकोलंत्रिजातंचत्रिफलांचविनिःक्षिपेत् ॥ चूर्णयित्वापलां-
शोनततोभांडेनिधापयेत् ॥ मासादूर्ध्वंचपित्रतांगुदजायांति
संक्षयं ॥ ग्रहणीपांडुहृद्रोगश्लिहगुल्मोदराणिच ॥ कुष्ठशोफा-
रुचिहरोरोहितारिष्टसंज्ञकः ॥

अर्थ—लाल रूहेडा १ तुलाको जबकुट करके उसमें चार द्रोण जल डालके
काढा करे जब चतुर्थांश जल रहे तब उतारके छानलेवे जब शीतल होजावे तब
उसमें २०० दोसौ पल गुड़ डालके तथा धायके फूल ६ तोले डालके, पंचकोलकी

औषधी, त्रिजातककी औषधी और त्रिफला ये ग्यारह औषधोंको एक एक पल लेकर सबका चूर्णकर उस पूर्वांत काठेमें डालदेवे फिर सबको एक पात्रमें भरके उसके मुखपर मुद्रा देकर एक महीने पर्यंत धरा रहने देवे महीनाके पश्चात् मुद्राको दूरकर इस रसको निकासलेवे इसको (रोहितारिष्ट) कहतेहैं इसके सेवन करने से बवासीर, संग्रहणी, पांडुरोग, हृदयका रोग, पेटमें दहनीतरफ पिलही हांतीहै वह, गोलैकारोग, उदररोग, कौठ, मूजन और अरुचि ये रोग दूर होवे ॥

मधुपक्वहरतीकी ।

कदंबनिंबाचिचानांत्वक्चूर्णपलपोडशम् ॥ अजागोमहिपीमू-
त्रंत्वक्पोडशगुणोत्तरम् ॥ काथयेत्पादशेषंतुशुद्धं कृत्वा विनि-
क्षिपेत् ॥ अभयानांशतैकंतुक्काथयेच्चकपायकम् ॥ जीर्यतेह्य-
भयापश्चाद्भित्वा अंडं निवारयेत् ॥ भृंगीसुवर्चलंचूर्णतुल्यंतेन
प्रपूरयेत् ॥ अभयावेष्टयेत्सूत्रैर्मधुमध्येऽयहंक्षिपेत् ॥ नित्यं
क्षौद्रसमं भक्ष्यात्त्रिदोषार्शः प्रशांतये ॥

अर्थ—कदम, नीम, इमली इनकी छालका चूर्ण, चौसठ तोले, तथा बकरी गौ भैस इनका मूत्र एक हजार चार तोले डालके काढा करे जब चतुर्थांश शेषरहे तब उतारके काढेको छानलेवे, इसमें १०० हरड डालके औटावे जब हरड नरम होजावे तब निकालके उनके भीतरकी गुठली दूरकरे और इन हरडोंमें भांग और सज्जिम्बार भरके सूतसे बाँधदेवे तथा तीन दिन शहत में डालके धरी रहने देवे फिर इसमें से एक हरडको निकालके भक्षण करे तो त्रिदोष जन्य बवासीर शांत होवे ॥

गोजिह्वादिकाढा ।

गोजिह्वामूलमेकंद्विगुणवर्हिशिखामूलकुस्तुवराणामष्टांशैका
थतोयेमधुसिकतरजोमिश्रमंतेपिबेत्तत् ॥ तस्यार्शःपङ्क्तिधो
पिहरतिगुदरुजः स्रावमामानुबंधंकीलंकंडुग्रहण्यांशुलमतिभि
पजामंडलात्पथ्यसेवी ॥

अर्थ—गोभीकी जड १ भाग, मोरशिखाकी जड २ भाग, तथा धनिया,
इनका अष्टमांश लेकर काढा करे उसमें शहत और खांड डालके रोगीको देवे

तो यह छः प्रकार की बवासीर, गुदाके रोग, गुदाका खवना, आमांश, बवासीर-के मस्से, खुजली, संग्रहणी और शूल, इनका नाश करे इसको एक मंडल सेवन करे तथा पथ्यसे रहे ॥

कल्याणलवण ।

भ्रष्टातकानि त्रिफलादंतीचित्रकमेव च ॥ समभागानि सर्वाणि
सैधवं द्विगुणं भवेत् ॥ कपालपुटसंपक्कं मृदुना गोमयाग्निना ॥
कल्याणनामलवणं श्रेष्ठमर्शोविकारिणाम् ॥

अर्थ—भिलॉए, हरड, बहेडा, आमला, दंतीकी जड़ और चीतिकी छाल ये सब औषधी समान भागलेवे और सैधानिमक एक औषध से दूनालेवे सबको एकत्र कर शरावसंपुट में रख कपडमिट्टीकर आरने टपलों की मंदाग्नि देवे जब स्वांग शीतल होजावे तब निकासलेवे यह (कल्याण नामक) लवण बवा-सीर पर हितकारी है ॥

तक्रादियोग ।

सतक्रं लवणं दद्याद्वा तवर्चो नुलोमनम् ॥ न प्ररोहंति गुदजाः पुनस्त-
क्रसमाहताः ॥ तक्राभ्यासोर्शसैः कार्यो बलवर्णाग्निवृद्धये ॥
स्रोतस्सुतक्रशुद्धेषु सम्यक्फलतितद्रसः ॥ तनुपुष्टिस्तथा तुष्टि-
र्वलवर्णश्च जायते ॥ वातश्लेष्मविकाराणां शतं च विनिवर्तयेत् ॥

अर्थ—छाँछमें निमक डालके देवे वह वायु और मल इनका अनुलोमन करे, तथा तक्रके प्रयोगसे नाश हुए (गुदाके मस्से) फिर उत्पन्न नहीं होते, बल वर्ण और अग्नि इनकी वृद्धि होय. इसी कारण बवासीररोगवालेको छाँछ पीनेका अभ्यास करना चाहिये छाँछ से नाडियोंके मार्ग शुद्ध होने से शरीरका पालन करनेवाले रसका उन नाडियोंमें उत्तम प्रकारसे संचार होता है कि जिस्से शरीरकी वृद्धि, संतोष, बल और कांति ये उत्पन्न होवे तथा अनेक वात कफके विकारोंका नाश होवे ॥

प्रकारांतर ।

विड्विबंधेहितं तक्रं यवानीविश्वसंयुतम् ॥ न प्ररोहंति गुदजाः प्रा-
यस्तक्रसमन्विताः ॥ यज्जातंगोरसक्षीराद्वह्निमूलावचूर्णि-
तात् ॥ पिवंस्तदेव ते नैव तक्रं भुज्यां कुरा अपि ॥ पिवेदहरहस्तक्रं

निरन्नोवासकामतः ॥ सप्ताहंवादशाहंवासासार्धमासमेवच ॥
 बलकालविकारह्नौभिषक्पंचप्रयोजयेत् ॥ हरीतकीतक्रयुतां
 त्रिफलांवाप्रयोजयेत् ॥ चित्रकंहवुपाहिंगुदद्याद्रातक्रसंयुतम् ॥
 पंचकोलकयुक्तंवातक्रेणैवप्रदापयेत् ॥ त्वचंचित्रकमूलस्य
 पिष्ट्वाकुंभंप्रलेपयेत् ॥ तक्रंवादधिवातत्रजातमशौहरंपिवेत् ॥
 त्क्रेणाशौसिनिघ्नंतिमुसलीकटुकान्विता ॥

अर्थ—विड्दिविबंध अर्थात् मलकी कब्जियत् पर, अजवायन और सोंठ, मिला-
 यके छाँछ पीवे तो छाँछसे नाश हुए गुदांकुर (गुदाके मस्से) फिर उत्पन्न नहीं
 होते, जो गौके दूधसे बनी छाँछ तथा उसमें चित्रककी छालका चूर्ण डाला ऐसी
 केवल छाँछसे ही गुदाके मस्से नष्टहोतेहैं इसकारण विना अन्नके नित्यप्रति वारं-
 वार छाँछ पीवे सो इसप्रकार कि सात, दश, किवा पंद्रह दिन अथवा एक महीने
 पर्यंत बल, काल, विकार जाननेमें कुशल वैद्य रोगीको छाँछ देवे और छाँछमें
 हरड किवा त्रिफला देवे अथवा चित्रक, हाऊवेर और हींग ये छाँछमें
 डालके देवे अथवा पंचकोलका चूर्ण डालके छाँछ देवे, अथवा चित्रककी
 छालके कल्कको उत्तम मिट्टीके पात्रके भीतर लेपकरके दूध जमावे यह
 दही अथवा छाँछ अर्शनाशकहै अथवा मूसली, और कुटकी चूर्ण मिलापके
 छाँछ पीवे तो बवासीर नष्ट होवे ॥

अरलुत्वक् ।

अरलुत्वग्वाह्निसुरेंद्रयवान्चिरविल्वसुसैधवशुठियुतान् ॥

मथितेनपिवेद्यदिसप्तदिनमशौसिपतंतिसमूलानिवलात् ॥

अर्थ—देड़की छाल, चीतेकी छाल, इन्द्रजी, कंजा, सैधानिमक और सोठ
 इनका चूर्ण छाँछमें डालके सातदिन पीवे तो जलसे मस्से उसडके फिर जावे ॥

शर्करासव ।

दुरालभायाःप्रस्थस्यचित्रकस्यवृषस्यच ॥ पथ्यामलकयो-
 श्वैवपाठायानागरस्यच ॥ दद्याद्विपलिकान्भागाञ्जलद्रो-
 णेविपाचयेत् ॥ पादशेपेरसेपूतंसुशीतंशर्कराशतम् ॥ दत्त्वाकुं
 भेद्वेदेस्थाप्यंमासार्धघृतभाजनम् ॥ प्रलिप्यापिप्पलीचव्यप्रियंगु
 मधुसर्पिपा ॥ तस्यमात्रापिबेत्कालेशार्करस्ययथाबलम् ॥

अशीसिग्रहणीरोगमुदावर्तमरोचकम् ॥ शकृन्मूत्रानिलोद्धारवि-
बन्धानलमार्दवम् ॥ हृद्रोगपांडुरोगंचसर्वरोगान्प्रणाशयेत् ॥

अर्थ—धमासा १सेर, तथा चित्रक, अड़सा, हरड, आंवले, पाठ, सोंठ, ये प्रत्येक आठ २ तोले इन सबको २०४ तोले जलमें पीसके काढा करे जब चतुर्थांश शेष रहे तब उतारके शीतल करे फिर ४०० तोले खांड डाले फिर घीके चिकने दृढपात्रमें भरके मुख बंदकर १५दिन उसी प्रकार ढका हुआ धरा रहने देवे, तथा उस पात्रमें, पीपल, चन्य, फूल प्रियंगु, शहत और घी ये भीतर चुपड देवे, फिर इस आसवमेंसे, प्रातःकाल बलाबल विचारके देवे तो बवासीर, संत्रहणी, उदावर्त, अरुचि, इनको नाश करे तथा मल, मूत्र, अर्धवायु, डकार, मंदाग्नि, हृदयरोग, पांडुरोग, तथा सर्वरोग इनको नाशकरे ॥

द्राक्षासव ।

द्राक्षापलशतदत्त्वाचतुर्द्वीणांभसापचेत् ॥ द्रोणशेषेरसेतस्मि-
न्पूतशेषंप्रदापयेत् ॥ शर्करायास्तुलांदत्त्वात्तुल्यंमधुनस्त
था ॥ पलानिसप्तधातक्यःस्थापयेदाज्यभाजने ॥ जातीलवंग
कंकोलंलवलीफलचंदनैः ॥ कृष्णात्रितंचवैयुक्त्याभौगर्धपलां-
शकैः ॥ त्रिःसप्ताहाद्भवत्येवंतत्रमात्रांयथावलम् ॥ नाम्नाद्राक्षा
सवोह्येपनाशयेदुदकीलकान् ॥ शोपारोचकहृत्पांडुरक्तपि-
त्तभगंदरान् ॥ गुल्मोदरकृमिग्रंथिक्षतशोपज्वरांतकृत् ॥ वा-
तपित्तप्रशमनंशस्तंचवलवर्णकृत् ॥

अर्थ— दास ४०० तोले लेकर ८१७२ तोले जलमें चतुर्थांश शेष काढा करे फिर इसको छानके इसमें खांड ४०० तोले तथा शहत ४०० तोले डाले, और धायके फूल, ५८ तोले डालके घीके चिकने वासनमें भरके धरदेवे और इतनी वस्तु और डाले, जायफल, लौंग, कंकोल, हर्पारेवडीके फल और चंदन ये प्रत्येक दोदो तोले लेवे सबको कूटके उसी पात्रमें डालके मुखको बंदकर इक्कीस दिन उसी प्रकार धरा रहनेदे, पश्चात् बलाबल विचारके इसकी मात्रा देवे यह द्राक्षासव, बवासीरके मस्सोंको नाश करे तथा शोष, अरुचि, हृदयरोग, रक्तपित्त, भगंदर, गोला, उदररोग, कृमि, गांठ, क्षतक्षय, ज्वर और वातापित्त इनका नाश होय तथा घल और कांति इनको करे ॥

सन्निपातार्शधूप ।

गोधूमपिष्टंपलमेकहिंशुशार्शभल्लतकवेदयुक्तः ॥

स्याद्धूपदानेगुदशूलनाशःस्यात्सन्निपातोगुदसंभवानाम् ॥

अर्थ—गेंहूका चून ४ तोले, हींग २ मासे और भिलोंए ४ ये सब एकत्र टूट पीस गुदामें धूना देवे, तो गुदाकी पीडा, तथा सन्निपात जन्य बवासीर नष्ट होवे ॥

हपुपादितक्रारिष्ट ।

हपुपाकुंचिकाधान्यमजाजीकारवीसठी ॥ पिप्पली पिप्पली

मूलंचित्रकोगजपिप्पली ॥ यवानीचाजमोदाचतच्चूर्णतक्रसंयु

तम् ॥ मंदांम्लंकटुकंविद्वान्स्थापयेद्घृतभाजने ॥ व्यक्ता-

म्लंकटुकंजातंतक्रारिष्टंकटुप्रियम् ॥ प्रापिन्मात्रयाकालेप्रात-

भोज्ये तथातृपि ॥ दीपनंरोचनंवर्णकफवातानुलोमनम् ॥

गुदश्वयथुकण्ठीतिनाशनंवलवर्धनम् ॥

अर्थ—हाऊवर, मैथी, धनिया, जीरा, सोंफ, फचूर, पीपर, पीपरामूल, चंतिफी छाल, गजपीपल, अजमायन और अजमोद, इनका चूर्ण कुछ २ खट्टी छौंछके साथमें मिलायके घाँके चिकने वासनमें भर देवे, जब वह उत्तम रीतिसे खट्टा और तीक्ष्ण होजावे तब जाने कि सिद्ध हो गया, इसको (तक्रारिष्ट) कहते हैं, यह चरपरे पदार्थ खानेवालोंको प्रियहै, इसमें से थोडा प्रातःकाल तथा भोजनके समय, तथा जिस समय प्यास लगे उस समय पीये, यह दीपन, रुचिकारक, वर्णको उत्तम करने वाला, तथा वायुको अनुलोमन करनेवाला है, यह गुदाके रोग, मूजन और खुजली इनका नाश करे तथा बलको बढ़ावे ॥

भर्जितहरीतकी ।

घृतसंभजितापथ्यापिप्पलीगुडसंयुता ॥

भक्षयेद्वात्रिवृद्धंतिभक्षिताचानुलोमनी ॥

अर्थ—हरडकी घीमें भूनके उसमें पीपलका चूर्ण और गुड मिलायके देवे नपवा निसोय मिलायके देवे तो मलका अनुलोमनकरे अर्थात् दस्त साफ करे ॥

पाठमूलयोग ।

दुःस्पर्शकेनविल्वेनयवान्यानागरेणवा ॥

एकैकेनापिसंयुक्तापाठाहंत्यर्शसोरुजम् ॥

अर्थ—धमासा, बेलगिरी, अजवायन और सोंठ, इनमें से एकमें पाटकी जड़को मिलायके देवे, तो बवासीरकी पीडा नष्ट होय ॥

सर्वसर्वात्मकान्याहुर्लक्षणैःसहजानिच ॥

अर्थ—संपूर्ण दोषोंके लक्षण जिस बवासीरमें होवे उसको संनिपात जन्य बवासीर जाननी तथा जन्म होनेके समयसे ही जो बवासीर होवे उसको सहज अर्श कहते हैं ॥

सूरणचूर्ण ।

शर्करायुतसूरणकंदंगुजाकेशरमेवतथान्यत् ॥

क्षौद्रयुतनवनीतमथोवासूदनकारणमर्शसएव ॥

अर्थ—खांड, जमीकंद, धूँघची और नागकेशर इनका चूर्ण, शहत अथवा मक्खन इनके साथ देवे तो बवासीरका नाश करे ॥

वैक्रांताख्यरस ।

मृतसूताभ्रवैक्रांतकांतताम्रसमंसमम् ॥ सर्वतुल्येनगंधेनमर्द्य

भल्लातकान्वितम् ॥ दिनैकं तद्भ्रवैरेव वटीकार्याद्विगुंजका ॥ भक्षये

द्भ्रुदजान्हेतिद्वंद्वजंचत्रिदोषजम् ॥ प्रत्यष्टमुश्लीवन्हिभागाः

कुष्टस्यपोडश ॥ पिप्पलीपिप्पलीमूलंक्षिपेद्रागद्वयंद्वयम् ॥

चतुष्कंतुविडंगस्तुमरिचंकटुशुंठिका ॥ ब्रह्मदंडितथैकैकंचू-

र्णितंद्विगुणंगुडम् ॥ कर्पाशंभक्षयेच्चानुह्यशोरोरोगप्रशांतये ॥

वैक्रांताख्योरसोनामसाध्यासाध्याशशांतये ॥

अर्थ—पारेकी भस्म, अभ्रकभस्म, वैक्रांत (कामुले) की भस्म, कांत लोहकी भस्म और ताँबेकी भस्म ये समान भाग लेवे इन सबके बराबर गंधक और भिलाँए ये डालके एक दिन खरल करे फिर भिलाँएके तेल से दो रत्तीकी गोली बनावे इसको अनुपानके साथ देवे और मूसली और चित्रक प्रत्येक आठ भाग, कूट १६ भाग और पीपल २ भाग, पीपरामूल २ भाग, तथा वायविडंग ४ भाग, और कालीमिरच, कोथमीर सोंठ और ब्रह्मदंडी ये प्रत्येक एक २ भाग लेवे, इन सबके चूर्णमें दूना गुड़ मिलाय एक २ तौलकी गोली बना

वे, इसको भोजनके प्रथम देवे तो बवासीर रोग नष्ट होवे यह (वैक्रांत रस) साध्यासाध्य बवासीरके दूर करनेमें उत्तम है ॥

पर्पट्यादियोजना ।

गोमूत्रेणसमंपीत्वागुंजाष्टौपर्पटीरसं ॥ ताम्रपर्पटिकातद्ब्रूडशुं-
ठीभयान्विता ॥ भक्षयेदर्शसांशांत्यैद्यनुपानंवदाम्यहम् ॥ जीवं
तीपुष्करं वह्निविल्वमज्जकचोरकम् ॥ करवीरं यवक्षारंजातिचूर्णं
पलंपलं ॥ द्विपलंतिन्तिणीचूर्णंलाजाचूर्णंचतुःपलं ॥ तिलतैलंघृ-
तंचप्रत्येकंतुपलद्वयं ॥ भ्रष्टंसर्वप्रयोक्तव्यंकर्पकमनुपानकम् ॥

अर्थ—पर्पटी रस ८ रत्ती गोमूत्रके साथ देवे, अथवा ताम्रपर्पटी रस गुड सांठ और हरड़ इनके चूर्णके साथ देवे, अब इसका अनुपान कहताहूँ, जीवती, पुहकरमूल, चीतेकी छाल, बेलगिरी, कचूर, कोहवृक्षकी छाल, जवाखार, और जीरा इन प्रत्येकका चूर्ण ४ तोले लेवे और इमली ८ तोले, खिलोंका चूर्ण १६ तोले तथा तिलोंका तेल और घी ये प्रत्येक ८ तोले लेकर सबको भूनके उससे एक तोला पश्चात् भक्षण करनेको देवे, यह इसका अनुपान है ॥

कुटजावलेह ।

कुटजवत्वक्तुलांद्रोणेजलस्यविपचेत्सुधीः ॥ कपायंपादशेषंच
गृण्हीयाद्ब्रूगालितम् ॥ त्रिंशत्पलंगुडस्यात्रदत्त्वाचविपचेत्पुनः ॥
सांद्रत्वमागतंज्ञात्वाचूर्णानीमानिदापयेत् ॥ रसांजनमोचरसं
त्रिकटुंत्रिफलातथा ॥ लज्जालुंचित्रकंपाठांविल्वामिंद्रयवान्वचां ॥
भल्लातकंप्रतिविपंविडंगानिचवालकम् ॥ प्रत्येकंपलसंमानंघृत-
स्यकुडवंतथा ॥ सिद्धंशीतिततोदद्यान्मधुनःकुडवंतथा ॥ जयेदपो-
वलेहस्तुसर्वाण्यर्शांसिवेगतः ॥ दुर्नामप्रभवान्रोगानतीसारम-
रोचकम् ॥ ग्रहणीपांडुरोगंचरक्तपित्तंचकामलाम् ॥ अम्लपित्तं
तथाशोफंकार्श्यंचैवप्रवाहिकां ॥ अनुपानेप्रयोक्तव्यमाजंतकं
पयोदधि ॥ घृतंजलंवाजीर्णंचपथ्यभोजीभवेन्नरः ॥

अर्थ—कुडाकी छाल १ मुला ले कुचलकर १ द्रोण जलमें डालके पाटा परे जब जल चौथाई शेष रहे तब उतारके कपडेमें छान लेवे फिर इसमें तीस पल

गुड़ डालके अवलेह बनावे जब गाढी हो जावे तब इसमें इतनी औषधें और डाले उनको कहते हैं, रसोत, मोचरस, सोंठ, मिरच, पीपल, हरड, बहेडे, आमले लजालु, चीतेकीछाल, पाठ, छोटा वेलफल, इन्द्रजौ, बच, भिलाँए, अतीस वायविडंग नेत्रवाला ये अठारह औषधी एक एक पल लेवे सबका चूर्ण करके अवलेहके पाकमें डालदेवे तथा घी एक कुडव डालके शीतल करे जब खूब शीतल हो जावे तब उसमें शहत १ कुडव मिलावे फिर इस अवलेह को बकरोंके दूधसे अथवा छॉछ घी जलके साथ सेवनकरे परंतु जब भोजन कराहुआ अजीर्ण हो जावे तब इसको लेय और उत्तम पथ्य करे तो इसके प्रभावसे संपूर्ण बवासीर तत्काल दूरहो तथा दुष्ट नाम है जिन्होंका ऐसे भगंदरादिक रोग, अतिसार, अरुचि, संग्रहणी, पांडुरोग, रक्तपित्त, नेत्रोंमें कामला रोग होताहै वह, अम्ल पित्त, सूजन कृशता (देहका सूखजाना) अतिसार रोग-काभेद प्रवाहिका रोग, ये संपूर्ण रोग नष्ट होवे ॥

कूप्मांडावलेह ।

युक्ताकूप्मांडखंडानिसूरणंविपचेत्सुधीः ॥

अर्शासिगुडवातानामंदाग्निपुप्रयुज्यते ॥

अर्थ—पेठके टुकडे, जमीकंद इन दोनोंको युक्तिसे पचावे और रोगीको देवे तो बवासीर और गुडवात तथा मंदाग्नि इनको नाश करे ॥

भल्लातकावलेह ।

सुपक्वभल्लातफलानिसम्यग्द्विधाकृतान्याढकसंमितानि ॥

विपाच्यतोयेन चतुर्गुणेनचतुर्थशेषेव्यपनीयतानि ॥ पुनःपचे

त्क्षीरचतुर्गुणेनघृतांशयुक्तेचघनंयथास्यात् ॥ सितोपलापोड

शभिः पलैश्चविमर्द्यसंस्थाप्यदिनानिसप्त ॥ ततःप्रयुंज्यानिबले

नमात्रांजयेद्विकारानखिलान्युदोत्थान् ॥ कचान्सुनीलान्

घनकुंचिताग्रान्सुपर्णदृष्टिचशशांककांतिम् ॥ जवोहयानां

बलमुत्तमंचस्वरंमयूरस्यहुताशदीप्तिम् ॥ स्त्रीवल्लभत्वंविविधं

प्रभावंनिरोगतांद्वित्रिशतायुपंच ॥ नचान्नपानेपरिहारमस्ति

नचातपेनाष्वनिमैथुनेच ॥ प्रयोगकालेसकलामयानाराजा

धिराजाचरसायनानाम् ॥

अर्थ—उत्तम पके और दो टुकड़े करे हुए भिलोंये १२४ तोले लेकर ४०९६ तोले जलमें काढा करे जब जल चतुर्थांश रहे तब उतारके छान लेवे, फिर काढेसे चौगुना दूध तथा चतुर्थांश घी डालके औटावे जब अबलेहके समान गाढी होजावे तब मिश्री६४तोले डालके घोट डाले और चुल्हेसे उतारके उसी प्रकार सात दिन तक धरी रहने देवे, पश्चात् अग्नि और बलाबल विचारके रोगीको देवे तो संपूर्ण गुदाके रोगोंका नाश करे तथा बाल काले होंवे गरुडके समान तीव्र दृष्टी होय, चंद्रमाके समान देहकी कांति, घोडाके समान वेग उत्तम बल, मोरके समान शब्द, अग्निके समान दीप्ति और स्त्रियोंको प्रिय निरोगी तथा सौवर्षसे भी अधिक उमर हो इसके सेवन करने वालेको किसी प्रकारके अन्न, पान, गरमी, मैथुनकी मनाही नहीं है, यह अबलेह लेनेसे संपूर्ण रोगोंका नाश करे तथा संपूर्ण रसायनोंमें राजाधिराज है ॥

स्तुहीक्षीरलेप ।

स्तुहीक्षीरनिशालेपस्तथागोमूत्रकल्कितः ॥ योजितोगोभव

क्षीरवन्दिमूलावचूर्णितम् ॥ पिवंस्तदेवतेनैवभुंजानोगुदजांकुरान् ॥

अर्थ—थूहरका दूध, हलदी, गोमूत्र, इनका लेपकरे, तथा गौके दूधके साथ चित्रकादि चूर्ण भक्षण करे, इस पर पथ्य दूधभात भोजन करे तो बवासीर नष्ट होवे ॥

कोकंवादिचूर्ण ।

समूलपत्रकोकंबंपलद्वयमितंशुभम् ॥ भल्लातफलमज्जायामरि-
चस्यपलंपलम् ॥ एतच्चूर्णीकृतंसूक्ष्मंभक्षयेत्कर्पसंमितम् ॥

अर्शंकुरान्निहंत्याशुसवाह्याभ्यंतरानपि ॥

अर्थ—कोकंबका पंचांग अर्थात् मूल, पत्र, फल, जड़, छाल सहित वृक्ष ८०मासे मिलायके फलकी मींगी ४०मासे और कालीमिरच ४० मासे इनका चूर्ण एक कर्प प्रमाण अर्थात् १०मासे खाय तो बाहरके तथा भीतरकी मस्से नष्ट होंवे ॥

समशर्करयोग ।

शुंठीकणामरिचनागदलत्वगेलंचूर्णीकृतंक्रमविधिर्षितमूर्ध्वगं-
स्यात् ॥ खादेदिदंसमसितंशुदजाग्निमाद्यगुल्मोदरश्वयथुपां
डुगुदोद्भवेषु ॥

अर्थ—सौंठ घाडकी ६ भाग, पीपल ५ भाग, कालीमिरच ४ भाग, पान ३ भाग, दालचीनी २ और इलायची इनका चूर्ण करे और चूर्णके समान मिश्री

मिलावे, इनके सेवन करनेसे ववासीर, मंदाग्नि, गोला, उदर, सूजन, पांडुराग और गुदांकर (मस्ते) इनका नाश होवे ॥

व्योपादिचूर्ण ।

व्योपाद्यरूपकरविडंगतिलाभयानांचूर्णगुडेनसहितंसततंप्रयोज्यं ॥
दुर्नामशोफगरकुष्ठशकृद्विबंधमग्नेर्जयत्यवलतांकृमिपांडुतांच ॥

अर्थ—सोंठ, मिरच, पीपल, भिलाँये, वायविडंग, तिल और हरड, इनका चूर्ण गुडके साथ भक्षण करे तो ववासीर, सूजन, विष कोठ, विद्वंध (मलका न उतरना) मंदाग्नि, कृमि और पांडुरोग इनका नाश होय ॥

करंजादिचूर्ण ।

करंजशुंठीद्रव्यारलूतासिंधूत्यवह्निप्रतिमिथितानाम् ॥
तत्रेणचूर्णपिवतोस्यनित्यंअर्शासिरक्तेनपतंतिसार्धम् ॥

अर्थ—कंजा, सोंठ, इन्द्रजव, अरलू, सैधानिमक और चीता इनका चूर्ण एकत्र करके छोल्लके साथ पीवे तो ववासीर और खूनी ववासीर ये गलकर गिर पडे ॥

विजयाचूर्ण ।

त्रिकत्रयवचाहिंशुपाठाक्षारौनिशाद्वयम् ॥ चव्यतिक्ताकलिङ्गा-
निशताह्वालवणानिच ॥ ग्रंथिविल्वजमोदाचगणोष्टाविंशति-
र्मतः ॥ एतानिसमभागानिसूक्ष्मचूर्णानिकारयेत् ॥ चूर्णविडाल-
पदकंपिबेदुष्णेनवारिणा ॥ एरंडतैलसंयुक्तंलिह्याच्चूर्णमिदं
नरः ॥ हन्यादर्शासिसर्वाणिश्वासशोपभगंदरान् ॥ हृच्छूलं
पार्श्वशूलंचवातगुल्मंतथोदरम् ॥ हिक्कांश्वासंप्रमेहंचपांडुरोगं
सकामलम् ॥ आमवातमुदावर्तमंत्रवृद्धिगुदकृमीन् ॥ हन्याच्चग्र-
हणीरोगान्भिषग्भिर्भयत्प्रकीर्तितः ॥ विजयानामचूर्णोयंसर्वव्या-
धिहरःपरः ॥ महाज्वरोपसृष्टानांभूतोपहतचेतसाम् ॥ अप्रजा-
नांचनारीणांहितमेतद्धिभेषजम् ॥ ॥

अर्थ—त्रिफला (हरड, बहेडा, आंवला,) त्रिफट्ट (सोंठ, मिरच, पीपल) त्रिजातक (इलायची, पत्रज, नागकेशर) वच, हींग, सजीखार, जवाखार,

हलदी, दारुहलदी, चव्य, कुटकी, इन्द्रजव, शतावर, पांचोनिमक, पीपरामूल, वेलगिरी, और अजमोद ये अट्टाईस औषध समान भाग लेवे सबका बारीक चूर्णकर दश मासे गरम जलके साथ पीवे अथवा अंडीके तेल से पीवे तो सर्व प्रकारकी चवासीर, श्वास, शोष, भगंदर, हृदयका शूल, पँसवाडोंका शूल वातगोला उदररोग, हिचकी, प्रमेह, पांडुरोग, कामला, आमवात, उदावर्त, अंत्रवृद्धि, चवासीर, कृमिरोग, और संग्रहणी इनका नाश करे (यह विजया चूर्ण) सर्व व्याधि नाशक है तथा महाज्वर, भूतवाधा, तथा बंध्या स्त्रियोंको यह हितकारी है ॥

देवदाल्यदियोग ।

देवदालीकपायेणशौचमाचरतानृणाम् ॥

किंवातद्धूमसेवाभिःकुतःस्युर्गुदजांकुराः ॥

अर्थ—देवदाली (वंदाल) के काठसे गुदा प्रक्षालन (धोने) से अथवा वंदाल का हिम करके पीनेसे कदाचित् चवासीरके मस्से नहीं होवे, यह वैद्यरहस्य ग्रंथमें लिखा है ॥

मरिचादिमोदक ।

मरिचमहौषधचित्रकसूरणभागायथोत्तरंद्रिगुणाः ॥

सर्वसमोगुडभागः सेव्योवैमोदकःप्रसिद्धफलः ॥

अर्थ—कालीमिरच, सोंठ, चीतेकी छाल और जमीकंद ये प्रत्येक एकसे दूसरा दूना लेवे और सब चूर्णके समान गुड मिलाके गोली बाँधे, यह चवासीर पर प्रसिद्ध गुणकारी है ॥

प्राणप्रदमोदक ।

तालीसज्वलनोपणासचविकास्तुल्यंद्रिभागाभवेत्कृष्णामूलस-
मन्वितात्रिपलिकाशुंठीचतुर्जातकम् ॥ स्यान्मुष्टिप्रमितंगुड-
त्रिगुणितैरेभिःकृतोमोदकःकासश्वासमदाग्निमांद्यगुदजघ्नीहप्र-
मेहापहः ॥

अर्थ—तालीसपत्र, चीतेकीछाल, कालीमिरच, चव्य ये समान भाग लेवे पीपल दो भाग और पीपलमूल तथा सोंठ ये चारह तोले, दालचीनी, तमालपत्र, इलायची, और नागकेशर, ये चार २ तोले लेवे तथा सबसे तिगुना गुड डालके लड्डू बनावे यह खाँसी, श्वास, मंदाग्नि, चवासीर घृही और प्रमेहइनको नाशकरे ॥

कांकायनीवटी ।

पथ्यापलस्यपलपंचकमेवमेकमेकंपलं च मरिचादपिजीरक-
स्य ॥ कृष्णातदुद्भवजटाचविकाग्रिशुंठीकृष्णादिपंचकमिदं
पलतःप्रवृद्धम् ॥ पलाष्टभल्लातकसंप्रयुक्तंदारुककरुष्करपला
द्विगुणंप्रकल्प्याः ॥स्याद्यावशूककुडवार्द्धमतःसमस्तोयोज्यो
गुडद्विगुणितोवटकीकृतश्च ॥ कांकायनेनमुनिनावटकःकि
लायमुक्तःप्रजाहिततमेनगुदामयघ्नः ॥क्षाराग्रिशस्त्रपतनैरपिये
नसिद्धःसिद्धचंत्यनेनवटकेनगुदामयास्ते ॥

अर्थ—हरडकी छाल २० तोले, कालीमिरच, जीरा, पीपल, पीपलमूल, चव्य, चित्रक, सोंठ, ये प्रत्येक चार तोले लेवे और भिलाँये ३२ तोले, तेलिया देवदारु ६४ तोले, तथा जवाखार ८ तोले इन सबका दूना गुड मिलायके गोली बनावे यह कांकायनऋषिने कहा गोली गुदा रोगोंकी नाशक है तथा जो बवासीर, क्षार, अमि, और शस्त्र इनसे अच्छी नहीं हो वह इस कांकायन-गोलीसे अच्छी होवे ॥

सूरणमोदक ।

चित्रकस्यपलंत्वेकंद्विपलंसूरणस्यच ॥ पलार्धेनागरस्यापिम
रिचंकोलमात्रकम् ॥ भल्लातककणामूलंविडंगंत्रिफलाकणा ॥
तालीससहितान्सर्वानक्षमात्रान्प्रयोजयेत् ॥ द्वेपलेवृद्धदारस्य
तालमूलंपलंभवेत् ॥ त्वगेलामरिचांशेचसर्वानेकत्रमर्दयेत् ॥
गुडेनमर्दयित्वातुद्विगुणेनेहंबुद्धिमान् ॥ मोदकःसूरणोनामअ
क्षमात्रप्रमाणतः॥उपयुक्तोनिहंत्याशुगुदकीलान्नसंशयः ॥ अ-
ग्निवृद्धिकरःपुंसांसिव्यमानोमहागुणः ॥

अर्थ—चीतेकी छाल ४ तोले, जमीकंद ८ तोले, सोंठ २ तोले, कालीमिरच ८ मासे, और भिलाँये, पीपलमूल, वायविडंग, त्रिफला, पीपर, और पत्रज, ये प्रत्येक एक एक तोले लेवे तथा विधायरा ८ तोले, मूसली १ तोले, दालचीनी और इलायची ये प्रत्येक ८ मासे इन सबका एकत्र चूर्ण करे तथा सब चूर्णसे दूना गुड डाल सबको एक जीवकर लड्डू बनावे, यह (सूरणमोदक) १ तोले देनेसे तत्काल बवासीरका नाशकरे तथा नित्य प्रतिसेवन करनेसे अमिकी वृद्धी करे है ॥

लघुसूरणमोदक ।

कणामरिचविश्वामिसूरणैस्तुगुडैःक्रमात् ॥

द्विगुणैर्मोदकोशोन्नःपरःपाचनदीपनः ॥

अर्थ—पीपर, कालीमिरच, सोंठ, चीतेकी छाल और जमीकंद ये समान भाग लेय तथा सब औषधोंसे दूना गुड लेवें सबको मिलायके मोदक बनायें यह बवासीर नाशक और दीपन तथा पाचन है ॥

अशंकुठाररस ।

संमर्द्यप्रतिसारितौत्रहुरसोताभ्यांचगंधसमं लंगल्यासित

सूरणेनचपृथक्त्वाचतावत्पचेत् ॥ गोलंज्वालमुपैतिभांड

निहितंचुल्ह्यामथस्त्वौषधं तत्स्यादर्शकुठारकःसपवनाशः

पूर्वकोव्याधिषु ॥

अर्थ—पारा और लोह ये दोनों बराबर लेवे, दोनोंकी बराबर गंधक लेवे, फिर कलियारी और सपेद जमीकंदके रसमें खरलकर गोला बनाय उत्तम पात्रमें धरे, ऊपरसे संपुट बनाय नीचे अग्नि जलावे, जब गंधक जारण होजावे तब उतार औषधीको निकासलेवे यह (अशंकुठाररस) खूनी बादी बवासीर आदिके रोगोंको नष्ट करे ॥

अभ्रकहरीतकी ।

मृताभ्रकपलंविंशमृतलोहस्यपंचकम् ॥ गंधकस्यपलंपंचत्रि

भिर्द्विगुणमाक्षिकम् ॥ पथ्याशतपलयोज्यंधात्रीपलशतद्वयम् ॥

सर्वमेकत्रसंचूर्ण्यजंवीरैर्भावेयेद्दिनम् ॥ भृंगीपुनर्नवाद्रवैःपाता

लगरुडाकुलैः ॥ भल्लातवन्हिकोराटैर्हस्तशुंडीतुलांगली ॥

क्षीरिणीजलकुंभीचप्रत्येकंप्रत्यहंद्रवैः ॥ भावयेन्मर्दयेदित्यंम

ध्वाज्याभ्यांविभोडयेत् ॥ स्निग्धभांडेस्थितंखादेन्नित्यंनिष्क

द्वयंद्वयम् ॥ सिद्धसावरयोगोत्थंत्रिदोषार्शासिनाशयेत् ॥

अर्थ—अभ्रकभस्म ४०० तोले, गंधक २० तोले और लोहकी भस्म २० तोले, तथा सुवर्णमाक्षिक इन तीनोंसे दूना लेवे एवं हरड ४०० तोले आंवले ८०० तोले इन सब पदार्थोंको एकत्र फरके चूर्ण करे, फिर निचूके रसमें एक दिन घोंटे

तथा भांगरा, पुनर्नवा (सॉठ) पातालगरुडी, भिलॉयि, चित्रक, पियावासा, हथसुंडी, कलियारी, क्षीरकाकोली और जलकुंभी इन प्रत्येकके रसकी एक एक दिन भावना देकर खरल करे, जब तयार होजावे तब शहत और घीमें मिलाय घीके चिकने पात्रमें धर देवे, इसमेंसे १ तोले नित्य खाय यह सिद्धसावर योग त्रिदोषजन्य ववासीरका नाश करे ॥

ववासीरकामंत्र ।

ॐभिभित्तिद्विः ॐठःनिवासिनिगरलंविपंत्वजीर्णसंभवंनाना
र्शनाशय २ ठंठंठंफट्स्वाहा-विधिः सप्तवाराभिमंत्रितंपानी
यंपिवेत् ॥ अस्यश्रीअर्शामूलमंत्रस्यवसिष्ठऋषिः रुद्रोदेवता
विराट्छंदः अमुकस्यअर्शारोगपरिहारार्थेजपेविनियोगः ॥

अर्थ—ऊपर लिखे मंत्रसे जलको कुशाओंसे सात वार अभिमंत्रित करके पीवे तो ववासीर नष्ट होवे ॥

दूसरामंत्र ।

ॐकालीकालीमहाकालीमातरोवहुभिर्गच्छयत्किंचिद्विहितं-
तत्कुरु२॥यइमामर्शोर्ग्रीश्रेष्ठांविद्यामधीतेनतस्यकुलेऽर्शवान्
भवति ॥ योदीयमानंनगृह्णातिसंधोभवतियदिनसिद्धयति
तदारुद्रोब्रह्महाभवतिगुरुद्वारासिद्धिः अर्शरोगनिवृत्त्यर्थेसप्त-
वाराभिमंत्रितंजलंनित्यंप्रातःकालेपिवेत् ॥

अर्थ—इस मंत्रसे सातवार अभिमंत्रित जलको करके नित्य प्रातःकाल पीवे ॥

सूरणपुटपाक ।

मृल्लिसंसूरणंकंदंपक्त्वाग्नौपुटपाकवत् ॥

अद्यात्सतैललवणंदुर्नामविनिवृत्तये ॥

अर्थ—जमीकंदपर कपड़ मिट्टीकर, पुटपाककी विधिसे पक करे, तथा उसको तेल और निमक डालके खाय तो ववासीर दूर होवे.

काशीसादितैल ।

काशीसंलांगलीकुप्टंशुंठीकृष्णाचसैधवम् ॥ मनःशिलाश्चम
रिचंविडंगंचित्रकोवृषः ॥ दंतीकोशातकीवीजहेमाह्वारितार

कः ॥ कल्कैः कर्पमितैरेतैस्तैलप्रस्थंविपाचयेत् ॥ सुधार्कपय
सादद्यात्पृथक्द्विपलसंमिते ॥ चतुर्गुणंगवांमूत्रंदत्वासम्यक्प्र-
साधयेत् ॥ कथितंखरनादेनतैलमर्शोविनाशनम् ॥ क्षारवृत्पा
तयेदेतदर्शास्यभ्यंगतोभृशम् ॥ वलिर्नदूपयत्येतत्क्षारकर्मक
रंस्मृतम् ॥

अर्थ—कसीस, कलयारी, कूट, सोंठ, पीपल, संधानिमक, मेनसिल, कनेर, वायविडंग, चित्रक, अडूसा, दंती, कडुई तोरई के बीज, चोक और हरताल, ये पंद्रह औपय एक एक कर्प लेवे सबका कल्क करके तिलके तेल १ प्रस्थमें मिलाय देवे, तथा थूहरका दूध और आकका दूध इन दोनोंको आठ २ तोले लेकर डाले, तथा तेलसे चौगुना गौका मूत्र उसमें मिलावे, फिर उसको चूल्हे-पर चढायके औटावे, जब तेल मात्र शेष रहे तब उतारके उस तेलको महीन वस्त्रमें छान लेवे, यह तेल खरनाद ऋषिने कहा है यह बवासीरके मस्सोंको मुमंगल खार आदिके लगानेसे जैसे दूर करे उसी प्रकार यह तेल मस्सोंको उखाड डालेहै इसके लगानेसे गुदाके आटे क्षारके लगाने समान नहीं बिगडते न कोई उपद्रव हो मस्से उखडकर स्वयं गिर पडते हैं ॥

खूनी बवासीरका सामान्ययत्न ।

रक्तार्शसामुपेक्षेतरक्तमादौस्त्रवेद्विपक् ॥

दुष्टास्त्रेनिगृहीतेस्युःशूलानाहासृगामयाः ॥

अर्थ—खूनी बवासीर का प्रथम रुधिरको बंद न करे क्योंकि उस दूषित रुधिरके रोकनेसे शूलरोग, अफरा और खूनकी बीमारी होती है ॥

चंदनादिदाव्यादिकाथ ।

चंदनकिराततिक्तकधन्वयवासाःसनागराःकथिताः ॥

रक्तार्शसांप्रशमनादार्वात्त्वगुशीरनिवाश्च ॥

अर्थ—चंदन लाल, चिरायता, कुटकी, धमासा और सोंठ इनका काढा करके पीवे तो खूनी बवासीर दूर होय, उसी प्रकार दारु हलदी, रस और नीवका काढा गुण करे है ॥

प्रयोगांतर ।

सपद्मकेशरंक्षौद्रंनवनीतंनवंलिहन् ॥

सिताकेशरसंयुक्तंरक्ताशीससुखीभवेत् ॥

अर्थ—कमलकी केशर, शहत, मक्खन, मिश्री और नागकेशर इनको मिला-यके सेवन करे तो खूनी ववासीरवाला सुखी होय ॥

महानिवबीजप्रयोग ।

महानिवस्यबीजानिपडपृदशसंख्यया ॥

चूर्णितंसितयासार्द्धपिवेद्रक्ताशीसाहितम् ॥

अर्थ—चकायनके छः, आठ, अथवा दश बीजोंका चूर्ण करके उसमें मिश्री मिलायके पीवे तो खूनी ववासीर दूरहो ॥

पेया ।

केशरोत्पलचांगीरिसंसिद्धायाचजायते ॥

अशीरक्तमूर्तिसाचलाजपेयानिवासेत् ॥

अर्थ—केशर, कमलगट्टा, चूका, इनके साथ खीलकी पेया सिद्ध करके पीवे तो यह लाजपेया खूनी ववासीरको निवारण करे ॥

लाजापेया ।

लाजापेयापीताचुक्रिकाकेशरोत्पलैः सिद्धा ॥

हंत्याशुरक्तरोगंतथावलापृष्टपर्णीभ्याम् ॥

अर्थ—चूका, नागकेशर, कमलगट्टा, इनको मिलायके खीलकी पेया पीवे तो ववासीरके खूनको बंद करे तथा खिरेटी और सालपर्णी, पृष्टपर्णीकी पेया भी खूनकी बंद करे ॥

तद्बद्धोपरजोयुक्तंनवनीतप्रलेपनम् ॥

अर्थ—मक्खनमें त्रिकुटेका चूर्ण मिलायके लेपकरे तो ववासीरके खूनको बंदकरे ॥

अपामार्गबीजयोग ।

अपामार्गस्यबीजानांकल्कस्तंदुलवारिणा ॥

पीतोरक्ताशीसानाशंकुरुतेनात्रसंशयः ॥

अर्थ—ओंगाके बीजोंका कल्क करके चावलोंके धोवनके साथ पीवे तो रक्ताशी अर्थात् खूनी ववासीर को नाशकरे ॥

कुशमूलादिपान ।

कुशमूलं वलायुक्तं पानं तं दुलधावनम् ॥

रुणद्धिगुदजस्त्रावं प्रदरं चाशुसर्वजम् ॥

अर्थ—कुशकी जड़, खिरेटी इनको पीस चावलोंके धोवनके साथ पीवे तो गुदासे रुधिरके स्रावको बंदकरे, तथा सन्निपात जन्य प्रदरको नष्टकरे ॥

कुटजघृत ।

कुटजफलत्वक्केशरनीलोत्पललोध्रधातकीकल्कैः ॥

सिद्धं घृतं विधेयं शूलैरक्ताशंसांभिपजा ॥

अर्थ—कुडाके फलकी छाल, नागकेशर, नीलाकमल, लोध और धायके फूल इनको जलमें पीसके कल्क करे, इसको घृतमें मिलायके सिद्धकरे तो यह घी वैद्योंने खूनी बवासीर पर उत्तम कहाहै ॥

कुटजादिदुग्ध ।

कुटजमूलसकेशरमुत्पलं खदिरधातकिमूलशृतंपयः ॥

पिवतमृक्षणयोगमसृग्दरं गुदजनाशनकारिरयं विधिः ॥

अर्थ—कुडाकी जड़, नागकेशर, नीलाकमल, खैरसार, धायकीजड़, इनको दूधमें डालके औटावे, फिर शीतल करके इसको पीवे तो असृग्दर (रक्तप्रदर) और बवासीर इनको नाशकरे ॥

अशोरिमंडूर ।

अतिरक्तं यदा त्वशोनिपातयति पीडितम् ॥ दृश्यते तच्छरी-
रस्य लोहकिट्टं तदानयेत् ॥ गवांमूत्रेण तत्पक्वं बहुशश्चूर्णवत्कृ-
तम् ॥ अतिसूक्ष्ममिदं तस्य त्रिकटुत्रिफलायुतम् ॥ किट्ट-
स्याद्धेनसंमिश्रचूर्णं शर्करया युतम् ॥ दीयते त्रिदिनादूर्ध्वरक्तं
तिष्ठति नान्यथा ॥ दुग्धाच्छालिमसूरादिदीयते पथ्यभोज-
नम् ॥ अशोसिप्रशमं यांति कार्श्यं वैयाति दूरतः ॥ अत्यंतबल-
माप्नोति निरातं कोयथेच्छया ॥ महोत्साहयुतो भूत्वा यावज्जीवे-
न्निरामयः ॥ उष्णाम्लं वर्जयेन्नित्यं स्त्रीणां सेवां विशेषतः ॥

अर्थ—यदि बवासीरमें से अत्यंत खून बहता होय और उस प्राणीको अत्यंत पीडा होय तो प्राचीन लोहे की कीट लावे. उसको गौके मूत्रमें अनेकवार पककर २ के बुझावे, कि जिस्से चूर्णसा होजावे फिर इस कीटमें आधी मिश्री मिलावे तीनदिन धरी रहने देवे. पश्चात् रोगीको देवेतो यह गुदासे बहते हुए रुधिरको बंदकरदेवे इसमें संदेह नहींहै ॥ इसके सेवन करनेवाले को दूधके साथ शाली चावल और मसूरकी पथ्यदेवे. इससे बवासीर दूरहो और कृशतानष्टहोय अत्यंत बलकी प्राप्ति होवे. निरातंक यथेच्छा पूर्वक महोत्साही होकर जबतक जीवे तब तक रोगरहित होवे. इसका खानेवाला गरम पदार्थ और खटाई न खाय तथा स्त्रीगमन करनाभी निषेध है ॥

कुटजादिकल्क ।

कुटजत्वक्फलंताक्षर्यमाक्षिकंघुणवल्लभम् ॥

पिवेत्तंडुलतोयेनकल्कितंभ्रामयूरकम् ॥

अर्थ—कुडाकीछाल, इन्द्रजव, रसोत, शहत और अतीस इनको चावलके धोवनमें पीसके पीवे, अथवा आंगाका कल्क करके चावलके धोवनसे पीवे ॥

यवानीचूर्ण ।

यवानीन्द्रयवंपाठाविल्वंशुंठीरसांजनम् ॥

चूर्णंशूलेहितंपेयंप्रवृद्धेचातिशोणिते ॥

अर्थ—अजमायन, इन्द्रजौ, पाठ, बेलगिरी, सोंठ और रसोत इनके चूर्णको शूल दूर करने को तथा गुदाद्वारा अधिक रुधिर जाता होय तो पीवे ॥

शिरीषादिकल्क ।

शिरीषंपुष्पमूलंचशालमलेस्तिनिशस्यच॥निर्यासस्तुपलाश-
स्यवदर्याःकुंकुमस्तथा ॥ लोभ्रंशालस्यनिर्यासकङ्कगस्तंदुली-
यकः ॥ मधुकार्जुनपुष्पाणिधातकीरोध्रयोरपि॥शोभांजनंशं-
खनाभिकंगुकाः पीतिकास्तथा ॥ एपांकल्कंमधुयुतंपायये-
त्तंदुलांबुना ॥ अर्शांसिगमयत्येपरक्तपित्तात्मकानिच ॥ रक्त-
पित्तमतीसारंरक्तार्शांसिचनाशयेत् ॥

अर्थ—शिरसके फूल और जड, सेमर, तिनिसवृक्ष इनकी जड और फूल, ढाकका गोंद, बेर, केशर, लोध, राल, टेंद, चौलाई, महुआ, कोहवृक्षके फूल,

धायके फूल, लोधके फूल, सहँजना, शंखकीनाभी, कंगु भीठी तोरई, इन सबको पीसके शहत मिलायके चावलके धोवनसे पीवे तो रक्तपित्तात्मक ववासीरको नाश करे, तथा रक्तपित्त, अतीसार, और खूनी ववासीर इनको नाशकरे ॥

उपायांतर ।

मातुलुंगंविडंगंचशर्करासंयुतंपिवेत् ॥

कूप्मांडकावलेहंचरक्तजाशोविनाशनम् ॥

अर्थ—विजोरा, वायविडंग, इनको घोटकर मिश्री मिलायके पीवे, अथवा कूप्मांडावलेहको पीवे तो खूनी ववासीरको नष्टकरे ॥

निंबवीजादियोग ।

निंबवीजस्यमज्जाचशाणमानाजलेनतु ॥ संपिप्यगालितंपीतंचु-
ल्लीमृत्स्नासमन्वितम् ॥ रक्ताशोनाशनंश्रेष्ठमनुभूतंपुनःपुनः ॥

अर्थ—निंबोरीके भीतर की मज्जाको चार मासे ले पीसके जलमें छानके इसमें चुल्हेकी मिट्टी मिलायके पीवे तो खूनी ववासीरको दूर करे यह प्रयोग वारंवार अनुभन कराहुआ है ॥

रसांजनादिवटी ।

रसांजनंमहानिंबफलंशक्रयवंतथा ॥ मरिचंकुटजत्वक्चतथाल-
ध्वीहरीतकी ॥ समभागानिसर्वाणिसूक्ष्मचूर्णांकृतानिच ॥ रसेकु-
कुरभृंगाख्येमर्दयेत्तुदिनत्रयम् ॥ मापमात्रावटीकार्यातावटीभ-
क्षयेत्प्रगे ॥ रक्ताशोसांनाशिनीस्यात्पथ्याशीयदिवैनरः ॥

अर्थ—रसोत, बकायनके फल, इन्द्रजव, फालीमिरच, कुडाकी छाल, छोटी हरड, ए सब समान भाग लेवे, सबका चूर्ण करके कुकरभांगरेके रसमें तीन दिन खरल करके फिर एक मासेकी गोली बनावे इसको प्रातःकाल भक्षण करे यह रुधिरकी ववासीरको नष्टकरे, इसपर पथ्यसे रहे ॥

मरिचादिवटी ।

मरिचंखदिरंसारंगैरिकंताक्षर्यंजंतथा ॥ समभागानिसर्वाणिसू-
क्ष्मचूर्णांकृतानिच ॥ कुकुरमर्दकरसैस्त्रिदिनंमर्दयेद्दृढम् ॥
त्रिमापिकावटीकार्यारक्तजाशोविनाशनम् ॥

अर्थ—मिरच, खैरसार, गेरू, रसोत, ए समान भागलेवे, सबका बारीक चूर्ण करके कुकरभांगरेके रसमें तीन दिन खरल करके तीन२ मासेकी गोली बनावे यह खूनी बवासीर को दूरकरे ।

सूरणशोधन ।

सूरणंचक्रवत्कृत्वाशकलानिसुधीर्भिषक् ॥ निवृत्तेनस्फटकी-
चूर्णेनालिप्यचातपे ॥ स्थापयेद्दिनमेकंतुतदाखादेद्यथासुखम् ॥

अर्थ—जमीकंदके गोल २ कतरे कतरके उनपर निवृत्के रसमें फिटकरीको पीसके लेप करके धूपमें धर देवे, इस प्रकार एकदिन रखे फिर यथा सुख भक्षण करे तो यह मुखमें खुजली आदि उपद्रव नहीं करे ॥ प्रसंगवशजमीकंदकी चटनी कहते हैं, कच्चा जमीकंद, अदरख, समान भागले दोनोंको नीबूके रसमें पीस अनुमानका निमक मिलायके काममें लावे ॥

पूतिकंमुशलीपथ्याभूनिवासितवत्सकम् ॥ मसूराग्निकसिंधूत्थ
देवदालीसुचूर्णितम् ॥ तत्रेणपिवतस्तस्यतक्रंचैवसमश्रतः ॥ मा
सात्पक्वफलानीवपतंत्यशीसिवेगतः ॥

अर्थ—लताकरंज, मूसली, हरड, चिरायता, कुडाकी छाल, ममूर, चित्रक, संधानिमक, देवदाली, इन सबको पीस छाँछके साथ पीवे और छाँछका ही भोजन करे तो एक महीनेमें पके फलके समान बवासीरके मस्से वेगसे उखड कर गिरजावें ॥

किंवा मरिचसंयुक्तंभक्षयेद्विपमुष्टिकम् ॥ चतुर्थांशक्रमादेववर्द्धयेच्चय-
थाक्रमम् ॥ यथासात्म्यंयथादेहंकिंवायावद्वयंभवेत् ॥ भक्षयित्वा
चमरिचवर्द्धयेच्चतुर्गुणम् ॥ ध्रुवंमासद्वयादूर्द्ध्वंप्रपतंतिगुदांकुराः ॥

अर्थ—अथवा मिरचके चूर्णके साथ कुचलेका सेवन करे और चौथाई २ के क्रमसे बढावे तथा उस प्राणीका साल्म्य देहकी व्यवस्था विचारके २ दोपर्यंत ऊपरसे मिरचका चूर्ण खायाकरे, इसप्रकार चतुर्गुण पर्यंत बढावे इस क्रमसे १ महीनेमें अवश्य गुदाके मस्से गिरजावें ॥

वस्तौवानाभिदेशेवायदाशूलःप्रजायते ॥

तदालेपाःप्रशस्यंते फलवर्त्तिश्चशस्यते ॥

अर्थ—वस्ती (मूत्राशय) नामि इनमें यदि शूल होय तो उसपर शूलनाशक लेप, और फलवर्त्ती करनी चाहिये ॥

करंजादिचूर्ण ।

चिरविल्वाग्निं सिद्धुत्थनागरेन्द्र्यवारलून् ॥

तत्रेणपिवतोऽर्शांसिनिपतंत्यसृजासह ॥

अर्थ—कंजा, चित्रक, सैधानिमक, सोंठ, इन्द्रजौ, टेंडू, इनको पीसके छौंठके साथ पीवे तो रुधिर युक्त बवासीर के मस्से टूटकर गिरजावें ॥

कुसुंभपत्रभक्षण ।

कुसुंभमृदुपत्राणिकाञ्जिकेनैवपाचयेत् ॥

शाकवद्भक्षयेन्नित्यमर्शोरोगप्रशांतये ॥

अर्थ—कमूमेके कोमल पत्रोंको कांजाके साथ पचायके शाकके समान नित्यभक्षण करे तो अर्श रोगकी शांति होय ॥

पथ्यादिचूर्ण ।

पथ्यानागरकृष्णाकरंजवेष्टाग्निभिःसितातुल्यैः ॥

बडवामुखइवजनयतिबहुगुर्वपिभोजनंचूर्णम् ॥

अर्थ—हरड, सोंठ, पीपल, कंजा, कालीमिरच, चित्रक, ए बराबर ले और सबकी बराबर मिश्री मिलायके सेवन करे तो यह बहुत भोजन करने परभी बडवामिके समान जठरामि को बढावे ॥

चतुःसमोमोदकः ।

सनागरारुष्करवृद्धदारुकंगुडेनयोमोदकमत्युदारकम् ॥

अशेषदुर्नामकरोगदारुकंकरोतिवृद्धंसहसैवजाठरम् ॥

अर्थ—सोंठ, मिलायें, विधायरा, इनको गुडके साथ मोदक बनाय लेवे, यह अशेष अर्थात् संपूर्ण बवासीरोंको नष्टकरे तथा तत्काल जठरामिको बढावे ॥

अथहरिशंकरलोहम् ।

प्रणम्यशंकरं रुद्रं दंडपाणिमहेश्वरम् ॥ जीवितारोग्यमन्विच्छन्नार-

रदोऽपृच्छदीश्वरम् ॥ सुलोपायेनहेनाथशस्त्रक्षाराग्निभिर्विना ॥

चिकित्सामर्शसांनृणांकारुण्याद्भक्तुमर्हसि ॥ नारदस्यवचःश्रुत्वा

नराणांहितकाम्यया ॥ अर्शसांनाशनं त्रेष्ठं भैषज्यं शंकरो वदत् ॥

पांड्यवज्रादिलोहानामादायान्यतमं शुभम् ॥ कृत्वानिर्मलमा

दौतुकुनत्थामाक्षिकेनच ॥ पचूरमूलकल्केनलिपेद्रसयुतेनच ॥
 वह्नौनिक्षिप्यविधिवत्सारंगारेणनिर्धमेत् ॥ ज्वालाचतस्यरोद्धव्या
 त्रिफलायारसेनच ॥ ततोविज्ञायगलितंशंकुनोर्ध्वसमुत्क्षिपेत् ॥
 त्रिफलायारसेपूतेतदाकृष्यतुनिर्वपेत् ॥ नसम्यग्गालितंयत्तुतेनै
 वविधिनापुनः ॥ घ्मातंनिर्वापयेत्तस्मिल्लोहंतत्रिफलारसे ॥
 यल्लोहंनमृतंतत्रपाच्यंभूयोपिपूर्ववत् ॥ मारणात्रमृतंयच्चतस्य
 क्तव्यमलोहवत् ॥ ततःसंशोष्यविधिवच्चूर्णयेल्लोहभाजने ॥ लोहे
 नैवतथावत्सदृपदासूक्ष्मचूर्णितम् ॥ कृत्वालोहमयेपात्रेमृदावा
 लितरंध्रके॥रसैःपंकोपमंकृत्वातंपचेद्भोमयाग्निना॥ पुटानिक्रमशो
 दद्यात्पृथगेपांविधानतः॥त्रिफलाद्रकभृंगानांकेशराजस्यबुद्धिमान्॥
 माणकंदकभल्लातवह्नीनांसूरणस्यच ॥ हस्तिकर्णपलाशस्यकु
 लिशस्यतथैवच ॥ पुटेपुटेचूर्णयित्वालोहात्पोडशिकंपलम् ॥
 तन्मात्रत्रिफलायाश्चपलेनाधिकमाहरेत् ॥ अष्टभागावशिष्टेतुरसे
 तस्याःपचेद्बुधः ॥ अष्टौपलानिदत्वाचसर्पिपोलोहभाजने ॥
 तामेवलोहदर्व्यातुचालयेद्विधिपूर्वकम् ॥ ततःपाकविधानज्ञः
 स्वच्छेचोर्ध्वेचसर्पिपि ॥ मृदुमध्यादिभेदेनगृह्णीयात्पाकमा
 दृतः ॥ आरभेतविधानज्ञःकृतकौतुकमंगलः ॥ भ्रामरंघृतसं
 युक्तंविलिह्याद्रक्तिकाक्रमात् ॥ वर्द्धमानानुपानंचगव्यक्षीरेणसंयु
 तम् ॥ गव्याभावेत्वजायाश्चस्निग्धवृष्यादिभोजनम् ॥ सद्योवह्नि
 करंचैवभस्मकंचनियच्छति ॥ हंतिवातंतथापित्तंकुष्ठानिविषम
 ज्वरम् ॥ गुल्माक्षिपांडुरोगांश्चनिद्रालस्यमरोचकम् ॥ शूलश्च
 परिणामंच प्रमेहंचापवाहुकम् ॥ श्वयथुंरुधिरस्रावंदुन्नमानंविशे
 पतः ॥ बलकृद्वृंहणंचैवकांतिदंस्वरवोधनम् ॥ शरीरलाघवकरमा
 रोग्यंपुष्टिवर्द्धनम् ॥ आयुष्यंश्रीकरंचैवयशस्तेजस्करंशुभम् ॥
 सश्रीकंपुत्रजननंवलीपलितनाशनम् ॥ दुर्नामारिरयंनाम्नादृष्टो

वारसहस्रशः ॥ अनेनाशांसिदह्यतेयथातूलंचवह्निना ॥ सौकु-
 मार्याल्पकायत्वान्मद्यसेवीयथानरः ॥ जीर्णमद्यादियुक्तादिभो
 जनैःसहदापयेत् ॥ लावतित्तिरवर्तीरिमयूरशशकादयः ॥ चटकः
 कलविकश्ववर्तकाहरितालकः ॥ श्येनकश्ववृहल्लावोवनाविष्कि
 रकादयः ॥ पारावतमृगादीनांमांसंजांगलकंशुभम् ॥ मद्धूरो
 रोहितःश्रेष्ठःशकुलश्चविशेषतः ॥ मत्स्यराजाइमेप्रोक्ता हितम-
 त्त्यायदेहिने ॥ वृताकस्यफलंशस्तंपटोलंबृहतीफलं ॥ फलंवा-
 भीरुवेत्राग्रतालकस्तंदुलीयकम् ॥ वास्तुकंधान्यशाकंचकेमुकं-
 चक्रवर्तनम् ॥ नालिकेरंचसर्जरंदाडिमंलवलीफलं ॥ शृंगाटकं
 चपकाभ्रंद्राक्षातालफलानिच ॥ जातीकोशलंबंगंचपूगंतांबूलपत्र
 कम् ॥ हितान्येतानिवस्तूनिलोहमेतत्समश्चताम् ॥ नाश्रीयाल्लकु
 चंकौलंककंधुवदराणिच ॥ जंवीरवीजपूरंचतितिडी करमर्द
 कम् ॥ अनूपानिचमांसानि क्रकरंपुंड्रकानपि ॥ हंससारसदात्यह
 शंकुकंककचलाकिकाः ॥ मानकंदकरीराणिकतकंचकलिंगकम् ॥
 कूप्मांडकंचककोटिकेमुकंचविशेषतः ॥ कटुकंकालशाकंचकसेरुं
 कर्कटीतथा ॥ ककारादीनि सर्वाणि विदलानिचवर्जयेत् ॥ शंक
 रेणसमाख्यातश्चूर्णराजोऽनुकंपया ॥ जगतामुपकारायदुनांमारि
 रयंश्रुवम् ॥ स्थानादपैतिमेरुश्च पृथ्वीपयंतिवायुना ॥ पतंतिचंद्र
 ताराश्चमिथ्याचेदहमश्रुवम् ॥ ब्रह्मघ्नाश्चकृतघ्नाश्चक्रूरायेऽसत्यवा
 दिनः ॥ वर्जनीयाःसधर्मेणभिपजागुरुनिंदकाः ॥

अर्थ—शंकर, रद्र, दंडपाणि महेश्वर, षो प्रणामकर मनुष्योंकी जीवन और
 आरोग्यकी पांसा करके श्रीनारदजी जगदीश्वर (शिव) से पूछते हुए । हे
 नाथ शस्त्र, क्षार और अग्नि धर्मके चिना सुगोपाय करके अर्श रोगका यत्न
 मनुष्यों की करुणा विचारके आप कहियेगा । इस प्रकार नारदके वचनकी
 सुनके मनुष्योंकी हितकी इच्छा करके अर्श रोगकी उत्तम नाश करनेवाली
 औषधको श्रीशंकर कहते हुए । पांड्यलोह, अथवा एचलोह इनमेंमें जो मिले
 उसको जयवा येन मिले तो इनके समान और फाँड़े उत्तम लोह मिले उसको

लेकर उसे तैल छाँछ आदिमें शूद्ध करे फिर मनसिल और सुवर्णमक्खी डालके और पारा मिलाय चकमके रसमें सबको घोटके उन सबका कल्क करके लोहेपर लेप करदेवे फिर पक्के कोयलेमें इसको धमावे और इसकी जो ज्वाला निकले इसको त्रिफलेके रसके छींटे दे देकर बंदकरे जब जाने कि लोहा गल गया तब लोहेके काँटेसे उसको निकालके पवित्र त्रिफलेके काँटेमें बुझाय देवे। इस प्रकार करनेसे भी जो कुछ रहा सहा भाग न गलाहोवे उसको फिर इसीप्रकार दूसरे बार गलायके बुझाय देवे और बारवार के गलाने से भी जो न गले उसको दुष्टलोह जानके त्यागदेवे, फिर इसको सुखायके विधिपूर्वक लोहेके खरलमें डालके लोहेके मूसले से घोट फिर उसमें से निकाल निकालके पत्थरपर वारीक पीसलैवे, फिर इसके वारीक चूर्णको किसी लोहेके पात्रमें भर और त्रिफलेके रससे कीचसा करके ढक देवे तथा मुखके छिद्रोंको बंदकरके आरने उपलों की अभिमें रसके फूंकदेवे फिर आगे लिखी औषधोंकी क्रम पूर्वक पुटदेवे, जैसे हरड, बहेडा, आवला, अदरक भांगरिया जलभांगरा, (कुकरभांगरा) मानकंद, भिलाएँ, चित्रक, जमीकंद, हस्तिकर्ण, पलाश, यूहर इन प्रत्येक की पृथक् २ पुट देवे और पुट २में बराबर पीस डालाकरे तथा लोहसे सोलह भाग त्रिफला लेके उसकी पुटदेवे, आठ भाग शेष रहे हुए उसके काँटेमें फिर इस लोहको पचावे, फिर इस लोहकी भस्मको कडाहीमें चढायके अथवा तामेकी कडाईमें चढायके इसमें ३२ तोले घी डालके पचावे और लोहकी कलछीसे बराबर चलाता रहे, इस प्रकार पाकका जानने वाला जब घी तैलके ऊपर आयजावे तब मृदु, मध्य और खर जैसा पाक करना हो उसी प्रकारका पाक करके उतार लेवे । इस प्रकार जब यह लोहकी सिद्धि होजावे तब, उत्सव और स्वस्ति वाचन, पुण्याह-वाचन आदि मंगल करके शहत और घीमें मिलायके एक २ रत्तीके वृद्धि क्रमसे भक्षण करे और इसके ऊपर गौका दूधपीवे यह अनुपान है । यदि गौका दूध न मिले तो बकरीके दूधको पीवे और इसके ऊपर चिकना और पुष्टकारी पदार्थका भोजन करे । यह तत्काल जठराभिको करे है तथा भस्मक रोगको दूरकरे, वात, पित्त, कुष्ठ, विषम ज्वर, गाला, नेत्ररोग, पांडुरोग, निद्रा, आलस्य, अरुचि, शूल, परिणामशूल, प्रमेह, अपवाहुक, वात, सूजन, रुधिरसाव, दुर्नाम (बवासीर आदि) को विशेष करके दूर करे । यह बलकरे, बृंहणहै, कांतिकरे, स्वरको स्वच्छकरे, शरीरको हलका करे, आरोग्य और पुष्टिको बढ़ावे, आयुष्यकरे, श्रीकरे तथा शुभ यश और तेजकरे कांति युक्त पुत्रोंको प्रगटकरे बली और पालितको नाशकरे है ॥ यह दुर्नामारिलोह हजारों बार अनुभव कराहुआहै ॥ इससे बवासीर इस प्रकार नष्ट होतीहैं जैसे

अग्निसे रुई भस्म होती है जो सुकुमार और अल्पकायावाले, मद्यका सेवन करनेवाले है उनको जीर्ण मद्यादि करके युक्त भोजनमें मिलाप के देवे, लवा, तीतर, बटेर, मोर, शसा (खरगोश) आदि चिडा, घरका चिडा, बटई, हरियल, शिकरा, बडा लवा और वनमें रहनेवाले विष्कर पक्षी, (कबूतर, मृग इत्यादि) जंगली जीवोंका मांस, मछलियोंमें मडूर, रोहित, शकुल, ये मछलियोंके राजा है ये मत्स्य प्राणियोंको हितकारी है बैगनका शाक, परवल, कटेरीके फल, घीया, शतावर, वेतकीकोपल, देवदाली और चौलाई, बथुआ, धनियां, कैमुक, चकवात ये शाक उत्तम हैं, नारियल, खजूर, अनार, निर्मली, सिंघाडे, पकेआम, दाख, तालफल, जायफल, लौंग, सुपारी, पान ये सब वस्तु इस लोह सेवन करनेवालेको परम हितकारी हैं बडहर, बेर, बडा बेर (पेंवेंदी) झरियावेर, जंभीरी, विजोरा, इमली, करोंदा, मानकंद, करील, कतक, तरबूज, कूम्भांड, (पेठा) ककोडा, केमुक, कुटकी, कालशाक, कसेरु, ककडी इत्यादि संपूर्ण ककारादिक पदार्थ और विदल अन्न इस लोह सेवन करनेवालेको वांजित कहे हैं यह मनुष्योंकी कृपा विचार श्रीशंकरने चूर्णराज कहा है यह दुर्नामारि निश्चय कहा है । श्रीशिवजी कहते हैं कि स्थानसे सुमेरु पर्वत हटजावे, वायुके वेगसे पृथ्वी लौटजावे और चंद्र तारागण आकाशसे गिरपड़ें यदि मैं असत्य कहता हूं तो, जो ब्रह्महत्यारे, कृतघ्नी, क्रूर और असत्यवादी इत्यादि दुष्ट मनुष्योंको वेद्य इस लोहकी न देवे, तथा जो गुरुनिन्दक हैं उनकोभी न देवे ॥

लोहविकारकी शांति ।

मुनिरसपिष्टविडंगमुनिरसलीढंचिरस्थितंधमें ॥

द्रावयतिलोहदोपान् वह्निर्नवनीतपिंडमिव ॥

अर्थ—अगस्तियाके रसमें वायुविडंगको पीसके अगस्तियाके रसके साथ पीवे और थोड़ी देर धूपमें बैठ जावे तो उस प्राणीके दोप इस प्रकार बहजावे जैसे मक्खनके पिंडको अग्नि बहाय देती है ॥

लोहपरिपाकके लक्षण ।

कालेमलप्रवृत्तिर्लाघवमुदरे विशुद्धिरुद्वारे ॥

अंगेषु नावसादो मनःप्रसादोऽस्य परिपाके ॥

अर्थ—यथा समय अर्थात् वस्तुपर मलका उत्तरना, पेटमें हलकापना, शुद्ध डकारका आना, अंगोंमें किसी प्रकारकी तकलीफ नहो, और मन प्रसन्नता ये लोहपरिपाकके लक्षण हैं ॥

लोहाजीर्णकायत्न ।

कृमिरिपुचूर्णलीढंसहितंस्वरसेनवंगसेनस्य ॥

क्षपयत्यचिरान्नियतंलोहाजीर्णोद्भवंशूलम् ॥

अर्थ—चायविडंगके चूर्णको अगस्तियाके स्वरसमें मिलायके पीवे तो निश्चय लोहाजीर्णसे उत्पन्न हुई शूलको तत्काल नष्टकरे ॥

कीटकीशांति ।

कुर्यात्कनकबीजेनरेचनंकिट्टशांतये ॥

अर्थ—धतूरेके बीजोंसे अथवा पिसोलाके बीजोंसे दस्त करावे तो कीटीका विकार शांति होय ॥

लोहव्यापदकायत्न ।

जीर्णलोहेपततिचूर्णभुंजीतसिद्धसाराख्यम् ॥

लोहव्यापन्नश्यतिविवर्द्धतेजाठरोवाह्निः ॥

अर्थ—लोहजीर्णमें सिद्धसाराख्य चूर्णका सेवन करे तो लोहकी व्याप [उपाधि] नष्ट होय और जठराग्नि बढे ॥

सिद्धसारचूर्ण ।

पथ्यासैधवशुंठीभागाधिकानांपृथक्समोभागः ॥

त्रिवृताभागौनिवृभाव्यंतत्सिद्धसाराख्यम् ॥

अर्थ—हरड, संधानिमक, सोंठ, पीपल इनको समान भाग ले, निसोथ दो भाग ले, फिर इसमें नींबूके रसकी भावना देवे तो सिद्धसारचूर्ण तयार हो ॥

भवेद्यद्यतिसारस्तुदुग्धपीत्वातुतंजयेत् ॥

गुंजाद्वादशकादूर्ध्ववृद्धिरस्यभयप्रदा ॥

अर्थ—यदि इस लोहके भक्षणसे अतिसार रोग होवे तो उस प्राणीको दूध पिलाकर अतिसार दूरकरे । इस लोहकी भस्म १२ रत्तीके उपरांत भक्षण करना भयदायकहै इससे बारह रत्तीसे आगे इसको न बढ़ावे ॥

पारदभस्म ।

अधःपुष्पीकुण्डुलांडचूर्णसर्परेकृत्वामघ्येपारदंनिक्षिप्यतदुपरि

उक्तोपधयोश्चूर्णक्षिप्वाधोमृद्भग्निज्वालयेच्चशनेःशनेःदव्याप्रचा-

लयेच्चएवंपारदश्चभस्मीभवतितच्चभस्मरक्तिकात्रयपरिमितं
छिक्कणीसूर्यभक्ताचूर्णटंकद्रयपरिमितेनसाकंभुंजीततदासप्ता-
हादर्शक्षयोभवतीतिसत्यम् ॥

अर्थ—गोभी और मुरगेका अंडा दोनोंका चूर्ण करके एक खिपडेमें चढावे उसमें पारा डालके इसी चूर्णसे ढकदेवे, नीचे आग जलावे मंद २ अग्नि देवे और धीरे २ कलछीसे चलाता रहे, इस प्रकार करनेसे पारकी भस्म होजावे उस भस्मको ३ रत्ती ले तथा नकछिकनी और दुरदुरकाचूर्ण २ टंकमें मिलायके सेवन करे, तो सातही दिनमें बवासीर नष्ट होवे यह प्रयोग सत्यहै ॥

बवासीरके साध्यलक्षण ।

वाह्यायांतुवलौजातान्येकदोपोत्वणानिच ॥

अर्शासिसुखसाध्यानिनचिरोत्पतितानिच ॥

अर्थ—जिस बवासीरके मस्से गुदाके बाहरके आटेमें हुएहों, और एक दोपोत्वण होवे, तथा जिनको उत्पन्न हुए एक वर्ष न हुआहो, ऐसे मस्से सुखसाध्य अर्थात् सहजमें अच्छे होसकतहै, ॥

कृच्छ्रसाध्यलक्षण ।

द्वंद्वजानिद्वितीयायांवलौयान्याथ्रितानिच ॥

कृच्छ्रसाध्यानितान्याहुःपरिसंवत्सराणिच ॥

अर्थ—दो दोपसे प्रगट भईहो और दूसरी वली (अर्थात् दूसरे आटेमें) होय और जिसको एक वर्ष व्यतीत होगयाहो ऐसी बवासीरके मस्से कृच्छ्रसाध्य होय है और जो बाहरकी वलीमें द्विदोपोत्वण होय और एक दोपोत्वण दूसरी वली (दूसरे आटे) में होवे तो येभी कृच्छ्रसाध्य जानना ॥

असाध्यलक्षण ।

सहजानिन्निदोपाणियानिचाभ्यंतरावलिम् ॥

जायतेऽर्शासिसंश्रित्यतान्यसाध्यानिनिर्दिशेत् ॥

अर्थ—सहज कहिये जन्म होनेके समयसे जो होय अथवा तीन दोपोंसे प्रगट भईहो और जो तीसरा (अंतका) आटा है उसमें भईहो सो बवासीर असाध्य जाननी ॥

याप्यलक्षण ।

हस्तेपादेगुदेनाभ्यांमुखेवृषणयोस्तथा ॥

शोथोहृत्पार्श्वशूलंचतस्यासाध्योऽर्शसोहिसः ॥

अर्थ—जिसके हाथ, पैर, गुदा, नाभि, मुख और अंडकोश इनमें सूजनहो, हृदय और पँसवाड़े दूखें वो रोगी असाध्य जानना ॥

अन्यअसाध्यलक्षण ।

हृत्पार्श्वशूलंसंमोहश्छर्दिंरंगस्यरुग्ज्वरः ॥

तृष्णागुदस्यपाकश्चनिहन्युर्गुदजातुरम् ॥

अर्थ—हृदय और पँसवाड़ेमें दर्द होय, इन्द्री और मन इन में मोह, होय वमन और अंगोंमें पीडा, ज्वर, प्यास, गुदाका पकना (अर्थात् गुदाके ऊपर पल्ले फोडा) ये लक्षण होनेसे बवासीरवाला रोगी असाध्य जानना ॥

अन्य असाध्य लक्षण ।

तृष्णारोचकशूलात्तमतिप्रद्युतशोणितम् ॥

शोथातिसारसंयुक्तमर्शासिक्षपयंतिहि ॥

अर्थ—प्यास, अरुचि, शूल इनसे पीडित, जिस के अत्यंत रुधिर बहै और सूजन, अतिसार ये होय उस रोगीका बवासीर नाशकरदेयहै ॥

मेढ्रादिष्वपिवक्ष्यंतेयथास्वंनाभिजान्यपि ॥

गंडूपदास्यरूपाणिपिच्छिलानिमृदूनिच ॥

अर्थ—मेढ्र कहिये लिंग आदिशब्दकरके नाक कान इत्यादि स्थानोंमें भेदकरके बवासीर होतीहै सो आगे कहेंगे ॥ उसी प्रकार नाभिस्थानमेंभी अर्शरोग होताहै वह केचुएके मुखके समान गाढी और नरम होयहै ॥

चर्मकीलकीसंप्राप्ति ।

व्यानोगृहीत्वाश्लेष्माणं करोत्वर्शस्त्वचोवहिः ॥

कीलोपमंस्थिरस्वरंचर्मकीलंतुतद्विदुः ॥

अर्थ—व्यान वायु—कफको लेकर त्वचामें कीलके सदृश स्थिर और स्वरदरी ऐसी बवासीरको करे उसको चर्मकीलक कहतेहैं (त्वचोवहिः) इसके कहनेसे गुदा होठका त्याग कहा ॥

चर्मकीलमेंवातादिकेलक्षण ।

वातेन तोदपारुप्ये पित्तादासितरक्तता ॥

श्लेष्मणास्निग्धताचास्यग्राथितत्वंसवर्णता ॥

अर्थ—चर्मकील रोगमें वादीसे उसमें सुई चुभानेकीसी पीडाहो, पित्तसे उसका रंग काला और लाल होताहै, कफसे चिकना और गांठदार होवेहै तथा उसका वर्ण त्वचाके वर्ण समान होवेहै ॥

द्वंद्वजववासीरकेकारण ।

हेतुलक्षणसंसर्गाद्विद्याद्वंद्वोल्वणानिच ॥

अर्थ—दो दोषोंके कारण और लक्षण मिले तो द्वंद्वज ववासीर भई हैऐसेजाने ॥

त्रिदोषकी ववासीरकेकारण ।

सर्वोहेतुस्त्रिदोषाणांलक्षणंसहजैःसमम् ॥

अर्थ—पृथक् वातादि ववासीरके जो कारण कहे हैं वो सर्व त्रिदोषकी ववासीरके कारण है और जो सहज अर्शके अर्थात् सहज ववासीरके लक्षण सो इसके लक्षण जानने ॥

याप्यलक्षण ।

शेषत्वादायुपस्तानिचतुष्पादसमन्विते ॥

याप्यंतेदीप्तकालाग्नेःप्रत्याख्येयान्यतोऽन्यथा ॥

अर्थ—असाध्य ववासीर होवे परंतु रोगीकी आयुष्य बाकीहो और वह चतुष्पाद संपत्तियुक्त होवे अर्थात् वैद्य औषध, परिचारक और रोगी ये जैसे होने चाहिये उसी प्रकारके होवे तथा रोगीकी अग्नि प्रदीप्त हावे तो याप्य कहिये शमन होजावे और इससे विपरीत होवे तो रोगीको असाध्य जानना ॥

असाध्यलक्षण ।

दोषत्रयाणिसहजानिवलौतथांतर्जातानिहंतिगुदजानि
पृथूदरस्य ॥ पादस्यहस्तगुदजाभ्युदरांडकोशशून
स्यपार्श्वहृदयव्यथितस्यपुंसः ॥ हृत्पार्श्वशूलवमन
ज्वरमोहतृष्णापाकोगुदेग्रितनुतारुचिरंगभंगः ॥ य-
स्यास्तियातियमधामगुदांकुरोर्ध्वंशूनोदराशिकरपाद

गुदांडकोशः ॥ तृष्णाशूलहृदिश्वासशोपातीसारपीडि
तम् ॥ अतिनिःसृतरक्तंचनिहन्युर्गुदजानरम् ॥

अर्थ—जो बवासीर त्रिदोषात्मक अथवा शरीरके साथही उत्पन्न हुईहो अर्थात् जन्मसेही होय तथा भीतर की बली (अटि) में तथा जिसका पेट बड़ाहो- गयाहो और हाथ, पैर, गुदा, पेट और अंडकोश इनपर सूजन होवे तथा पार्श्व और हृदय इनमें शूल होय वांति, ज्वर, मोह प्यास, गुदाका पाक, मंदाग्नि, अरुचि और अंगनाश इन लक्षणों करके युक्त जो रोगी होवे वो मरजाय और जिस बवासीरमें अंधकार, तथा पेट, नेत्र, पैर, हाथ गुदा अंडकोश इनमें सूजन प्यास, हृदयमें शूल, श्वास, शोष, अतिसार और जिसके अत्यंत रुधिर गिरे उसको बवासीर रोग नष्ट करे ॥

अर्शरोगपरपथ्य ।

विरेचनंलेपनरक्तमोक्षंक्षाराग्निशस्त्राचरितंचकर्म ॥ पुरातना
लोहितशालयश्चसपष्टिकाश्चापियवाःकुलित्थाः ॥ पटोलध
नूररसेनवह्निपुनर्नवासूरणवास्तुकानि ॥ जीवंतिकादंतशठा
सुरावंशुंठीवीर्यस्यानवनीततक्रम् ॥ कंकोलधात्रीरुचकंकपि
त्थमौष्ट्राणिमूत्राज्यपयांसिचापि ॥ भल्लातकंसर्पपञ्चतैलंगो
मूत्रसौवीरतुपोदकानि ॥ गोधासुलोमानिखरोट्टलोमश्वावि
त्कुलंगानथधौतकीशाः ॥ तरक्षवासाश्चमृगालिकाकायेत्यल्प
मांसाःप्रसहाश्चतेऽपि ॥ वातापहंयच्चयदग््निकारितदन्नपानंहित
मर्शसेभ्यः ॥

अर्थ—जुलाव, चंदनादिलेप, रुधिर निकालना क्षार और अमिकर्म शस्त्र- कर्म पुराने लाल चावल, सौंठीचावल, जौ, कुलधी, पटोल (परवल) धनू- रेका रस, लहसन, चीता, पुनर्नवा, जमीकंद, वयुआ जीवंती (डोंडी) चूका, सुराव (आनंदकारी) शब्द अथवामद्य, सौंड, हरड, मक्खन, छाँल, कंकोल आंवले कालानोन, कैथ, ऊँटका मूत्र, घी, दूध, मिलाये, सरसोंका तेल, गोमूत्र, काँजी तुपोदक, गोह और मूसेके बाल, गधा ऊँट इनके बाल, श्वाविष्पक्षी, कुर्लिग, चाँदी, बानर, जरख, अडूसा, मृग, भौरा, काँआ तथा जो अल्पमांसवाले गीध उलूक, शिकरा, बाज, चाप, भास, कुरर, तथा वातनाशक और अमिकारी ऐसे अन्न और पान ये बवासीर रोगीको हितकारी है ॥

अर्शरोगमें अपथ्य ।

अनूपमामिपंमत्स्यंपिण्याकंदधिपिष्टकम् ॥ मापान्करीरनि
प्पावंतंदुलातुंव्युपोदिका ॥ पक्काप्रशालुकंसर्वविष्टंभीनिगुरू
णिच ॥ आतपंजलपानानिवमनंवास्तिकर्मच ॥ विरुद्धानिच
सर्वाणिमारुतंपूर्वादिग्भवम् ॥ वेगावरोधःस्त्रीपृष्टयानमुत्कटका
सनम् ॥ यथास्वंदोपलंचान्नमर्शसांपरिवर्जयेत् ॥

अर्थ—अनूपदेशमें रहनेवाले जीवोंका मांस, मछली, खल, दही, पिष्टान्न, उडद, करीर, चौरा, नवीन चावल, सपेदतुंबू, पोईका शाक, पके आम, कमलका, कंद संपूर्ण विष्टंभकारी पदार्थ भारी पदार्थ धूपमें डोलना, बहुत जल पीना, वमन वरितकर्म, संपूर्ण विरुद्ध पदार्थ, पूर्व दिशाकी पवन, मलमूत्रादि वेगोंका रोकना, स्त्रीगमन, घोडे आदिकी पीठपर चढ़के जाना, ऊकरू बैठना, दोपोंको उत्पन्न करनेवाले अन्न और पान ये बवासीर रोगीको सेवन करना वर्जित है.

रक्तार्श और चर्मकीलपर ।

यत्पथ्यंयदपथ्यंचवक्ष्यतेरक्तपित्तिनाम् ॥ रक्ताशौरोगिणांतत्तु
देयंविद्याद्विशेषतः ॥ पानंयानंदिवास्वप्नंगुर्वन्नमतिभोजनम् ॥
व्यायामंकलहंचैवतीक्ष्णंक्षारविधित्येजत् ॥ यद्युक्तमर्शसामा
दौभेपजंपथ्यमेवच ॥ तदेवचर्मकीलानांकार्यदोपादिभेदतः ॥

अर्थ—जो पथ्य अथवा अपथ्य रक्तपित्त रोगवालेको फह है वोही दूनी बवा सीरवालेको विशेष करके देवे तथा पान, यान, दिनमें सोना, भारीअन्न, अति भोजन, कशरत कलह और तीक्ष्ण खारका लगाना, तथा जो अर्शरोगपर पथ्य फहाहे वो सच औपथ्य चर्मकीलरोगपर दोपभेदसे देवे ॥

कुछप्रयोगफारसीसे अकवरपातशाहके

अनुभवकरेहुए,

यहांपर प्रसंगवश लिखदेतेहैं।

चायल और मूंगकी धाई दालकी खिचड़ी बिना निमककी अर्थात् अलोनी जितनी खाई जावे मूषसाय इस प्रकार करनेसे सातवें दिन गुदापर पोस्त-

कैसे दाने प्रगट होवेंगे उनको खूबधोवे और निर्वलतासे डरेनहीं, फिर इसी प्रकार सात दिन पर्यंत केवल खिचडोही खाय तो परमात्माकी कृपासे खूनी बवासीर अवश्य जाती रहे

बवासीरके रुधिरको रोकै ।

लालसुरमा १॥ तोले, छोटीहरड ६ तोले [किसी किसीकी यह संमति है कि तीन तोले हरड लेवे] दोनोंको कूट पीस चूर्णकरे इसको १५ तोले गुडमें मिलायके झड़बेरीके बराबर गोली बनावे प्रातःकाल १ गोली घीके साथ और सायंकालको १ गोली जलके साथ सेवन करे इस प्रकार ५१ इक्यावनदिन पर्यंत सेवन करे तथा १४दिनतक वातकारक और खटाई से बचे गेहूंकी रोटी और प्याज खाय तथा तीन दिनके बाद १गोली को वंगले पानमें घिसके मस्सों-पर लगावे तथा लॅगोट खींचकर बांधे तो यह एक सिद्ध पुरुषका बताया हुआ प्रयोगहै इससे सात दिनमें बवासीर स्वयं गिरजावे पचासदिनकी आवश्यकता नहीं रहे जो प्याज न खावे, अथवा सबको रोटी और चौलाइका शाख खूब पी डालके भोजन करावे ॥

मल्हम ।

केचुआ (गिडोहों) को जेतुंके तेलमें औटावे जब पग्पक होजावे तब थोडा सिरका डालके मल्हम बना लेवे पश्मीने कपडेकी बत्ती बनावे और इस मल्हममें भिगोकर गुदापर रखे तो मस्से दूरहों पीडा शांतिहो.

तथा ।

स्यारकी खालको यह प्राणी अपने पास रखा करे तो बवासीर दूर होवे.

बवासीरकाअर्जाण ।

बधुआका शाक अथवा बधुआके बीजोंको तेलमें भूनकर भोजनकरे तो बवासीरका अर्जाण सर्वथा दूर हो ॥

तेल ।

फई एक चिन्दुओंको तेलमें डालके ४० दिनतक धूपमें रखा रहनेदे पश्चात् इस तेलको बवासीरके मस्सोंपर मले तो बवासीर दूरहोय ॥

फक्की ।

नागवेशर और मिश्री दोनों दोदो मासे पीसके नित्य खायाकरे तो बवासीरसे रुधिरको जानेके नमत्कारकेसाथ रोकै है पथ्यसे रहे ॥

पुलटिस.

रासना, भांग प्रत्येक छःछःतोलै, मैदा तीन तोले, प्रथम मैदाको तिलके तेलमें भूनकर तथा और दवाइयोंको चारीक पीसकर इसमें मिलाय देवे फिर जल डाल पुलटिस बनायले जब पक होजावे तब सुहाती २ गुदाके मस्तोंपर बांधि और ऊपरसे लँगोट कसके बांधलेवे तो बवासीर दूर होय ॥

अन्यविधि.

साँगडो आधपावको पावसेर फागदी नींबूके रसमें भिगोवे फिर इसको जंगली कंडोमें जलाय लेवे कि उफान आकर मूखजावे तब उसको चारीक पीसके गौके पावभर घीमें मिलावे और नीमकी लकडीसे दही मिलाकर घीमें ओटावे कि घी लाल होवे और सुगंध आने लगे तब उसमें रुई भिगोकर गुदापर रखे और लँगोट कसके बांधे एक दिनरात बंधारकरे इस प्रकार एक सप्ताह पर्यंत करे तो सब बढाहुआ मांस गलकर दूर होजावेगा और यदि पहले दो दिनतक सोआके बीज जलमें पकायके लगावे और पश्चात् ऊपर फहीहुई मल्हम लगावे तो बवासीरको बहुत शीघ्र अराम हो जावेगा.

गोली ।

गोले चूनेकी गोली चनाके बराबर बनायके खावे तो बवासीर दूर हो ॥

फक्की ।

बडीमाई, बकायनके बीज, दोनोंको समान ले कूट पीस दूना सफेद बूरा मिलाकर हथेली भरके प्रातःकालही खाया करे तो खूनी और बादी दोनों बवासीर दूर हो ॥

गुदाका पोंछना ।

मल परित्याग करनेके पश्चात् गुदाको आकके पत्तोंसे पोछाकरे तो बवासीर नष्ट हो ॥

निवतेल ।

नीमके बीजोंके तेलको गुदापर मलाकरे बवासीरपर मलाकरे तो आराम होय. अथवा सोआके बीज पीसके मले तो बवासीरको नष्ट करे ॥

तैल ।

फाले धतूरेके पत्तोंका रस तिलके तेलमें डालके औटावे, जब रस मात्र जल जावे तेल मात्र रहे तब उसमें रुई भिगोकर बवासीरपर रखे ॥

माजूम ।

इन्द्रजौ, अतीस और रसोत इनको समान भाग ले कूट पीसके शहतमें मिलायके माजूम बनाय लेवे इसमेंसे १ तोले सांठी चावलोंके धोवनसे खाय तो ववासीरको बहुत गुण करे ॥

सामान्य यत्न ।

ववासीरमें साफन नामक नसकी फस्त खोले सरबूजा अनार आदिका खाना अधिक गुणकारी है । ववासीरमें गूगलकी गोली खाना इस रोगवालेको अधिक गुण करेहै ॥

गूगलकी गोली ।

कावली हरडका बकल, काली हरडका बकल, दोनोंको समान भाग कूटकर ८॥ तोले गंधनाके जलमें उत्तम गूगल ४ तोले और ४॥ मासे पीस हरडका चूर्ण मिलाय जंगलीवेरके समान गोली बनाय लेवे, इसकी मात्रा ३ मासेकी है इसके उर्दकी दाल, अथवा मूंगकी धीली दाल और रोटी पथ्यहै, तथा गूगलका इतफल खानाभी इस रोगवालेको गुणकरेहै ॥

चूर्ण ।

काली जिरी ४॥ तोले ले आधेको भूनले आधी कच्ची रखे दोनोंको मिलायके तीन भाग करे नित्य एक भाग खाय ऊपरसे सांठी चावलोंका धोवन पावे तो ववासीर दूर हो ॥

वफारा और सेंक ।

सिरसकी छाल, तगर, मुलहटी, लालचंदन, आंवाहलदी, दारुहलदी, भांग, चकायनके बीज, प्रत्येक १॥ तोले पठानी लोष, नौ मासे सबको कूटकर दो भाग करे, १ भागको गौंके आधसेर दूधमें ओटाकर वफारा लेवे और दूसरे भागका गौंके धीमें मिलायके गुदापर बांधके सेक करे, तो ववासीरकी पीडा और सूजन दूर होजावेगी ॥

ववासीरको सुखाकर गिरादेवे ।

जरमहयातको छायामें सुखाकर कूट पीसकर नित्य छः तोले गुडमेंमिलायके रात्रिके समय खाकर सो रहे और इसी चूर्णको प्रातःकाल जलके साथ फकी लेवे खटाई और वादीसे परहेज रखे एकही सप्ताहमें ववासीर अच्युत दूरहाजावे जरमहयात—एक छोटासा पोदाहै पृथ्वीपर फेला हुआ होताहै और उसके नीचे सब पृथ्वी चिकनी दिखाई देतीहै यह पेड गेहूँके खेतमें और नदीके

किनारेपर बहुत होता है, इसके दो भेद हैं एककी छोटी पत्ती और बहुत वारीक होता है वस यही लेना उचित है और दूसरा वह है कि जिसकी पत्ती मोटी होती है वह नहीं लेना चाहिये ॥

गुदापीडाको नष्ट करे ।

पानीके ऊपरकी काई गुदाके ऊपर बांधे तो बवासीरसे जो गुदामें पीडा होती है वह नष्ट होय ॥

अथवा ।

इमलीके बीजोंको आगमें डालकर १ मास आर बिनाजले छिलकेके ३ मासे को पीस चक्ख दहीमें मिलायके सात दिनतक प्रातःकाल चाटा करे तथा वादी करता वस्तु और स्त्रीसंगसे परहेज करे तो गुदाकी पीडा नष्ट होय ॥

बवासीरके रुधिरको बंद करे ।

इमलीके बीजोंके छिलकेको कूट पीस जलसे चनेके प्रमाण गोली बनावे और तीन दिनतक एक एक गोली नित्य खाय तो रुधिरके जानेको बंद करे ॥

बवासीरको नष्ट करे ।

आमके पत्ते, आंवलेके पत्ते, जामनके पत्ते, मिश्री प्रत्येक तीन २ तोले गौका दूध आधासेर, पत्तोंको कूट पीसके बिना पानीके रस निकाले यदि रस न निकले तो थोडासा दूध डालके रस निकाले फिर इस रसको दूधमें मिलायके पीवे अथवा केवल रसही पीवे फिर उसके ऊपर दूध पीवे, इस प्रकार सात दिन सेवन करे तो बवासीर अवश्य दूर होजायगी खटाई और वादीपदायोंसे वचता रहे ॥ यह खूनी और वादी दोनों प्रकारकी बवासीरको दूर करे ॥

धुनी ।

घूसके चमड़ेको किसी बरतनमें जलावे, जब धुआँ निकलनेलगे तब एक कपडा उसके मुखपर बांधके उसका धुआ मस्सेनका देवे और कपड़ेसे ऐसा वैदोषस्त करे कि अन्यत्र धुआँ न जावे, तो बवासीर नष्ट होय,

इति श्रीवृहन्नियंदुरत्नाकरे अशरोगनिदानचिकित्सासमाप्ता ।

चतुर्थ भाग समाप्त !

विक्रयार्थ—वैद्यकग्रंथ ।

नाम.	की.रु.भा.
चरकसंहिता-भाषाटीका समेत	१०-०
हारीतसंहिता भाषाटीकासहित	३-०
अष्टांगहृदय (वाग्भट्ट) भाषाटीका अत्युत्तम वैद्यकग्रंथ-भिषग्वरोंके देखने योग्य	८-०
भावप्रकाश भाषाटीका	८-०
रसरत्नाकर भाषाटीकासमेत	५-०
बृहन्निघंटुरत्नाकर भाषाटीका प्रथमभाग	३-०
बृहन्निघंटुरत्नाकर भाषाटीका द्वितीयभाग	३-०
बृहन्निघंटुरत्नाकर भाषाटीका तृतीयभाग	३-८
बृहन्निघंटुरत्नाकर भाषाटीका पंचमभाग	६-०
बृहन्निघंटुरत्नाकर भाषाटीका छठवाँ भाग	५-०
बृहन्निघंटुरत्नाकर—सप्तम अष्टम भाग अर्थात् "शालग्राम निघंटुभूषण" (अनेक देशदेशांतरीय संस्कृत, हिन्दी, बंगला, महाराष्ट्री, गौर्जरी, द्राविडी, तैलंगी, आँकली, इंग्लिश, लैटिन, फारसी, अरबी भाषाओंमें सर्व औषधोंके नाम और गुणोंका वर्णन औषधियोंके चित्रोंसमेत	८-०
कामरत्न योगेश्वर नित्यनाथप्रणीत भाषाटीकासमेत	१-१२
पथ्यापथ्यभाषाटीका	०-१२
शार्ङ्गधर निदानसह भाषाटीका पं०दत्तराम चौबे मथुरानिवासीका बनाया	३-०

संपूर्ण पुस्तकोंका 'बडासूचीपत्र' अलग है देखना हो तो मँगालीजिये.

पुस्तकोंके मिलनेका पता—

खेमराज श्रीकृष्णदास,

"श्रीवैद्येश्वर" छापाखाना—बम्बई.